

साहित्य-रत्नाकर.

हरिशङ्कर शर्मा

प्रकाराक

रामनारायण लाल

पब्लिशर और बुकसेलर
इलाहाबाद

प्रथम संस्करण]

१९४५

[मूल्य ५१]

**Printed by Ramzan Ali Shah
at the National Press,
Allahabad.**

भूमिका

पं० हरिशङ्कर शर्मा के इस ग्रन्थ की भूमिका लिखने का निमंत्रण मैं अपना सौभाग्य और प्रतिष्ठा समझता हूँ। किन्तु इस निमंत्रण मुझे असमंजस में डाल दिया है। इस पुस्तक के अनुरूप भूमिका लिखने की योग्यता कहाँ से लाऊँ ?

भगवान् श्रीकृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्द्धन उठा लिया। साथ के ग्वाल-बालों ने भगवान् की सहायता करने की इच्छा और अपने उद्योग की सफलता में पूर्ण विश्वास करके अपनी-अपनी लाठियों का सहारा भी लगा दिया और इस आनन्द-दायक भ्रम में मग्न रहे कि वे भगवान् के भार को बँटा रहे हैं। इस भूमिका को लिखकर मैं भी उन भरमे हुए ग्वालों का अनुकरण कर रहा हूँ। मेरी भूमिका इस ग्रन्थ-गोवर्द्धन के लिए ग्वालों की लाठियों के समान ही है। ग्रन्थ का भार तो शर्माजी ही उठाए हुए हैं।

ऐसी पुस्तक की भूमिका लिखने में मुझे स्वभावतः संकोच होता है। भूमिका की आवश्यकता पुस्तक-प्रणेता का परिचय कराने और उसके लेखक के अधिकारी होने की साक्षी देने के लिए होती है।

वी संसार को पं० हरिशङ्कर शर्मा का परिचय देना मेरे लिए असंभव घृष्टता होगी। ये साहित्य-सेवा तथा साहित्यिक जीवन दोनों में ही मुझसे कहीं श्रेष्ठ हैं। हिंदी-संसार उनसे उस समय पूर्ण परिचित था जब मैं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सिर मार रहा था। और रही उनके अधिकारी लेखक होने की बात—उसके लिए और कुछ नहीं तो यह पुस्तक ही 'स्वतः प्रमाण' है।

यह ग्रन्थ वास्तव में हिंदी रसों और नायिका-भेदों का विश्वकोष है। उनसे सम्बन्धित सभी बातें इस पुस्तक में संगृहीत हैं। किन्तु यह केवल संग्रह मात्र नहीं है। इसमें गम्भीर विवेचना, स्पष्ट विश्लेषण और युक्ति-युक्त समन्वय भी है। भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों को देकर ही विद्वान् लेखक ने संतोष नहीं कर लिया, प्रत्युत बुद्धिसंगत तर्कों से उनका कड़ा परीक्षण करके ही उन्हें ग्राह्य या अग्राह्य किया है। प्रत्येक विषय पर भिन्न-भिन्न आचार्यों का मत संग्रह करना ही बड़े अन्वेषण, परिश्रम और अध्येतवसाय का काम है। किन्तु जब हम देखते हैं कि उन मतों को किस निर्भीकता और विद्वत्ता से जाँचा गया है, तब हम लेखक की भूरि-भूरि प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते।

शास्त्रीय मतों का संग्रह, उनका विवेचन और उनको रखने की शैली तो हमें मुग्ध कर ही लेती है, किन्तु जब हम उन असंख्य समीचीन उदाहरणों को पढ़ते हैं जो उन्होंने प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दी काव्यों से दिये हैं, तो हम शर्माजी की विद्वत्ता ही नहीं किन्तु उनके हिन्दी साहित्य के विस्तृत ज्ञान को देखकर आश्चर्य-चकित रह जाते हैं। उनसे हमें उनकी सहृदयता और सुरुचि का भी पूर्ण परिचय हो जाता है।

हिन्दी साहित्य में इस विषय की एक 'स्टैंडर्ड'—सर्वमान्य—पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इस ग्रंथ ने उस अभाव की पूर्ति कर दी है। काव्य-शास्त्र सम्बन्धी बातों को जानने के लिए अब जिज्ञासुओं को भटकना न पड़ेगा। रस, नायिका-भेद और नख-शिख सम्बन्धी बातों के लिए विद्वानों और विद्यार्थियों को यही एक पुस्तक पर्याप्त होगी।

इस पुस्तक की एक और विशेषता यह है कि लेखक का दृष्टि-कोण विशाल और उदार है। वह किसी 'वाद' से 'बद्ध' न होने के कारण भिन्न-भिन्न मतों को स्वतंत्रतापूर्वक देखता है। वह दूसरों में अपना ही मत नहीं देखना चाहता, किन्तु यह जानने का उद्योग करता है कि आचार्यों का मत वास्तव में क्या था। साथ ही जहाँ उसका मतभेद भी है, वहाँ उसकी समालोचना सहानुभूति पूर्ण और उदार होती है, जिससे उसके निष्पक्ष होने का पूरा विश्वास हो जाता है।

हिन्दी संसार—मातृ-भाषा-भक्त लोगों का दरिद्र-समुदाय—इस समय शर्माजी की इस कृति का आंशिक भी मूल्य या पारिश्रमिक नहीं चुका सकता। किन्तु जिस साहित्य का आरम्भ "स्वान्तः सुखाय" के मूल मंत्र से हुआ था, उसका विकास भी उसी मंत्र की शक्ति से होता रहा है। हिंदी साहित्य इन्हीं साहित्य-सेवियों से पोषित रहा है, और उनकी तपस्या ही सब प्रकार से उपेक्षिता हिंदी-को पल्लवित और कुसुमित किए हुए है। इस तपःपूत साहित्य में यह ग्रंथ—जिसकी श्रेणी का ग्रंथ दो-चार पीढ़ियों में कहीं एक बार तैयार होता है—स्थायी स्थान पाएगा।

पं० हरिशङ्करजी शर्मा रसवादी हैं। वे पाश्चात्य साहित्य से इतने प्रभावित नहीं हुए कि 'रस' को भूल जायँ या उसके महत्त्व को भुला दें। हमारे आचार्यों ने काव्य का इतना सूक्ष्म अध्ययन और विश्लेषण किया है कि उसे पढ़कर आश्चर्य-चकित रह जाना पड़ता है। पाश्चात्य देशों में विद्वानों ने इस ओर अपेक्षाकृत बहुत कम ध्यान दिया। अतएव वहाँ इस विषय पर समीचीन विचार ही नहीं हुआ। जो लोग पाश्चात्य साहित्य को आदर्श मानते और वहाँ की

साहित्यिक “मान्यताओं” को वेदवाक्य समझते हैं; उन्हें इस विषय का महत्त्व समझने और स्वीकार करने में मानसिक कठिनाई होती है। शर्माजी ने जिस योग्यता और विद्वत्ता से रसों का सांगोपांग-शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक विवेचन किया है, उसे पढ़कर, आशा है कि हमारे वे मित्र भी जो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित हैं, रस-सिद्धान्त को समझ सकेंगे। रस के सिद्धान्त का प्रतिपादन और शृङ्गार रस का विश्लेषण इस पुस्तक के विशेष पठनीय भाग हैं। लेखक ने केवल प्राचीन आचार्यों का सहारा नहीं लिया, प्रत्युत उसने अकाट्य प्रमाणों से रस के सिद्धान्त का निरूपण और प्रतिपादन किया है। इसे पढ़ने के बाद साधारण व्यक्ति को भी रस का सिद्धान्त हस्ता-मलक हो सकेगा।

आशा है, हिन्दी संसार में इस अमूल्य पुस्तक का समुचित आदर होगा, और इसके द्वारा हमारे साहित्य-शास्त्र के एक महत्त्वपूर्ण अंग का ज्ञान साहित्य-प्रिय जनता को सुगमता से हो सकेगा। इस विषय के उच्च विद्यार्थियों के लिए तो यह पुस्तक वरदान के समान प्रमाणित होगी। पं० हरिशङ्करजी शर्मा ने इस पुस्तक का निर्माण कर हिन्दी की अमूल्य और चिरस्थायी सेवा की है।

आगरा
रामनवमी, २००२ वि०

श्रीनारायण चतुर्वेदी

(एम० ए० लन्दन);

इन्सपेक्टर आव् स्कूलस;

भूतपूर्व शिक्षा-प्रसार आफिसर, यू० पी०

दो शब्द

श्री पं० हरिशङ्कर शर्मा कृत इस वृहत् रस-ग्रन्थ को देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हिन्दी साहित्य में रस निरूपण-परक अनेक रचनाएँ हो चुकी हैं, परन्तु यह ग्रन्थ अपने ढंग का निराला है। इसके पढ़ने से ग्रन्थकार के विशिष्ट स्वाध्याय और रस-सम्बन्धी व्यापक ज्ञान का अनायास ही परिचय प्राप्त हो जाता है। संस्कृत के आचार्यों ने रस को 'अनिर्वचनीय' कहा है, परन्तु शर्माजी ने अपने अनुभव के बल पर इस 'अनिर्वचनीयता' की जो निर्वचन-विधि अपनायी है, वह मुक्त कण्ठ से सराहना करने योग्य है। शर्माजी की प्राञ्जल लेखन-शैली के पुण्य-प्रवाह में डूबता-उतराता हुआ पाठक बड़ी सरलता से, दुरूह रस-रहस्य को समझने में समर्थ हो सकता है।

इस ग्रन्थ में रसरज—शृंगार को ही प्रधानता दी गई है, इस विषय में शर्माजी राजाजी के पक्के अनुयायी प्रतीत होते हैं। ('राजा' तु शृंगारमेवैकं रसमाह'—सरस्वती कण्ठाभरण । वयंतु शृंगारमेव रसनाद्रसमामनामः इत्यादि)—परन्तु साथ ही इससे अन्य रसों की महत्ता कम नहीं होने पाई। इस ग्रन्थ में नायिका-भेद का विस्तृत वर्णन है, परन्तु उसने श्लीलता की सीमा का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया। जो विषय सभ्य-समाज ने इतना उपेक्षणीय समझ लिया था, उसे शर्माजी ने जिस मनोहारिणी पद्धति से उपन्यस्त किया है, उसे देखकर यदि 'नायिका-भेद' का जीर्णोद्धार कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

पुस्तक की लेखन-शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। विशेष कर इसलिए कि उसमें रस-सिद्धान्तों को शाब्दिक जगड्वाल में न डाल कर, बड़ी सरलता और सुन्दरता से समझाया गया है। ग्रन्थ के विचार बड़े साफ और सुलभे हुए हैं। प्रायः ऐसी पुस्तकों में भावों के स्पष्टीकरण की अपेक्षा शब्दाडम्बर ही अधिक होता है, परन्तु इस ग्रन्थ में यह बात नहीं है। इसमें बड़ी सरलता, साधुता और सुस्पष्टता का आश्रय लिया गया है। पुस्तक के प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने रस सम्बन्ध में जो युक्तियुक्त और प्रमाणपूर्वक मत प्रदर्शन किया है, वह बड़ा ही सुन्दर है। जिस करुण रस के देखने से सामाजिक के हृदय को वेदना होती है, उसे बार-बार वह क्यों देखता है, इस तथा ऐसे ही अन्य प्रश्नों के समाधान शर्माजी ने बड़ी ही खूबी और विद्वत्ता से किये हैं।

प्रत्येक रस के प्रारम्भ में लेखक ने जो मन्तव्य प्रकट किये हैं, वे प्रशंसनीय एवम् माननीय हैं। उदाहरण भी बड़े सुन्दर और काव्यमय दिये गये हैं। न मालूम इनकी खोज में शर्माजी को कितने ग्रन्थों के पन्ने उलटने पड़े होंगे। मेरी राय में जहाँ यह नवरसों के निरूपण का ग्रन्थ है, वहाँ उसे ब्रजभाषा काव्य-साहित्य का भाण्डार भी कहा जाय तो अनुचित न होगा। क्योंकि इसमें अधिकतर उदाहरण ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों के ही हैं। अनावश्यक और अप्रासङ्गिक बातों को इस ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया गया। जो विवरण या वर्णन हैं वे अत्यन्त संक्षिप्त और सारयुक्त हैं। यह इस ग्रन्थ की बहुत बड़ी विशेषता है।

एक बात और—इस ग्रन्थ के निर्माण में संस्कृत के प्रायः सभी प्रामाणिक साहित्य-ग्रन्थों का किसी न किसी अंश में आश्रय लिया

गया है, और विविध आचार्यों के मत-भेद को बड़ी उत्तमता से प्रदर्शित किया है। साथ ही शर्माजी ने अपना स्पष्ट मत प्रकाशित करने में भी संकोच नहीं किया। ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर लेखक की निष्पक्षता, उदारता और आचार्यों के प्रति प्रतिष्ठा-भावना के भली-भाँति दर्शन होते हैं। इस युग में जबकि प्राचीनता के विरुद्ध एक युद्ध-सा छिड़ा दिखाई देता है, ऐसी युक्तियुक्त, प्रमाणपूर्ण प्राचीनता-पोषक पुस्तक की रचना, सचमुच बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है कि हिन्दी साहित्य-समाज में श्री हरिशङ्कर शर्मा के इस ग्रन्थ-रत्न का यथेष्ट आदर होगा और वह एक बहुमूल्य कृति समझी जायगी।

उन्मीलत् कमनीयकोमलपदन्यासाः सहासाः स्फुर-
च्छृङ्गारादिरस प्रपंचितसुधामाधुर्यधुर्याः परम् ।
श्रीमद्भिः हरिशङ्करैर्विरचिताः भावोज्ज्वलाः सूक्तय-
श्चेतःकस्य न मञ्जयन्ति सहसा ब्रह्मप्रमोदाणीदे ॥

हरिदत्त शर्मा (एम० ए०, शास्त्री)

[न्याय—वैशेषिक—सांख्य—योग—वेद—काव्य—व्याकरण और
तर्क-तीर्थ ; वेदान्ताचार्य ; व्याकरणाचार्य ;
साहित्याचार्य ; आयुर्वेदाचार्य ; इत्यादि]

निवेदन

‘रस-रत्नाकर’ नामक मेरी यह तुच्छ कृति हिन्दी जगत् के सामने है। इसमें जो कुछ है, वह प्राचीन और नवीन आचार्यों का ही है। मेरा कुछ नहीं। सारी सामग्री को यथास्थान रखने में जो परिश्रम हुआ है, कठिनता से वही मेरा कहा जा सकता है। निःसन्देह ऐसी पुस्तकें लिखना विद्वानों का काम है, परन्तु ‘कलम का मजदूर’ होने के कारण मैं भी उसे करने लगा। मजदूर को तो काम चाहिए— चाहे वह ईंटें उठाना हो; चाहे ग्रन्थों को सँभाल-सँभाल कर अलमारियों में लगाना। इस प्रकार के काम हाथ में लेना मेरा दुस्साहस मात्र ही हो सकता है। परन्तु अब इसके लिये क्या कहूँ; अनधिकार चेष्टा का लुद्र परिणाम आपके सामने है।

इस पुस्तक के लिखने में मुझ से अनेक भूलें हुई होंगी, जिनके लिए मैं अल्पज्ञ होने के कारण क्षन्तव्य हूँ। यहाँ मैं यह निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूँ कि पुस्तक-प्रणयन में प्रमाद से काम नहीं लिया गया, इसलिए उसमें जो भूलें हैं, वे मेरे परिश्रम की नहीं, अयोग्यता या अज्ञान की ही हैं। जिन ग्रन्थों या महानुभावों से इस पुस्तक की रचना में मैंने कुछ भी सहायता प्राप्त की है, उनके लिए मैं हृदय से अत्यन्त आभारी और कृतज्ञ हूँ। मेरा क्या है, इसमें जो कुछ है, वह दूसरों का ही है। मैं तो ‘टुक-पिटकर’ योंही ‘पुस्तक-प्रणेतार’ बन गया हूँ। अस्तु।

आगरे के सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी विद्वद्धर श्री पं० केदारनाथ भट्ट, एम० ए० का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के लिखने में अपना विद्वत्तापूर्ण परामर्श प्रदान किया। सुद्वद्धर पं० यज्ञदत्त शर्मा उपाध्याय तो प्रारम्भ से अन्त तक—लगातार कई मास—मेरे इस दुष्कर कार्य-साधन में सच्चे साथी और सबल सहायक की तरह सतत संलग्न रहे, अतः इनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट न करना अन्याय होगा।

सुप्रसिद्ध साहित्य-वेत्ता, कवि और काव्य-मर्मज्ञ विद्वद्धर श्री पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए० (लन्दन); और आचार्य-प्रवर श्री पं० हरिदत्त शर्मा शास्त्री एम० ए०, सप्ततीर्थ का मैं बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी, मेरी प्रार्थना पर, इस पुस्तक के फर्मों को पढ़ने का कष्ट उठाया और 'भूमिका' तथा 'दो शब्द' लिख देने की कृपा की।

अन्त में मैं श्री ला० वेणीमाधव अग्रवाल (मालिक फर्म राम-नारायण लाल, पुस्तक-प्रकाशक और विक्रेता) को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने काराज की इस महगाई में, इतनी बड़ी पोथी को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। सच तो यह है कि यह कार्य लालाजी के आग्रह और अनुग्रह से ही सम्भव और सम्पन्न हो सका है।

पुस्तक प्रयाग में मुद्रित हुई और मैं आगरे में रहता हूँ। प्रूफ मेरे पास आते रहे। ऐसी दशा में मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक ही है। फिर लगभग दो सौ पृष्ठों के प्रूफ-संशोधन की व्यवस्था तो प्रयाग में ही हुई, अतः मुझे उनको देखने का अबसर नहीं मिला। आशा है, सहृदय पाठक छापे की और

मेरी भूलों का संशोधन करते हुए, इस पुस्तक को पढ़ेंगे। काराज-कंट्रोल सम्बन्धी कानूनी कठिनाइयों के कारण पुस्तक के नये प्रकरण नये पृष्ठों से प्रारम्भ नहीं किये जा सके, इससे प्रतिपाद्य विषय का उचित वर्गीकरण नहीं हो पाया। यह मजबूरी थी। अस्तु।

इस पुस्तक में यदि कोई गुण है तो उसका श्रेय विद्वान् आचार्यों को है; और दूषण का भागी मैं हूँ। मेरी विनम्र विनती है कि जिन शब्दों और जिस भावना के साथ मैं अपनी इस तुच्छ रचना को पाठकों की सेवा में रख रहा हूँ, उसी दृष्टि-कोण से वह देखी और अपनायी जाय। यदि इस पुस्तक से साहित्य की अणुमात्र भी सेवा हो सकी तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक और सफल समझूँगा।

आगरा
अक्षय तृतीया
२००२

हरिशङ्कर शर्मा

विषय-सूची

| | | | |
|---------------------|----|------------------------|----|
| कान्य की महत्ता | १ | भावोदय | ५६ |
| रस क्या है | १८ | भावसन्धि | ५६ |
| रस की लोकोत्तरता | ३४ | भाव शबलता | ५७ |
| रसों की उत्पत्ति | ३८ | अन्य रस दोष | ५६ |
| रस विरोध और मैत्री | ४५ | गुण, वृत्ति और रीतियाँ | ६२ |
| रस और संचारी भाव | ४६ | रस और सङ्गीत | ६५ |
| रसों के सूक्ष्म भेद | ४७ | शृङ्गार की रसरारजता | ६८ |
| भाव तथा रसाभासादि | ४६ | भक्ति रस | ८१ |
| भावशान्ति | ५५ | | |

विभाव

१—आलम्बन

| | | | |
|--------------|----|-----------------------|-----|
| नायक— | ८६ | मानी | ६८ |
| नायक के भेद | | प्रोषित | ६६ |
| पति | ८८ | नायक के स्वभावानुसार | |
| पति के भेद | | भेद और गुण | |
| अनुकूल | ८६ | धीरोदात्त | १०१ |
| दक्षिण | ९० | धीरोद्धत | १०१ |
| घृष्ट | ९१ | धीर ललित | १०१ |
| शठ | ९२ | धीर प्रशान्त | १०१ |
| अनभिज्ञ | ९३ | नायकों के सात्विक गुण | |
| उपपति | ९४ | शोभा | १०२ |
| उपपति के भेद | | विलास | १०२ |
| वचनचतुर | ९५ | माधुर्य | १०२ |
| क्रियाचतुर | ९६ | गाम्भीर्य | १०२ |
| वैशिक | ९८ | धैर्य या स्थैर्य | १०२ |
| | | तेज | १०२ |

| | | | |
|---------------------|-----|-----------------------|-----|
| ललित | १०२ | मध्या और प्रौढ़ा के | |
| औदार्य | १०३ | अन्य भेद | |
| नायिका वर्णन-- | १०४ | अन्य सुरत दुःखिता | १३१ |
| नायिका-भेद | | गर्विता | १३३ |
| धर्मानुसार | | गर्विता के भेद | |
| स्वकीया | १०६ | रूप गर्विता | १३३ |
| स्वकीया के भेद | | प्रेम गर्विता | १३४ |
| आयु के अनुसार | | मानवती | १३५ |
| मुग्धा | १०८ | स्वकीया के विशेष भेद | |
| मुग्धा के भेद | | व्येष्टा और कनिष्ठा | १३६ |
| अज्ञात यौवना | १११ | स्मरान्धा | १३७ |
| ज्ञात यौवना | ११३ | गाढ़ तारुण्या | १३७ |
| ज्ञातयौवना के भेद | | समस्त रति कोविदा | १३७ |
| नवौढ़ा | ११४ | भावोन्नता | १३७ |
| विश्रब्ध नवौढ़ा | ११५ | दरव्रीड़ा | १३७ |
| मध्या | ११७ | आक्रान्त नायका | १३७ |
| मध्या के भेद | | परकीया | १३७ |
| मध्या धीरा | ११६ | परकीया के भेद | |
| मध्या, धीराधीरा | १२० | ऊढा | १३९ |
| मध्या अधीरा | १२२ | अनूढा | १४० |
| प्रौढ़ा या प्रगल्भा | १२३ | अनूढा के भेद | |
| प्रौढ़ा के भेद | | उद्बुद्धा | १४२ |
| रति प्रीता | १२५ | उद्बोधिता | १४२ |
| आनन्द सम्मोहिता | १२६ | परकीया के अन्य छह भेद | |
| प्रौढ़ा धीरा | १२७ | सुरत गुप्ता | १४३ |
| प्रौढ़ा धीराधीरा | १२८ | सुरत गुप्ता के भेद | |
| प्रौढ़ा अधीरा | १२६ | भूत सुरत संगोपना | १४३ |

| | |
|-----------------------------|-----|
| वर्तमान सुरत संगोपना | १४५ |
| भविष्य सुरत संगोपना | १४६ |
| विदग्धा | १४७ |
| विदग्धा के भेद | |
| वचन विदग्धा | १४७ |
| क्रिया विदग्धा | १४६ |
| लक्षिता | १५० |
| लक्षिता के भेद | |
| हेतु लक्षिता | १५१ |
| सुरत लक्षिता | १५१ |
| कुलटा | १५१ |
| अनुशयाना | १५२ |
| अनुशयाना के भेद | |
| संकेत विधट्टना या | |
| प्रथमानुशयाना | १५३ |
| भावी संकेतनष्टा या | |
| द्वितीयानुशयाना | १५४ |
| रमणगमना या | |
| तृतीयानुशयाना | १५५ |
| मुदिता | १५६ |
| सामान्या अथवा | |
| गणिका | १५७ |
| नायिका के भेद प्रकृत्यनुसार | |
| उत्तमा | १५६ |
| मध्यमा | १६० |
| अधमा | १६२ |
| नायिका के भेद | • |
| जाति के अनुसार | |
| पद्मिनी | १६३ |

| | |
|-----------------------|-----|
| चित्रिणी | १६३ |
| शंखिनी | १६४ |
| हस्थिनी | १६४ |
| परिस्थिति के विचार से | |
| नायिकाओं के दस भेद | |
| प्रोषितपतिका | १६५ |
| मुग्धा प्रोषितपतिका | १६५ |
| मध्या प्रोषितपतिका | १६६ |
| प्रौढ़ा प्रोषितपतिका | १६७ |
| परकीया प्रोषितपतिका | १६६ |
| खण्डिता | १७० |
| मुग्धा खण्डिता | १७० |
| मध्या खण्डिता | १७१ |
| प्रौढ़ा खण्डिता | १७३ |
| परकीया खण्डिता | १७४ |
| कलहान्तरिता | १७५ |
| मुग्धा कलहान्तरिता | १७५ |
| मध्या कलहान्तरिता | १७७ |
| प्रौढ़ा कलहान्तरिता | १७८ |
| परकीया कलहान्तरिता | १७६ |
| विप्रलब्धा | १८० |
| मुग्धा विप्रलब्धा | १८० |
| मध्या विप्रलब्धा | १८२ |
| प्रौढ़ा विप्रलब्धा | १८२ |
| परकीया विप्रलब्धा | १८४ |
| उत्कण्ठिता | १८५ |
| मुग्धा उत्कण्ठिता | १८५ |
| मध्या उत्कण्ठिता | १८५ |

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|-----|
| प्रौढ़ा उत्कण्ठिता | १८६ | मध्या आगत पतिका | २१० |
| परकीया उत्कण्ठिता | १८७ | प्रौढ़ा आगत पतिका | २१२ |
| वासक सज्जा | १८८ | परकीया आगत पतिका | २१३ |
| मुग्धा वासक सज्जा | १८८ | नायिकाओं के सात्विक | |
| मध्या वासकसज्जा | १८९ | अलङ्कार | |
| प्रौढ़ा वासक सज्जा | १९१ | अङ्गज | |
| परकीया वासक सज्जा | १९१ | भाव | २१५ |
| स्वाधीन पतिका | १९२ | हाव | २१६ |
| मुग्धा स्वाधीन पतिका | १९३ | हेला | २१७ |
| मध्या स्वाधीन पतिका | १९४ | अयत्नज | |
| प्रौढ़ा स्वाधीन पतिका | १९५ | शोभा | २१८ |
| परकीया स्वाधीन पतिका | १९६ | कान्ति | २१९ |
| अभिसारिका | १९६ | दीप्ति | २२० |
| मुग्धा अभिसारिका | १९६ | माधुर्य | २२१ |
| मध्या अभिसारिका | १९७ | प्रगल्भता | २२१ |
| प्रौढ़ा अभिसारिका | १९८ | औदार्य | २२२ |
| परकीया अभिसारिका | १९९ | धैर्य | २२३ |
| अभिसारिका के अन्य भेद | | स्वाभाविक | |
| शुक्लाभिसारिका | २०० | लीला | २२४ |
| कृष्णाभिसारिका | २०१ | विलास | २२६ |
| दिवाभिसारिका | २०२ | विच्छिन्ति | २२७ |
| प्रवत्स्यत्पतिका | २०४ | विश्वोक | २२९ |
| मुग्धा प्रवत्स्यत्पतिका | २०४ | किलकिंचित | २३१ |
| मध्या प्रवत्स्यत्पतिका | २०६ | विभ्रम | २३३ |
| प्रौढ़ा प्रवत्स्यत्पतिका | २०६ | ललित | २३४ |
| परकीया प्रवत्स्यत्पतिका | २०७ | मोटागित | २३६ |
| आगत पतिका | २०९ | कुट्टमित | २३७ |
| मुग्धा आगत पतिका | २०९ | विह्वल | २३९ |

| | | | |
|---------|-----|------|-----|
| मद | २४० | हसित | २४४ |
| तपन | २४१ | चकित | २४५ |
| मौग्ध्य | २४२ | केलि | २४६ |
| विचेप | २४३ | बोधक | २४६ |
| कुतूहल | २४३ | | |

२—उद्दीपन

| | | | |
|-----------------|-----|---------------------------|-----|
| सखा | २४८ | मध्यमा | २६२ |
| सखा के भेद | | अधमा | २६३ |
| पीठ मर्द | २४६ | दूती के कर्म | |
| विट | २५० | विनय | २६३ |
| चेट या चेटक | २५१ | स्तुति | २६४ |
| विदूषक | २५२ | निन्दा | २६५ |
| सखी | २५३ | प्रबोध | २६६ |
| सखी के भेद | | संघट्टन | २६६ |
| हितकारिणी | २५४ | विरह-निवेदन | २६७ |
| व्यंग्य विदग्धा | २५४ | संघट्टन और विरह-निवेदन के | |
| अन्तरंगिणी | २५५ | भेद | |
| बहिरंगिणी | २५५ | उत्तमा संघट्टन | २६८ |
| सखी के कार्य | | उत्तमा विरह निवेदन | २६६ |
| मण्डन | २५६ | मध्यमा संघट्टन | २६६ |
| शिक्षा | २५७ | मध्यमा विरह निवेदन | २६६ |
| उपालम्भ | २५८ | अधमा संघट्टन | २७० |
| परिहास | २५६ | अधमा विरह निवेदन | २७० |
| दूती | २६० | स्वयं दूती | २७० |
| दूती के भेद | | स्वयं दूती संघट्टन | २७१ |
| उत्तमा | २६१ | स्वयं दूती विरह-निवेदन | २७२ |

| | | | |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| स्वप्न दर्शन | ४७२ | करुणात्मक वियोग | ४८७ |
| श्रवण दर्शन | ४७३ | वियोग जनितः दस दशाप | ४८७ |
| पूर्वानुराग के भेद | | अभिलाषा | ४८८ |
| नीली राग | ४७४ | चिन्ता | ४८९ |
| कुसुम्भ राग | ४७४ | स्मरण | ४९० |
| मञ्जिष्ठा राग | ४७४ | गुण-कथन | ४९१ |
| मान | ४७४ | उद्वेग | ४९२ |
| मान के भेद | | प्रलाप | ४९३ |
| प्रणयमान | ४७४ | उन्माद | ४९४ |
| ईर्ष्यामान | ४७५ | व्याधि | ४९६ |
| ईर्ष्या मान के भेद | | जड़ता | ४९७ |
| लघु मान | ४७६ | मरण | ४९८ |
| मध्यम मान | ४७८ | मूर्छा | ४९९ |
| गुरु मान | ४७९ | हास्य रस | ५०१ |
| ान भंग करने के उपाय | ४८० | हास्य | ५०६ |
| साम | ४८० | हास्य के भेद | ५०६ |
| भेद ° | ४८१ | करुण रस | ५२४ |
| दान | ४८१ | रौद्र रस | ५३७ |
| नति | ४८१ | वीर रस | ५४८ |
| उपेक्षा | ४८२ | वीर रस के भेद | |
| रसान्तर | ४८२ | युद्धवीर | ५५२ |
| प्रवास | ४८३ | दानवीर | ५५२ |
| प्रवास के भेद | | दयावीर | ५५२ |
| कार्यवश | ४८३ | धर्मवीर | ५५३ |
| शापवश | ४८४ | भयानक रस | ५६५ |
| भयवश | ४८४ | बीभत्स रस | ५७५ |
| भूत प्रवास | ४८५ | अद्भुत रस | ५८५ |
| भविष्य प्रवास | ४८५ | शान्त रस | ५९६ |
| वर्तमान प्रवास | ४८६ | वात्सल्य रस | ६०७ |

| | | | |
|----------------|-----|--------------------|-----|
| नख-सिख वर्णन— | ६१४ | दशन | ६५२ |
| पग-तल वर्णन | ६१७ | वाणी | ६५६ |
| पग-वर्णन | ६१८ | मुख-राग | ६५७ |
| पद-लालिमा | ६२० | मुसकान | ६५७ |
| एड़ी | ६२१ | कपोल | ६५८ |
| पदांगुलि | ६२२ | कपोलों की गाढ़ | ६६० |
| पद-नख | ६२३ | कपोल-तिल | ६६१ |
| गुल्फ | ६२४ | श्रवण | ६६३ |
| पिंडुरी | ६२५ | नासिका | ६६४ |
| जंघा (जानु) | ६२६ | नासिका-वेध | ६६६ |
| नितम्ब | ६२८ | नासिका-भूषण | ६६७ |
| कटि | ६२६ | लोचन | ६६८ |
| नाभि | ६३२ | भृकुटी | ६७६ |
| उदर | ६३३ | भाल | ६७७ |
| त्रिवली वर्णन | ६३५ | मुख-मण्डल | ६७८ |
| रोम-राजि | ६३६ | केश | ६८३ |
| कुच | ६३७ | अलक | ६८५ |
| कंचुकी-युत कुच | ६४० | पाटी | ६८८ |
| कर-तल | ६४० | माँग वर्णन | ६८६ |
| अंगुलि वर्णन | ६४३ | वेणी वर्णन | ६८१ |
| कर-नख | ६४४ | अङ्ग-वास वर्णन | ६८३ |
| पीठ | ६४५ | अंग-दीप्ति वर्णन | ६८४ |
| ग्रीवा | ६४६ | गति-वर्णन | ६८६ |
| चिबुक | ६४७ | सर्वाङ्ग वर्णन | ६८८ |
| चिबुक का तिल | ६४८ | सुकुमारता वर्णन | ७०० |
| अधर | ६५० | सोलह शृङ्गार वर्णन | ७०३ |

ओ३म्

काव्य की महत्ता

‘कविर्मनीषीः परिभूः स्वयंभूः’

सुन्दर शब्द-प्रयोग मनोहर भाव रसीले
दूषण-हीन प्रशस्त पद्य भूषण भङ्गीले,
प्रिय प्रसादता पाय मर्म-महिमा दरसावे,
रसिकों पर आनन्द-सुधा-सीकर बरसावे,

जिनके द्वारा इस भाँति की परम शुद्ध कविता कढ़े,
उन कविराजों का लोक मे सुयश सदा ‘शङ्कर’ बढे ।

—महाकवि शंकर

परमात्मा कवि है, उसका काव्य वेद है, जो न कभी नष्ट होता है, और न जीर्ण होता है। सदा एक रस बना रहता है। छन्द वेद का एक अंग है। वेद मे अलकारों और भव्य भावों की भरमार है। वैदिक मन्त्रों का विशुद्ध गान, स्वर्गीय सुख और अलौकिक सुषमा का स्रोत प्रवाहित करता रहता है। सामगान का आनन्द बड़ा ही दिव्य और भव्य है। सच्चिदानन्द प्रभु ने सृष्टि के आदि मे, अपने ज्ञान के साथ-साथ, मनुष्य को काव्यामृत भी प्रदान किया। उसको कविता-कला का उपदेश दिया। ईश्वरीय ज्ञान वेद में स्थल-स्थल पर काव्यमय चमत्कार दिखाई

देता है। सैकड़ मन्त्रों में अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और सारे वेद में रसों की सुरम्य सरिता बहाई गई है।

ऋषि-मुनियों की अधिकांश रचनाएँ काव्यमयी हैं। वे हमारे लिए उन अलौकिक काव्य-ग्रन्थों को छोड़ गए हैं, जिनकी समता ससार का कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता। उन महापुरुषों ने तो धर्म, समाज, ज्योतिष, गणित, वैद्यक, शिल्प आदि विषयों तक को अपने अद्भुत काव्य प्रभाव से अलौकिक और अमर बना दिया है। हमारे जगत्प्रसिद्ध महाकाव्यों के कारण भारत-भारती की गुण-गरिमा का जो प्रसार और विस्तार हुआ है, वह किससे छिपा है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि महा-कवि आज संसार में नहीं हैं परन्तु उनकी अजर-अमर कीर्ति दिग्दिगन्त व्यापिनी हो रही है। कवि-कुल-गुरु गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित-मानस द्वारा परम पावन भगवान् राम के उच्च आदर्श के धर-धर की वस्तु बना दिया। तुलसीदासजी ने अपनी कविता-कला के प्रभाव से जाति को जगाया, और कोटि-कोटि जनता का चरित्र-सुधार किया। इसी प्रकार सुर, केशव, विहारी, देव, पद्माकर, मतिराम, भूषण आदि महाकवियों ने भी अपनी-अपनी काव्य-साधना द्वारा सरस्वती की आराधना की।

जिस काव्य की इतनी महिमा है, वास्तव में वह क्या है; इस विषय पर यहाँ विचार करना कुछ अनुचित न होगा। ससार में शब्द के रूप में जो कुछ सुनाई पड़ता है, वह दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अर्थात् ध्वनि और वर्ण। अव्यक्त शब्द को ध्वनि और व्यक्त को वर्ण सञ्ज्ञा दी गई है। कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना, कौआ, कबूतर आदि जो कुछ बोलते हैं, वह ध्वनि है। मुरली, वीणा, सितार, मृदंग आदि से जो मनो-मोहक शब्द निकलता है, वह भी ध्वनि है। परन्तु मनुष्य के मुँह से जो सार्थक शब्द निकलते हैं, उन्हें वर्ण माना गया है। ध्वनि और वर्ण दोनों के सुनने में आनन्द आता है। मधुर वीणा-वाद्य या बँसुरी की सुरीली तान मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों तक को मोहित कर लेती है। जिस

समय कोई वश्यवाक् कवि वर्णात्मक काव्य-रचना करता है, उस समय उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहता ।

भिन्न-भिन्न आचार्यों ने काव्य के भिन्न-भिन्न लक्षण किये हैं । मम्मटाचार्य के मत में शब्दों और अर्थों का निर्दोष एव गुणयुक्त होना (उसमें अलंकार हों चाहे न हों) काव्य है^१ । भोजदेव की सम्मति में निर्दोष, गुण और अलंकार युक्त रसात्मक वाक्य काव्य है^२ । पण्डितराज जयदेव कहते हैं कि निर्दोष लक्षणवती रीति एव गुण, अलंकार समन्वित सरस वाक्य ही काव्य है^३ । काव्यालंकार में निर्दोष, गुण एवं अलंकार सहित शब्दार्थों को काव्य माना गया है^४ । वाग्भट्टाचार्य काव्य उसे मानते हैं, जिसके शब्द और अर्थ सरल हों, और जो गुण, अलंकार ए रीति युक्त तथा सरस हो^५ । पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य माना है^६ । साहित्यदर्पण के कर्ता कविराज विश्वनाथ की सम्मति में रसात्मक वाक्य ही काव्य है^७ ।

काव्य की उत्कृष्टता उसके अर्थगौरव पर निर्भर है । यह अर्थ तीन प्रकार का माना गया है, १—वाच्यार्थ, २ लक्ष्यार्थ और ३—व्यंग्यार्थ ।

१—“ तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि ”

२—“ निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम् ।

रसात्मक कविःकुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति ॥”

३—“ निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुण भूषिता ।

सालङ्काररसानेकवृत्तिवाक् काव्यनाम भाक् ।”

४—“ अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् ।”

५—“ साधु शब्दार्थ सन्दर्भं गुणालङ्कार भूषितम् ।

स्फुट रीति रसोपेतं काव्यं कुर्वीत कीर्तये ॥”

६—“ रमणीयार्थ प्रतिपादकःशब्दुकाव्यम् ।”

७—“ रसात्मकं वाक्यं काव्यम् ।”

वाच्यार्थ— जैसे—मोहन कहने से जिस व्यक्ति विशेष का बोध होता है, वह मोहन शब्द का वाच्यार्थ है, और मोहन शब्द उस व्यक्ति विशेष का वाचक । यह शब्द-व्यापार अभिधा वृत्ति कहाता है ।

लक्ष्यार्थ—जब वाच्यार्थ वक्ता के अभिलषित अर्थ से नहीं मिलता, तब उससे उसे मिलाने के लिए जो शब्द का निकटवर्ती अर्थ कल्पित किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं । वह शब्द उसका लक्षक कहाता है, और इस शब्द-व्यापार को लक्षणा वृत्ति कहते हैं । जैसे—यह सड़क तो दिन-रात चलती है । इसमें वक्ता का प्रयोजन वाक्य के वाच्यार्थ, सड़क के चलने से न होकर, उसके निकटवर्ती अर्थ सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों-सवारियों आदि से है । वाक्य का वाच्यार्थ तो बिलकुल निष्प्रयोजन है, क्योंकि सड़क कभी नहीं चला करती । सड़क पर आदमी दिन-रात चलते हैं, यह लक्ष्यार्थ ही यहाँ इष्ट है ।

व्यंग्यार्थ—शब्द या शब्दसमूह के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से भिन्न प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ, तथा उस शब्द या शब्दसमूह को व्यञ्जक कहते हैं, और इस शब्द-व्यापार का नाम व्यञ्जना वृत्ति है । जैसे—कोई कहै “ उसके चेहरे पर तो बारह बज रहे हैं ” यहाँ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही से भिन्न यह अर्थ निकलता है कि उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है । उक्त वाक्य में बारह बज रहे हैं, यह शब्द-समूह व्यञ्जक और उदासी छाना इसका व्यंग्यार्थ है ।

उत्तम काव्य वह माना गया है, जिसमें व्यंग्याथ की प्रधानता हो । मध्यम काव्य में व्यंग्यार्थ गौण रूप से रहता है । जिस काव्य में शब्द और अर्थ (वाच्यार्थ) का ही चमत्कार होता है, व्यंग्यार्थ का नहीं, उसे कनिष्ठ या चित्र काव्य कहते हैं ।

उपर्युक्त लक्षणों में काव्य की रसात्मकता अथवा रमणीयार्थ प्रतिपादकता प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार की है । कोई काव्य कितना ही निर्दोष और अलंकारपूर्ण क्यों न हो, परन्तु यदि उसमें लोकोत्तर

आनन्द-दायिनी रसात्मकता नहीं है तो वह काव्य की कोटि में नहीं आ सकता। वस्तुतः रसात्मक काव्य रचने वाले कवि बड़ी कठिनता से उत्पन्न होते हैं। किसी ने ठीक कहा है—‘कवि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते।’ जो लोग अपनी प्रवृत्ति के प्रतिकूल परिश्रमपूर्वक कविता करने लगते हैं, वे कवि नहीं पद्यकार हैं, कविता और पद्य-रचना में बड़ा अन्तर है। कवि का कर्तव्य महान् होता है, उसकी जिम्मेदारी की हद नहीं। जिन पक्तियों में सहृदय समाज के हृदय को फड़का देने की शक्ति नहीं, जिनमें चमत्कार और कवित्व का अभाव हो वे कदापि कविता नहीं कही जा सकतीं। किसी ने ठीक कहा है—

क्रिकवेस्तेन काव्येन,
किं कारडेन धनुःमतः,
परस्य हृदये लग्नं,
न घूर्णयति यच्छिरः।

इसी बात को किसी ने निम्नलिखित शब्दों में कहा है—

जाके लागत तुरत ही सिर ना हुलै सुजान ।
ना वह गीत न कवितरस ना वह तान न बान ॥

निस्सन्देह धनुर्धर का वह वाण और कवि की वह कविता ही क्या, जो दूसरे के हृदय में लगकर उसका सिर न हिलादे। जिस कविता में अपने अद्भुत चमत्कार द्वारा प्रवीण पाठकों के सिर हिला देने की क्षमता न हो वह कविता नहीं कही जा सकती। कवि किसी घटना को जिस दृष्टि से देखता है, साधारण लोग उसे उस दृष्टि से नहीं देखते। कवि की डबल ज्यूटी है—घटना को उसके वास्तविक रूप में देखकर, हृदय द्वारा उसका अनुभव करना, और फिर जैसा स्वयं अनुभव किया है, वैसा ही उसे दूसरों को भी अपनी प्रतिभु द्वारा अनुभव कराना। सत्काव्य के सम्बन्ध में किसी ने क्या ही ठीक कहा है—

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनानाम् ॥

अर्थात् महाकवियों की वाणी में अभिधीयमान वाच्यार्थ से अतिरिक्त 'प्रतीयमान अर्थ' एक ऐसी चमत्कृत वस्तु है, जो कुछ इस प्रकार चमकती है, जिस प्रकार अङ्गना के अङ्ग में हस्तपादादि प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त लावण्य की आभा दिखाई देती है ।

ठाकुर कवि ने भी कविता की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है । देखिये—

मोतिन कैसी मनोहर माल गुहै तुक अचल्लर रीफि रिभावै ।

प्रेम को पन्थ कथा हरिनाम की उक्ति अनूठी बनाइ सुनावै ।

'ठाकुर' सो कवि भावै हमै जोइ भारी सभा में बड़प्पन पावै ।

पण्डित और प्रवीनन हूँ को जो चित्त हरै सो कवित्त कहावै ॥

वास्तव में कवित्त वही है, जो पण्डितों और प्रवीणों का चित्त चुरा सकता है । किसी बात को साधारण ढंग से तो साधारण लोग भी कह सकते हैं, तुकयुक्त भाषा में भी वह कही जा सकती है, परन्तु उसे अलौकिक रीति से वर्णन करने का विचित्र कौशल कवि में ही होता है । 'श्याम-गौर किमि कहौ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी' चौपाई में जो चमत्कार है, वह "अकथनीय है सुन्दरताई, ताही सो सो कही न जाई" में कहाँ ? इसी प्रकार "गिरा अलिनि मुख पंकज रोक्य, प्रगट न लाज निशा अवलोकी" को देखिये । साधारण सी बात को कवि-प्रतिभा ने कैसा चमत्कृत बना दिया । लज्जा के कारण बोल न सकने के भाव को कवि ने जिस खूबी के साथ वर्णन किया है, वही कवित्व है । जिस कवि का मस्तिष्क-मन्दिर नवनवान्मेष शालिनी प्रतिभा प्रभा से प्रदीप्त नहीं हुआ, वह किसी वस्तु या घटना का काव्यमय वर्णन कर ही नहीं सकता ।

तपस्विनी सीता अशोकवाटिका में बैठी हैं, महावीर हनुमान राम-नामाङ्कित अँगूठी लेकर वहाँ पहुँचते और वृक्ष पर से उसे नीचे गिरा

देते हैं। सीताजी अँगूठी को उठाकर आश्चर्य में बार बार निरखती परखती और महाकवि केशव के शब्दों में उससे पूछती हैं—

श्री पुर में बन माँहि मै, तैं पुनि करी अनीति ।
हे मुदरी अब तियन की को करिहै परतीति ॥

अरी अँगूठी, श्री (राजलक्ष्मी) ने तो राम का साथ अयोध्या में ही छोड़ दिया; बन में मै उनका साथ छोड़ कर यहाँ चली आई। अब तू भी उनके पास नहीं रही। मैं तू और राजलक्ष्मी तीनों ही स्त्रियाँ हैं, तीनों ही ने राम को आपत्ति पड़ने पर दगा दी, तू ही बता अब स्त्रियों का विश्वास कौन करेगा ! उनकी 'परतीति' कैसे होगी ! कैसा सुन्दर भाव है। कितना निराला ढंग है। बात में से बात पैदा करना इसे ही कहते हैं।

महाकवि केशव अपना काव्य-कौशल यहीं समाप्त नहीं कर देते, वे हनुमानजी के मुँह से सीताजी के प्रश्न का उत्तर भी बड़ी खूबी से दिलवाते हैं। मुनिये—

कहि पूछति तुम मुद्रिके, मौन होति यहि नाम ।
कंकन की पदई दई तुम बिन या कहँ राम ॥

सीते, तुम बार-बार मुद्रिके कह कर उमें क्यों सम्बोधन कर रही हो, इस का नाम अब अँगूठी नहीं रहा, इसीलिये वह इस नाम से नहीं बोलती। तुम्हारे बिना राम ने इसे ककण की पदवी दे दी है। अर्थात् वे वियोग-जन्य वेदना के कारण इतने दुर्बल हो गए हैं, कि किसी समय जो चीज उनको उँगलियों में पहनी जाती थी वह अब पहुँचे में आ जाती है। इसलिए इस अँगूठी को अब ककण कहे अँगूठी कह कर उसमें कुछ न पूछो। इस नाम में वह न बोलेगी। अहा ! कैसी सुन्दर उक्ति है। वियोग जनित दुर्बलता का, इस प्रकार अलौकिकता पूर्वक, दिग्दर्शन कराना महाकवि केशव का ही काम है। वास्तव में कविता यही है। जिसकी प्रतिभा-पहाड़ी से इस प्रकार के भव्य भावों की भागीरथी प्रवाहित होती है, वही महाकवि है।

‘अमी हलाहल मद-भरे स्वेत स्याम रतनार ।
जियत-मरत भुकि-भुकि परत जिहि चितवत इकवार ॥’

जिस महाकवि के विशाल मस्तिष्क से यह प्रसिद्ध दोहा निकला है, उसकी कीर्ति-कल्लोलिनी की विमल धारा को अत्रुण रखने के लिए और किस साधन की आवश्यकता है ! ये दो पक्तियों ही उसके जीवन की विभूति कही जा सकती हैं । वृथापुष्ट पोथों से भी जो बात सम्भव नहीं, वह दोहे की इन दो लकीरों ने करके दिखा दी । महाकवि विहारी के दोहों के लिये तो प्रसिद्ध ही है—

सतसैया को दोहरा नाविक को-सो तीर ।
देखत मे छोटो लगे वाव करे गम्भीर ॥

सतसई के एक-एक दोहे पर विद्वानों ने पृष्ठ के पृष्ठ रँग डाले, फिर भी सहृदय-समाज की उत्सुकता का अन्त न हुआ । वह उसके अभिनव चमत्कार की चसक के लिए बराबर लालायित बना रहा । सचमुच विहारी ने सतसई लिखकर गागर में सागर भरने की कहावत चरितार्थ की है । दो पक्तियों में इतना व्यापक और गम्भीर भाव लाना बहुत ही कठिन काम है ।

भक्त-शिरोमणि सुरदास की भक्ति-भागीरथी में मज्जन कर न जाने कितने मनुष्य तर गए । कविवर कवीर ने न मालूम कितनों को ज्ञान-दान दिया । महाकवि भूषण की वीर वाणी ने शिवराज में विद्युच्छक्ति का संचार कर आश्चर्य जनक कार्य कर दिखाया । कहीं तक कहें, कवियों ने अपनी कलित कल्पना द्वारा संसार को वह आनन्द प्रदान किया है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती । कुछ अन्य कवियों की सूक्तियों भी सुन लीजिये—

प्रातःकाल पौ फटते ही प्राणनाथ परदेश को पधारेगे, यह जान कर विरह व्यथिता पत्नी व्याकुल है रही है—घबरा रही है । उसकी इस आकुलता को कविवर रसनिधि कैसे करुण शब्दों में व्यक्त करते हैं—

आजु सखी हौ सुनति हों पौ फाटत पिय गौन ।

पौ मे ह्यौ मे होड़ है पहले फाटत कौन ॥

अरी सखी मैंने सुना है कि कल पौ फटते फटते प्राणनाथ परदेश चले जायेंगे । मुझे उनके प्रस्थान की सूचना से बड़ी वेदना हो रही है । अब देखना है पहले पौ फटती है या मेरा हृदय विदीर्ण होता है ।

आगे चल कर रसनिधि के शब्दों में वही स्त्री फिर कहती है—

जिहि बाम्हन पिय-गमन को सगुन दियो ठहराय ।

सजनी ताहि बुलाइदै प्रान-दान लै जाय ॥

पति को प्रस्थान का मुहूर्त्त बताकर बाम्हन' ने बड़ा बुरा काम किया है । उसके कदाचित् मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरी वियोग-व्यथा को वह बिलकुल भूल गया । खैर, उस भले आदमी ने जो कुछ किया, ठीक ही किया । सखी, उस बाम्हन से जाकर कहना तो सही कि मुहूर्त्त बताने की दक्षिणा में एक स्त्री तुमको अपने प्राण दान देना चाहती है, जाओ तो आओ ।

×

×

×

×

महाकवि शङ्कर की उक्ति भी सुनिये । देखिये उनकी रूप-गर्विता नायिका क्या कहती है—

आनन की ओर चले आबत चक्कर मोर,

दौर दौर बार-बार बैनी भटकत हैं ।

बैठ बैठ 'शङ्कर' उरोजन पै राजहंस,

हारन के तार तोर तोर पटकत हैं ॥

भूम भूम चखन के चूम चूम चञ्चरीक,

लटकी लटन में निपट लटकत हैं ।

आज इन बैरिन से बनू मे बचावै कौन,

अबला अकेली मैं अनेक अटकत है ॥

सखी क्या बताऊँ, आज वैरियो ने मेरे ऊपर बुरी तरह चढाई करदी है। चकेर मेरे मुँह की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। मोर वेणी को पकड़-पकड़ कर बार-बार झटकते हैं चचरीक मेरी आँखों पर मँडला रहे हैं। हसो ने उरोजों पर बैठकन मोतियों की माला तोड़नी शुरू कर दी है। हा भगवान्, इतने प्रबल वैरियो मे मैं अकेली अबला कैसे प्राण बचाऊँ— किस प्रकार आत्मरक्षा करूँ, कुछ समझ मे नहीं आता।

छन्द के शब्दों मे इतनी ही बात समझ मे आता है, परन्तु ज़रा और ध्यान दिया जाय और इन शब्दों मे कविता की आत्मा खोजी जाय, तो वह भी अपने अकृत्रिम रूप मे विद्यमान है। उपर्युक्त छन्द मे नायिका के अंगों के उपमानों की ओर संकेत किया गया है। इससे उसके सौन्दर्य का अनुमान किया जा सकता है। सुन्दरता-वर्णन का क्या ही विचित्र प्रकार है। छन्द के यथार्थ को समझ कर सद्दय पाठक की तबीअत फड़के बिना न रहेगी, और उसके मुँह से अनायास ही वाह निकल पड़ेगी।

शङ्करजी के निम्न लिखित दोहे भी कैसे सुन्दर हैं—

मारे बिरह बमन्त के बिरही परे अचेन।

मृतक जानि 'शङ्कर' तिनहैं अंशम पावक देत ॥

× × × ×

मुदे न राखत दीठि ज्यो खुले न राखत लाज।

पलक कपाट दुहून के छिन-छिन साधत काज ॥

× × × ×

एक ओर तेरो बदन चन्द्र दूसरी ओर।

जात न कितहूँ बीच मे नाचत फिरत चकेर ॥

× × × ×

बाल युवा औ' वृद्ध को सुधा सुरा विष दैन।

काढे कचन कलश कुच रूप सिन्धु मथि मैन ॥

× × × ×

सचमुच न ऐसा कोई शब्द है, न ऐसा अर्थ है, न ऐसा कोई न्याय है और न ऐसी कोई कला है, जो काव्य का अङ्ग न हो। इसीलिए कवि पर बहुत भारी भार है। इस सारे भार को उसे अपनी लेखनी की नोक पर उठाना पड़ता है। जो इतनी क्षमता रखता है, वही सच्चा कवि है।

न स शब्दो न तद्वाच्य न स न्यायो न सा कला।

जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महाकवेः ॥

कविता रसप्रधान होती है। रस-चमत्कार ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। शब्दाडम्बर युक्त मालङ्कार पक्तियाँ नीरस होने पर उस शब्द के समान है, जिसको बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से तो अलंकृत किया गया है, परन्तु यह किसी ने नहीं देखा कि वह (शब्दों की) लाश है— उसमें जीवन की ज्योति नहीं जगमगा रही।

कभी-कभी कविता की भाषा पर बड़ी बहम छिड़ जाती है। कोई खड़ी बोली पर अपना सर्वस्व निछावर करता है, और कोई ब्रजभाषा के चारु चरणारविन्द का चचरीक बना हुआ है। परन्तु हम तो समझते हैं, भाषा पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रस पर ध्यान देना चाहिये। किसी भाषा में भी व्यक्त क्यों न हुए हों चमत्कृत भाव अपने आप चमकने लगते हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने ठीक ही कहा है -

जामें रस कछु होत है ताहि पढत सब कोय ।

भाव अनूठो चाहिये भाषा कोई होय ॥

भाषा पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं होता। जिस प्रकार हिन्दू शायरों ने उर्दू-फारसी में बढिया शायरी की है, उसी प्रकार मुसलमान कवियों ने हिन्दी-साहित्य-भाण्डार को अपनी अद्भुत कविता-कला से अलंकृत किया है। कविवर रसखान मुसलमान थे, परन्तु वे ब्रजभाषा और ब्रजचन्द्र पर असीम अनुराग रखते थे। आज उनकी सरस कविता को पढ़कर सहृदय समुदाय अपने को कृतार्थ समझता है। रसखान के कुछ सवैये तो प्रायः सबही काव्य प्रेमियों की जिह्वा पर नृत्य

करते रहते हैं। कविवर रहीम के दोहे किस समझदार पाठक को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर लेते। ये दोहे आज घर-घर में लोकोक्तियों का रूप धारण कर चुके हैं। मियों नज़ीर ने भी स्वाभाविक सरल कविता से अपनी लेखनी को पवित्र किया है। पुराने युग को जाने दीजिये, आधुनिक काल में भी मीर मूनिम, अजमेरी, ज़हूरबख्श अख़्तरहुसैन आदि मुसलमान सज्जनों ने हिन्दी माता की अमूल्य सेवा की है। अभिप्राय यह कि साहित्य-सेवा में हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न नहीं उठता। सच्चा काव्य सम्प्रदायवाद से परे है। कवि की विमल वाणी विश्व की विभूति होती है। आवश्यकता कवि होने की है। कवि वही होता है, जिस पर परमात्मा अनुग्रह करता है, और जो कविता के स्कार लेकर धरा-धाम पर अवतीर्ण होता है।

अनुप्रास युक्त पक्तियों का ही नाम काव्य नहीं है, रसात्मक गद्य की गणना भी काव्य में की गई है। काव्य और सगीत का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही सानुप्रास काव्य की सृष्टि रची गई। तुकहीन काव्य गानात्मक न होने के कारण राग-रागिनियों से विराग कर बैठता है, अतएव उसके लिए सानुप्रास भाषा की ही आवश्यकता है। साहित्य और सगीत का बड़ा सुन्दर समन्वय है। दोनों के एकत्र होने पर सोने में सुगन्ध की लोकोक्ति चरितार्थ हो जाती है। 'साहित्य सगीत कलाविहीन' लोगों को भर्तृहरिजी ने पुच्छ विषाण हीन साक्षात् पशु' बतलाया है।

आचार्यों ने काव्य के दो भेद किये हैं—दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। नाटकों की गणना दृश्य काव्यों में है, और रामायण महाभारत आदि श्रव्य काव्यों के अन्तर्गत समझे जाते हैं। साहित्य शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में सबसे पहला ग्रन्थ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र माना जाता है। अन्य रीति-ग्रन्थों की सृष्टि इसी शास्त्र के आधार पर रची गई है।

जिस प्रकार सुन्दर आभूषणों से किसी स्वभाव-सिद्ध सुन्दरी की कान्ति बढ़ने में सहायता मिलती है, उसी प्रकार अलंकारों की आभा से कविता-

कामिनी का कलित कलेवर जगमगा उठता है। कविता सच्चे हृदय का अकृत्रिम उद्गार है। वह कानो के परदों के पार करती हुई, सहृदय श्रोता के अन्तस्तल तक पहुँचती है। रसिक-समाज को मुट्टी में कर लेना वश्यवाक् कवि के बाएँ हाथ का खेल है। कविता के लिए छन्दोज्ञान होना भी आवश्यक है, परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया छन्द की विशुद्धता ही कविता की कसौटी नहीं है। छन्द-शास्त्र तो नाप तोल का विषय है। उसमें तो वे लोग भी अभिज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें कवित्व शक्ति उचित मात्रा में नहीं पाई जाती।

आज कल कवियों की भरमार है। कवि होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनके विना ही कवि बनजाना सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है। बहुत-सी पद्य रचना करने या मोटे पोथे लिखने से ही कोई कवि नहीं हो सकता। कविता के लिए तबीअत पर ज़ब्र करने की ज़रूरत नहीं है। हृदय के उद्गार अपने आप निकला करते हैं। तबीअत तो हाज़िर नहीं, मगर शायरी का शौक़ सवार है ऐसी हालत में क्या स्वाक़ शेर कहे जायेंगे ? किसी ने खूब कहा है—

गौहरे मज़मूँ निकलते हैं मगर बेआवदार, •

जबकि दरिया ए-तबीअत जोश पर होता नहीं।

कविता के लिए दरिया-ए-तबीअत को खुद ब खुद जोश पर आने की ज़रूरत है। ठोक-पीट कर वैद्यराज बनने से काम नहीं चलता। आज कल कुछ लोग कविता को व्यापार की वस्तु समझने लगे हैं। दाम दे-दे कर वे इस देवी को खुश करना चाहते हैं। कवितादेवी को द्रव्य दासी होने से बचाना चाहिये। इससे उसका अपमान होता है। कविता द्वारा कवि को अनायास ही धन-प्राप्ति हो जाय तो हो जाय, परन्तु वह इस विचार से न लिखी जानी चाहिये। इस दृष्टि से वह लिखी भी नहीं जा सकती। महाकवि अकबर ने बिलकुल ठीक कहा है—

उश्शाक़ को भी माले तिजारत समझ लिया,

इस क़हर का मुलाहिज़ा लिल्लाह कीजिये ।

भरते हैं मेरी आह को फोनोग्राफ में,
कहते हैं फ्रीस लीजिये और आह कीजिये ।

सचमुच आह फीस लेकर नहीं निकला करती, दिल में चुभन या टीस होने पर ही वह निकलती है, और अपने आप निकलती है ।

कविता करने की तरह कविता समझना भी बड़ा कठिन काम है । इसके लिए भी सहृदयता की आवश्यकता है । पटने या सुनने वाला 'साहबे दिल' होना चाहिये । सहृदयता नष्ट होने पर कविता का नामो-निशान भी बाक़ी नहीं रह सकता । सहृदयता ही है, जो कविता को जीवित रख रही है । कवि के हृदय की बात को सहृदय ही समझ सकता है, चाहे वह कविता की एक पंक्ति भी न लिख सकता हो । चन्द्रमा को देख कर जैसा आनन्द चकोर को होता है, वैसा और किसी को नहीं ।

को जाने कवि के बिना कविता को आनन्द ।

सुख चकोर को-सो भला किन पायो लखि चन्द ॥

हृदयहीन श्रोता को - चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों न हो—
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काव्य सुनाइये, परन्तु उसे कुछ भी आनन्द प्राप्त न होगा । ऐसे व्यक्ति को कविता देवी के दर्शन कराना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है । किसी कवि ने इस प्रकार के शुष्क श्रोताओं से तग आकर ही आनन्द-कन्द सच्चिदानन्द से प्रार्थना की है—

इतर कर्मफलानि यथेच्छया,

विलिखितानि सखे चतुरानन !

अरसिकेषु कवित्व निवेदनम्,

शिरसि मालिख, मालिख, मालिख ।

हे विधाता ! भले ही तू मुझे नरक में डाल दे, सख्त से सख्त सज़ा दे दे, भयकर से भयंकर दुःखों की अग्नि में तपा ले, चाहे जैसे कष्टों का केन्द्र बना, परन्तु यह दण्ड मत दे कि मेरी कविता हृदयहीन अरसिकों के आगे पढी जाय । कोई उपाय नहीं जो अरसिकों को कविता का सौंदर्य

समझाया जा सके, या उन्हें काव्य का लोकोत्तरानन्द अनुभव कराया जा सके। ऐसे ही हृदयहीन लोगों के लिए शङ्करजी ने कहा है -

भरिवो है समुद्र को शम्भुक मे छिति को छिगुनी पर धारिवो है,
बँधिवो है मृणाल सों मत्त करी जुही फूल सों शैल विदारिवो है।
गनिवो है सितारेन को कवि 'शङ्कर' रेनु ते नेल निकारिवो है,
कविता समुभाइवो मृदन कौ सविता गहि भूमि पै डारिवो है।

कहने का अभिप्राय यह है कि प्रथम तो संसार मे मनुष्य-जन्म पाना ही कठिन है, मनुष्य-जन्म मिल भी गया तो विद्या सुशिकल मे हासिल होती है, विद्वान् भी हो गए तो कविता की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। कविता भी आगई तो कविता की जान—कवित्वशक्ति प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार कवि होना कठिन है, उसी प्रकार काव्य-मर्मज्ञ होने के लिए भी परमात्मा के अनुग्रह की आवश्यकता है। कवि की लेखनी मे बड़ी शक्ति होती है। उसके कलम की नोक बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ कराने मे समर्थ हुई है, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में वह समान रूप से चलती है। इसीलिए कवि का इतना ऊँचा पद माना गया है। उसे कवीश्वर और कविराज की उपाधि दी गई है।

जिसकी उपासना परमात्मा तक ने की हो, जिसकी सत्ता-महत्ता से सृष्टि का प्रत्येक परमाणु ओत-प्रोत हो, जिसकी अपूर्व आभा प्रकृति के वन, उपवन, पुष्प, लता-पताओं से प्रस्फुटित हो रही हो, जिसकी वेदी पर आदि कवि वाल्मीकि ने श्रद्धाञ्जलि अर्पित की हो, कालिदास ने भेट चढ़ाई हो, तुलसीदास ने प्रेम-प्रसून समर्पित किये हों उस कवितादेवी का पक्का पुजारी बनने के लिए कितनी साधना की आवश्यकता है, यह बात थोड़ा विचार करने पर ही बड़ी आसानी से समझ मे आ जाती है। कविता के लिए निश्चिन्त होने की बड़ी आवश्यकता है। जिस देश मे खान-पान और रहन-सहन तक की यथोचित व्यवस्था न हो, उसमें कवि-

न्योचित प्रतिभा का विकास कठिनता से ही हो सकता है। फिर भी इस रिक्र देश में कवियों का प्रादुर्भाव होता ही रहा है।

पहले ही कहा जा चुका है कि जो कविता केवल धन या यशप्राप्ति के उद्देश्य में की जाती है, वह वास्तविक गुण से हीन हो जाती है, उसमें कवि प्रतिभा का यथोचित विकास और रसका पूर्ण परिपाक नहीं होता। तन्वीअत पर बड़ा दबाव सा पड़ा रहता है, एक लिप्सा-सी बनी रहती है, जो कवि को प्रकृत वस्तु की ओर न ले जाकर किसी कृत्रिम मार्ग की ओर ढकेलती है। शुद्ध भावना से की गई कविता में ही कवि का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। अक्षर-अक्षर से हृदयोद्गार फूट निकलता है। ऐसे प्रतिभाशाली कवि की कीर्ति पताका फहराए बिना नहीं रहती। इतिहास साक्षी है कि प्राञ्जल काव्य-रचना के कारण कवि लोग धन और मान से बराबर सत्कृत किये जाते रहे हैं।

आर्थिक दृष्टि से भी कवि देश का बड़ा उपकार करते हैं। तुलसीदास को ही देखिये, उनके रामचरित-मानस के अब तक सैकड़ों संस्करण निकल चुके, चिनके कारण प्रकाशकों को करोड़ों रुपये की प्राप्ति हुई, कथावाचकों ने लाखों रुपये कमाए। यही बात महाभारत, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्भागवत आदि के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अभिप्राय यह कि सच्चे कवि राष्ट्र की महान् सेवा करते हैं। जनता में जीवन-ज्योति जगाना, लोक-रञ्जन करना, शिक्षा-सुधा पिलाना, सादाचारिक आदर्शों की ओर ले जाते हुए, युग का प्रतिनिधि बनना और फिर देश की कोश-वृद्धि के लिए एक विभूति छोड़ जाना कोई साधारण बात नहीं है। कवि स्वयं बहुत दिनों तक जीवित रहता है, और अपने चरितनायक को भी चिरायु करता है। जिस देश में जितने ही सत्कवि जन्म लेते हैं, वह देश उतना ही गौरवशाली समझा जाता है।

सत्कवियों ने विषादयुक्त जीवनो को हर्षपूर्ण बनाने और पीड़ित-प्रताड़ितों को सात्वना देने में कमाल कर दिखाया है। आधि-व्याधियों से तप्त मनुष्यों को काव्यमय उपदेश कितना सहारा देता है ! वस्तुतः

काव्य वह विभूति है, जिसके द्वारा मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों को सुधार कर अनुपम आनन्द का अधिकारी बन सकता है। जो काव्य सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, लाभ-हानि, जीवन-मृत्यु प्रत्येक अवस्था में सहृदयों के हृदय का हार बन कर उनके अमरत्व की प्राप्ति कराने में सहायक होता है, उसे ब्रह्मानन्द का सहोदर कहना उचित ही है। किसी ने ठीक कहा है कि सत्कवि के लिए साम्राज्य भी तुच्छ है। जिस देश का काव्य-साहित्य जितना ही कम होता है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी उतनी ही न्यून समझी जाती है। किसी जाति की गौरव-गरिमा का अनुमान करने के लिए उसके वाङ्मय—विशेष कर—काव्य-साहित्य की ओर दृष्टिपात करना चाहिये। उसी से उसकी महत्ता और श्रेष्ठता का असली अन्दाज़ लग सकेगा।

रस क्या है ?

संसार रगभूमि है। इसमें विविध जीवधारी, अभिनेताओं के रूप में, अपने जीवन-नाटक का अभिनय किया करते हैं। स्वयं परमात्मा सब से बड़ा सूत्रधार है जो रात-दिन प्रकृति नटी को नचाता रहता है। जगत् में सब लोग सुख चाहते हैं—शारीरिक और मानसिक। इसी उद्योग में वे सदैव संलग्न भी दिखाई देते हैं। संसार में तरह-तरह के सुख हैं, और नहीं तो, उन क्षणिक सुखों के कारण ही, थोड़ी देर के लिये, जीवन में सरसता आ जाती है। जिस ब्रह्मानन्द की खोज में योगी लोग लगे रहते हैं, उसकी तो बात ही निराली है। क्षणिक सुख के लिये ही सही, संसार में नाटक, सिनेमा आदि की कल्पना की गई, काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए। उनमें प्रायः वे दृश्य अंकित किये गए जो हृदय को आनन्द देने वाले हैं। ये तो संसार में न जाने कितनी घटनाएँ घटती रहती हैं, परन्तु अलौकिक घटनाओं को मनुष्य बार-बार देखना और सुनना चाहता है। सत्यव्रती हरिश्चन्द्र की पवित्र कथा, भगवान् रामचन्द्र का आदर्श चरित्र, भक्त प्रह्लाद की चारु चर्चा और महाभारत के अनेक दृश्य इसीलिए नाटकों तथा चित्रपटों द्वारा बार-बार दर्शकों के सामने आते हैं। वस्तुतः इस प्रकार के दृश्यों को देखकर दर्शकों को अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है। वे संसार की चिन्ताओं से मुक्त होकर, कुछ काल के लिए, आनन्द-विभोर हो जाते हैं। नाटकीय दृश्य ही क्यों, उन कल्पित कथाओं का काव्यमय वर्णन भी सहृदय पाठकों के हृदयों को आनन्द से भर देता है। इसीलिए काव्य के दो भेद किये गए हैं—दृश्य और अव्य। शकुन्तला नाटक आदि दृश्य काव्यों में हैं, और महाभारत रामायण आदि अव्य काव्यों में, क्योंकि इनके सुनने-समझने में ही अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है। दृश्य या अव्य काव्य

के देखने, पढ़ने या सुनने में तन्मयताजनित जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है, वही रस है। इसी रस की चर्चा और व्याख्या रस सम्बन्धी ग्रन्थों में की गई है।

सब जीवधारियों में एक ही आत्मा काम कर रही है, इसीलिए एक का सुख-दुःख दूसरे के अनुभव होता रहता है। परमात्मा ने पशु-पक्षियों को बुद्धि नहीं दी। यह साधन मनुष्य को ही प्रदान किया है, अतएव वह प्रत्येक बात को बड़ी समझदारी और छान-बीन के साथ सोचा-विचारा करता है। उसमें सहानुभूति और संवेदनशीलता अत्यधिक होती है। पशु-पक्षी सहज बुद्धि से प्रेरित होकर ही सारे काम करते हैं। उनमें प्रज्ञा का अभाव है, अतएव सब जीवों में मनुष्य की ही प्रधानता है। मनुष्यों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके हृदय पर किसी घटना या किसी के सुख-दुःख का कुछ भी असर नहीं होता। उन्हें न संगीत प्रभावित करता है, न साहित्य। वे किसी को सुखी देखकर न सुखी होते हैं, और न दुखी देखकर दुखी। ऐसे साहित्य-संगीत-कला-शून्य हृदयहीन व्यक्तियों को ही भगवान् भर्तृहरि ने बिना सींग-पूँछ का पशु कहा है—साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाण्य हीनः। इत्यादि

कविता में रसकी ही प्रधानता है। रसके बिना कविता कविता नहीं मानी जाती। अगर कविता में रस नहीं, तो वह शब्दों की लाश या तुकों के लोथड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। रस-स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों की विविध कल्पनाएँ हैं। कुछ आचार्यों की सम्मति में अलंकृत पंक्तियों का नाम ही रस है। कुछ लोग छन्द की छबीली छाया में घूमते-फिरते सुन्दर शब्द-समूह को ही रस-संज्ञा देते हैं। उनकी सम्मति में छन्द-कौशल दिखलाना ही कविता की जान है। परन्तु अलंकारों और छन्दादि को काव्य की आत्मा समझना उसी प्रकार है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति मृतक को साबुन से न्हिला-धुलाकर उस पर अङ्गराग लेपन कर दे, और उसे सुन्दर वस्त्राभूषणों से सजा दे; और फिर गर्व पूर्वक कहे—देखिए कैसा

सुन्दर व्यक्ति है। कुछ आचार्यों की सम्मति में रीति-ग्रन्थों में वर्णित काव्य के गुण ही काव्य की आत्मा हैं। अर्थात् यदि किसी कविता में ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता और अर्थ-व्यक्ति इन नौ में से एक या अनेक गुण आ जायें, तो उसे ही कविता की आत्मा समझ लेना चाहिये। परन्तु ये गुण तो कविता के बाह्य शरीर से सम्बन्ध रखते हैं। आत्मा से उनका कोई सरोकार नहीं। यदि हम किसी कविता का अर्थ आसानी से समझ लेते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, परन्तु यह कहना कठिन है कि इस गुण के कारण वह रचना काव्यमयी हो गई या उसमें लोकोत्तरानन्द आगया। यही बात उपर्युक्त अन्य गुणों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। फलतः रीति सम्बन्धी गुणों के कारण कविता सरस नहीं हो सकती।

कुछ आचार्य ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। उनका कहना है कि कविता में वाच्यार्थ से भिन्न जो व्यंग्यार्थ है, वही ध्वनि है, उसी को कविता की जान समझना चाहिये। जिस प्रकार सुन्दर अंग-प्रत्यंग युक्त अलंकृत युवती के शरीर में लावण्य अपनी छटा दिखाता रहता है, उसी प्रकार रससिद्ध कवियों की कृति में ध्वनि या व्यंग्य की आभा चमकती रहती है। यह आभा न कोमलकान्त पदावली से प्रस्फुटित होती है, और न छन्दों या अलङ्कारों की सृष्टि से। वह तो भव्य भावों से अपने आप छिटकने लगती है। इन आचार्यों की सम्मति में व्यंग्यात्मक लावण्य का नाम ही आत्मा है।

कुछ आचार्यों ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। वक्रोक्ति एक अलङ्कार है, जिसमें वक्ता के आशय के विरुद्ध किसी और ही अभिप्राय की कल्पना कर ली जाती है। जैसे आगरे में कोई व्यक्ति साधारण रूप से भी कहे कि “मैं सोठ की मंडी जाना चाहता हूँ,” तो भोता लोग कहने लगेंगे—‘हाँ हाँ, अवश्य जाइये, अवश्य जाइये, आप सोठ की मंडी जाने योग्य ही हैं।’ वास्तविक बात यह है कि आगरे का मानसिक अस्पताल (पागलखाना) सोंठ की मंडी में है, अतएव यहाँ सोंठ की

मंडी जाना, पागलखाना-प्रवेश के अर्थ में एक मुहाविरा-सा बन गया है। इसी प्रकार महाकवि बिहारी ने एक स्थान पर लिखा है—

“ को घटि यै बृषभानुजा वै हलधर के वीर ”

अरे साहब, इनमें किसी से घटिया कौन है ! राधाजी वृषभ + अनुजा अर्थात् बैल की छोटी बहन हैं, तो कृष्णजी हलधर (बैल) के वीर (भाई) हैं। कैसा सुन्दर सुयोग है, एक बैल की बहन है, तो दूसरे बैल के भाई। परन्तु वास्तव में बात यह है कि राधाजी वृषभानु + जा अर्थात् वृषभानु की पुत्री हैं, और श्रीकृष्ण हलधर (बलराम) के भाई हैं। प्रकृतार्थ यही है, परन्तु शब्द-कौशल द्वारा कवि ने साधारण-सी बात में एक अद्भुत सौन्दर्य भर दिया है, यही वक्रोक्ति अलंकार है। पहले ही कहा गया है कि अलङ्कारों से कविता में कुछ सौन्दर्य तो आ जाता है, परन्तु उसमें जान नहीं पड़ती। उपर्युक्त उदाहरण में शब्दों की कलाबाज़ी तो दिखाई देती है, परन्तु भाव में कोई विशेष चमत्कार नहीं देख पड़ता। इसलिए कहना पड़ता है कि वक्रोक्ति कविता की आत्मा नहीं है।

साहित्य दर्पणकार ने 'रसात्मक वाक्य' को ही काव्य माना है। जिस काव्य में रस अथवा चमत्कार है, उसे ही उन्होंने काव्य-संज्ञा दी है। रस क्या है, इसकी विविध आचार्यों ने विविध प्रकार से व्याख्या की है। परन्तु वास्तव में रस का अर्थ है—“ रस्यते आस्वादयतेऽसौ रसः ” अर्थात् जो चखा जाय यानी जिसका आस्वादन-चर्वण किया जाय वही रस है। किसी वस्तु को स्वाद से खाने का मतलब यही है कि उसके खाते समय आनन्द प्राप्त हो। जिस चीज़ के खाने में आनन्द आता है, उसे ही स्वाद के साथ खाना कहते हैं। नीम के रस या गिलोय के काढ़े को कोई भी स्वाद के साथ नहीं पीता। तो रस का अर्थ यह हुआ कि जिसके तन्मयी भाव के अनन्तर आस्वादन से आनन्द प्राप्त होता है, वही रस है।

पण्डितराज विश्वनाथ ने रस की व्याख्या इस प्रकार की है—

विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा ।
रसतामेति रत्यादि स्थायिभावः सचेतसाम् ॥

—साहित्यदर्पण

अर्थात् सहृदयों के हृदयों में स्थित वासना रूप रति आदि स्थायी भाव ही विभाव-अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर, रस-रूप को प्राप्त होते हैं। काव्यादि के सुनने अथवा नाटकादि के देखने से आलम्बन, उद्दीपन विभावों, भ्रूविक्षेप कटाक्षादि अनुभावों और निर्वेद-ग्लानि आदि संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर सहृदय जनों के हृदयों में स्थित वासना स्वरूप रति, हास, शोक आदि स्थायीभाव, शृङ्गार, हास्य, करुण आदि रसों के स्वरूप में परिणत होते हैं। रस-निरूपण के सम्बन्ध में आचार्यों ने बड़े-बड़े शास्त्रार्थ किए हैं। उस विस्तृत विचार का जो परिणाम है, वही ऊपर दिया गया है। वस्तुतः रस का स्वरूप अलौकिक और अनिर्वचनीय है। केवल सहृदय जन ही उसका अनुभव या आस्वादन कर सकते हैं।

काव्य में मुख्यतः नव रस माने गए हैं, अर्थात् शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त। इन रसों में शृङ्गार रस की ही प्रधानता है। इसी से उसे रसरज भी कहते हैं। कुछ आचार्यों ने शृङ्गार रस ही सब रसों का मूल माना है। साहित्य-दर्पणकार के पितामह नारायण तर्कवागीश ने अद्भुत रस को ही रस की आत्मा माना है, अन्यो को नहीं। उनकी सम्मति में चमत्कार या विस्मय ही रस का प्राण है। इसी प्रकार उत्तर रामचरितकार करुण रस को ही सब कुछ मानते हैं। वे कहते हैं कि करुण से पैदा हुए अन्य रस भिन्न दिखाई देते हुए भी भिन्न नहीं हैं। नाट्य शास्त्रकार भरतमुनि ने शृङ्गार आदि आठ ही रस माने हैं, नरक शान्तरस नहीं माना। काव्य-प्रकाशकार नव रसों को मानते हैं।

कुछ लोग भक्ति और वात्सल्य को भी रस मानते हैं, कुछ आचार्यों का कहना है कि भक्ति और वात्सल्य शृङ्गार के ही भेद हैं। वात्सल्य को रस मानने वालों में साहित्यदर्पणकार मुख्य हैं। अभिप्राय यह कि वात्सल्य और शृङ्गार में अभेद एवं भेद दोनों के हो मानने वाले हैं। इन दोनों में भेद मानने वाले अनुभव पर बल देते हुए मानते हैं कि स्त्री-पुरुष विषयक रति और वात्सल्य में तत्त्वतः भेद है। क्योंकि दोनों की प्रेरक वासनाएँ एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं। फ्रायड और उनके अनुयायी विरोधी मत के पोषक हैं। उनके मतानुसार उक्त दोनों भावों की प्रेरक वासनाओं में कोई अन्तर नहीं है। जो वासना स्त्री पुरुष विषयक रति में काम करती है, वही सतति स्नेह में भी। पिता और माता अपनी सन्तान से इस कारण स्नेह करते हैं कि वे उसमें एक दूसरे के अंश का अनुभव कर, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यदि यह कहा जाय कि हम दूसरों के बालकों में भी स्नेह करते हैं, तो यह उत्तर दिया जायगा कि न कोई पुरुष पूर्णरूपीत्या पुरुष है, और न कोई स्त्री पूर्णरूपीत्या स्त्री। दोनों में दोनों के अंश विद्यमान रहते हैं। फलतः यदि हम किसी बालक की ओर आकर्षित होते हैं, तो उसके पुरुष भाव की ओर नहीं, वरन् स्त्री भाव की ओर। और इस प्रकार वात्सल्य स्त्री-पुरुष विषयक रति से भिन्न कुछ नहीं है।

शृङ्गार रस की मुख्यता स्पष्ट है, क्योंकि सुद्धि-रचना का मूलाधार वही है। भरतमुनि ने तो रति और काम को शृङ्गार के माता-पिता का रूप दिया है। शृङ्गार बहुत व्यापक है, वह मनुष्य तक ही सीमित नहीं, पशु पक्षियों और वनस्पतियों तक पर इसका प्रभाव है।

प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव माना गया है, अर्थात् शृङ्गार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का आश्चर्य और शान्त का निर्वेद। ये स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होते हैं, तभी रसों की प्राप्ति होती है। अनुभाव-विभावादि की व्याख्या उनके वर्णन

में की जायगी। स्थायी भाव आदि से अन्त तक रहता और यही रस-रूप को प्राप्त होता है। विभावादि जब पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं, तब उनकी 'हेतु' संज्ञा होती है। जहाँ भावना के बल और व्यञ्जना की महिमा से आस्वाद्यमान सब सम्मिलित विभावादिक सङ्घटनों के हृदयों में प्रपानक रस की भाँति अखण्ड एक रस के रूप में परिणत हो जाते हैं वहीं रस की अनुभूति होती है। जैसे किसी प्रपानक रस में खोंड़, मिर्च, ज़ीरा, हींग आदि के सम्मेलन से एक अपूर्व—उन सबके पृथक्-पृथक् स्वाद से विलक्षण—आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार विभावादि के सम्मेलन से एक अपूर्व रसास्वाद पैदा होता है, जो विभावादि के पृथक्-पृथक् आस्वाद से विलक्षण होता है।

साहित्य-दर्पणकार का उपर्युक्त प्रपानक सम्बन्धी दृष्टान्त कैसा सुन्दर है। हम अपने साधारण जीवन में भी देखते हैं कि नमक-मिर्च, मसाला, घी और ज़मीकन्द के अलग-अलग चखने पर कुछ भी मज़ा नहीं आता, परन्तु जब इन सबका उचित मात्रा में संयोग हो जाता है, तो शाक के रूप में एक ऐसा स्वादिष्ठ पदार्थ बन जाता है, कि जिसे खाते-खाते तबीयत नहीं भरती, लोग उँगली चाटते रह जाते हैं। मसाले, घी और ज़मीकन्द तीनों के योग से ही यह रस आस्वादन योग्य बना। यही बात काव्य-रस के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अर्थात् विभावादि के योग से ही स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है। स्थायी भाव हृदय में उसी प्रकार वासना रूप से रहते हैं, जिस प्रकार पृथिवी में गन्ध रहती है। ज़रा पानी पड़ते ही जिस तरह ज़मीन से खुशबू आने लगती है, उसी तरह विभावादि के कारण स्थायी भाव उद्बुद्ध हो जाता है। स्थायी भाव सदा स्थायी ही नहीं रहते, कभी-कभी वे संचारी का रूप भी धारण कर लेते हैं। अधिक विभावादि से उत्पन्न हुए रति आदि, स्थायी भाव होते हैं, और थोड़े विभादिकों से प्रसूत वे व्यभिचारी कहलाते हैं। स्थायी भाव संचारी के रूप में प्रकट होने पर रसत्व को प्राप्त नहीं होते। नाटकों के देखने या काव्यों के पढ़ने-सुनने से दर्शकों या पाठकों के हृदयों में

जो भाव स्थायी रूप से जाग्रत होता है, वही आगे चल कर रस बन जाता है। परन्तु सब दर्शकों और पाठकों की रुचि एक-सी नहीं होती, इसीलिये एक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से जाग्रत होता है, दूसरे के हृदय में वही अस्थायी बन जाता है। परिणाम यह होता है कि एकही दृश्य को देखने से सभी को समान आनन्द नहीं प्राप्त होता।

अभी कहा जा चुका है कि स्थायी भाव के साथ विभावादि का योग होने से ही रसोत्पत्ति होती है परन्तु कभी-कभी विभाव अनुभावादि तीनों में से एक के होने पर भी, रसत्व की प्राप्ति होती है। इसका समाधान साहित्यदर्पणकार ने यह किया है कि 'विभावादिकों में से दो अथवा एक के उपनिबद्ध होने पर, जहाँ प्रकरणादि के कारण दूसरे का भ्रष्ट से आक्षेप हो जाता है, वहाँ कुछ दोष नहीं होता।' आक्षेप का अर्थ है—व्यञ्जनीय रस के अनुकूल शेष (अन्य) दो भावों का भी बोध करा देना। इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि जब विभावादिकों में से, एक या दो के होने पर ही, रसत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो प्रकरणानुसार शेष दो या एक का अनुमान भी कर लिया जाता है।

कविरत्न स्वर्गीय सत्यनारायण के 'मालती-माधव' से इस विषय का एक उदाहरण दिया जाता है। देखिए—

मिसिली मुरभाई मृनालिनीसी दुबराइ गई जिह देह अमोल ।
जब संग सहेली सवै बिनवे कल्लु बेमन काज करै तब डोल ॥
हिय सोच तऊ अकलक मयक की सोभा लजावनहार मुलोल ।
नव कुजर दन्त कटे की अनन्त धरें छवि सुन्दर जाके कपोल ॥

उपर्युक्त सचैया संस्कृत 'मालती-माधव' के एक श्लोक का अनुवाद है। माधव मकरन्द से मालती की दशा का वर्णन कर रहा है। वह कहता है कि, मालती का शरीर मसली-मुरभाई कमल-नाल के समान हो गया है। किसी काम में उसकी ज़रा भी प्रवृत्ति नहीं रही। हाथी दाँत के नये कटे टुकड़े के समान उसके स्वेत कपोल निष्कलंक चन्द्रमा की शोभा

भारण करने लगे हैं। अर्थात् उनमें लालिमा का लेश भी शेष नहीं रहा। इस सवैया में मालती के अनुभावों का ही वर्णन है, और उन्हीं के द्वारा विभावादिकों का आक्षेप होकर, विप्रलम्भ शृंगार का आस्वादन होने लगता है।

उपर्युक्त उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रत्येक अवस्था में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों ही मिल कर स्थायीभाव को रसत्व तक पहुँचाते हैं। उनमें से एक या दो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जिस प्रकार एक ही अनुभाव और संचारी भाव कई रसों का होता है, उसी प्रकार एक विभाव भी कई रसों का विभाव बन जायगा। ऐसी अव्यवस्थित दशा में तो किसी रस का स्वरूप ही निश्चित न हो सकेगा। 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' कहने वाले साहित्यदर्पणकार कविराज विश्वनाथ का भी यही मत है, जो परम माननीय है। अर्थात् विभावादि द्वारा स्थायी भावों के पुष्ट होने से ही रस बनता है। अकेला स्थायी भाव कुछ नहीं कर सकता।

जिस समय किसी नाटक या काव्य में करुणाजनक दृश्य या वर्णन आता है, उस समय सहृदय दर्शकों और पाठकों के हृदय द्रवीभूत होकर आँखों के रास्ते बहने लगते हैं। कभी कभी तो हिलकियाँ भी बँध जाती है। हास्य रस का प्रसङ्ग आने पर सब हँसते और वीर रस का वर्णन होने पर उत्साह से भर जाते हैं। अभिप्राय यह कि नाटक या काव्य में जो रस आता है, वही सहृदय-समाज को प्रभावित करता है, उस समय उसके आनन्द की सीमा नहीं रहती। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि करुण रस में कैसा आनन्द? जिस रस का स्थायी भाव शोक हो, उसमें सुख की कल्पना क्यों? इसका सीधा उत्तर यह है कि राम-वनवासादि जो लोक में जनता के दुःख के कारण होते हैं, वे हो काव्य में वर्णित होने पर अलौकिक विभावन-व्यापार द्वारा सामाजिक जनों के मन में सुख उत्पन्न करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि लौकिक शोक हर्षादि कारणों से लौकिक शोक हर्षादि ही उत्पन्न होते हैं, और काव्य में सब विभावादिकों

से सुख ही पैदा होता है। रसानन्द के सम्बन्ध में, हमारी समझ से, एक यह विचार-धारा भी हो सकती है कि मान लीजिए महाराज रामचन्द्र सानुज और सपत्नीक बन जा रहे हैं। उनको राजकीय वेश-भूषा विहीन, बल्कलादि धारण किये वन-वन भटकते देख घोर दुःख होता है। साथ ही उनके पितु-आशा-पालन रूप उद्देश्य की पवित्रता का स्मरण कर परम प्रसन्नता होती है। राम-सीता और लक्ष्मण अपने सुकार्य-कलाप द्वारा संसार के सामने एक ऊँचा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, जिसके अनुकरण की अभिलाषा मात्र भी परम प्रसन्नतादायिनी है। यही बात सत्यव्रती हरिश्चन्द्र, भक्त-प्रवर प्रह्लाद आदि के चार चरित्रों में दिखाई देती है।

नाटक देखने तथा काव्यों के पढ़ने से दर्शकों और पाठकों को जिस अलौकिक आनन्द की उपलब्धि होती है, वही रस कहाता है। सांसारिक पदार्थों के देखने या उनकी प्राप्ति-अप्राप्ति के कारण मन में जो सुख-दुःखादि विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों की उत्पादिका सामग्री ही साहित्य-शास्त्र में रस-सामग्री कहलाती है। जैसे किसी आदमी के गाली देने पर, हमारे मन में सहसा जो क्रोध उत्पन्न होता है, वही मनोविकार है। इस मनोविकार के कारण हमारी आँखें लाल हो जाती हैं और ओठ फड़कने लगते हैं। कभी-कभी गाली देने वाले को पीटने के लिए भी तबीयत चाहती है। यहाँ गाली हमारे क्रोध का कारण हुई, और ओठ फड़कना आदि कार्य। यदि उस गाली देने वाले ने कभी पहले भी हमें गाली दी, या कोई हानि पहुँचाई है तो उस समय उसका भी स्मरण हो आने से हमारा क्रोध और भी बढ़ जाता है। यदि किसी घटना या दृश्य से उत्पन्न इसी प्रकार के मनोविकार का वर्णन कोई सत्कवि अपने काव्य में करता है, तो उसे पढ़कर सदृढ पाठक के हृदय में भी वैसे ही मनोविकार जाग्रत होते हैं। उस समय उस काव्य के पढ़ने में जो आनन्द अनुभव होता है, वही रस कहाता है। गाली सुनने के कारण हमारे हृदय में जो क्रोध जाग्रत हुआ, साहित्य की परिभाषा में वह स्थायी

भाव, गाली और गाली देने वाला विभाव, ओठ फड़कना आदि अनुभाव, और पुरानी बातों को स्मरण कर अधिक क्रुद्ध होना संचारी भाव कहाता है। यही सब रस-सामग्री है। इन्हीं सबके संयोग से रस की उत्पत्ति होती है।

जिस समय रंगमंच पर कोई नाटक होता है, उस समय कुशल अभिनेता और अभिनेत्रियों के अभिनय देखकर कभी दर्शकों के हृदय आनन्द से उमड़ते, कभी उनके नेत्रों से आँसू बहते, कभी वे घृणा के कारण थू-थू करते, कभी क्रोध से काँपते, कभी उत्साह से उछलते, कभी भय से भीत होते और कभी आश्चर्य से हक्के-बक्के रह जाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत होता है मानो ससार में कुछ है ही नहीं, जीवन नश्वर है, दुनिया एक सराय है, जहाँ से जल्द ही कूच कर जाना है। सामाजिकों के मन में, इस प्रकार के भावों की तन्मयता पूर्वक उत्पत्ति होना ही रसात्मकता है। इसी रसात्मकता में सहृदय सामाजिक आनन्द-लाभ करते हैं। काव्य में भी जब इसी प्रकार की रसात्मकता होती है, तो वहाँ भी पाठक के हृदय में नाटकों के से भाव जाग्रत होने लगते हैं, और लगभग वैसी ही आनन्द अनुभव होता है। यह काव्य की रसात्मकता है। जिस काव्य में सहृदय-समाज को मन्त्रमुग्ध कर देने की शक्ति है, वही उत्तम काव्य है।

रसों का विशेष सम्बन्ध मानसिक क्रिया से है। सुख, दुःख, प्रेम, हर्ष, भय, शोक, मोह, क्रोध इत्यादि वृत्तियाँ मन की ही उपज हैं। इन वृत्तियों का मन, शरीर एवं इन्द्रियों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी के आधार पर रसों की उत्पत्ति होती है।

रसात्मक काव्यों में अलंकारों की अनावश्यक और अप्रासंगिक ठूस-ढाँस न होनी चाहिये। स्वाभाविक रीति से सहसा जो अलङ्कार आ जाय वही ठीक है। रूपकादि भी रस-काव्य के लिए गौण होने चाहिये।

रसोत्पत्ति में विभावन, अनुभावन और सञ्चारण तीन कार्य होते हैं। रत्यादि को विशेष रूप से आस्वादिन योग्य बनाना विभावन कहाता

है। आस्वादन योग्य बने हुए रत्यादि को रसत्व प्राप्त कराना अनुभावन कहलाता है। और रसरूप प्राप्त होने पर सम्यक् रीति से उसका संचार करना संचारण कहलाता है। रस की उत्पत्ति व्यञ्जना द्वारा होती है, क्योंकि लक्षणा और अभिधा द्वारा रसानन्द प्राप्त नहीं होता।

नाटक या काव्य में वह कौन-सी शक्ति है, जो लोगों पर इस प्रकार प्रभाव डालती है ? व्याख्याता की वाणी में वह कौन-सा जादू है, जिसके कारण वह श्रोताओं को मुठी में कर लेता है ? उन्हें रुलाना, हँसाना, भयभीत एव आश्चर्यान्वित कर देना उसके बाएँ हाथ का खेल बन जाता है ? इसका उत्तर यह है कि जब श्रव्य या दृश्य काव्य, सद्दृश्यों के हृदयों में स्थित वासना-रूप स्थायी भावों को जगा कर, उन्हें विभाव-अनुभाव और संचारी भावों द्वारा पुष्ट करते हुए, रसत्व तक पहुँचाते हैं, तभी यह आनन्द प्राप्त होता है। राम को वन जाते देख कर दर्शकों के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, उनको वल्कल वस्त्र धारण करते देख शोक की मात्रा और भी बढ़ी, कण्ठावरोध हुआ, आँखों से आँसू बह निकले और जब तक वह दृश्य सामने रहा, बराबर मोह, विषाद, चिन्ता आदि के भाव बने रहे। यही करुणारस हो गया। क्योंकि राम-वन-गमन आलम्बन, वल्कल वस्त्रादि उद्दीपन, अभ्रुपात और गद्गद् स्वर अनुभाव तथा मोह, विषाद, चिन्ता इत्यादि संचारी भाव एक स्थान पर आ मिले। यही सब स्थायी भाव को रसत्व तक पहुँचाने के लिए आवश्यक भी थे।

उपर्युक्त कसौटी पर आप किसी भी रस को कस लीजिये, सब ही में ये बातें परिलक्षित होंगी। स्थायी भाव के आधार पर ही रस की सृष्टि रची जाती है। कभी-कभी मल-मूत्रादि से भी बीभत्स रस की कल्पना नहीं होती। जैसे किसी का पिता रोग शैया पर पड़ा है, उसे बुरी तरह दस्त हो रहे हैं, बार-बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, चारों ओर मन्त्रियाँ भिनक रही हैं। पास ही 'बेड-पैन' या मलभाण्ड रक्खा है, परन्तु पुत्रादि परिचारकों को उन सबसे दूरा भी जुगुप्सा नहीं होती, उनके

हृदय में उस समय विषादपूर्ण परिस्थिति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। रोगी की परिचर्या करना ही उनका कर्तव्य है, ऐसी अवस्था में परिचारकों का स्थायी भाव जुगुप्सा न होकर शोक होगा; जो विभावादिक से परिपुष्ट होकर कर्णरस में परिष्कृत हो जायगा। अभिप्राय यह कि जिस दृश्य को देख कर हृदय में जो स्थायी भाव जाग्रत होता है, उसी की अन्य भावों की सहायता से रस संज्ञा होती है। यह एक लौकिक दृष्टान्त है। इसी प्रकार अलौकिक रस के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए।

नाटक या सिनेमा किसी वास्तविक घटना की नक़ल होते हैं, अथवा उनमें ऐसी कल्पित घटनाएँ अभिनीत की जाती हैं, जो वास्तविकता का रूप धारण कर चुकीं या कर सकती हैं। काव्यों में इसी प्रकार के दृश्यों, कथानकों अथवा भावों का चमत्कारपूर्ण वर्णन होता है। किसी सुन्दरी को देख कर किस सासारिक के हृदय में लौकिक रति उत्पन्न नहीं होती। शोकपूर्ण परिस्थिति में कौन आठ-आठ आँसू नहीं रोता। अपमान या इष्ट-हानि देख कर किसे क्रोध नहीं आता! उत्साह-भावना जाग्रत होने पर वीररस की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहती। हास्यपूर्ण परिस्थिति के कारण सभी हँस पड़ते हैं, आश्चर्य की बातें किसे चकित नहीं करतीं। भयकर बातों से भयभीत होना सभी के लिए समान है। धिनोनी बातें सुन या धिनोने दृश्य देख कर ग्लानि हुए बिना नहीं रहती। अभिप्राय यह कि रात-दिन के जीवन में भी हमारे ऊपर विविध घटनाओं का प्रभाव पड़ता रहता है, और हम उनके द्वारा उत्पन्न रसों का आस्वादन करने में सदैव अग्रसर रहते हैं।

काव्यों और नाटकों में रत्यादि स्थायी भावों का जो वर्णन आता है, उसका किसी सासारिक व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध नहीं होता, और न लौकिक नायक-नायिकाओं से ही। वे रत्यादि भाव तो एक सामान्य स्थायी भाव के रूप में मनुष्य के निमित्त मात्र से सब के आनन्द का कारण होते हैं।

रति आदि स्थायी भावों के सम्बन्ध में यह पूछा जा सकता है, कि जब वे स्थायी हैं, तो अपना स्थान छोड़ कर अन्य रसों के व्यभिचारी क्यों बन जाते हैं । अथवा अन्य व्यभिचारी भाव स्थायी क्यों नहीं बन सकते । भरतमुनि ने इसका बड़ा सुन्दर उत्तर दिया है । वे कहते हैं कि जिस प्रकार सभी मनुष्य राजा न बनकर विशिष्ट और समर्थ व्यक्ति ही राजा बनते हैं, उसी प्रकार सब भाव स्थायी भाव नहीं हो सकते । जिस तरह सब व्यक्ति राजा न बनकर शासन करने की योग्यता रखने वाला विशिष्ट व्यक्ति ही राजा बनता है, उसी प्रकार रसत्व प्राप्त करने की विशेष सामर्थ्य रखने के कारण, रति आदि ही स्थायी कहलाते हैं । जिस प्रकार कोई राजा, अपने प्रतिनिधि को शासन-कार्य सौंप कर अन्यत्र चले जाने के कारण, पद-भ्रष्ट नहीं समझा जाता, उसी प्रकार स्थायी भाव संचारी बन जाने पर भी अपने स्थायित्व से वञ्चित नहीं होते ।

रसों के आस्वादन से आनन्द-प्राप्ति की चर्चा ऊपर की जा चुकी है । यह भी बताया जा चुका है कि कण्ठ रस में किस प्रकार आनन्द-प्राप्ति होती है । शृंगार रस के आनन्द से कोई इन्कार नहीं कर सकता, रौद्र रस का आनन्द देखिए—धनुषभंग के समय जब परशुरामजी और लक्ष्मणजी के बीच गर्वोक्तियों का आदान-प्रदान हुआ, उस समय किस सामाजिक का हृदय आनन्द से न भर गया होगा । ‘ कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ ’ की गर्वोक्ति ने कितने हताश हृदयों में आशा का संचार नहीं कर दिया, कितने भग्न हृदयों को नहीं जोड़ दिया । लक्ष्मण के फड़कते हुए ओठों से निकले हुए शब्दों ने जनक-परिवार को अपार आनन्द प्रदान किया । यह रौद्ररस की महिमा है । युद्ध में वैरियों का संहार किसे आनन्दित नहीं करता । फिर शत्रुओं के रुधिर की धारा बहना, घायलों का बुरी तरह छुटपटाना, कौत्रों और गिद्धों का लाशों को नोंच-नोंच कर खाना आदि कार्य बीभत्स होते हुए भी शत्रु की हानि के कारण आनन्द-बर्द्धक हैं । एक ओर वैरी की दर्दशा होने के कारण आनन्द मनाया जा

योद्धाओं ने वीरगति प्राप्त की ! प्राण दे दिये परन्तु पीठ न दिखाई !! निदान यह बीभत्स व्यापार भी आनन्ददायक ही है । एक ओर विजय की भावना है, और दूसरी ओर कर्तव्य-पालन की वेदी पर अर्पित हो चुकने की प्रसन्नता ।

काव्यों और नाटकों में ही रस होता है, सो बात नहीं है । जब कोयल बोलती है, तो उसकी वाणी में भी रस प्रतीत होता है । पपीहा की पीउ-पीउ में भी सरस मादकता है । सितार-सारंगी, वीणा आदि वाद्यों की ध्वनि में कैसा माधुर्य है ! स्वादिष्ट व्यञ्जनों में भी रस होता है । षट्‌रस भोजन प्रसिद्ध ही है । सुगन्ध भी मस्त कर देती है, परन्तु सब से अधिक मादकता सौन्दर्य में है, चाहे वह रूप का सौन्दर्य हो, चाहे वाणी का ; चाहे भाव का हो, चाहे ध्वनि का । वाद्यों की अर्थहीन ध्वनि के साथ जब सार्थक वार्त्ता (काव्य) का सम्बन्ध हो जाता है, तो वह कैसी मोहक बन जाती है । साहित्य और सङ्गीत के सम्मेलन से स्वर्गीय आनन्द आने लगता है । यदि वह काव्य-धारा वास्तविक काव्य-धारा हुई, तब तो बात ही क्या है । वाद्य-ध्वनि केवल कानों में घुस कर थोड़ी देर के लिए मन को प्रसन्न कर सकती है, उसका देर तक असर नहीं रहता । परन्तु रसात्मक पंक्तियाँ हृत्तन्त्री को स्पर्श करती हुई, अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं । वास्तव में रसात्मकता इतनी विलक्षण होती है, कि वह सद्‌दयों पर जादू का काम करती है और उन्हें मन्त्र-मुग्ध कर देती है । इस रसात्मकता का नाम ही काव्य है, और संसार में ऐसे काव्य का ही मान है ।

एक बात और, काव्य, नाटक या संगीत का प्रभाव सद्‌दयता की मात्रा के अनुसार ही पड़ता है । बहुत-से शुष्क व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके हृदय की मरुभूमि में किसी रस की धारा नहीं बह सकती । कुछ हृदय ऐसे होते हैं, जिन पर रसों का पूरा प्रभाव तो नहीं पड़ता, परन्तु किसी अंश में पड़ता अवश्य है । और कुछ भावुक हृदय ऐसे हैं, जो रसों से आह्लावित हो जाते हैं । उन्हें उस समय रसमय तल्लीनता के

अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। रात-दिन के जीवन में ही देख लोजिये, एक वे कठोर हृदय हैं, जो किसी की करुण दशा देखकर हँसते हैं, और एक वे हैं जो फूटफूट कर रोने लगते हैं। सहृदयता और हृदयहीनता दोनों प्रकार के नमूने लोक में मौजूद हैं।

काव्यों की अपेक्षा नाटकों में रसों का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसका कारण यह है कि भाव-प्रदर्शन का अभिनय में जितना अवसर है, उतना काव्य में नहीं। काव्य के अर्थ आदि सोचने-समझने पर रस की प्रभावशालिता सिद्ध होती है, परन्तु नाटक में सब बातें अङ्ग-चेष्टादि द्वारा ज्यों की त्यों सामने आ जाती हैं। काव्य को समझने के लिए मर्मज्ञ होने की आवश्यकता है, परन्तु नाटक देखने के लिए उतनी मार्मिकता अपेक्षित नहीं। यही कारण है कि नाटक या सिनेमा से साधारण जनता अधिक प्रभावित होती है। उसे अभिनय में जितनी सरसता दिखाई देती है, उतनी काव्य-पाठ में नहीं। कहते हैं, रसों की सृष्टि सबसे पहले नाटकों के कारण ही हुई, और नाट्यशास्त्रकार भरतमुनि ने सर्वप्रथम इस विषय का वर्णन किया। रस की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ लोगों का कहना है कि वह नाटक के पात्रों की अङ्ग-चेष्टाओं, भावमञ्जियों और वेश-भूषाओं से होती है। कुछ लोग कहते हैं, कि अभिनेताओं की हृदयस्थ भावना ही रस की उत्पादिका है, परन्तु ये दोनों बातें नहीं हैं। अभिनेता गण हरिश्चन्द्र, ध्रुव, प्रह्लाद, राम, सीता, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि के हृदय कहाँ से ला सकते हैं। वस्तुतः रस तो उन सामाजिकों के हृदयों में ही उत्पन्न होता है, जो इन दृश्यों को देखकर तल्लीनता पूर्वक प्रभावित होते हैं। जब विभाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव स्थायी भाव से मिलते हैं, तब दर्शक के हृदय में रस की अनुभूति होती है।

वाल्मीकि रामायण सार का आदि काव्य कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण रस ही है। महामुनि वाल्मीकि निषाद द्वारा काम-मोहित क्रौञ्च पक्षी का वध देखकर अत्यन्त दुखी हुए, उनका

शोक करुण रस में बदल गया, और सहसा उनके मुँह से निम्नलिखित श्लोक निकल पड़ा—

“ मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः ।

यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधीः काममोहितम् ॥ ”

अरे दुष्ट निषाद ! तू चिरकाल तक प्रतिष्ठा (मोक्ष) लाभ न कर सकेगा, क्योंकि तैने कामोन्मत्त क्रौञ्च पक्षी के जोड़े में से, एक का बंध कर डाला !! यदि यह करुण दृश्य, भगवान् वाल्मीकि के सामने उपस्थित न हुआ होता, तो ससार में राम-गुण-गान करने वाले, रामायण काव्य की सृष्टि ही न रची जाती। करुण रस के प्रभाव ने ही वाल्मीकिजी से यह महान् कार्य कराया।

रस की लोकोत्तरता

जिस काव्यानन्द की इतनी महिमा गाई गई है, वह क्या है ? आनन्द मन का एक व्यापार है, जो मनुष्य की आकृति और भाव-भङ्गि से जाना जाता है। हृदय का सुख या दुःख मुख-मण्डल पर प्रतिबिम्बित हुए बिना नहीं रहता। हर्ष के समय शरीर में एक अद्भुत कार्य-शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मज्जातन्तुओं द्वारा, मानसिक आनन्द का, सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब कोई सुन्दर दृश्य देखता अथवा श्रवण-सुखद सगीत सुनता है, तब उसके हृदय की अवस्था ऐसी हो जाती है, कि उसे और किसी बात की सुध-बुध ही नहीं रहती। उस समय की तल्लीनता में एक अद्भुत आनन्द अनुभव होने लगता है। सासारिक विषयों के आनन्द क्षणिक होते हैं, परन्तु जब जिज्ञासु परमात्मनिष्ठ हो, उसी में तल्लीन हो जाता है, तो परमानन्द की प्राप्ति होती है। काव्यों और नाटकों से प्राप्त होने वाला आनन्द चिरस्थायी नहीं होता। परन्तु यदि परमात्म-दर्शन के विचार में ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी वेदादि (काव्यों) का सम्यक् रसास्वादन किया जाय, तो वह परमानन्द की प्राप्ति में सहायक होता है। परमात्मा कवि है, उसका काव्य वेद है। कहा भी है—“पश्य देवस्य

काव्यम् न ममार न जीर्यति"—ऋत् । अर्थात् परमात्मा के काव्य को देख, जो जीर्ण-शीर्ण या नष्ट नहीं होता ।

काव्य-चर्चा में, लोकोत्तरानन्द का उल्लेख अनेक बार आता है । लोकोत्तरानन्द की प्राप्ति ही काव्य का चरम ध्येय है । यह लोकोत्तरानन्द क्या है, इसके समझने के लिए हमें व्यष्टिगत और समष्टिगत आनन्द की विवेचना करनी होगी । एक वह आनन्द है, जिसका अनुभव किसी व्यक्ति विशेष को ही होता है । यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे नम्बरों से पास होता है अथवा किसी व्यक्ति को कहीं से धनराशि मिल जाती है तो उसे व्यष्टिगत प्रसन्नता होती है, समष्टिगत नहीं । ठीक भी है, अगर बम्बई के किसी व्यक्ति को प्रचुर धन प्राप्त हो जाय तो उससे अन्य लोगों को प्रसन्नता क्यों हो ? क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वार्थ है । परन्तु जब किसी रंगमंच पर हम, रामलीला का अभिनय देखते हैं तो राम की विजय और सफलता के कारण सभी दर्शकों के हृदय में समान रूप से आनन्द का सागर उमड़ने लगता है । यही समष्टिगत आनन्द लोकोत्तरानन्द कहाता है । लोकोत्तरानन्द में वैयक्तिक स्वार्थ की भावना नहीं रहती । वह सबके लिये समान होता है ।

साहित्यदर्पणकार लोकोत्तरानन्द की विवेचना करते हुए लिखते हैं, कि अखण्ड, स्वप्रकाश, चिन्मय, ज्ञानान्तर के संस्पर्श से रहित ब्रह्मास्वाद के समान 'साधारणी कृति' व्यापार से उत्पन्न, सहृदय सामाजिक हृदय सवेद्य जो 'चमत्कार प्राण' आनन्द है, वही लोकोत्तर रस का स्वरूप है, जो कि रज और तम से रहित सत्वोद्रेक वाले मन से ही उत्पन्न होता है ।

काव्यानन्द ब्रह्मानन्द का सहोदर माना गया है । क्यों ? इसका उत्तर 'काव्य-प्रकाश' में बड़ी सुन्दरता पूर्वक दिया है । अर्थात् जिस प्रकार ब्रह्मास्वाद यानी मुक्ति-दशा में ब्रह्म ही प्रकाशित रहता है, अन्य भावों का तिरोभाव हो जाता है, इसी प्रकार जिस समय विभावादि, स्थायी भावों के

साथ मिल कर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, उस समय भी केवल रस विकसित रहता है, और सब उसी में लीन हो जाते हैं। अन्तःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, सत्वगुण का सुन्दर-स्वच्छ प्रकाश होने से, रस का साक्षात्कार होता है। अखण्ड, अद्वितीय, स्वयं प्रकाश-स्वरूप आनन्दमय और चिन्मय, चमत्कारमय यह रस का स्वरूप (लक्षण) है। इसका साक्षात्कार होते समय, दूसरे विषय का स्पर्श तक नहीं होता। रसास्वाद के समय विषयान्तर का ज्ञान पास तक नहीं फटकने पाता, अतएव यह ब्रह्मास्वाद (समाधि) के समान होता है। यही पूर्व दर्शित साहित्यदर्पणकार के मत का आशय है।

रस के ब्रह्मानन्द-सहोदर और लोकोत्तर होने में यह भी कारण है कि यह लौकिक घटादि कार्यों के ज्ञान से विलक्षण होता है। लौकिक ज्ञान या तो ज्ञाप्य होगा या कार्य, नित्य होगा या भविष्यत्, वर्तमान होगा या भूत. सविकल्पक होगा या निविकल्पक, परोक्ष होगा या प्रत्यक्ष। पर रस इनमें से किसी भी कोटि में नहीं आता। ज्ञाप्य तो वह इसलिये नहीं क्योंकि ज्ञाप्य घटादि कभी विद्यमान होते हुए भी ज्ञात नहीं होते। रस विद्यमान होता हुआ ज्ञात न हो, ऐसा कभी नहीं होता। कार्य इसलिए नहीं, कि यदि रस विभावादि कारणों से उत्पन्न होता है, ऐसा माना जावे, तो रस के प्रतीतिकाल में विभावादिकों की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कारण ज्ञान और कार्य-ज्ञान दोनों साथ नहीं हो सकते, तथा विभावादि के समूहात्मनात्मक ज्ञान को ही रस कहा गया है। नित्य इसलिए नहीं कि यह विभावादि ज्ञान से पहले नहीं रहता। अनित्य भी इसलिए नहीं क्योंकि यह अनिर्वचनीय है। साक्षात् आनन्दमय प्रकाश रूप होने से भविष्यत् या भूत भी नहीं। कार्य या ज्ञाप्य के विलक्षण होने के कारण वर्तमान भी नहीं। रसानुभवकाल में विभावादि का परामर्श होता है, अतः निर्विकल्पात्मक नहीं। इसका शब्दों द्वारा निरूपण नहीं कर सकते, इसलिए सविकल्पात्मक नहीं। साक्षात्कार (अनुभूति स्वरूप) होने से परोक्ष नहीं, और शब्दजन्य होने के कारण प्रत्यक्ष भी नहीं।

इन्हीं कारणों से प्राचीन रसशास्त्राचार्यों ने रस को अलौकिक, लोकोत्तर और ब्रह्मानन्द सहोदर कहा है ।

इस रस का आस्वादन सब लोग नहीं कर सकते । वे बड़भागी ही कर पाते हैं, जिनमें पूर्वजन्मकृत पुण्य के वासनामय संस्कार होते हैं । काव्य-प्रकाश और साहित्यदर्पण की, उपर्युक्त पक्तियों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार भावों (विषयों) का तिरोभाव होने से मुक्तदशा में ब्रह्म मात्र प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार स्थायी भाव के रसत्व प्राप्त करने पर, रस ही रस दिखाई देता है, विभावादिको का सर्वथा तिरोभाव हो जाता है । जिस काव्य में ब्रह्म-प्राप्ति की तरह भावों का तिरोभाव करने की क्षमता विद्यमान है, वही काव्य ब्रह्मानन्द सहोदर, कहलाने का अधिकारी है । यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि, काव्यानन्द-प्राप्ति मनुष्य की वासना, भाव ग्रहण-शक्ति और सहृदयता पर निर्भर है । जिसमें ये शक्तियाँ जितनी ही अधिक होंगी, उतना ही वह काव्यानन्द का अधिकारी बन सकेगा ।

रसों की उत्पत्ति

काव्य में मुख्यतया नौ रस माने गये हैं—अर्थात् शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त। अब प्रश्न यह है कि रस का विचार पहले पहल कब मनुष्य के मस्तिष्क में आया। इसका ठीक-ठीक पता लगाना तो कठिन है, परन्तु नाट्यशास्त्र से इतना अवश्य जाना जाता है कि, सर्व प्रथम द्रुहिण (ब्रह्मा) ने, रस का रूप संसार के सामने रक्खा। भरत मुनि के मन्तव्यानुसार, शृङ्गार, रौद्र, वीर और बीभत्स इन चार ही रसों की पहले पहल उत्पत्ति हुई। फिर शृङ्गार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और बीभत्स से भयानक रस पैदा हुए। अग्निपुराण में भी यही मत प्रदर्शित किया गया है। अर्थात् ब्रह्मा के अहंकार से ममता की उत्पत्ति हुई। ममता से गति और रति से शृङ्गार का जन्म हुआ। प्रीतिमूलक होने से शृङ्गार आनन्दमय है। आनन्द में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, वही रौद्र रस है। क्रोध आने पर, विरोध का परिहार करते हुए, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने को सोत्साह सन्नद्ध होना ही वीर रस है। इस उत्साहपूर्ण साम्मुख्य में, किसी प्रकार वैरी-विरोधियों से घृणा हो जाने के कारण ममता का संकुचित या सकीर्ण हो जाना ही बीभत्स रस का उत्पादक है।

ऊपर यह दिखाया गया है कि पहले पहल शृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स इन चार रसों की ही उत्पत्ति हुई, शेष पाँच रसों को जन्म देने वाले ये ही चार रस हैं। इन चार रसों से और रस किस प्रकार निकले इसे भी सुन लीजिये। शृंगार की नक़ल करने से हास्यरस पैदा हुआ। किसी का अनुकरण करने से हँसी आनी स्वाभाविक ही है। राजा-रानी, साधु-सन्त, कुत्ता-बिल्ली, तोता-मैना इत्यादि किसी की भी नक़ल क्यों न की जाय, लोगों को हँसी आये बिना न रहेगी। प्रेमियों के हास-विलास,

व्यवहार अथवा रति-गोपनादि कार्यों में तो हास्य की भलक रहती ही है। कुछ लोगों ने अद्भुत रस भी हास्य का जनक माना है, क्योंकि कभी-कभी आश्चर्यजनक बातों से भी हँसी का फव्वारा छूट निकलता है।

अग्निपुराण के मत में रौद्र से करुण रस की उत्पत्ति हुई, क्योंकि क्रोध में आकर ऊटपटाँग बकना, गालियाँ देना, मर्मवेधिनी बातें कहना, शेरूनी मारना आदि ऐसे कार्य हैं, जो लोगों के मर्मस्थल में घाव कर उन्हें व्याकुल कर देते हैं, जिससे वे करुणा के पात्र बन जाते हैं। कुछ आचार्यों ने करुण रस को शृङ्गार से उत्पन्न हुआ माना है, वे कहते हैं कि करुण रस का स्थायीभाव शोक है, और शोक प्यारी वस्तु के लिए ही किया जाता है। वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक भी है, युद्ध में योद्धाओं द्वारा जैसे-जैसे आश्चर्यजनक कार्य होते हैं, उनके कारण दाँतों तले उँगली दबानी पड़ती है। भारतीय महाभारत का अवलोकन कीजिये, चाहे यूरोपीय महायुद्धों का वर्णन पढिये, सर्वत्र ही आपको वीरों के ऐसे आश्चर्यजनक कार्य-कलाप दिखाई देगे, जिनसे बुद्धि चकराने लगेगी। यही अद्भुत रस है। बीभत्स को भयानक रस का जनक माना गया है। श्मशान भूमि या युद्ध क्षेत्र दोनों की ही बीभत्सता देखकर, भय की उत्पत्ति होती है। जहाँ लोथों पर लोथ पड़ी हों, रुधिर धाराएँ बह रही हों, हड्डियों के ढेर लगे हों, चील-कौएँ और गिद्ध अँखे निकाल-निकाल कर खा रहे हों, शृगाल अँतड़ियाँ खींच रहे हों, कुत्ते चर्बी चाटने में निमग्न हों। कहीं धड़ पड़े हों, और कहीं मुण्ड लुढ़क रहे हो, कहीं चिताएँ जल रही हों, और कहीं मास, भेद की दुर्गन्ध से नाक सड़ी जाती हो ऐसे दुर्दृश्य को देख कर किसे भय न लगेगा।

इन आठ रसों के अनन्तर, आचार्यों ने नवे शान्त रस का आविष्कार किया। महाभारत आदि ग्रन्थ शान्त रस प्रधान हैं। शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद है। संसार की अनित्यता देखकर विषयो से विरक्ति हो जाने पर ही निर्वेद की उत्पत्ति होती है। रस गंगाधरकार ने उच्च कोटि के निर्वेद को ही शान्तरस का स्थायी भाव माना है। साधारण

गृहकलहादि से उत्पन्न निर्वेद को वे संचारी कहते हैं। किसी किसी ने "शम" को शान्त रस का स्थायी माना है।

उपर्युक्त धारणा के विरुद्ध किसी-किसी ने भयानक से रौद्र रस की उत्पत्ति मानी है, क्योंकि यदि किमी को डराया धमकाया जाय तो वह क्रुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार रौद्र की तरह शान्त रस भी करुण रस का उत्पादक बताया है। क्योंकि सामारिक विषय-वासनाओं से विरक्त व्यक्ति जब एकान्त में परमात्म चिन्तन करता हुआ, अपने कृत कर्मों पर दृष्टि-पात करता है, तो उसे बड़ा विषाद होता है, उस समय वह साश्रुनयन होकर, गद्गद् वाणी द्वारा भगवान से क्षमा याचना करता है।

कुछ आचार्यों ने उपर्युक्त नव रसों के अतिरिक्त और भी कई रस माने हैं। जिनमें लौल्य, कार्पण्य, सख्य, उद्धत, दान्त, वात्सल्य (प्रेयः)। भक्ति आदि मुख्य हैं। जिस रस का स्थायीभाव स्नेह हो वह 'प्रेयः' माना गया है, धैर्य स्थायीभाव वाला दान्त, गर्व स्थायीभाव वाला उद्धत, अभिलाष स्थायीभाव वाला लौल्य, श्रद्धा स्थायीभाव वाला भक्ति और जिसका स्थायी स्पृहान्द्वै, वह कार्पण्यरस कहा गया है। कुछ विद्वानों की सम्मति में स्नेह, भक्ति और वात्सल्य रति के ही रूप हैं। अर्थात् जब बराबर वालों में रति या प्रीति होती है, तो उसका नाम स्नेह, छोटों के साथ प्रीति का नाम वात्सल्य और बड़ों के साथ जो प्रेम हो उसे भक्ति कहते हैं।

यों तो वर्त्तमान युग में समाज-सुधार, स्वदेश-भक्ति, मातृ-भाषा प्रेम आदि विषयों पर जो भावमयी कविताएँ की जा रही हैं, वे भी किसी न किसी रस में अवश्य ही स्थान पाने की अधिकारिणी हैं, चाहे वह भक्ति रस हो, अथवा दूसरा। बहुत-सी ऐसी कविताएँ भी हो सकती हैं, जो किसी भी वर्णित रस के अन्तर्गत न होकर, अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती हैं। ऐसी कविताओं के लिये नये रसों की सृष्टि रचनी पड़ेगी। परन्तु हमारी समझ में यदि इस प्रकार रसों की कल्पना की जायगी तो रसों की संख्या का निर्धारण करना ही असम्भव हो जायगा।

महाकवि देव ने रसों के सम्बन्ध में एक नया विचार प्रस्तुत किया है । वे कहते हैं कि जिस रस के ज्ञान कराने में, नेत्रादि इन्द्रियाँ सहायक होती हैं, वह लौकिक रस है, और जिस रस का बोध कराने में उपर्युक्त इन्द्रियाँ कुछ सहायता नहीं देती, और जो केवल आत्मा एवम् मन के संयोग से ही जाना जाता है, उसे अलौकिक रस कहते हैं । देवजी ने लौकिक के नौ और अलौकिक के तीन भेद किये हैं । लौकिक नौ रसों से उनका अभिप्राय प्रसिद्ध नव रसों से है । और अलौकिक तीन रस ये हैं—स्वामिक, मानोरथिक तथा औपनायिक । स्वामिक रस से देवजी का अभिप्राय स्वप्न में प्राप्त आनन्द से जान पड़ना है । मानोरथिक रस में मनोराज्य की कल्पना की गई प्रतीत होती है और औपनायिक से प्रयोजन हास विलास एवं रास द्वारा उपनीत आनन्द प्राप्त करना भासित होता है । परन्तु देवजी के उपर्युक्त अलौकिक रसों का साहित्य जगत् में उल्लेख या प्रचार नहीं है । होता भी कैसे, क्योंकि उनके पूर्वोक्त दो भेद, शृङ्गार रस के 'स्वप्न दर्शन' और वियोग की दस दशाओं में वक्षित अभिलाषा के ही रूप हैं । तीसरा भेद हास्य रस के अन्तर्गत आ जाता है ।

कुछ लोगों ने बात, पित्त और कफ के अनुसार भी रसों का विभाजन किया है, कुछ ने उन्हें सत्व, रज, तम, के अनुसार ठहराया है, और कुछ विद्वानों ने ब्राह्मणादि चतुर्वर्ण के गुण-कर्मानुसार उनका वर्गीकरण किया है । सबने अपनी-अपनी धारणाओं की पुष्टि में युक्तियों भी दी हैं, परन्तु ये युक्तियाँ साहित्यिक विचार-परम्परा पर अपना प्रभाव अङ्कित करने के लिए पर्याप्त नहीं कही जा सकतीं । सम्भव है, रसों को ऐसा रूप देने वालों का इरादा उन्हें धार्मिक धारा से सम्बद्ध करना हो ।

इस विषय में कुछ विद्वानों ने इस प्रकार भी विचार किया है कि जीवन सुख-दुःखमय है । सुख पहुँचाने वाली चीज़ों से मनुष्य प्रेम करता है, और दुःख देने वालियों से घृणा । इस प्रेम और घृणा को राग-द्वेष के नाम से भी पुकार सकते हैं । मन्मथ-जीवन के सारे भावों की जननी

राग-द्वेषात्मक यही दो वृत्तियाँ हैं । जहाँ प्रेम-वृत्ति का सम्बन्ध समान व्यक्ति के साथ होता है, वहाँ उसे मैत्री भाव कहते हैं । जब यह वृत्ति बड़ों के साथ सम्बन्धित होती है, तब वह भक्ति या प्रतिष्ठा में परिणत हो जाती है, और छोटों के साथ वात्सल्य या दयालुता का रूप धारण कर लेती है । दूसरी ओर द्वेष-वृत्ति को लीजिए, जब इसका सम्बन्ध बराबर वालों से होता है, तो चिड़चिड़ापन, उग्रता, क्रोध, अभद्रता आदि की सृष्टि होती है । बड़ों के साथ इसके सम्बन्धित होने से कायरता और ईर्ष्यालुता का जन्म होता है, और अगर द्वेष के पात्र असमर्थ तथा छोटे लोग हुए, तो वहाँ क्रोध और उग्रता का ठिकाना नहीं रहता । यही बात और विस्तार से कहनी हो, तो निम्न प्रकार कही जा सकती है । जिन भावों का प्रेम से जन्म होता है, पहले उन्हें देखिये । बराबर वालों के साथ प्रेम होने पर नीचे लिखे भाव पैदा होते हैं—

सरलता, सदाचरण, सुशीलता, विवेचकता, मृदुता, सहृदयता, मित्रता, सहकारिता, मिलनसारी इत्यादि ।

बड़ों के प्रति प्रेम होने पर—

संकौच, आज्ञाकारिता, विनम्रता, शान्ति, भक्ति, गम्भीरता, निष्कपटता, अकिंचनता इत्यादि ।

छोटों के साथ प्रेम होने पर—

दयालुता, सद्भावना, कोमलता, भद्रता, उदारता, शुभचिन्तना, सराहना, मृदुभाषण आदि ।

अब घृणा से उत्पन्न होने वाले भावों पर विचार कीजिए ।

बराबर वालों के साथ द्वेष होने पर निम्न लिखित भावों का जन्म होता है—

अभद्रता, अशिष्टता, चिड़चिड़ापन उद्दण्डता, क्रोध, दमन इत्यादि ।

बड़ों के साथ द्वेष होने पर—

सन्देह, भय, कायरता, ईर्ष्यालुता, द्वेष इत्यादि ।

छोटों के साथ—

दम्भ, दौरात्म्य, घमण्ड, आत्मश्लाघा, उग्रता, अविनय, घृणा, उद्वेगिता, अत्याचारिता, स्वार्थान्धता, दूसरों को तुच्छ समझना इत्यादि ।

ऊपर के विवेचन से यह बात स्पष्ट प्रतीत होगी, कि प्रेम और घृणा से ही प्रायः मुख्य-मुख्य भावों की उत्पत्ति होती है । अन्यभाव बहुधा इन्हीं भावों से निकले हैं । फिर चाहे वे भाव प्रेम-प्रसूत या घृणा-जनित भावों के पृथक्-पृथक् सम्मिश्रण हैं, अथवा दोनों के मिलकर । उदाहरणार्थ वीरता को ही लीजिए इसकी उत्पत्ति दया और दमन के भावों से है । अर्थात् निर्बलों पर दया कर के उनकी सहायता करना और अत्याचारियों से घृणा कर उन्हें दबाना । साहसशीलता, शक्तिमत्ता, दृढता, धीरता आदि वीरता के ही भेद हैं । विश्वास की भावना क्या है ? दूसरे के कार्य-कलाप और विचारों के साथ प्रेम करना ।

इसी प्रकार विश्वासघात, जलन, कटुता, छल, कपट, चिन्ता, असन्तोष कुढ़न, अधमता, मलिन-मनोवृत्ति, असावधानता, मिथ्यात्व, दिखावट, धृष्टता, चालाकी, उत्सुकता, लोलुपता, लज्जा, शेखी, आत्मश्लाघा, आशावादिता, पवित्रता, न्यायप्रियता, दातृत्व-भावना, क्षमाशीलता, सन्तोष, दयार्द्रता, पर दुःख कातरता प्रसन्नता, सहनशीलता, विश्वासपात्रता आदि जितने भी भाव हैं, वे सब उपर्युक्त घृणा और प्रेम दो वृत्तियों से ही सिद्ध किये जा सकते हैं । कविता के नौ रसों में भी इन वृत्तियों का पूरा प्रभाव है, बल्कि कहना चाहिए कि ये रस भी प्रेम और घृणा से ही उद्भूत हुए हैं ।

आचार्यों ने रसों के भिन्न-भिन्न देवता भी माने हैं, यथा शृङ्गार के देवता श्रीकृष्ण, हास्य के प्रमथ (शिवगण), करुण के वरुण, रौद्र के रुद्र, वीर के इन्द्र, भयानक के काल, बीभत्स के महाकाल, अद्भुत के ब्रह्मा और शान्त रस के विष्णु भगवान् । श्रीकृष्ण रस-रंग के प्रेमी थे, और ब्रज-बालाओं के साथ रास-लीला किया करते थे, अतएव वे शृङ्गार रस के देवता हुए । विष्णु भगवान् द्वारा नारदजी का वानर रूप किये जाने पर शिवजी के गण प्रमथ ने उनकी हँसी उड़ाई थी, अतएव वे हास्य रस

के देवता माने गए । करुणा से मनुष्य का हृदय द्रवित हो जाता है; जल भी द्रव पदार्थ है, अतएव जल के देवता वरुण ही करुण रस के देवता निश्चित किये गए । शिवजी ने क्रोध से रुद्र रूप धारण कर कामदेव को भस्म किया था, इसीलिए उनका नाम 'रुद्र' भी है । रौद्र रस का स्थायी-भाव क्रोध होने के कारण, क्रोध की साक्षात् भूर्ति रुद्र को उसका देवता बनाना उचित ही है । देवेन्द्र दैत्यों के साथ युद्ध करने में अभ्यस्त हैं, अतएव वे वीर रस के अधिष्ठाता हुए । मृत्यु-देवता यमराज के भय से कौन थर-थर नहीं काँपता, अतएव इनको भयानक रस का अध्यक्ष बनाया गया । महाकाल को विविध बीभत्स दृश्यों का उत्पादक होने के कारण बीभत्स रस का देवता माना गया । विश्व की विचित्रताओं का विधाता ब्रह्मा ही है, इसलिए वह अद्भुतरस का देवता हुआ । अब रह गया शान्त रस, सो इसके अधिष्ठाता स्वयं विष्णु भगवान् हैं । विष्णु की शान्ति संसार-प्रसिद्ध है, लोक को स्थित रखने वाले वही हैं । भृगु की लात खा कर भी बराबर शान्त बने रहना उन्हीं का काम था । उपर्युक्त रसों के देवता पौराणिक परम्परा के अनुसार माने गए हैं । प्रत्येक रस का देवता, उसके अनुरूप ही निश्चित किया जाना कम बुद्धिमत्ता की बात नहीं है । ऐसा होने से रसों की विशेषता बहुत कुछ बढ गई है ।

रस-विरोध और मैत्री

जिस प्रकार पशु-पक्षियों और मनुष्यों में परस्पर विरोध पाया जाता है, उसी प्रकार रसों में भी विरोध होता है। करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक के साथ शृङ्गार रस का विरोध है। इसी भाँति भयानक और करुण से हास्य का, हास्य और शृङ्गार से करुण का, हास्य, शृङ्गार और भयानक से रौद्र का, शृङ्गार, वीर, रौद्र, हास्य और शान्त से भयानक रस का; भयानक और शान्त से वीर रस का, वीर, शृङ्गार, रौद्र, हास्य और भयानक से शान्त रस का; एवम् शृङ्गार रस के साथ बीभत्स रस का विरोध माना गया है। कहते हैं कि शान्त रस के विरोधी, शृङ्गार, हास्य और रौद्र हैं, परन्तु इन तीनों का विरोधी शान्त रस नहीं। हास्य रौद्र का विरोधी है, लेकिन रौद्र हास्य का विरोधी नहीं है। इसी प्रकार वीर रस शृङ्गार का विरोधी है, परन्तु शृङ्गार वीर का विरोधी नहीं है। इस विषय में पण्डितराज जगन्नाथ और कविराज विश्वनाथ के मतों में सामञ्जस्य नहीं है। अस्तु; रस-विरोध का अर्थ यह है कि विरोधी रसों का साथ-साथ वर्णन न किया जाय। इससे रसास्वादन का आनन्द और उद्देश्य नष्ट हो जाता है। साधारण जीवन में भी हम देखते हैं, कि यदि कहीं हास्य-विनोद हो रहा हो, तो वहाँ शोक और भय की चर्चा सारा मज़ा मिट्टी में मिला देती है। अथवा जहाँ शोक छाया हो, वहाँ हँसी मज़ाक, आमोद-प्रमोद या सजावट-बनावट की बातें अच्छी नहीं लगतीं। इसी प्रकार अन्य रसों के सम्बन्ध में समझना चाहिये। जिस प्रकार रसों का परस्पर विरोध है, उसी भाँति उनमें मित्रता भी है। अर्थात् शृङ्गार की हास्य से, करुण की रौद्र से, वीर की अद्भुत से और बीभत्स की भयानक से मित्रता मानी गई है। रसों की इस मैत्री का यह भी कारण प्रतीत होता है, कि उनकी एक दूसरे से उत्पत्ति हुई है। यानी हास्य,

रौद्र, अद्भुत और भयानक क्रमशः शृङ्गार, करुण, वीर और बीभत्स से निकले हैं ।

प्रयत्न करने पर भी जब परस्पर विरोधी दो रस एक स्थान पर आ जायें तो काव्य-प्रकाश के मतानुसार उनका परिहार इस प्रकार करना चाहिये कि यदि दो विरोधी रसों का समान आलम्बन हो तो उन दोनों में भेद—अन्तर कर दिया जाय । अर्थात् उन दोनों के बीच में ऐसे रस की स्थापना की जाय जो दोनों का विरोधी न हो । जब विरोधी रस का आधार स्मरण हो, या जब दो विरोधी रसों में साम्य स्थापित कर दिया जाय तो विरोध का परिहार हो जाता है । जब दो विरोधी रस किसी अन्य रस के अङ्गाङ्गी भाव से अङ्ग बन गए हों, तब भी विरोध का परिहार हो जाता है । रस गंगाधरकार के मत में जहाँ एक से विशेषणों के प्रभाव से दो विरुद्ध भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं, वहाँ भी उनका विरोध निवृत्त हो जाता है ।

रस और सञ्चारी भाव

सञ्चारी या व्यभिचारी भावों में से कौन-कौन सञ्चारी किस-किस रस में होते हैं, यह बात नीचे लिखे विवरण से अच्छी तरह जानी जा सकेगी ।

शृङ्गार रस में—आलस्य, उग्रता और जुगुप्सा ये तीन सञ्चारी सम्भोग शृङ्गार में वर्जित हैं ।

विप्रलम्भ शृङ्गार में—आलस्य, ग्लानि, निर्वेद, भ्रम, शंका, निद्रा, श्रौत्सुक्य, अपस्मार, सुप्ति, विबोध, उन्माद, जड़ता और असूया ये सञ्चारी होते हैं ।

हास्य रस में—अवहित्य, आलस्य, सुप्ति, निद्रा, विबोध, भ्रम, चपलता, ग्लानि, शंका, असूया आदि सञ्चारी होते हैं ।

करुण रस में—मोह, निर्वेद, दैन्य, जड़ता, विषाद, भ्रम, अपस्मार, उन्माद, व्याधि, आलस्य, स्मृति, स्तम्भ, स्वर-भेद और अश्रु सञ्चारी होते हैं ।

रौद्र रस में—उत्साह, स्मृति, स्वेद, आवेग, अमर्ष, उग्रता और रोमाञ्च संचारी होते हैं ।

वीर रस में—उत्साह, धृति, मति, गर्व, आवेग, अमर्ष, उग्रता और रोमाञ्च संचारी होते हैं ।

भयानक रस में—स्तम्भ, स्वेद, स्वरभंग, रोमाञ्च, वैवर्ष्य, शंका, मोह, आवेग, दैन्य, चपलता, त्रास, अपस्मार, प्रलय और मूर्च्छा संचारी होते हैं ।

बीभत्स रस में—अपस्मार, मोह, आवेग और वैवर्ष्य संचारी होते हैं ।

अद्भुत रस में—स्तम्भ, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, रोमाञ्च, विभ्रम और विस्मय संचारी होते हैं ।

शान्त रस में—धृति, मति, हर्ष और स्मृति संचारी होते हैं ।

वात्सल्य रस में—हर्ष, गर्व, शका आदि संचारी होते हैं ।

कहीं-कहीं स्थायीभाव भी संचारी बन जाते हैं । जैसे शृङ्गार में हास, शान्त, करुण । हास्य में रति और करुण । करुण में भय तथा शोक । वीर रस में क्रोध, भयानक में जुगुप्सा तथा सम्पूर्ण रसों में उत्साह तथा विस्मय संचारी बन जाते हैं ।

रसों के सूक्ष्म भेद

रसों के सम्बन्ध में उनके सूक्ष्म भेदों की ओर सकेत कर देना भी आवश्यक है । यथा—करुण और रौद्र दोनों में ही इष्ट-हानि होती है । परन्तु शोकजनक इष्ट-हानि पर मनुष्य का काबू नहीं चलता, इसलिए उसमें कुछ न कर सकने के कारण करुणा, दीनता, निराशा, ग्लानि आदि की ही प्रधानता रहती है और रौद्र में क्रोध आता है, क्योंकि इसमें अनिष्ट करने वाले पर वश चलने और उससे बदला ले सकने की सम्भावना रहती है । इस अवस्था में आशा, गर्व और रोष विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं, वीर और रौद्र रस में यह अन्तर है कि वीर रस में क्रियात्मकता का आधिक्य होता है, और रौद्र रस गर्व-औरव वर्णन तथा रोष-प्रदर्शन तक

ही सीमित रहता है । वीर मे उदारता, धीरतादि की विशेषता होती है और रौद्र मे चीखने-चिल्लाने तथा डींग मारने की । पहला भविष्य से सम्बन्धित है और दूसरा वर्तमान से । भय और क्रोध में शक्तियों विकसित हो जाती है, और बीभत्स मे संकुचित । कहीं-कही पात्र-भेद से बीभत्स भयानक रस का रूप धारण कर लेता है । जैसे श्मशान का दृश्य कमजोर तबियत वालो को तो भयानक बन कर डरा देता है, परन्तु जिनका दिल मजबूत है, उन्हें उससे ग्लानि या घृणा मात्र होती है ।

भाव तथा रसाभासादि

भाव, रसाभास, भावाभास, भाव-शान्ति, भावोदय, भाव-सन्धि और भाव-शबलता ये सब आस्वादित होने के कारण रस कहते हैं। साहित्य-दर्पणकार कहते हैं कि, प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि सञ्चारी भावों तथा देवता, गुरु आदि के विषय में अनुराग, एव सामग्री के अभाव से रस-रूप को अप्राप्त उद्बुद्ध मात्र रति, हास आदि स्थायियों की 'भाव' सज्ञा है। अर्थात् देवता, गुरु, मुनि, राजा, पुत्र आदि जहाँ रति के आलम्बन होते हैं, वहाँ रति 'भाव' कहलाती है। और जहाँ रति आदि नवों स्थायीभाव उद्बुद्ध-मात्र हों, अर्थात् वे विभाव, अनुभावादि से परिपुष्ट न हुए हों, वहाँ उनको भी भाव कहते हैं। निर्वेदादि सञ्चारी जहाँ प्रधानता से प्रतीयमान (व्यञ्जित) होते हैं, वहाँ वे भी भाव कहाते हैं। जिस छन्द या काव्य में, सञ्चारी भाव की प्रधानता होती है, वह भाव-प्रधान कहा जाता है। काव्य में रस की प्रधानता होती है, रस की मौजूदगी में, सञ्चारी भाव का प्रधान होना उसी प्रकार है, जिस प्रकार मन्त्री के विवाह में राजा के होते हुए भी, मन्त्री की ही मुख्यता का माना जाना। अथवा यों समझिये कि 'प्रपानक' तैयार होने पर, उसमें मिर्च आदि किसी पदार्थ की तेज़ी हो जाना। साहित्य-दर्पणकार ने इस प्रसंग में पार्वती के विवाह का उदाहरण दिया है। अर्थात् " शिवजी के साथ अपने विवाह की चर्चा सुन कर, पिता के पास बैठी हुई पार्वती नीची गर्दन किये, लीला कमल की पंखड़ियाँ गिनने लगीं।" यहाँ अवहित्या संचारी की प्रधानता है।

श्लोक १—एवं वादिनि देवर्षी पार्श्वे पितुरधोमुखी ।

लीला-कमल-पत्राणि गणयामास पार्वती ॥

हि० न०—४

देवता विषयक रति का उदाहरण देखिए—“चाहे मैं स्वर्ग में रहूँ, चाहे पृथिवी पर, और चाहे नरक में मेरा निवास हो, परन्तु हे नरकान्तक मुकुन्द, मरते समय भी मैं तुम्हारे चरणारविन्द का स्मरण करता रहूँ।”^१ यहाँ भक्त की मुकुन्द के सम्बन्ध में रति है। इसी प्रकार गुरु, राजा, पुत्र, ऋषि, मुनि आदि के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये।

उद्बुद्ध मात्र स्थायीभाव का उदाहरण देखिए—“हिमालय में वसन्त पुष्पालङ्कता पार्वती को देख कर, शिवजी का धैर्य कुछ विचलित हो गया ; और वे पार्वती के चन्द्रानन पर अपनी भाव-भरी दृष्टि डालने लगे।”^२ यहाँ पार्वती के रूप-लावण्य को देखकर शिवजी के हृदय में रति उद्बुद्ध मात्र हुई है, अतएव वह भाव है।

रस और भाव अनुचित रूप से प्रयुक्त या अयोग्य रीति से वर्णित हुए हों, तो वे क्रमशः रसाभास और भावाभास कहलाते हैं। अनौचित्य से अभिप्राय देश-काल आदि के विरुद्ध वर्णन करने से है। अनुचितार्थ भी अनौचित्य में ही गिना जाता है। रसगंगाधर कार पण्डितराज जगन्नाथ का कर्ना है कि जो बातें अनुचित हैं, उनका वर्णन रस-भङ्ग का कारण है, अतः उसे तो सर्वथा न आने देना चाहिए। रस-भङ्ग किसे कहते हैं, उसे भी समझ लीजिए। जिस तरह शर्वत आदि किसी वस्तु में कोई कड़ी वस्तु गिरजाने के कारण, वह खटकने लगती है, उसी प्रकार रस के

१—दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो

नरके वा नरकान्तक । प्रकामम् ।

अवधीरित शारदारविन्दौ

चरणौ ते मशयोऽपि चिन्तयामि ॥

२—हरस्तु किञ्चिपरिवृत्त धैर्य-

अन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः ।

उमा मुञ्चे विम्बफलाधरोष्ठे ,

व्यापारवामास विचोचनानि ॥

अनुभव में खटकने को रस-भंग कहते हैं। अनुचित होने का अर्थ यह है कि, जिन-जिन जाति, देश काल, वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति, व्यवहार आदि सासारिक पदार्थों के विषय में, जो-जो लोक और शास्त्र से सिद्ध एवम् उचित द्रव्य गुण अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न होना। जाति आदि के सम्बन्ध में जो अनुचित बातें हैं, अब उनके कुछ उदाहरण सुनिये—जाति के विरुद्ध—जैसे बैल तथा गाय आदि की तेज़ी और बल के कार्य एव सिंह आदि का सीधापन आदि। देश के विरुद्ध—जैसे स्वर्ग में बुढापा रोग आदि और पृथ्वी में अमृत-पान आदि। काल के विरुद्ध—ठंड के दिनों में जल-विहारादि और गर्मी के दिनों में अग्नि-सेवन आदि। वर्ण के विरुद्ध—जैसे ब्राह्मण का शिकार खेलना, क्षत्रिय का दान लेना और शूद्र का वेद पढ़ना आदि। आश्रम के विरुद्ध—जैसे ब्रह्मचारी और सन्यासी का पान चबाना और स्त्री ग्रहण करना। अवस्था के विरुद्ध—जैसे बालक और बूढ़े का स्त्री-सेवन और युवा का वैराग्य। स्थिति के विरुद्ध—जैसे दरिद्रों का भाग्यवानों, जैसा आचरण और भाग्यवानों का दरिद्रों जैसा आचरण।

रस गंगाधर कार के बताये उपर्युक्त अनौचित्यों के अतिरिक्त साहित्य-दर्पण कार ने भी कुछ अनौचित्य गिनाये हैं। अर्थात् नायक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में, यदि नायिका का अनुराग वर्णित हो तो वहाँ अनौचित्य जानना। एवम् गुरुपत्नी आदि में, अथवा अनेक पुरुषों में यदि वा दोनों में से किसी एक में ही (दोनों में नहीं) किम्बा प्रतिनायक अथवा नायक के शत्रु में, या नीच पात्र में, किसी नायिका रति वर्णन अथवा पशु-पक्षी विषयक रति की चर्चा हो तो, वहाँ शृङ्गार रस में अनौचित्य के कारण, शृङ्गाराभास अथवा रसाभास समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि गुरु आदि पर क्रोध हो तो, रौद्र रस में अनौचित्य होता है, एवम् नीच व्यक्तियों में शम स्थित होने पर शान्त में, गुरु आदि आलम्बन हों तो हास्य में, ब्राह्मण-वध आदि कुकर्मों में उत्साह होने पर अथवा नीच पात्रस्थ उत्साह होने पर वीर रस में, और उत्तम पात्रगत होने पर भयानक रस

में अनौचित्य होता है। विरक्त में शोक होना करुण में, यज्ञ पशु में ग्लानि होना बीभत्स में और ऐन्द्रजालिक कार्यों में विस्मय होना अद्भुत में रसाभास होता है।

अनौचित्य जनित रस-भङ्ग या रसाभास के जो कारण ऊपर बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त और भी अनेक कारण हो सकते हैं। देश, काल, पात्र, आचार, विचार और सामाजिक स्थिति के आधार पर ही इस प्रकार के कारणों की कल्पना की जाती है। साधारण अवस्था में जो अनौचित्य होता है, कविता में भी प्रायः वही माना जाता है। कुछ विद्वानों की राय में यदि किसी रस में कुछ दोष आ जाय तो वहाँ रस नहीं रहता; क्योंकि दोष और रस एक साथ नहीं रह सकते। इस विचार के विरुद्ध कुछ विद्वान् यह भी कहते हैं कि रस में कुछ दोष आ जाने से, रस नष्ट नहीं हो जाता, प्रत्युत वह बराबर बना रहता है। हाँ, उसे उस समय दोष-युक्त होने से रसाभास कह सकते हैं। ठीक भी है, यदि हलवे की कड़ाही में त्रिफले का कुछ अंश पड़ जाय, अथवा घड़े-भर रस में रस्ती-भर कुटकी डाल दी जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि हलवा हलवा नहीं रहा, या शर्बत से शर्बतपन नष्ट हो गया। सुधारभावना से अनौचित्य का आविर्भाव रसाभास का कारण नहीं माना गया। जैसे यदि कोई किसी साधु-सन्त या गुरु-परिडित के सदोष होने पर, सुधार-भावना से उनकी हँसी करे, या उन पर व्यंग्य-वाण छोड़े तो यह अनौचित्य रसाभास का कारण नहीं होता।

कहीं-कहीं अनौचित्य से भी रस की पुष्टि मानी गयी है, और उतने अनौचित्य का वर्णन निषिद्ध नहीं है, क्योंकि जो अनुचितता रस की विरोधिनी हो, वही निषेध्य होती है। उदाहरणार्थ हनुमन्नाटक का नीचे लिखा श्लोक देखिये ,

ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूर्ण्यीं बहि स्थीयताम्,
स्वल्पं जल्प बृहस्पते ! जडमते, नैषा सभा वज्रिणः ।

वीणा संहर नारद ! स्तुति-कथालापैरलं तुम्बुरो !,

सीता रत्नक भल्ल भग्न हृदयः स्वस्थो न लङ्केश्वरः ॥

अर्थात् हे ब्रह्माजी, यह वेद-पाठ का समय नहीं है। जुप होकर बाहर बैठो। हे वृहस्पते, जो कुछ कहना है, थोड़े में कहो। मूर्ख, यह इन्द्र की सभा नहीं है कि घंटों बक-बक करते रहो। नारदजी, अपनी वीणा समेट लो। हे तुम्बुरो, इस समय खुशामद की बातें न करो, क्योंकि सीता की विरूिनियों के भालों से लंकाेश्वर रावण का हृदय घायल हो गया है, वह स्वस्थ नहीं है।

इस श्लोक में ब्रह्मादिकों के तिरस्कार के लिए बोले गए द्वारपाल के वचनों की 'अनुचितता' दोष नहीं है। क्योंकि उनसे रावण के परमेश्वर्य की पुष्टि होती है, और इससे वीररस का आक्षेप होता है।

आचार्य केशव ने पाँच प्रकार के रस-दोष माने हैं—अर्थात् प्रत्यनीक, नीरस, विरस, दुस्सन्धान और 'पात्र' दोष। जहाँ शृंगार, बीभत्स, भयानक, वीर, रौद्र और करुण में से एक ही छन्द में, दो अथवा अधिक का संयोग हो जाता है, तो उसे प्रत्यनीक दोष कहते हैं। जहाँ नयिका और नायक में वाचनिक प्रेम तो हो, परन्तु हृदय में वे कपट-भाव ही बनाये रहें तो वहाँ नीरस दोष होता है। जहाँ शोक में भोग का वर्णन किया जाय, वहाँ विरस दोष समझना चाहिये। नायक नायिका में जहाँ एक अनुकूल हो और दूसरा प्रतिकूल तो वहाँ दुस्सन्धान दोष होता है। प्रश्न के विरुद्ध उत्तर देना अथवा किसी बात को बिना विचारे वर्णन कर डालना पात्र दोष माना गया है। परन्तु केशवजी के उक्त रस-दोष-वर्णन का आधार हमें प्राचीन रस-ग्रन्थों में नहीं मिला। यद्यपि परम्परया प्रत्येक घटना रस की पोषक, नाशक या विशेषक होती है, और इसी रूप में उसका रस से सम्बन्ध भी स्थापित किया जा सकता है, तो भी उक्त पाँच दोषों में से अन्तिम दो दोषों का रस के साथ उनके स्वकथित लक्षण के अनुसार, सम्बन्ध जोड़ना एक द्राविड़ प्राणायाम है। यह विषय विद्वानों के विचारने

योग्य है। अस्तु, बिचार पूर्वक देखने से इन रस-दोषों का भी अन्तर्भाव प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित रसाभासादि रस-दोषों में हो जाता है।

उपर्युक्त विषय को अच्छी तरह समझाने के लिए, यहाँ रसाभास और भावाभास के कुछ उदाहरण दे देना भी आवश्यक है। शृंगार रसाभास के उदाहरण देखिये—

दौ दधि, दीनों उधार हो 'केशव' दान कहा, अरु मोल लौ खैहैं ।
दीने बिना जु गई हो गई न गई न गई घर ही फिरि जैहैं ॥
गोहित बैर, कियो कब हो हितु, वारु किये वरु नीकी हूँ रैहैं ।
बैर कै गोरस बेचहुगी, अहो बेच्यो न बेच्यो तो ढार न दैहैं ॥

उक्त उदाहरण में नायक तो प्रत्येक बात बड़े प्रेम से पूछता है, परन्तु नायिका के उत्तर में कठोरता आ जाती है। इससे एक (नायक) में अनुकूलता और दूसरे (नायिका) में प्रतिकूलता दिखाई देती है। और देखिये—

लाल भाल जावक लखत बरी विरह के भार ।
भरी शोक लपटति गरे बिहँसति भूषण भार ॥

यहाँ शोक में रति का वर्णन किया गया है, अतएव यह दोष है। नीचे लिखी चौपाई भी देखने लायक हैं—

नदी उमड़ि अम्बुधि कहँ घाई, संगम करहि तलाब तलाई ।
पशु-पत्नी नभ-जल-थल-चारी, भए कामवश समय बिसारी ॥
देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला ।
इनकी दशा न कहहुँ बखानी, सदा काम के चैरे जानी ॥
सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, तेऽपि काम वश भए वियोगी ।

उपर्युक्त चौपाइयों में, नदी, तालाब, समुद्र, पशु-पत्नी, भूत-पिशाच और मुनियों की रति का वर्णन होने से शृंगार रसाभास है।

करुणारसाभास के उदाहरण देखिये—

तात बात मै सकल सम्हारी, भइ मन्थरा सहाय विचारी ।

कल्लुक काज विधि बीच बिगारा, भूपति सुरपति-पुर पगुधारा ॥

कैकेयी भरत के ननसाल से आने पर उनके आगे बनावटी शब्दों में अपना शोक प्रकट कर रही है। अर्थार्थ होने से यह करुण रसाभास है।

इसी प्रकार अन्य रसों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। भावाभास के उदाहरण भी ऊपर वर्णित अनौचित्यों के आधार पर खोजे जा सकते हैं।

भावशान्ति

एक भाव की विद्यमानता में, किसी दूसरे विरोधी भाव के उदय हो जाने पर, पहले भाव की चमत्कारपूर्ण समाप्ति या शान्ति को, भाव-शान्ति कहते हैं। जैसे कोई नायक अपनी रूठी हुई स्त्री से कहता है—
“सुमुखि ! क्रोध छोड़, मैं हाहा खाता हूँ, अनुनय-विनय करता हूँ। ऐसा गुस्सा तो तुम्हें कभी नहीं आया।”^१ पति की विनम्र विनती सुन पत्नी आँसू बहाने लगी, पर बोली कुछ नहीं। यहाँ आँसू बहने के कारण नायिका के हृदय में वर्तमान ईर्ष्याभाव की शान्ति वर्णित है, अतः यह भाव शान्ति हुई।

रामायण में भावशान्ति का कैसा सुन्दर उदाहरण है, देखिए—

प्रभु-विलाप सुनि कान विकल भए वानर-निकर ।

आइ गएउ हनुमान जिमि करुना में वीर रस ॥

१—सुतनु जहिहि कोपं पश्य पादान्तं मां ।

न खलु तव कदाचित् कोप एवं विभोऽभूत् ।

इति निगदति नाथे तिर्यगामीक्षिताय्या,

नयन जलमनसपं मुक्तमुक्तं न किञ्चित् ॥

लक्ष्मणजी के शक्ति लगने पर, संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए हनुमान के आने में बिलम्ब देखकर, श्रीरामचन्द्रजी तथा अन्य लोग विलाप कर रहे थे, इतने ही में वे आ गए, मानो करुणा में वीर रस का उदय हो गया ।

भावोदय

जहाँ किसी भाव की शान्ति के पश्चात्, दूसरा चमत्कृत भाव उदय हो वहाँ भावोदय होता है। भाव और भावोदय में इतना ही अन्तर माना गया है, कि जहाँ शान्त होने वाला भाव, अधिक चमत्कृत होता है, वहाँ भावशान्ति होती है, और जहाँ उदय होने वाला भाव विशेष चमत्कारपूर्ण होता है, वहाँ भावोदय होता है। जैसे—“पहले तो मानिनी नायिका अनुनय-विनय करते हुए नायक का तिरस्कार करती रही, परन्तु जब वह निराश और रुष्ट होकर वापस जाने लगा, तो नायिका हृदय पर हाथ रख कर, गहरी साँस लेती तथा आँसू बहाती हुई सखियों की ओर देखने लगी।” यहाँ पहले ईर्ष्याभाव की शान्ति होने पर, नायिका के हृदय में जो विषाद उदय हुआ वह अधिक प्रबल है, अतः इसे भावोदय कहेंगे।

भावसन्धि

जहाँ समान और प्रबल चमत्कृत दो भाव एक ही साथ उपस्थित हों, वहाँ भावसन्धि होती है। इसमें एक भाव एक ओर को आकृष्ट करता है, और दूसरा दूसरी ओर को। जैसे कामिनी के कलित कलेवर को देखकर किसी नायक का एक साथ हर्ष-विषादयुक्त हो जाना^१। हर्ष सुन्दरी के

१—चरण्य पतन प्रत्याख्यानात्प्रसाद पराङ्मुखं,
निभृत कितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषी कृते ।
व्रजति रमण्ये निश्वस्योच्चैः स्तनस्थित हस्तया,
नयन-सलिलच्छन्ना दृष्टि सखीषु निवेशिता ॥

२—नयन युगासेचनकं मानस वृत्त्यापि दुष्प्राप्यम् ।
रूपमिदं मदिराशया मद्वृत्ति हृदयं दुनोति च मे ॥

सौंदर्य-दर्शन का और विषाद उसकी दुर्लभता का । यही भाव-सन्धि है ।
इस प्रसंग में कविवर विहारी लाल के निम्नलिखित दोहे पढ़ने योग्य हैं—

नई लगन कुल की सकुच विकल भई अकुलाय ।
दुहूँ और ऐची फिरति फिरकी लौं दिन जाय ॥
× × ×
छुटे न लाज न लालचौ प्यौ लखि नैहर गेह ।
सटपटात लोचन खरे भरे सकेच सनेह ॥

उपर्युक्त दोहों में प्रेम और लज्जा दोनों की प्रबलता का वर्णन है, यही भावसन्धि है ।

भावसन्धि के उदाहरण में तुलसीदासजी की निम्नलिखित चौपाई भी बड़ी सुन्दर है—

नीके निरखि नयन भरि सोभा ।
पितु प्रन सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥

सीताजी को रामचन्द्र की सुन्दरता देखकर एक ओर हर्ष हो रहा है, और दूसरी ओर पिता की कठिन प्रतिज्ञा (धनुष भंग सम्बन्धिनी) स्मरण कर चोम सता रहा है ।

भावशवलता

लगातार कई भावों का एक ही स्थान पर समान रूप से प्रतीत होना भावशवलता कहलाता है । साहित्य दर्पण का उदाहरण देखिए—

क्वाकार्य, शशलक्ष्मणः कचकुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा,
दोषाणा प्रशमाय न. श्रुतमहो, कोपेऽपि कान्तं मुखम् ।
किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा,
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि, कः खलु युवा घन्योऽधरः वास्यति ।

विरहोत्कण्ठित राजा पुरुरवा उर्वशी के स्वर्ग चले जाने पर कहता है—कहाँ मेरा निर्मल चन्द्रवंश और 'कहाँ यह निषिद्ध आचरण ! क्या

कभी फिर भी वह दीख पड़ेगी ? ओह ! यह क्या ! मैंने तो कामादि दोष दबाने वाले शास्त्र पढ़े हैं । ओहो, क्रोध में भी अति कमनीय उसका मुख ! भला मेरे इस आचरण को देखकर विवेचक विद्वान् क्या कहेंगे ! हा, वह तो अब स्वप्न में भी दुर्लभ है । अरे मन ! धीरज धर, न जाने कौन बड़-भागी उसका अधरामृत पान करेगा ।” इस श्लोक में वितर्क, उत्कण्ठा, मति, स्मृति, शङ्का, दैन्य, धैर्य, चिन्ता आदि अनेक सचारी भावों का सम्मिश्रण है, अतएव इसे भावशवलता कहेंगे ।

जब उपर्युक्त भाव और रस परस्पर मिला दिये जाते हैं, तब उन्हें ‘रस-संकर’ कहते हैं । सामान्यतः इसके तीन भेद माने गए हैं । अर्थात् जन्य-जनक भाव, अङ्गाङ्गि भाव और स्वतन्त्रता । जब एक रस से दूसरा रस उत्पन्न होता है, तब उसे जन्यजनक भाव रस-संकर कहते हैं । इसके विषय में साधारण नियम यह है कि रौद्र से करुण, बीभत्स से भयानक और शृङ्गार से हास्य रस उत्पन्न होते हैं । परन्तु अनेक स्थानों पर इस नियम के विपरीत भी जन्यजनक भाव देखने में आता है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में वीर रस से भयानक की उत्पत्ति हुई है । देखिये —

कत्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काटि ,
 कीन्ही सिवराज वीर अकह कहानियाँ ।
 भूषन भनत तिहूँ लोक में तिहारी घाक ,
 दिल्ली औ बिलाइति सकल बिललानियों ॥
 आगरे अगारन है नाँघती कगारन छूवै ,
 बाँघती न बारन मुखन कुम्हिलानियों ।
 कीवी कहैं कहा औ गरीबी गहै भागी जाहिं ,
 नीवी गहैं सूयनी सु नीवी गहैं रानियाँ ।

जहाँ एक रस प्रधान और दूसरा उसके आश्रित रहता है, वहाँ वह अङ्गाङ्गि भाव रस-संकर कहाता है ।

जहाँ एक ही पद्य में अनेक स्वतन्त्र रस पाए जायँ वहाँ 'स्वतन्त्रता' रस-संकर माना जाता है। जैसे—

महिपरत उठि भट लरत मरत न करत माया अति घनी ।
 सुर डरत चौदह सहस निसिचर एक श्री रघुकुल मनी ।
 सुर-मुनि समय अवलोकि मायानाथ अति कौतुक करे ।
 देखत परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरे ॥

उक्त पद्य में अद्भुत, वीर और भयानक रस स्वतन्त्रता पूर्वक विद्यमान है। इसलिए, यहाँ स्वतन्त्रता रस-संकर है।

अन्य रस-दोष

रस का आस्वादन व्यञ्जना द्वारा होता है, अतएव उसका या स्थायी और व्यभिचारी भावों का किसी रचना में स्पष्ट शब्द द्वारा कथन रसदोष है। प्रायः कविजन अपनी कविता में, व्यञ्जना से काम न लेकर शृङ्गार रस में 'शृङ्गार', हास्य में 'हास', करुण में 'शोक' बीभत्स में 'घृणा' वीर में 'उत्साह' रौद्र में 'रोष' या 'क्रोध' आदि शब्द लिखकर बात को स्पष्ट कर देते हैं, जो दोष है। जैसे—

× × × ×

एक दिन 'हास' हित आयो प्रभु पास तन —

राखे न पुराने बास कोऊ एक थल है।

× × × ×

उपर्युक्त हास्य रस सम्बन्धी कवित्त के चरण में 'हास' शब्द स्पष्ट लिखा गया है, अतएव यह दोष है। और देखिये—

× × × ×

'वीर रस' रहे राज वैरी गण गाजि गाजि,

समर में आए रण साजि बेसुमार हैं।

इस चरण में 'वीर रस' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और भी—

× × × ×

जील्यौ रति रन मथ्यौ मनमथ हू को मन,
केसौराय कौन हू पै 'रोष' उर आन्यो है ।

यहाँ 'रोष' शब्द स्पष्ट हो गया है ।

उपर्युक्त उदाहरणों से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किसी काव्य में किस प्रकार रसों के नाम आने से रस-दोष आजाता है । इसी भाँति स्थायी और व्यभिचारी भावों का स्पष्ट नामोल्लेख होने से भी रस नष्ट हो जाता है, अतः रचना में इस प्रकार रसादि का स्पष्ट नामोल्लेख करने से कवि का फूहड़पन प्रकट होता है ।

जिस रचना में विभाव, अनुभाव आदि कठिनाई से जाने जा सके, उसमें भी रस-दोष माना गया है । जैसे कोई वियोगिनी की दशा का वर्णन इस तरह करे, जिसमें यही न जाना जा सके कि वह वियोगिनी का वर्णन है, या राजयक्ष्मा के किसी रोगी का । इसलिए विभावानु-भावादि का वर्णन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि समझने में कठिनता न हो ।

एक स्थान में परस्पर विरोधी रसों और उनके विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारी भावों का वर्णन करना भी रस-दोष है । जैसे—

“यौवन के सुरसाल योग में काल रोग है अति बलवान”

यहाँ वियोग शृङ्गार का वर्णन करते हुए, यौवन के सम्बन्ध में काल रोग का उल्लेख किया गया है । काल रोग-शृङ्गार के विरोधी शान्त रस का उद्दीपन है, अतः शृङ्गार के वर्णन में, उसके विरोधी तथा शान्त के अंगभूत काल रोग का वर्णन करना रस-दोष हुआ ।

विरोधी रसों या उनके अङ्गभूत विभावादिकों का, एक ही स्थान में, देश-भेद, समय-भेद, रस-संकर, स्मृतसाम्य और अज्ञाङ्गि भाव द्वारा वर्णन किया जाय, तो वहाँ रस दोष नहीं माना जाता । जैसे—

“लै कूपान कर मे शिवा गरज्यौ सिंह समान ।
पीठि फेरि रन ते तबै बैरिन कियो पयान ॥”

इस दोहे में शिवा के कृपाण लेकर सिंह-समान गरजने (वीर रस) और भयभीत होकर शत्रुओं के रणभूमि से भागने (भयानक) का एक ही जगह वर्णन है । उक्त दोनों रस परस्पर विरोधी हैं, अतः यहाँ रस दोष होना चाहिये था । परन्तु चूँकि कवि ने दोनों रसों के देश (आलम्बन) भिन्न-भिन्न कर दिये हैं, अर्थात् वीर रस का आलम्बन शिवा और भयानक का वैरी बना दिया, अतः दोष-परिहार हो गया । इसी प्रकार समय-भेद रस-संकर आदि के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये ।

गुण, वृत्ति और रीतियाँ

गुण

रसात्मक काव्य के तीन गुण माने गए हैं—माधुर्य, ओज और प्रसाद । ये गुण रस के अविचल धर्म होने से उसके उत्कर्ष के कारण हैं ।

माधुर्य—जिस रस के आस्वादन से हृदय द्रवीभूत होकर आनन्द अनुभव करता है, उसे माधुर्य कहते हैं । इस गुण के द्वारा सम्भोग शृङ्गार, करुण, विप्रलम्भ शृङ्गार और शान्त रस उत्तरोत्तर अधिकाधिक परिपुष्ट होते हैं ।

माधुर्य के व्यञ्जक ङ, ञ, न, म वाले वर्गों के वर्ण होते हैं, जैसे—ङ्ग, ज्ञ, ञ्ज, न्द, म्भ । ह्रस्व र और ण भी इसमें प्रयुक्त होते हैं, पर ट, ठ, ड, ढ का बिलकुल प्रयोग नहीं होता । समास इसमें नहीं होता, यदि कहीं होता भी है, तो बहुत थोड़ा और छोटे छोटे पदों का ।

ओज—अन्तःकरण को उद्दीप्त करने वाला गुण ओज कहाता है । इसके द्वारा वीर, बीभत्स और रौद्र रस को अधिक पुष्टि मिलती है ।

ओज में वर्ग के अन्तिम वर्णों का योग उसी वर्ग के पहले और तीसरे अक्षरों से होता है । ट, ठ, ड, ढ के साथ आगे या पीछे र का संयोग रहता है । तालव्य श और मूर्धन्य ष अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, तथा समस्त पद अधिक व्यवहृत होते हैं ।

प्रसाद—काव्य के सुनते ही जो अर्थ हृदय में प्रविष्ट होकर लोकोत्तरा-नन्द प्रदान करता है, उसे प्रसाद कहते हैं । यह गुण सब रसों को समान रूप से पुष्ट करता है ।

प्रसाद में वर्णों का कोई नियम नहीं । संस्कृत कवियों में यह गुण कालिदास की कविता में अधिक पाया जाता है । किन्हीं आचार्यों ने श्लेष,

समाधि, औदायं, प्रसाद, अर्थव्यक्ति, कान्ति इत्यादि गुण भी माने हैं, परन्तु ये सब उपर्युक्त तीन गुणों में ही अन्तर्हित हो जाते हैं ।

भरत मुनि ने उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त समता, सुकुमारता आदि और भी गुण माने हैं ।

वृत्ति

इसके अतिरिक्त रसों के सम्बन्ध में वृत्ति की भी मान्यता है । यह वृत्ति तीन प्रकार की है । १—मधुरा, २—परुषा और ३—प्रौढा । इन तीनों वृत्तियों से क्रमशः माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण व्यञ्जित होते हैं ।

मधुरा—जिस रचना में अनुनासिक वर्णों की प्रचुरता होती है, ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर क से म पर्यन्त शेष स्पर्श संज्ञक वर्ण, य, र, ल, व अर्थात् अन्तस्थ संज्ञक वर्ण, द्वित्व लकार (लृ) और ह्रस्व रेफ आदि अधिक व्यवहृत होते हैं, वह मधुरावृत्ति कहाती है । इसी का नाम कौशिकी वृत्ति भी है ।

परुषा—जिस रचना में संयुक्त, रेफयुक्त एव विसर्ग सहित वर्णों और श, ष, ट, ठ, ड, ढ आदि का प्रयोग अधिक हुआ हो—संयुक्त वर्णों में भी वर्णों के तीमरे (ग, ज, ङ, द, व) और चौथे (घ, झ, ढ, ध, म) वर्णों के परस्पर संयुक्त रूपों तथा उस वर्ण का उसी के साथ संयुक्त रूपों का अधिक उपयोग हुआ हो, उसे परुषा या आरभटी वृत्ति कहते हैं ।

प्रौढा—जिस रचना में उपर्युक्त दोनों वृत्तियों का सम्मिश्रण हो, वह प्रौढा या सात्वती वृत्ति कहाती है ।

रीति

गुणों को व्यक्त करने वाली रसानुरूप पद-रचना रीति कहलाती है । रीति के भी तीन भेद हैं । १—वैदर्भी, २—गौड़ी और ३—पञ्चाली । ये तीन रीतियों ही क्रमशः माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण की व्यञ्जिका हैं ।

वैदर्भी—जिस रचना मे समस्त पद बहुत ही अल्प मात्रा में प्रयुक्त हुए हों, उसे वैदर्भी रीति कहते हैं ।

गौड़ी—जिस कविता मे चार से अधिक पदों के समास व्यवहृत हुए हों, वह गौड़ी रीति कहाती है ।

पाञ्चाली—जिस रचना में चार से कम पदों के समास पाए जायँ, वह पाञ्चाली रीति कहलाती है ।

साहित्यदर्पणकार ने लाटी नाम की एक चौथी रीति भी मानी है, जिसका लक्षण नीचे लिखे प्रकार किया है ।

लाटी—जिस कविता मे पाञ्चाली और वैदर्भी दोनों के मिश्रित लक्षण पाए जायँ, उसे लाटी रीति कहते हैं ।

उपर्युक्त गुण, वृत्ति और रीति रस की परिपक्वता या पुष्टि में सहायक होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट काव्य मे उनका होना बहुत आवश्यक है ।

रस और संगीत

साहित्य का संगीत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों सहृदयता सापेक्ष हैं, अर्थात् बिना सहृदयता के न साहित्य की ओर रचि होती है, और न संगीत की ओर। विद्वानों ने व्याकरण, न्याय, मीमांसा, कलादि सहित भाव को साहित्य कहा है। साहित्य क्या है? इसके उत्तर में एक प्रसिद्ध विद्वान् का कथन है, कि परस्पर एक दूसरे की सहायता चाहने वाले, तुल्य-रूप पदार्थों का एक साथ किसी एक कार्य-साधन में लगना ही साहित्य कहाता है। साहित्य का क्षेत्र बड़ा व्यापक होने से काव्य भी उसका एक अंग है। काव्य गानात्मक होता है। उसमें ऐसे छन्दों और पदों की सृष्टि की जाती है, जो संगीत के साथ मिलकर, एक और एक ग्यारह की लोकोक्ति चरितार्थ करते हुए, हृत्तन्त्री को भङ्कृत कर देते हैं। जिस समय हम किसी सत् कविता को सुनते या पढ़ते हैं, उस समय हमारा हृदय आनन्द से भर जाता है। उसी प्रकार श्रवण सुखद संगीत की सुमधुर ध्वनि कान में पड़ने से प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। जहाँ साहित्य और संगीत दोनों मिलकर, स्वर्गीय आनन्द प्रदान करते हों, वहाँ की तो बात ही क्या है। यद्यपि साहित्य और संगीत पृथक्-पृथक् भी सच्चे आनन्द के स्रष्टा हैं, तथापि दोनों का संयोग सोने में सुगन्ध पैदा कर देता है। महाराज भट्ट हरिजी ने तो साहित्य-संगीत कला-विहीन मनुष्य को 'पुच्छ-विषाण हीन' पशु कहकर पुकारा है। वास्तव में जिस मनुष्य में संवेदना-शील हृदय नहीं है, वह 'पुच्छ-विषाण हीन' पशु ही नहीं—पशु से भी गया-बीता है। हरिण, सर्प आदि का तो संगीत पर मुग्ध हो जाना प्रसिद्ध ही है, परन्तु हृदयहीन पुरुष पर उनका (साहित्य-संगीत का) कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

संसार संगीत से श्रोत-प्रोत है। कोयल की कुहू-कुहू, कबूतर की गुटरगूँ, नदियों का कल कल नाद, वायु का सन सन शब्द और वृद्धों का मस्ती से झूमना, शुष्क बाँस से बनी बूँसुरी की सुरीली तान, और कुघातु के बाजों से निकलती हुई स्वर लहरी संगीत नहीं तो क्या है।
हि० न०—५

कुछ लोग साहित्य और संगीत को एक दूसरे के आश्रयीभूत न मान कर, उनमें भिन्नता सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोगों की सम्मति में संगीत शृङ्गार का अनुभाव मात्र है। परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। संगीत का सम्बन्ध तो प्रायः सभी रसों के साथ है। नाट्य-शास्त्र के परमाचार्य भरत-मुनि के अनुसार, हास्य और शृङ्गार के गायनों में, पञ्चम और मध्यम स्वर प्रधान होते हैं। वीर, रौद्र और अद्भुत में षड्ज तथा ऋषभ स्वर मुख्य माने गए हैं। इसी भाँति करुण और शान्त रस में गान्धार एव निषाद स्वर, और वीभत्स तथा भयानक रस में धैवत स्वर प्रधानतया प्रयुक्त होते हैं। रसों के स्थायी भाव संगीत के स्वरों में पाये जाते हैं। रसानुकूल विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और संचारी भाव भी संगीत के स्वरों में मौजूद हैं। प्राचीन संगीताचार्यों ने उपर्युक्त रसों की भाँति ही षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद इन सातों स्वरों के भी क्रमशः अनुष्टुप्, गायत्री, त्रिष्टुप्, बृहती, पंक्ति, उल्मिक और जगती ये सात छन्द भी निश्चित कर दिये हैं। ये सब वैदिक छन्द हैं। इन्हीं के आधार पर अन्य छन्दों की भी रचना हुई है, जो सम्बन्धित रस के साथ उपर्युक्त संगीत-स्वरों में गाए जा सकते हैं।

संगीत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है,* कि पवन से नाद, नाद से स्वर, और स्वर से राग पैदा होता है। जोहो, संगीत की बड़ी महिमा है। लोक-साहित्य ही क्यों, ईश्वरीय ज्ञानवेद भी संगीत पर ही आश्रित है। सामगान की महिमा किसने नहीं सुनी। यजुर्वेद में संगीत के तीन-चार स्वरों का गायन है, परन्तु सामवेद में सातों स्वर काम में लाए गए हैं। हिन्दी में सम्भवतः सर्व-प्रथम महाकवि सूरदास ने रागात्मक पदों की रचना कर, साहित्य को संगीत के साथ सम्बन्धित किया। मीराबाई के गीत भी स्वर-लहरी के साथ गाये गए। देववाणी के गानात्मक काव्यों में जयदेव-जी का गीतगोविन्द प्रसिद्ध है।

* पवनाजायते नादो नादतः स्वर सम्भवः ।
स्वरात्संजायते रागः स रागो जन रञ्जनः ॥

इस काव्य में संगीत और साहित्य का अद्भुत समन्वय, पाठकों को, अनायास ही देखने को मिल सकता है। इस काव्य के सम्बन्ध में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है, कि जब जयदेवजी की धर्मरक्षी युवावस्था में ही, भीषण रोग के कारण, मृतप्राय हो गई थी, तब उन्होंने उसके सामने ही गीतगोविन्द की रचना प्रारम्भ कर दी। कहा जाता है कि उनके इस अद्भुत संगीत का उसके पाञ्चभौतिक शरीर पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि वह असाध्य रोग से मुक्त होकर पुनः स्वस्थ हो गई। राग-रागिनियों के प्रभाव से बुझे हुए दीपक जल उठने, घनघटाएँ उमड़-धुमड़ कर मेह बरसने लगने, और पशु-पक्षियों के सुग्ध हो जाने की बात तो लोक में प्रसिद्ध ही है। कहते हैं, कि संगीत सुनकर गाएँ दूध अधिक देने लगती हैं। संगीत के कारण कितने ही उन्निद्र रोग के रोगी भी अच्छे होते सुने गए हैं। युद्ध-भूमि में आल्हा के कड़के और मारू बाजा सुनकर वीरों के भुजदण्ड फड़कने लगते हैं। जिस समय किसी रस के अनुरूप गान-वाद्य होता है, उस समय एक अद्भुत 'समा' बंध जाता है। सहृदय श्रोता तन्मय हो जाते हैं। संगीत ही क्यो, भावपूर्ण चित्रों और मूर्तियों को देखकर भी रसों की अभिव्यक्ति होती है। कविता, संगीत, चित्र, मूर्ति आदि की गणना ललित-कलाओं में है। इन सब ही के द्वारा भावों का प्रदर्शन होता है। शब्द, ध्वनि, भाव-भंगी, तूलिका, रेखा आदि भावों की प्रदर्शिका हैं, और ये भाव ही अन्त में रसों के उत्पादक सिद्ध होते हैं। अभिप्राय यह कि साहित्य, संगीत, चित्र आदि सब ही के साथ रसों का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

दुर्भाग्यवश संगीत-शास्त्र उपेक्षित अवस्था में पड़ा था। परन्तु कुछ संगीत-विशारदों के उद्योग द्वारा, अब उसका उद्धार-कार्य प्रारम्भ हो गया है, और स्थान-स्थान पर संगीत-विद्यालय खुलने लगे हैं। गानात्मक साहित्य की भी अच्छी उन्नति हो रही है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि सुमधुर और निर्दोष संगीत के साथ, सरस और शुद्ध कविता मिलकर, सहृदय-समाज को लोकोत्तरानन्द प्रदान करती रहे।

शृङ्गार की रसराजता

साहित्य में शृङ्गार रस का महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। शृङ्गार प्रेम का प्रेरक है, विना प्रेम के ससार का निर्वाह ही नहीं सकता। मनुष्य ही नहीं, परमात्मा भी शृङ्गार-प्रिय है। उसने प्रकृति-परी को जो सौन्दर्य प्रदान किया है, उससे उसकी शृङ्गार-प्रियता सिद्ध होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। जो शृङ्गार सृष्टिकर्ता परमात्मा तक को पसन्द हो, उसका खण्डन करना साधारण काम नहीं है। स्वभाव से ही मनुष्य सौन्दर्य का उपासक या शृङ्गार का प्रेमी होता है। वसन्त ऋतु में वनस्पति-जगत् के शृङ्गार या सौन्दर्य को निहार कर हृदय हर्ष से भर जाता है। वृद्ध-लताओं को नाना प्रकार के पुष्पों से सुसजित देखकर, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। तरु-वल्लरी ही नहीं, मनुष्य और पशु-पक्षी आदि प्राणियों के शरीर भी ममय पाकर शृङ्गार के आगार बन जाते हैं। मनुष्यों में भी स्त्रियाँ तो शृङ्गार और सौन्दर्य का केन्द्र ही होती हैं। यौवन वसन्त आने पर उनमें एक प्रकार का अद्भुत आकर्षण आ जाता है। उस समय उनका सौन्दर्य अथवा प्राकृतिक शृङ्गार कविता का विषय बनकर कवि-कल्पना का प्रेरक बन जाता है। स्त्रियों के स्वाभाविक सौन्दर्य को वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर देने पर, शृङ्गार की मात्रा और भी बढ़ जाती है। पुरुष और स्त्री में स्त्री की सुन्दरता तथा कोमलता अधिक आकर्षक मानी गई है। इसीलिए कवियों ने उसकी प्रशंसा में काव्य के काव्य रच डाले हैं! कच, कुच, कपोल, आँख, नाक, कान, मुँह, ओठ, चिबुक, भुजा, जंघा, नितम्ब इत्यादि अंगों का वर्णन करने में कमाल कर दिया है, हिन्दी ही क्यों, कदाचित् ही किसी भाषा का काव्य-साहित्य शृङ्गार-रस से शून्य रहा हो। साधारण जनता के गीतों में भी वह यथेष्ट मात्रा में पाया जाता है। दर्शक के हृदय पर सौन्दर्य

का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। जैसा जिसकी समझ में आया, सब ही ने गद्य, पद्य, चम्पू आदि में सौन्दर्य का वर्णन किया है। परन्तु कवि हृदय की कल्पना कुछ और ही होती है। वह सौन्दर्य में भी एक अलौकिक सौन्दर्य उत्पन्न कर देती है।

प्रायः देखा जाता है कि प्राचीन समय में कविता के दो ही विषय थे— भक्ति और शृङ्गार। इनमें भी शृङ्गार सम्बन्धी काव्यों को अधिक महत्त्व दिया जाता था, अतएव कवि-कल्पना इसी ओर झुकी रहती थी। परन्तु पीछे ज्यों-ज्यों विज्ञान का प्रकाश फैलता गया, और दैव-दुर्विपाक से लोगों को उदर-पूर्ति की चिन्ता सताने लगी, त्यों-त्यों शृङ्गार की चर्चा में कमी हुई। कवियों ने अपनी कविता का प्रवाह बदला, और शृङ्गार का स्थान अन्य विषयों ने लिया। आजकल शृङ्गार की कविता आवश्यक नहीं समझी जाती क्योंकि उसके अधिक प्रचार से लाभ की अपेक्षा हानि ही की विशेष सम्भावना है।

शृङ्गार रस के स्वरूप के सम्बन्ध में नाट्यशास्त्रकार भरतमुनि का मत है, कि 'ससार में जो कुछ पवित्र' उत्तम, उज्ज्वल और दर्शनीय* है, वही शृङ्गार रस है।' साहित्य-दर्पणकार का कहना है कि काम के उद्भेद (अंकुरित) होने को शृङ्ग कहते हैं। उसकी उत्पत्ति का कारण, अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त रस शृङ्गार कहलाता है। इस लक्षण में भी 'उत्तम प्रकृति' विशेष ध्यान देने योग्य है। अभिप्राय यह कि भरत मुनि की भाँति कविराज विश्वनाथ भी शृङ्गार रस को उत्तमता से पृथक् नहीं मानते। दोनों का मत-साम्य स्पष्ट है, जहाँ उत्तमता है, वहाँ पवित्रता, उज्ज्वलता आदि का होना भी स्वाभाविक है। स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी, लता-वृक्ष, पत्र-पुष्प, पुर-प्रासाद, वन-उपवन, नदी-नद, झरना-भील, स्रोत-सरोवर, गिरि-शिखर, आकाश-नक्षत्र सूर्य-चन्द्र सभी शृङ्गार रस के आधार हैं, सब में शृङ्गार की अद्भुत छटा दिखाई देती है। आँख से सुन्दर वस्तुओं को देखकर, कान से श्रवण-सुखद मधुर ध्वनि सुनकर, नासिका से मस्त

कर देने वाली सुगन्ध सूँघकर, हृदय में आनन्द की धारा उमड़ने लगती है। चमत्कृत काव्य के भव्य भाव को हृदयङ्गम कर, सहृदय श्रोता का मन आनन्दित हो जाता है, सुन्दर प्रासाद की रुचिर रचना को अवलोकन कर प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वन-उपवनों की प्राकृतिक छटा निहार कर, मन-मयूर नाचने लगता है। वस्तुतः शृङ्गार रस की बड़ी महिमा है।

प्रेम और विलासिता में बड़ा अन्तर है। प्रेम ईश्वर है, उसका स्थान हृदय की विशुद्धता में है, परन्तु विलासिता इन्द्रिय-लोलुपता जन्य काम-वासना की तृप्ति मात्र है। प्रेम से शृङ्गार की उत्पत्ति मानी गई है, और विलासिता कामुकता-शान्ति का कारण समझी जाती है। शृङ्गार की विशुद्ध प्रेम-वृत्ति, परमात्मा की ओर प्रवृत्त होकर, भक्तिभाव से राधा-कृष्ण का गुण गान करती है। इसके अतिरिक्त और भी जहाँ-जहाँ उज्वलता, शुद्धता, उत्तमता और दर्शनीयता है, वहाँ-वहाँ उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके विरुद्ध, दूसरी ओर विलासिता-पूर्ण भावना है, जो इन्द्रिय-लोलुपता की ओर अग्रसर होकर, नर नारियों के अंग-प्रत्यंगों की सुन्दरता का वर्णन करती रहती है, शृङ्गार की इस दूसरी मनोवृत्ति के दुरुपयोग ने ही काव्य-साहित्य की ओर उँगली उठवाने में सहायता दी है। अस्तु

शृङ्गार रस का स्थायी भाव रति है। साधारणतः रति का अर्थ है—प्रीति, प्रेम, अनुराग आदि। साहित्य-दर्पणकार की व्याख्या के अनुसार, 'प्रिय वस्तु में मन के प्रेम-पूर्वक उन्मुख होने का नाम रति है।' 'सुधासागर' ने स्त्री-पुरुष के काम-वासना-मय हृदय की परस्पर रमणोच्छ्वा को रति कहा है। रति ही कामदेव की स्त्री है। अंकुरित काम ही अपनी प्रिया रति से मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति करता है।

कुछ विद्वानों की सम्मति में, मनुष्यों और पशु-पक्षियों की रति में बड़ा अन्तर है। वे कहते हैं कि मनुष्य जिस साहित्यिक रति की अनुभूति करते हैं, पशु-पक्षियों को उसका श्रेणुभव नहीं होता। पशु-पक्षियों में तो

केवल सहज प्रजनन-शक्ति (Propagation of species) होती है, जिससे प्रेरित होकर वे सृष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी कार्य करते रहते हैं। साहित्यिक रति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। निस्सन्देह विद्वानों की यह सम्मति भी विचारणीय है। अस्तु

यदि शृङ्गार रस न हो, तो संसार ससार न रहे, और सर्वत्र घोर शुष्कता का आधिपत्य स्थापित हो जाय। स्त्री-पुरुष या नर-मादा के हृदय में, प्रेम पैदा कर रमण की इच्छा उत्पन्न कराने वाला शृङ्गार ही है। इसीलिए इसको इतना ऊँचा पद दिया गया है। शृङ्गार को रसराज उपाधि से अलकृत करने का एक यह भी कारण है, कि उसमें उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़ कर, प्रायः शेष सब सञ्चारी भाव, विभावों और अनुभावों सहित आ जाते हैं। कहीं-कहीं तो शृङ्गार में उपर्युक्त चार सञ्चारी भी सम्मिलित कर लिए गए हैं, अर्थात् कितने ही कवियों ने, किसी न किसी रूप में इनका भी वर्णन किया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया, शृङ्गार विश्व में व्याप्त है। प्राणियों के जीवन से तो इसका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। लता-पुष्पों पर भी इसका प्रभाव होता है। शृङ्गार रस की इतनी व्यापकता के कारण ही रसों में उसका सर्वोच्च स्थान माना गया है। यौवन की मादकता या जवानी की मदहोशी शृङ्गार रस की सूचिका है। कुछ आचार्यों ने शृङ्गार रस की अपेक्षा हास्य, अद्भुत, करुण आदि को मुख्य माना है, परन्तु यह मत युक्ति-युक्त और समीचीन न होने के कारण ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक की उत्पत्ति ममता के कारण होती है, ममता ही शृङ्गार रस की विभूति है, अतएव शृङ्गार की ही मुख्यता होनी चाहिये। रहा हास्य रस तो यह तो शृङ्गाररस से निकला ही है। फिर उसका आधार मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य प्राणी नहीं हैं, अतएव इसकी अप्रधानता भी स्पष्ट है। अद्भुत रस भी मानव-क्षेत्र के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता, ऐसी दशा में यह भी प्रधानता का अधिकारी नहीं। परन्तु शृङ्गार की व्यापकता असीम और

अनन्त है। जो रस, सृष्टि में इस प्रकार ओत-प्रोत है, उसे प्रधानता न देना कैसे उचित कहा जा सकता है।

शृङ्गार रस की प्रधानता के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है, कि सारे रस शृङ्गार रस में उत्पन्न होकर, शृङ्गार में ही विलीन हो जाते हैं। बात ठीक-सी भी मालूम देती है, क्योंकि इस धारणा की पुष्टि में भी उदाहरण पाए जाते हैं। यथा—रामचन्द्रजी का विवाह-प्रसंग ही ले लीजिए। पुष्प वाटिका में सीता और राम के हृदयों में परस्पर दर्शन के कारण प्रेम (शृङ्गार) अंकुरित होता है। दोनों के विवाह की चर्चा सुन, सारे समाज में हर्ष (हास्य) छा जाता है, परन्तु स्वयंवर के समय धनुष-भंग होता न देख, समस्त सामाजिक शोक (करुण) से द्रवीभूत होने लगते हैं। उस समय राजा जनक की निराशापूर्ण एवं अनुचित बातें सुनकर, लक्ष्मण को क्रोध (रौद्र) हो आता है। श्रीरामचन्द्र उन्हें शान्त (शान्त) करते हैं। थोड़ी देर बाद ही धनुष-भंग होने के कारण एक ओर उपस्थित राजे महाराजे भयभीत (भयानक) होते हैं, और दूसरी ओर रामचन्द्रजी की ऐसी अद्भुत (अद्भुत) क्षमता देख सबको आश्चर्य होता है। कुछ अभिमानी राजाओं के हृदयों में अपनी असमर्थता के कारण ग्लानि (बीभत्स) की उत्पत्ति होती है। इतने ही में परशुराम आ जाते हैं, और उनमें तथा लक्ष्मणजी में करारी झड़प होती है। फिर राम और सीता का विवाह हो जाता है। उपर्युक्त उदाहरण से ज्ञात होगा कि अकेले शृङ्गार रस के कारण करुण, बीभत्स, भयानक, अद्भुत आदि अनेक रस उत्पन्न होकर, अन्त में वे शृङ्गार में ही विलीन होगए।

शृङ्गार रस का स्थायी भाव प्रेम मनुष्यों के हृदयों में बचपन से ही अंकुरित होता, और अन्त तक रहता है। परन्तु अन्य स्थायी भावों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता। बालक में पहले पहल अपने माता-पिता और भाई बहनों के लिए प्रेम उमड़ता है। बड़ा होने पर वही प्रेम पति-पत्नी रूप दो प्राणियों के हृदय-बन्धन में बदल जाता है। सन्तान होने पर वात्सल्य में भी प्रेम के ही दर्शन होते हैं। वृद्धावस्था में ममता

भी प्रेम की ही प्रतिनिधि है। मरते समय करुणापूर्ण हृदय के उद्गार या करुण चेष्टाएँ भी प्रेम की ही प्रतीक हैं। जो प्रेम जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त हमारा साथी रहता हो, उसकी प्रधानता स्वीकार न करना कितनी भूल है।

शृङ्गार रस की रसराजता के विषय में 'सरस्वतीकण्ठाभरण' के रचयिता महाराज भोज हमारे पक्ष के प्रबल पोषक हैं। वे रस-विचार प्रकरण में लिखते हैं—

..... वयंतु

'शृङ्गारमेव रसनाद् रसमामनामः।'

अर्थात् यद्यपि अन्य आचार्यों ने अनेकों रस स्वीकार किये हैं, पर हमारी समझ में एक मात्र शृङ्गार ही रस है, और तो सब नाम के ही रस हैं। इस प्रकार उन्होंने शृङ्गार की प्रधानता स्पष्ट उद्घोषित की है। इसी बात को उद्धृत करते हुए राजा स्य्यक ने लिखा है—

'राजातु शृङ्गारमेवैकं रसमाह' इत्यादि।

अभिप्राय यह कि स्य्यक के मत में शृङ्गार रस की ही सब रसों में श्रेष्ठता मानी गई है।

जिस प्रकार गन्दे पानी से गगाजल दूषित हो जाता है, उसी प्रकार इन्द्रिय-विलास-जन्य लोलुपता, विशुद्ध प्रेम-पीयूष को अपवित्र कर देती है। दुर्भाग्यवश कभी कभी यह दूषित प्रेम भी काव्य का रूप धारण कर, सद्हृदय-समाज के सामने आता रहता है, जिसे वह निन्दनीय समझता है। संयोग-जन्य प्रेम की अपेक्षा वियोग-जनित प्रेम में अधिक विशुद्धता मानी गई है। भक्त कवियों ने अपने काव्यों में पवित्र प्रेम सम्बन्धी शृङ्गार का ही वर्णन किया है। जिस समय पवित्र प्रेम-पूरित काव्य-ध्वनि हमारे कर्ण कुहरों में होकर मन-मानस तक पहुँचती है, उस समय उसमें अलौकिक आनन्द की उच्चाल तरंगे उठने लगती हैं।

संस्कृत तथा हिन्दी-साहित्य पर शृङ्गार रस का पर्याप्त प्रभाव है। नाटक, इतिहास, पुराणादि सब में ही शृङ्गार की प्रधानता पाई जाती है। जब रस-साहित्य का विषय मानव-हृदय, बाह्य जगत्, प्रकृति आदि है, तब वह शृङ्गार रस से शून्य हो ही कैसे सकता है। संस्कृत और हिन्दी ही क्यो, जिन भाषाओं के साहित्य में भी पवित्रता, उज्वलता, दर्शनीयता आदि गुण मिलते हैं, उनमें शृङ्गार रस का स्पष्ट विकास दिखाई देता है। साहित्य पर युग की छाप रहती है। जैसा युग, वैसा साहित्य। मुसलमान-शासकों की विलासिता के कारण, हिन्दी-साहित्य के लिए भी ऐसा समय आया, जब कवियों ने नायक नायिकाओं के अङ्गों का वर्णन करना ही अपना कर्तव्य समझ लिया। अभिप्राय यह कि जिम युग में, जिस रस की आवश्यकता होती है, उसमें वही परिपक्व होकर प्रादुर्भूत होता रहता है। किसी युग में शृङ्गार रस की प्रधानता रही, किसी में शृङ्गार-समन्वित भक्ति को मुख्यता दी गई, और किसी में वीर करुण आदि को। वर्तमान युग शृङ्गार रस की प्रधानता का युग नहीं है, इसमें वीर, करुणादि रसों को ही मुख्यता प्राप्त है।

निस्संदेह ब्रजभाषा में शृङ्गार रस की कविताएँ इतनी अधिक हैं, कि अब उसमें इस रस पर लिखने की आवश्यकता नहीं रही। ब्रजभाषा में शृङ्गार सम्बन्धी कविताएँ क्यो अधिक हैं, इसका कारण सुनिष्ट—इतिहास में एक समय ऐसा आया, कि भगवद्भक्तों की शृङ्गारमयी उपासना का प्रतिविम्ब ब्रजभाषा पर भी पड़ा, कवि लोग श्रीकृष्ण की शृङ्गार लीलाओं का वर्णन बड़ी तन्मयता से करने लगे। इस भक्ति-भावना पर श्रीमद्भागवत का बड़ा प्रभाव था। उस समय की कविताओं में अधिकतर कृष्ण-लीला सम्बन्धी विशुद्ध प्रेम का ही वर्णन है। निश्चय ही उस समय शृङ्गार-रस की सरिता ने भक्ति-भागीरथी से मिलकर, संगम का एक अपूर्व दृश्य उपस्थित कर दिया था। विद्वानों का विचार है कि यदि ईश्वर-भक्ति-जनित विरक्तिमय जीवन की शुष्कता दूर करने के लिए, उसमें राधा-कृष्ण की शृङ्गारमयी आराधना का मेल न मिलाया जाता, तो जाति का

बड़ा अहित होता। असंख्य नर-नारी विरक्ति के कारण घर-बार छोड़ अकर्मण्य बन जाते। वे लोक-साधन से दूर रह कर विराग के राग गाते दिखाई देते। शृंगारमयी भक्ति ने उस शुष्कवाद को रोका, और विरक्ति-युक्त उपासना का मुँह अनुराग-जनित भक्ति की ओर किया।

जैसा कि ऊपर कहा गया, आधुनिक युग में हिन्दी कविता का प्रवाह बदला है, और उसमें अनेक सामयिक एवं उपयोगी विषयों का प्रवेश होने लगा है। परन्तु 'रजनी' 'सजनी' के गीत उसमें अब भी गाए जाते हैं। 'ककण' 'किंकिणी' तथा 'नूपुरों' की मधुर ध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है। आश्चर्य तो यह है कि आजकल के जो कवि ब्रजभाषा के शृंगार से चिढ़कर उसे हेच और हेय समझते हैं, वे भी अपनी कविता को उस से अछूता नहीं रख पाते ! नाटकों और सिनेमाओं में जाकर अभिनेत्रियों के रूप-लावण्य और हाव-भाव को देखने में तो अशिष्टता नहीं समझी जाती, परन्तु उनका काव्यमय वर्णन सारे अनर्थों का कारण बन जाता है। कमरों में सुन्दरियों के चित्र टॉगने से तो सदाचार-सदन पर प्रहार नहीं होता, परन्तु महाकवि पद्माकर का शृंगार सम्बन्धी कोई काव्य-मय छन्द या विहारी का चमत्कृत दोहा, नैतिकता के गढ़ पर गज़ब का गोला गिरा देता है ! अरे साहब ! सौन्दर्य किसे अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत चीज़ें किसे पसन्द नहीं आती। स्वयं विश्वकर्मा भगवान् ने प्रेम और सौन्दर्य की बड़े रच-पच कर रचना की है। अगर उनमें कोई दोष होता तो वे पैदा ही क्यों किये जाते। जब सौन्दर्य और प्रेम इतने व्यापक और मोहक हैं, तब उनका कवित्वमय वर्णन विघातक कैसे हो सकता है। आवश्यकता होने न होने का दूसरा प्रश्न है। ज़रूरत न होने पर तो मोहनभोग और कलाकन्द भी उपेक्षा की वस्तु बन जाते हैं। परन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि मोहनभोग या कलाकन्द बुरी चीज़ हैं। वे बुरी उस समय होंगी, जब उन पर मिट्टी आ पड़ेगी, अथवा उनसे अन्य किसी दूषित पदार्थ का मेल हो जायगा। यही बात शृंगार के सम्बन्ध में भी है। उत्कृष्ट शृंगार का कोई विरोध नहीं कर सकता।

गन्दा या अश्लील शृंगार तो शृंगार ही नहीं, वह तो शृंगाराभास है, क्योंकि उसमें पवित्रता, श्रेष्ठता, उज्ज्वलता और दर्शनीयता का अभाव है। भला ठिकाना है कि जिस विशुद्ध प्रेम और सौन्दर्य की निन्दा कभी हो ही नहीं सकती, उसका सरस वर्णन आक्षेप योग्य समझा जाता है। हम स्वयं अशिष्टता और अश्लीलता के समर्थक नहीं हैं। ये दोष जिस रचना में भी होंगे वही निन्दनीय कही जायगी। अस्तु

शृङ्गार दो तरह का माना गया है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। वियोगावस्था में प्रिय वस्तु के न मिलने से बड़ा दुःख होता है, परन्तु उसके गुणों का ध्यान या स्मरण एक अद्भुत आनन्द प्रदान करता रहता है। शृङ्गार रस नायिकाओं के ही अग-प्रत्यंगों अथवा हाव-भावों का वर्णन करने में प्रयुक्त नहीं हुआ, प्रत्युत उसमें कबीर, सूर, तुलसी आदि महा कवियों ने विरक्ति से भरे हुए, ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी गम्भीर भाव भी प्रदर्शित किये हैं। कहीं मृत्यु को दुलहिन माना है, और कहीं प्रियतम। कहीं कहीं शव की अरथी (काठी) को दुलहिन की डोली से उपमा दी गई है, कफन को गौने की साड़ी बताया गया है। शृङ्गार-पूर्ण भाषा में इस प्रकार के वैयग्य सम्बन्धी वर्णन बड़े ही प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। 'आई गवनवा की सारी, उमरि अबही मोरी बारी' 'सोचो मान सहेली परसो पीतम लेवे आवेगो', 'सजले साज सजीले सजनी ! मान विसार मना ले बर को', इत्यादि गीत शृङ्गार रस की भाषा में लिखे गए हैं, परन्तु उनका वास्तविक भाव समझने पर, हृदय में निर्वेद जाग्रत होने लगता है। मृत्यु ही नहीं, ईश्वर का वर्णन भी शृङ्गारी भाषा में किया गया है। यथा—“कौन उपाय करूँ पिय प्यारो साथ रहे पर हाथ न आवै”, 'आज अली बिल्लुरो पिय पायो मिट गए सकल कलेस री', इत्यादि सैकड़ों ऐसे पद्य मिलेंगे, जो शृङ्गार रस में डूबे हुए हैं, परन्तु उनका प्रकृतार्थ हमारे हृदय को एक विरागमयी गम्भीर भावना की ओर आकृष्ट करता रहता है। जो लोग शृङ्गार रस को स्त्री-पुरुषों की काम कला मात्र का विषय समझकर उसे निरर्थक बताया करते हैं, उन्हें शृङ्गारी भाषा के इन गम्भीर भाव-

भरे पद्यों को पढकर सोचना चाहिये. कि शृङ्गार के ससर्ग से इन विरक्त भावनाओं का प्रभाव कितना अधिक बढ़ जाता है ।

इतना ही नहीं, कुछ लोग नायिकाओं के नाम से बुरी तरह चिढ़ते हैं । मानो नायिका शब्द इतना बुरा है कि उसका उल्लेख मात्र भी पाप का भागी बना देगा । जो वीतराग जन स्त्रियों के सहज सम्पर्क से सर्वथा अलग रह कर, अलौकिक रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी तो बात ही निराली है । न उन्हें नायिकाओं से मतलब; न उनके भेदों और वर्णनों से सरोकार । परन्तु जो लोग हृदय मे तो नायिकाओं के लिए असीम अनुराग रखते हैं, परन्तु उनके सरस और शिष्ट वर्णन से बिदक जाते हैं, वे दम्भ के अवतार होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकते । भरतमुनि आज नहीं हुए । उनके नाट्यशास्त्र को बने सहस्रों वर्ष बीत गए, परन्तु नायिकाओं का वर्णन उस प्रसिद्ध ग्रन्थ में भी किया गया है । साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थों मे भी इस विषय का पर्याप्त विवेचन है । संस्कृत काव्यों मे नायिका-वर्णन से सर्ग के सर्ग भरे पड़े हैं । हिन्दी वालों ने भी इस रस की सुरम्य सरिता बहाने मे कमी नहीं की । मतलब यह कि शृङ्गार रस और नायिकाओं का वर्णन कोई नयी चीज़ नहीं है, और न वह घृणास्पद ही कहा जा सकता है । अतियोग, मिथ्या योग या दुरूप-योग तो किसी चीज़ का भी ठीक नहीं होता ।

नायिकाभेद क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि प्रकृति, अवस्था और स्थिति के अनुसार स्त्रियों का वर्णन ही नायिका-भेद कहाता है । प्रेम का किम अवस्था मे, किन स्त्रियों की कैमी दशा हो जाती है, विरह में वे क्या सोचती है, मिलन उनकी मानसिक अवस्था पर क्या प्रभाव डालता है, नायक के आने की प्रसन्नता या प्रतीक्षा में उनके मन पर कैसा असर पड़ता है प्रेम की प्रतिकूलता मे वे किस तरह व्याकुल हो जाती हैं, काम-वासना के जाग्रत होने पर उसके साथ लज्जा और संकोच का किस प्रकार द्वन्द्व होता है । ऐसी अवस्था में धीरता और सहन-शीलता किस प्रकार सहायक होती है, सपत्नी के प्रति ईर्ष्याभाव उठने पर मन की क्या

दशा हो जाती है, प्रेम-प्राप्ति के लिए मानसिक भावों का किस तरह विकास होता रहता है, इत्यादि बातों का अति सूक्ष्म वर्णन नायिका-भेद में विशेष रूप से किया जाता है। स्त्रियों के इस सूक्ष्म मानसिक विश्लेषण को आज कोई कितना ही निरुपयोगी क्यों न समझे, परन्तु कलाकारों की विशद विवेचना की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी।

इसके अतिरिक्त नायिका-भेद में आपको आदर्श पत्नी और आदर्श पति का वर्णन मिलेगा। पतिप्राणा स्त्री के हृदय में अपने प्राणनाथ के लिए कैसे-कैसे भव्य भावों का संचार होता रहता है, और भार्यानुरक्त पति अपनी प्राणाधिका पत्नी के प्रति कैसी कलित कल्पनाओं से ओत प्रोत दिखाई देता है ? गृहस्थ को स्वर्गधाम बनाने वाली स्वकीया कौन है, और वह नरक-निदर्शन किन क्रूर स्वभावाओं के कारण बन जाता है, इत्यादि बातों से परिचित होने के लिए नायिका-भेद से बहुत सहायता मिलती है। नायिका-भेद की उत्कृष्ट कविताओं को निष्पन्न होकर पढ़िए, तो आपको उनमें प्रेममय त्याग और स्नेह-युक्त आदर्श के दर्शन होंगे। आप अच्छी तरह जान सकेंगे कि स्त्रियाँ प्रीति के प्रबल प्रसंग में पड़कर, अपने शरीर तक की परवा नहीं करतीं। अपने प्राण प्यारे के वियोग में कञ्चन-सी काया को गुला देना उनके लिए एक साधारण बात है। अस्तु

स्वकीया, परकीया और गणिका तीनों को नायिका नाम से पुकारा गया है। स्वकीया का आदर्श सद्गृहस्थ का उच्च और अनुकरणीय आदर्श है। परकीया बड़ी कठिनाइयों और विघ्न-बाधाओं के पश्चात् अभीष्ट प्रेम प्राप्त करने में समर्थ होती है। उसे इसके लिए अनेक छल-छिद्र भी करने पड़ते हैं। तरह-तरह की उक्तियाँ और युक्तियाँ काम में लानी पड़ती हैं। जिस प्रकार संसार में विष और विषधर का भी कुछ न कुछ उपयोग है, उसी प्रकार गणिकाओं की भी उपयोगिता मानी जा सकती है। वैश्याएँ नवयुवकों को बहका-फुसलाकर किस प्रकार उन्हें अपने माया-जाल में फँसतीं और धन-हरण करने के लिये किस तरह धूर्तता रचा करती हैं, इत्यादि बातें गणिकाओं के प्रपंच-वर्णन से ही जानी जा सकती हैं। शृंगार रस के अन्तर्गत

नायिका भेद के वर्णन का मुख्य उद्देश्य स्वकीया की आदर्श-रक्षा है। स्वकीया का प्रेम-धन लूटने के लिए, जिन पोच प्रपञ्चों का प्रयोग किया जा सकता है, उन्हीं का रहस्योद्घाटन परकीया और गणिका के वर्णन में किया जाता है। अंगरेज़ी, अरबी, फारसी आदि किसी भी भाषा के काव्य-साहित्य में देखिए, जहाँ प्रेम का वर्णन है, वहाँ स्त्रियों की मनोगत भावनाएँ भी दरसाई गई हैं। भले ही इन कविताओं में स्वकीया, परकीया और धीरा-अधीरादिका नामोल्लेख न हो, परन्तु नायिका-भेद के ज्ञाता उन वर्णनों को सुन-समझ कर बड़ी आसानी से जान सकेंगे कि वह किस नायिका की उक्ति है, और वह कौन-सी विरह-दशा है। हम तो समझते हैं, प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों ने नायिका-भेद के मिस, काम-कला-जन्य मनोविकारों का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। इस वर्णन को यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तब भी वह ठीक ही उतरेगा। फिर से मान लिया जाय कि श्रृ गार व्यर्थ की वस्तु है, अथवा नायिका-भेद में कोई अच्छी बात है ही नहीं।

काव्य-कला की दृष्टि से नायिका-भेद सम्बन्धिनी कविताएँ अति उत्कृष्ट समझी जा सकती हैं, क्योंकि उनमें मनोभावों की बड़ी सुन्दर और स्वाभाविक व्याख्या की गई है। रमणीयता और रसात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। हृद्गत भाव बड़ी खूबी से चुने हुए शब्दों में व्यक्त किये गए हैं। वास्तव में ये कविताएँ सार्थक संगीत हैं। शृंगार रस-पूर्ण कविताओं के चमत्कृत भावों को देखकर, मन-मानस में आनन्द की हिलोरे उठने लगती हैं। कला को कला की दृष्टि से देखने पर ही उसकी उत्कृष्टता और महत्ता प्रकट होती है, नायिका-भेद को नायिका-भेद की दृष्टि से देखिए, और विचारिए कि उसमें जिन भावों की अभिव्यक्ति हुई है, उनमें काव्य-कला के विचार से किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, सदोषता तो नहीं दिखाई देती। इस दृष्टि से नायिका-भेद सम्बन्धिनी कविताएँ बड़ी आकर्षक और हृदय को स्पर्श करने वाली प्रतीत होंगी। उनमें मस्तिष्क और हृदय दोनों की सूक्ष्म भावनाओं के दर्शन होंगे। प्रतिभाशाली कवियों की ललित

लेखनी से निकली हुई, मोहक मधुरिमा, पाठक पर अपना अमित प्रभाव अंकित किये बिना नहीं रहती। आवश्यकता केवल सहृदयता या संवेदनशीलता की है।

उपर्युक्त पंक्तियों में सच्चित्त रूप से यह दिखाने की चेष्टा की गई है, कि शृंगार रस का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसके बिना ससार में नीरसता और शुष्कता का आधिपत्य स्थापित हो जायगा, और सृष्टि-संचालन सम्बन्धी कार्यों में बड़ी बाधा पड़ेगी। ऐसी दशा में शृंगार रस को निरर्थक और निष्प्रयोजन कैसे माना जाय। हाँ, यदि संसार से प्रेम और सौन्दर्य ही नष्ट कर दिये जायँ, तो शृंगार-रस की भी अन्त्येष्टि क्रिया की जा सकती है।

इस बात को हम फिर बड़े जोर से कहना चाहते हैं कि हिन्दी में शृङ्गार रस की बहुलता है, अतएव अब उसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। अश्लीलता पूर्ण गन्दी गदन्त को शृंगार-रस कहना, शृंगार शब्द का दुरुपयोग करना है। विवाहित स्त्री-पुरुषों को दाम्पत्य प्रेम के लिए, जिन अनुभवों और विचारों की आवश्यकता है, उनका थोड़ा-बहुत मसाला नार्थिका भेद में मिल जाता है। अतएव किसी न किसी रूप में, शृंगार के इस विभाग की भी कुछ न कुछ उपयोगिता है। जो हो, वर्तमान युग शृङ्गार के गीत गाने का नहीं है। इसमें तो वे ही कविताएँ होनी चाहिये, वे ही ग्रन्थ लिखे जाने चाहियें, जिनसे देश और जाति का उद्धार हो, जनता स्फूर्ति प्राप्त कर सके, और लोग अपने को ऊँचा उठाकर दूसरों को उन्नत बना सकने में समर्थ हों।

भक्ति रस

वैष्णव लोग भक्ति को भी रस मानते हैं। उनका कहना है कि जिस परमात्मा का नाम रस हो, उसकी भक्ति को रस में न गिनना ठीक नहीं है। भगवान् जिसके आलम्बन हैं, रोमाञ्च, अश्रु-पातादि जिसके अनुभाव हैं, भागवतादि पुराण-श्रवण के समय भगवद्भक्त भक्ति रस के उद्रेक से जिसका अनुभव करते हैं, वही भगवद्-अनुराग स्थायी भाव है। वे कहते हैं कि परम प्रभु परमात्मा से सम्बन्ध रखने वाला जो भक्ति रस इस प्रकार विभावादिकों से पुष्ट हो रहा हो, उसे रस स्वीकार न करना कदापि उचित नहीं हो सकता।

भक्ति रस का आस्वादन करके, न जाने अब तक कितने भक्त अपने जीवन को अमर बना गए। जिन व्यक्तियों ने भक्ति रस को भले प्रकार चख लिया, उन्हें फिर ससार में किसी प्रकार का आकर्षण न रहा। मीराबाई की महिमा को कौन नहीं जानता ? भक्त प्रह्लाद की गुण-गद्दिमा किससे छिपी हुई है ? एक दो नहीं; सैकड़ों भगवद्भक्तों से ससार का इतिहास भरा पड़ा है। ईश्वर-भक्ति में तल्लीन होकर अलौकिक आनन्द प्राप्त करना क्या कोई साधारण बात है। परन्तु आश्चर्य है कि इस रस की बहुत कम पृथक् सत्ता स्वीकार की गयी है। अगर भक्ति में अद्भुत तल्लीनता न होती तो आज भक्तों के नाम भी सुनाई न पड़ते। शृंगार और भक्ति रस में बहुत भेद है। जिस प्रकार वात्सल्य में अलौकिक आनन्द होता है, उसी प्रकार भक्ति में भी। जो भक्ति रस परमात्मा तक पहुँचाने वाला हो, उसकी इस प्रकार उपेक्षा कैसे की जा सकती है। वेद और शास्त्र, काव्य और इतिहास, सभी भगवद्भक्ति से भरे पड़े हैं। संसार के सभी महान् पुरुष भगवान् के अनन्य भक्त रहकर अपना उदात्त आदर्श छोड़ गये हैं। भक्ति के कई भेद किये जा सकते हैं—गुरुभक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, राजभक्ति, स्वदेशभक्ति इत्यादि।

भक्ति का अतियोग धर्मान्धता अथवा अन्ध श्रद्धा की ओर ले जाता है, और इसका हीन योग अश्रद्धा, नास्तिकता और शुष्कता का उत्पादक है। सन्ध्या, स्तुति, प्रार्थना, उपासना प्राणायाम, योगाभ्यास, नम्रता, कृतशता, दया, परोपकार, क्षमा, आत्मनिष्ठा, सत्यप्रेम आस्तिकता आदि की जननी भक्ति ही है। संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं, जहाँ भक्ति की मान्यता न रही हो। जहाँ जाइए, वहाँ किसी न किसी रूप में लोग परमात्मा के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते दिखाई देगे। मस्तिष्क-शास्त्रियों का कहना है कि हर्ष, विषाद, करुणा, शौर्य, घृणा, क्रोध, प्रेम आदि की तरह भक्ति-भाव के लिए भी मस्तिष्क में पृथक् स्थान है। इसलिए भक्ति-भावना का प्रकाशन किसी अन्य वृत्ति द्वारा नहीं हो सकता। भक्ति-वृत्ति का विकास करने के लिए, अभ्यास और शिक्षा की आवश्यकता है। प्रसिद्ध मस्तिष्कशास्त्री डाक्टर, गॉल और डा० जार्ज कौम्ब का यह भी कहना है कि जो लोग परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं, उनके मस्तिष्क में भक्ति का स्थान अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ऐसे लोगों की रचि ईश्वर-भक्ति परोपकार, दया आदि धर्मभावों में ही अधिक होती है। तत्त्ववेत्ता और कवियों के मस्तिष्क में भी यह स्थान कुछ बड़ा होता है। इसी मत के समर्थक “ ह्यूमैन साइंस एण्ड फ्रेनोलोजी ” नामक ग्रन्थ के रचयिता डाक्टर ओ० एस० फाउलर हैं। अभिप्राय यह कि जब प्रसिद्ध मस्तिष्क-शास्त्रियों की अन्वेषणा के आधार पर, मस्तिष्क में भक्ति का स्थान पृथक् है, तो उसका प्रभाव भी पृथक् ही मानना पड़ेगा।

विभाव

विभाव

जिसके आश्रय से रस प्रकट हो, उसे विभाव कहते हैं। नाट्य-शास्त्रकार ने विभाव का लक्षण 'विभावयन्ते अनेन वागङ्ग सत्वाभिनया इति विभावः' किया है। अर्थात् जिसके द्वारा वाचिकाभिनय, आगिकाभिनय और सात्विकाभिनय प्रकट किये जायँ, उसे विभाव कहते हैं। रसतरंगिणीकार के मत से, जो विशेषतया रस को उत्पन्न करे उसकी विभाव संज्ञा है।

विभाव दो प्रकार का होता है, अर्थात् १—आलम्बन और २—उद्दीपन

आलम्बन विभाव

जिसका आलम्बन अर्थात् आश्रय लेकर रस उत्पन्न हो, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं, जैसे नायक-नायिका। नीचे नायक आलम्बन के उदाहरण दिये जाते हैं—

आई भली मैं चली सखियान में पाई गोविन्द के रूप की भाँकी ।
त्यौं 'पदमाकर' हारि दियो गृह-काज कहा अरु लाज कहाँ की ॥
है नखते सिखलों मृदु माधुरी बाँकीय भौहैं बिलोकनि बाँकी ।
आजु की या छुवि देखि भट्ट अब देखिबे कौं न रह्यो कछु बाकी ॥

×

×

×

सोने-सो रंग भयो तो कहा अरु जो विधिना कटि छीन सँवारी ।
दार्यौं-से दन्त भए तो कहा जु कहा भयो लाँबी लटें सटकारी ॥
रूप की रासि भई तो कहा नहीं प्रेम की रासि हिये अवधारी ।
नैन बड़े जो भए तो कहा, पर आखिर गोरस बेचनहारी ॥

नायक

साहित्यदर्पण-कार ने नायक का लक्षण निम्न प्रकार किया है—

त्यागी, कृती, कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही ।

दक्षोऽनुरक्त लोकस्तेजो वैदग्ध्य शीलवान्नेता ॥

अर्थात् दाता (त्यागी), कृतज्ञ, परिष्ठत, कुलीन, लक्ष्मीवान, नायिकाओं के अनुराग का पात्र, रूप-यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर एवं सुशील पुरुष को नायक कहते हैं । हिन्दी साहित्यकारों ने नायक की व्याख्या इस भाँति की है—

सुन्दर गुन-मन्दिर युवा युवति बिलोकें जाहि ।

कविता, राग रसज्ञ जो नायक कहिये ताहि ॥

उदाहरण देखिए—

बारौ कम्बु करठ पै, कपोलनि कमल-दल,

बिम्बाफल बिद्रुम अधर अरुनाई पै ।

भौंहनि कमान, बान तिरछी निरीछनि पै,

बारौ पंचवान मान तन तरुनाई पै ।

बारिहौ त्रिवेनी चिन्ह चरन-मयूष लखि,

चिन्तामनि सेनी नख नूतन लुनाई पै ।

‘ ठाकुर ’ के ईस तेरे सीस बकसीस करि,

बारौ मेरुमन्दर अमन्द गरुवाई पै ।

और भी देखिए—

मंजु मोर मुकुट निपट धुँधरारी लटैं,

भूलि-भूलि कुण्डल कपोलन पै भलकैं ।

बारिज बदन रस रूप को सदन लच्छ,

दमकैं रदन भरि-भरि छुबि छुलकैं ।

कानन छुवत कोये नैन मैन कोटि मोहे,
सोभा सर लखि-लखि मानो मीन ललकै ।
देखिबे को स्याम 'सोम' देतो दृग रोम रोम,
सो न कीनों विधि औ अबधि कीनीं पलकै ।

इसमे नायक का सौन्दर्य वर्णित है । कवि सोम कहते हैं कि ऐसी रूप-माधुरी के दर्शनों से तो तभी तृप्ति होती, जब विधि रोम-रोम में ओंखें बना देता, परन्तु उसने तो इन दो आँखों पर भी पलको के परदे लगा दिये हैं !

नायक के वर्णन में नीचे लिखा कवित्त भी पढ़ने लायक है—

चन्द्र नख चन्द्रिका चकोर पद कजन पै,
मेरो मन मजुल मिलिन्द ललकन पै ।
बंसी त्यों बिसाल लाल अधर अमोलन पै,
बारों कुरबिन्द दन्त कुन्द कलिकन पै ।
छबि पै छपाकर प्रभाकर प्रताप ही पै,
बारों कोटि काम कमनीय भूलकन पै ।
पन्नगी कुमार औ कदम्बिनी देवार बारों,
बाँकुरे बिहारी की अमोल अलकन पै ।

नायक के वर्णन में पद्माकरजी की भी कल्पना देख लीजिए—

जगत बसीकरन हीहरन गोपिन के,
तरुन तिलोक में न ऐसी सुन्दराई है ।
कहै 'पदमाकर' कलानि को कदम्ब अव-
लम्बन सिगार को सुजान सुखदाई है ।
रसिक - सिरोमनि सुराग-रतनाकर लै,
सीलगुनआगर उजागर बढ़ाई है ।
ढौर ठकुराई को जु ठाकुर ठसकदार,
नन्द को कन्हाई से सुनन्द को कन्हाई है ।

नायक के भेद

धर्मानुसार नायक के तीन भेद हैं, अर्थात् १-पति, २-उपपति और ३-वैशिक। अवस्थानुसार मानी और प्रोषित ये दो भेद और भी माने गए हैं।

पति

विधिवत् विवाह करके, शास्त्र तथा कुल-मर्यादा का पालन करने वाले पुरुष की पति संज्ञा है। उदाहरण देखिए—

हेर फेर करि के तिरीछे मंजु मोरै नैन,
मीन मृग कंजन की माधुरी धरत है।
'सेवक' भनत पूरथौ पूरन प्रस्वेद अंग,
रोमनि कदम्ब की कला को निदरत है।
बचन अलेखे तन कम्पयुत देखे और,
गौर कर पेखे पग और ही धरत है।
चाँवर डुलाव रति पाँवर पिरीते जहाँ,
साँवर सलौनी सग भौवर भरत है।

अर्थ स्पष्ट ही है। एक उदाहरण और लीजिए—

बोधे मजु मोर सीस कंचन घटित सिर,
पेच कलंगी की छुवि पुंजन ठन्यौ है री।
जामा जेबदार औ कुसुम्भी कटि फेटा पट,
बाजूबन्द जड़ित उमैड़ सों तन्यौ है री।
'दामोदर' सुकवि अनंगधर रूप मानो,
अंग-अंग सोभा को तरंग उफन्यौ है री।
नवल बनी को अबनी को प्रान प्यारो नीको,
नवलकिसोर नीको बनरा बन्यौ है री।

उक्त पद्य में भी वर की विवाह कालीन वेश-भूषा का वर्णन है।

पति के भेद

पति के चार भेद हैं, १-अनुकूल, २-दक्षिण, ३-धृष्ट और ४-शठ ।
कुछ लोग उपर्युक्त चारों भेदों के अतिरिक्त अनभिन्न संशक एक भेद
और भी मानते हैं ।

अनुकूल

जो नायक अपनी विवाहिता स्त्री में पूर्ण प्रेम रखता हुआ, दूसरी स्त्री
का विचार भी नहीं करता उसे अनुकूल पति कहते हैं । जैसे—

ग्रीसम निदाघ समै बैठे अनुराग भरे,
बाग में बहति बहतौल है रहट की ।
लहलही माधवी लतान सों लपट रही,
हीतल सों सीतल सुहाई छाँह बट की ।
प्यारी के बदन स्वेद-सीकर निहारि लाल,
प्यारो प्यार करत बयारि पीत पट की ।
पत्र बीच हूँकै कटै रवि की मरीचि तहाँ,
लटक छुबीलो छाँह छावत मुकट की ।

अनुकूल नायक अपनी प्रियतमा से कितना प्रेम करता है, इसका
आभास ऊपर के पद्य से भली भाँति मिल जाता है । एक उदाहरण और
भी देखिए—

नारि पराई ते बोलिबो को कहै, क्यों हूँ न काहू कों भूलि हू हेरे ।
मेरो लखै मन वेई औ मै हूँ, लियो उनको लिखि चित्र द्वियेरे ॥
बाँधि सकै उनकौ मन को बँध्यौ रैन-दिना रहै मेरेई नेरे ।
लेस नहीं उनमें अपराध कौ मान की होस रही मन मेरे ॥

यहाँ नायक अपनी पत्नी के इतना अनुकूल है कि वह भूल कर भी
कभी कोई गलती नहीं होने देता । नायिका को मान करने के लिए कोई
बहाना ही नहीं मिलता । उसकी रूठने की 'होस' मन की मन में ही
रही जाती है ।

नीचे लिखा दोहा भी अनुकूल पति का अच्छा उदाहरण है—

सपने हू मनभावतो करत नहीं अपराध ।
मेरे मन ही में रही सखी मान की साध ॥

दक्षिण

अनेक पत्नियों में समान अनुराग रखने वाला नायक दक्षिण कहाता है । ऐसे नायक को सब नायिकाएँ अपना प्यारा समझती हैं, और कभी उससे मान नहीं करती । उदाहरण देखिए—

भूषन के भार ते सँभारत बनै न अग,
मन्द मन्द चाल ते गयन्द के लजाती हैं ।
जोरि-जोरि जोरी हिलि-मिलि कै निकुंज माँहि,
आबति चली यों सबै आपुस में भाती हैं ।
ठाढ़ो कमलापति छबीलो छैल देखै तिन्हे,
तिरछी चितौनि ही ते लखि मुसकाती हैं ।
मैन मदमाती इतै बार-बार आप लखै,
नैन-तरवार-वार करि-करि जाती हैं ।

नायक अपनी सभी पत्नियों में समान अनुराग रखता है, इसका परिचय नायिकाओं के परस्पर जोड़ी बनाकर आने और साथ-साथ छुबीले छैल के संग रँगरेलियाँ करने से मिल जाता है । यदि उसका प्रेम एक से अधिक और दूसरी से कम होता, तो उनमें परस्पर इतना सौहार्द भाव न दिखाई देता, बल्कि उस अवस्था में तो वे एक दूसरी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखतीं ।

इसके उदाहरण में कवि लछिरामजी का दोहा और देखिए—

दक्षिण नायक एक तुम मनमोहन ब्रजचन्द ।
फुलए ब्रज-वनितान के हग इन्दीवर वृन्द ॥

धृष्ट

जो नायक बार-बार अपराध करके भी निःशंक रहै, और अनेक भिड़कियों खाने पर भी लज्जित न हो, किन्तु जम्र और निश्चल बना रहे, झूठ बोलने में जो तनक भी संकोच न करता हो, वह धृष्ट कहाता है। यथा—

बरजौ न मानत हौ बार-बार बरजों मै,
कौन काम मेरे हत भौन में न आइये ।
लाज को न लेस, जग हौसी को न डर मन,
हँसत हँसत आन बात ना बनाइये ।
कवि ' मतिराम ' नित उठि कै कलंक करो,
नित-नित सौँहँ करो अंग बिसराइये ।
ताके पग लागो निसि जागि जाके उर लागे,
मेरे पग लागि-लागि आगि न लगाइये ।

कविवर मतिरामजी का उपर्युक्त कवित्त धृष्ट नायक का कैसा सजीव उदाहरण है। नायिका उसे बार-बार समझाती है, डाटती-फटकारती भी है, परन्तु वह अपनी कुटेव नहीं छोड़ता, उलटा निर्लज्जता पूर्वक हँसता है।

और भी देखिए, नीचे लिखे सवैया में नायिका अपने धृष्ट नायक के सम्बन्ध में क्या कहती है—

द्वार ते दूरि करो बहु बारनि हारनि बाँधि मृनालनि मारो ।
छाँड़त ना अपनी अपराध असाध सुभाइ अगाध निहारो ॥
बैरिनि मेरी हँसे सिगरी जब पाँय परै सु टरै नहि टारो ।
ऐसे अनीठि सौँ ईठि कहै यह ढीठ बसीठन हीं को बिगारो ॥

ढिठाई की हद हो गई ! मारने-पीटने पर भी नायक अपराध करना नहीं छोड़ता। बार-बार पाँवों में पड़ता और ' हाहा ' खाता रहता है।

यदपि न ब्रैन उच्चारियतु गहि निवारियतु बाँह ।
तदपि गरेई परतु है. गजब गुनाही नाह ॥

यहाँ हाथ पकड़ कर धक्का देने पर भी घृष्ट नायक गले ही पड़ता जाता है ।

हाय कहा गारी गनत कमल-पात सम लात ।
छिन-छिन करत गुनाह अरु छिन-छिन हा-हा खात ॥

जब नायक पाद-प्रहार को पुष्प-वर्षा समझता है, तब गाली गलौज की तो बात ही क्या, वह तो उसके लिये आशीर्वाद-रूप हैं ।

शठ

जो नायक किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त होकर, प्रकृत नायिका को छल-पूर्वक भुलावे में डाल, अपना अपराध छिपाए रहता, तथा अपनी कार्य-सिद्धि के लिए मीठी-मीठी बातें बनाता, और नायिका के प्रति अनुकूलता-सी दिखाता है, उसे शठ कहते हैं । यथा -

हौं तो निरदोसी दोस काहे को लगावे मोहि,
जैसी तोहि भावै मो पै सपथ कराय लै ।
त्रिवली-त्रिवेनी नाभि-सर मे सँचाय दखु,
सींभों तो निहाल मान कीन्हों ई बटाय लै ।
कंचुकी-कुटी में दाय तपसी विराजमान,
ताके सीस छुवाय चार साह निपटाय लै ।
कोप करि पावक कपोल गोल लाल-लाल,
लाख-लाख वार मो पै जीभन चटाय लै ।

उपर्युक्त पद्य में शठ की शठता का कैसा सुन्दर चित्र खींचा गया है । वह नायिका द्वारा डाँटे-फटकारे और मारे-पीटे जाने पर भी, उसके इस व्यवहार को हँसी में ही टालता जाता है ।

शठ के उदाहरण में मतिरामजी का भी नीचे लिखा पद्य पढने लायक है—

मोते तो कछू न अपराध पर्यौ प्रान प्यारी,
मान करि रही यों ही कहि कै अरसते ।
लोचन चकेर मेरे सीतल ही हेत हेरे,
अरुन कपोल मुख-चन्द के दरस ते ।
कहै 'मतिराम' उठि लागि उर मेरे कित-
करति कठोर मन अँसुआ बरसते ।
कोपते कटूक बोल बोलति है तऊ मोको,
मीठे हेत अधर सुधा-रस परसते ।

यहाँ शठ नायक को नायिका के कटु और कठोर बोल भी सुधा सने-से प्रतीत होते हैं। वह अपने को निरपराध बताता और चापलूसी से नायिका को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। ऐसे ही एक नायक का वर्णन तोष-जी ने भी किया है, देखिए—

पाप पुराकृत को प्रगत्यौ बिछुर्यौ तेहि राति भई सुख घात है ।
जीवन मेरो अधीन है तेरे ही जीवन मीन की कौन-सी बात है ॥
'तोष' हिये गरु मैन-विथा हरु, नातो पिया पल में पछितात है ।
जो तुम ठानती मान अयानि तो प्रान पयान किये अब जात है ॥

अनभिज्ञ

जिस नायक को असमर्थता के कारण शृङ्गार की सरस क्रियाओं का वास्तविक ज्ञान न हो, उसे अनभिज्ञ कहते हैं। यथा—

नैनन ही सैन करै बीरी मुख दैन करै,
लैन करै चुम्बन पसारि प्रेम पाता है ।
कहै पदमाकर' त्यों चातुरी चरित्र करै,
चित्त करै सोई जो विचित्र रति-राता है ।

हाव करै भाव करै विविध विभाव करै,
बूझै प्यौ न एते पै अबूझन को भ्राता है ।
ऐसी परबीनि को कियो जो यह पुरुष तो,
बीस बिसे जानी महा मूरख बिधाता है ।

इससे भी अधिक विधाता की मूर्खता का प्रबल प्रमाण और क्या हो सकता है, जिसने ऐसी सकल कला प्रवीणा नायिका को मोधू के पल्ले बंध दिया !

करि उपाय हारी जु मैं सनमुख सैन बताइ ।
समुझत प्यौ न इतेहु पै कहा कीजिये हाइ ॥

उक्त दोहा भी किसी ऐसी ही नायिका की उक्ति है । 'कहा कीजिये हाइ' में बेचारी की कितनी मनोव्यथा भरी हुई है ।

उपपति

पर-स्त्री पर अनुरक्त रहने वाले को उपपति कहते हैं । वह जहाँ भी सौन्दर्य-सुधा देखता है, वहीं उसे पान करने को लालायित हो उठता है । मधुमत्त मधुप की भाँति कली-कली का रस चाखना, इसे बहुत पसन्द है । उदाहरण देखिए—

मत्त गज गामिनी-सी भामिनी सुजामिनी में,
दामिनी-सी दमकि कडी या गैल आय कै ।
बंक करि भौंहे सौंहे जोरि कै रसीले नैन,
'रसिक विहारी' मीठे बचन सुनाय कै ।
मेरो मन लैगई सु बैगई बिरह-बीज,
कैगई जु टोना मुरि मन्द मुखकाय कै ।
हाय बा कसाइन कै नेक न कसक हिय,
चली गई बायल कै पायल बजाय कै ।

पायल की झनकार कान में पड़ते ही, नायक का मन नायिका की ओर आकृष्ट हो गया है। आकृष्ट ही नहीं हो गया, बल्कि नायिका के पायलों की ध्वनि ने उसका हृदय बुरी तरह ' घायल ' कर डाला है।

कविवर पद्माकर ने उपपति का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

आखिर जाये अहीर के हौ जिय जानत नेक ना मेरे सुभाय हौ ।

दै दधि दान जु पै सुरभों ' पदमाकर ' ट कहा अरुभाय हौ ॥

जो रस चाहत हौ तुम सॉवरे सो रस गोरस रोके न पाइ हौ ।

पैहो कवै जब गोधन गाय हौ, बेनु बजाइ हौ, मोहि रिभाइ हौ ॥

नायक (कृष्ण) दधि बेचने के लिए जाती हुई गोपी से गोरस के साथ-साथ कुछ और भी पाने के लिए उलझ रहे हैं। परन्तु गोपी भी बड़ी चंट है, विना नचाये तथा विना गोधन गवाए, वह कृष्ण से बात भी नहीं करना चाहती।

नीचे लिखा दोहा भी उपपति का अच्छा उदाहरण है—

नैन जोरि मुख मोरि हंसि नेसुक नेह जनाय ।

आगि लैन आई हिये मेरे गई लगाय ॥

अर्थात् आँखें नचाती और मन्द-मन्द मुस्कराती हुई नायिका आग लेने क्या आई, वह तो मेरे हृदय में उलटी आग लगा गई! अर्थात् प्रेमाग्नि प्रज्वलित कर गई!

उपपति के भेद

उपपति के दो भेद हैं। १-वचन-चतुर और २-क्रिया-चतुर।

वचन-चतुर

जो उपपति वाक्-चातुरी से अपना कार्य सिद्ध करता है, उसे वचन-चतुर कहते हैं। उदाहरण देखिए—

दूसरे की बात सुनिपरत न ऐसी जहाँ,

कोकिल कपोतन की धुनि सरसाति है ।

छाह रहे जहाँ द्रुम-बेलिन सों मिलि 'मति-

राम' अलि कूलनि अँध्यारी अधिकाति है ।

नखत-से फूलि रहे फूलन के पुज घन-

कुंजन मे होति तहाँ दिन हू में राति है ।

ता बन की बाट कोऊ संग न सहेली कहि,

कैसे तू अकेली दधि बेचन को जाति है ।

यहाँ नायक अकेली जाती हुई गोपी को, उसके मार्ग में पड़ने वाली कुंज की सघनता और जन-शून्यता का कैसी चतुराई से स्मरण दिलाता है । बातों ही बातों में, वह द्रुम-लताओं के परस्पर मिलने, मधुकर-पुंज के गुंजारने और कोकिल के कूकने आदि की बात कह कर यह भी व्यक्त कर देता है, कि आज कल मतवाला बना देने वाली मधुश्रुत भी अपने पूर्ण यौवन पर है ।

एक उदाहरण और भी देखिए, पद्माकरजी कहते हैं—

दाऊ न नन्द बबा न जसोमति न्यौते गए कहुँ लै सँग भारी ।

हौँ हूँ इकै 'पदमाकर' पौरि मे सूनी परी बखरी निशि कारी ॥

देखै न क्यों कड़ि तेरे सुखेत पै धाय गई छुटि गाय हमारी ।

ग्वाल सों बोलि गुपाल कह्यौ सुगुवालनिनि पै मनो मोहिनी डारी ॥

यहाँ भी गोपाल कैसी वाक्-चातुरी से गोपी को स्वयं अपने घर में अकेले होने की बात बता रहे हैं ।

क्रिया-चतुर

छल छिद्र द्वारा अपना मतलब निकालने वाला क्रिया चतुर कहाता है । यथा—

उत सों सखान सजि आए नन्दलाल इतै,

राधिका रसाल आई वृन्द मे सहेली के ।

खेले फाग अति अनुराग सों उमंग भरे,

गावें मन भाँषें तहाँ बचन अमेली के ।

मारी पिचकारी मंजु मुख पै बिहारी ताके,
दावन बचाई कै अबीर मेला मेली के ।
जौ लों निज नैननि सो रग को निवारै प्यारी,
तौ लों छैल छूवै भजे कपोल अलबेली के ।

यहाँ छैल कैसी चतुराई से अलबेली के कपोल छू कर भाग गए !
वह जान भी न सकी कि ऐसा करने वाला कौन था ? बेचारी आँखें
मीड़ती ही रह गई !

क्रियाचतुर नायक के उदाहरण में पद्माकरजी का पद्य भी पढ़
लीजिए—

आई सुन्यौति बुलाइ भली दिन चारि को जाहि गोपाल ही भावै ।
त्यौं ' पदमाकर ' काहु कछौ कै चलो बलि बेगिही सासु बुलावै ॥
सो सुनि रोकि सकै क्यों तहाँ गुरु लोगन मे यह ब्यौत बनावै ।
पाहुनी चाहै चल्थौ जबहीं तबहीं हरि सासुहें छींकत आवै ॥

यहाँ नायक घर आई हुई पाहुनी से सबके आगे, स्पष्ट तो कह नहीं
सकता कि अपने घर मत जाओ, यहीं रहो; पर वह अपनी चतुराई से
उसका जाना स्थगित कर देता है। अर्थात् जब वह चलने लगती है, तभी
सामने छींक कर अपशकुन कर देता है।

क्रियाचतुर का एक उदाहरण और भी देखिए—

नंदलाल गयो तितही चलि कै जित खेलति बाल सखीगन मे ।
तहँ आपही मँदि सलौनी के लोचन चोर मिहीचनि खेलन में ॥
दुरिबे को गई सिगरी सखियाँ ' मतिराम ' कहै इतने छन में ।
मुसिकाय कै राधिकै कण्ठ लगाय छिप्यो कहुँ जाय निकुंजन में ॥

यहाँ भी हज़रत नायक अपनी क्रियाचातुरी से मनमानी करके निकुंजों
मे जा छिपे। आँखमिचौनी के कारण उन्हें मौक़ा भी अच्छा मिल
गया।

वैशिक

जो नायक वेश्यानुरागी निःशंक और निर्लज्ज होता है, उसे वैशिक कहते हैं। यथा—

नित बारबधून के बार हजारन बार अबार सवार ठनै ।
सब छोड़ि अचार विचार दयो उपचार लचार न होत भनै ॥
इग आनन-चन्द्र-चकेर किये नँदराम रहे रस ही में सनै ।
तन ते मन ते धन ते धन पै तनहूँ मनहूँ धनहूँ न गनै ॥

और देखिए गोविन्द कवि इस प्रसंग में क्या कहते हैं—

दिल जान हमारी निछावर है यहि प्रीति में कौन इमान गनै ।
न रही कुलकानि न धर्म रघ्यौ नर रूप की कीच में आय सनै ॥
कवि 'गोविंद' ओठ ते ओठ मिलै तबहीं रति-रग अनग जनै ।
छुबि देखत हाल बिहाल भए मन देत बनै धन देत बनै ॥

इस सम्बन्ध में कविवर मतिराम का दोहा भी क्या खूब है । देखिए—

लोचन पानिग पढ़ि सजी लटबसी परबीन ।
मो मन बारबिलासिनी फाँसि लियो मनु मीन ॥

मानी

प्रियतमा द्वारा किये गये अपमान से अप्रसन्न होकर मान करने वाला पुरुष मानी कहाता है । नीचे के पद्य में देखिए नायिका मानी की कैसी खुशामद कर रही है—

बात हीं बात दै पीठि पिया पटिया लागि मान जनावन लाग्यो ।
ज्यों-ज्यों करै मनुहारि तिया रुख 'तोष' सु त्यों-त्यों रुखावन लाग्यो ॥
चूक परी सो परी बकसो यह प्राण है रावरे पॉथन लाग्यो ।
लीजिए मोहि उठाय हिये ॥ बिच भावन ! जोर जड़ावन लाग्यो ॥

इस सम्बन्ध में पद्माकरजी का उदाहरण भी पढ़ लीजिए—

बाल बिहाल परी कब की दबकी यह प्रीति की रीति निहारो ।

त्यो 'पदमाकर' है न तुम्हें सुधि कीन्हों जो बैरी बसन्त बगारो ॥

तातें मिलो मनभावती सों बलि छाँति ह-हा बच मान हमारो ।

कोकिल की कल बानी सुने पुनि मान रहैगो न मान तिहारो ॥

उक्त पद्य में नायिका की सखी मानी नायक से कह रही है—बेचारी का तुम्हारे बिना बुरा हाल है । मैं तुम्हारी हा-हा खाती हूँ, मान जाओ, अच्छा है, चले चलो, तुम्हारी भी बात रही जाती है । अगर नहीं मानते तो याद रखो, वसन्त ऋतु आ रही है । जब शीतल मन्द मलय समीर बहेगा, कोकिल कूकेगी, और भ्रमर गुञ्जार करेंगे, तब तुम्हारा सब मान मिट्टी में मिल जायगा, और तुम अपने आप उसकी हा-हा खाते फिरोगे ।

प्रोषित

प्रवास में प्रियतमा-विरह-विकल पुरुष को प्रोषित कहते हैं । यथा—

लोकन सँवारो तो सँवारो ना बिगारो कछु,

लोकन सँवारि नर-नारि ना सँवारतो ।

कीन्हों नर-नारी तो ना प्रेम को प्रचार देतो,

प्रेम को प्रचारो तो ना मैन को प्रचारतो ।

मैन को प्रचारो तो प्रचारो ना सँयोग देतो,

कीन्हों जो सँयोग तो वियोग ना बिचारतो ।

'नन्दराम' कीन्हों जो वियोग बिघना तो भूलि,

बौरे बन बागन बसन्त ना बगारतो ।

और देखिए—

परी तेरे सुमुख-सुधाधर की दुति जापै,

ललित कियो री बचनामृत अगाधा सों ।

'सेवक' त्यों तेरेई उरोज सुधा-कुम्भनि को,

परसि प्रसेद पूरि-पूरि मन साधा सों ।

एरे मन्द पौन गौन करि जैये बेगि उतै,
ऐसे ही सुनैयेगो सँदेस मेरो राधा सों ।
तेरी गुही उर जो न होती बनमाल तौ,
बचावतो को मोहि बिरहानल की बाधा सों ।

यहाँ विरह-विधुर प्रोषित, नायिका के हाथ की गूथी माला के सहारे
ही अपने प्रवास के दिन पूरे कर रहा है ।

अब श्रीकृष्णजी की प्रोषित अवस्था का वर्णन कविवर रत्नाकर के
शब्दों में सुनिए—

विरह-विधा की कथा अकथ अथाह महा,
कहत बनै न जो प्रवीन सुकवीन सो ।
कहै 'रतनाकर' बुभावन लगे जो कान्ह,
ऊधौ को कहन हेत ब्रज जुबतीन सों ।
गहवरि आयो गरौ भभरि अचानक त्यों,
प्रेम पर्यौ चपल चुचाइ पुतरिन सों ।
नेक कही नैननि अनैक कही नैननि सों,
रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीन सों ।

विरह-व्यथा के कारण बेचारों से बात भी कहते नहीं बनती । गला
भर आया और हिलकियों बँध गई ।

नायिकाओं की भाँति नायकों के भी सैकड़ों भेद हो सकते हैं । परन्तु
विस्तार-भय के कारण रीति-ग्रन्थों में उनका संक्षिप्त रूप से ही वर्णन किया
गया है ।

स्वभावानुसार भेद और गुण

भेद

स्वभावानुसार नायक के चार भेद माने गए हैं । १—धीरोदात्त, २—धीरोद्धत, ३—धीर ललित और ४—धीर प्रशान्त ।

धीरोदात्त

जो नायक आत्मश्लाघा दोष से मुक्त, क्षमायुक्त, अति गम्भीर स्वभाव वाला, हर्ष शोकादि में समान भाव प्रकट करने वाला, दृढ़व्रती, विनयी, स्वाभिमानी और उदारहृदय हो वह धीरोदात्त कहाता है ।

धीरोद्धत

मायावी, प्रचण्ड, चपल, घमण्डी, दुर्दान्त और आत्मश्लाघी नायक धीरोद्धत कहाता है ।

धीर ललित

निश्चिन्त, अति कोमल स्वभाव, विनोदप्रिय और सदा नृत्य-गीतादि कलाओं में निरत रहने वाले नायक को धीर ललित कहते हैं ।

धीर प्रशान्त

दातृत्व, कृतज्ञता आदि नायक के सामान्य गुणों में से अधिकांश गुण-युक्त विद्वान् ब्राह्मणादि को धीरप्रशान्त नायक कहते हैं ।

गुण

नायकों के शोभा, विलास, माधुर्य, गाम्भीर्य, धैर्य, तेज, ललित और औदार्य ये आठ सात्विक गुण माने गये हैं । जिनकी व्याख्या इस प्रकार है. —

शोभा

शूरता, चातुर्य, सत्य, असीम उत्साह और अनुराग से युक्त तथा नीच से घृणा और उच्च में स्पर्धा उत्पन्न करने वाले अन्तःकरण के धर्म को शोभा कहते हैं ।

विलास

नायक के धीरे दृष्टि से देखने, सिंह के समान गम्भीर गति से चलने एवं मन्द मुस्कराहट के साथ बातचीत करने आदि चेष्टाओं व क्रियाओं को विलास कहते हैं ।

माधुर्य

व्याकुलतापूर्ण परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी मन में घबराहट के भाव न आने देना माधुर्य कहाता है ।

गाम्भीर्य

भय, शोक, क्रोध, हर्ष आदि के होने पर भी मन का निर्विकार रहना गाम्भीर्य कहाता है ।

धैर्य या स्थैर्य

भयङ्कर विघ्न उपस्थित होने पर भी दृढ़तापूर्वक कार्य में संलग्न रहने को धैर्य या स्थैर्य कहते हैं ।

तेज

अन्य द्वारा किये गये आक्षेप और अपमान आदि को जीते जी सहन न करना तेज कहाता है ।

ललित

बोल-चाल, वेश-भूषा और शृङ्गार की चेष्टाओं में स्वाभाविक माधुर्य को ललित कहते हैं ।

औदार्य

प्रिय भाषण पूर्वक दान देना और शत्रु मित्र को एक दृष्टि से देखना औदार्य कहाता है ।

नोट—ऊपर नायक के भेदों और गुणों के लक्षण मात्र लिख दिये गए हैं, उनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझी गई । आशा है, पाठकों को लक्षण पढ़कर ही नायक के स्वरूप का ज्ञान हो जायगा । इस सम्बन्ध में एक बात और है, अर्थात् उपर्युक्त भेदों का वर्णन साहित्य-दर्पण आदि संस्कृत के ग्रन्थों में तो मिलता है, परन्तु हिन्दी के आचार्यों ने उनका उल्लेख बहुत ही कम किया है ।

नायिका-वर्णन

जिहि बनिता की सुधरता लखि मुद लहत सुजान ।
ताहि कहत हैं नायिका केबिद कलानिधान ॥

जिस स्त्री को देखकर, हृदय में रसीले भावों की उत्पत्ति होती है, उसे नायिका कहते हैं। साहित्यकारों ने नायिका के निम्नलिखित लक्षण माने हैं। अर्थात् यौवन, रूप, गुण, शील, प्रेम, कुल, भूषण, दातृत्व, कृतज्ञता, पाण्डित्य, उत्साह, तेज, चातुर्य आदि। इनमें सबसे अधिक और शीघ्र प्रभाव डालने वाले यौवन और रूप हैं। 'रूप-यौवन-सम्पन्ना' नायिका ही नायक के हृदय पर अधिकार करने में समर्थ होती है, अन्य गुणों का परिचय तो उसे पीछे प्राप्त होता है। इन गुणों से जितना ही अधिक परिचय होता जाता है, प्रेम में उतना ही स्थायित्व आने लगता है। रूप की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। इसका निर्णय तो नायक के दृष्टिकोण पर ही निर्भर है। नायक-नायिका के हार्दिक मिलन से अकृत्रिम और स्थायी प्रेम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। फिर दोनों सुख-दुःख, लाभ-हानि सम्पत्ति-विपत्ति, सब में समान रूप से भागीदार हो जाते हैं। भेद-भाव खोकर एकरूपता का उदय होता है। दोनों मिलकर समान भाव से कुल-मर्यादा का पालन करते हैं।

महाकवि केशवदास ने नायिका का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

ग्रहनि में कीन्हों गेह सुरनि दै देखी देह,
हर सों कियौ सनेह जाग्यौ जुग चार्यौ है ।
तरनि में तप्यौ तप जलधि में जप्यौ जप,
'कैसौदास' न्वपु मास-मास प्रति गार्यौ है ।

उरुगन-ईस द्विज-ईस ओसधीस भयौ,
जदपि जगत-ईस मुधा सों सुधार्यौ है ।
सुनि नँदनन्द प्यारी, तेरे मुख-चन्द सम,
चन्द पै न आयौ कोटि छन्द करि हार्यौ है ।

उपर्युक्त पद्य में नायिका के रूप का वर्णन है । कविवर मतिराम नायिका का कैसा सुन्दर वर्णन करते हैं, उसे भी देखिए—

कुन्दन को रंग फीको लगै भूलकै अति अगन चाख गुराई ।
आँखिन में अलसानि चितौनि में मंजु बिलासन की सरसाई ॥
को बिन मोल बिकात नहीं 'मतिराम' लहै सुसकानि मिठाई ।
ज्यों ज्यौ निहारिये नेरे हूँ नैननि त्यों त्यों खरी निखरै-सी निकाई ॥

नायिका के सु-वर्ण को देख कर स्वर्ण का भी रंग फीका जान पड़ता है । अलसाई आँखे और चञ्चल चितवन देखकर कौन ऐसा है, जो बिना मोल उसके हाथ न बिक जाय । जैसे जैसे ध्यान पूर्वक देखिये, तैसे-तैसे उसकी सुन्दरता बढ़ती ही जाती है ।

पद्माकरजी ने स्नान करती हुई नायिका का कैसा सुन्दर शब्द-चित्र खींचा है । देखिए—

जाहिरै जागति सी जमुना जब बूढ़ै बहै उमहै वह बेनी ।
त्यौ 'पदमाकर' हीर के हारन गंग तरगन को सुख देनी ॥
पायन के रँग सों रँगी जाति-सी भाँति ही भाँति सरस्वती सेनी ।
पैरै जहाँई जहाँ वह बाल तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेनी ॥

वह सुन्दरी तालाब में तैरती हुई, जहाँ चली जाती है, वहीं त्रिवेणी का दृश्य दिखाई देने लगता है । तैरते में लहराती हुई लम्बी वेणी यमुना की श्याम धारा-सी प्रतीत होती है, हीरक-हार की शुभ्र छटा गंगा की अमल धवल धारा जान पड़ती है, और पैरों की अरुणिमा से रंजित जल-धारा सरस्वती का प्रवाह-सी दिखाई देती है । इस प्रकार तीनों के मेल से ताल में त्रिवेणी-सी बन जाती है ।'

नायिका-भेद

धर्म, आयु, प्रकृति, जाति और अवस्था अर्थात् परिस्थिति इन पाँच कारकों से नायिकाओं के अनेक भेद माने गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण आगे दिया जाता है ।

१—धर्म-भेद से—स्वकीया, परकीया और सामान्या ।

२—आयु-विचार से—मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा ।

३—प्रकृत्यनुसार—उत्तमा, मध्यमा और अधमा ।

४—जाति-भेद से—पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी और हस्थिनी ।

५—परिस्थिति अनुसार—खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, उत्क-
शिठता, वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यत्पतिका, प्रोषित
पतिका और आगतपतिका ।

धर्मानुसार नायिका भेद

धर्म के विचार से नायिका तीन प्रकार की मानी गई है - १ - स्वकीया अर्थात् अपनी स्त्री, २—परकीया अर्थात् अन्य की स्त्री, और ३—सामान्या अर्थात् सर्वसाधारण की स्त्री वेश्या आदि ।

स्वकीया

स्वकीया वह पतिप्राण स्त्री है, जिसने लज्जा को ही अपना आभूषण बना रक्खा है, और जो विनय, सरलता, वाक्पटुता आदि गुणों से युक्त होकर घर-गृहस्थ के कामों में लगी रहती है। जिसे स्वप्न में भी पर-पुरुष की इच्छा नहीं होती, तथा पति के प्रति अविनय और अवज्ञा के भाव जिसके हृदय में कभी उत्पन्न ही नहीं होते। 'विनयार्जवादि युक्ता गृह-कर्मपरा पतिव्रता स्वीया ।'

मतिरामजी ने स्वकीया का लक्षण इस प्रकार किया है ।

जानति सौति अनीति है, जानति सखी सुनीति ।

गुरुजन जानति लीज है, प्रीतम जानति प्रीति ॥

स्वकीया के लक्षण में निम्नलिखित दोहा भी पढने योग्य है—

स्वीया अरु पतिव्रता में है यह भेद विचार ।

वह सनेह यह भगति सों सेवति है भरतार ॥

अभिप्राय यह कि वस्तुतः. उच्चमा स्वकीया ही पतिव्रता होती है ।

सुन्दर कवि कृत स्वकीया का निम्नलिखित उदाहरण देखिए—

देखति नैन की कोरन लों अधरान ही मे मुसिक्यानि को थानो ।

बोलति बोल सो कण्ठ ही में चलते पग पै न कहूँ अहटानो ॥

सुन्दर रोस नहीं सपने अरु जो भयो तो मन ही मे बिलानो ।

मैं बसुधाऽब सुधाई सबै पर याकी सुधाई सुधाई है मानो ॥

इस सम्बन्ध में मतिरामजी का सवैया भी पढ़िए—

संचि विरंचि निकाई मनोहर लाजनि मूरतिवन्त बनाई ।

तापर तोपर भाग बड़े 'मतिराम' लसै पति प्रीति सुहाई ॥

तेरे सुशील सुभाव भट्ट, कुल-नारिन को कुल कानि सिखाई ।

ते ही जने पति देवत के गुन गौरि सबै गुन गौरि पढ़ाई ॥

उपर्युक्त दोनों सवैयों में स्वकीया अर्थात् आदर्श गृहलक्ष्मी का स्वभाव और चरित्र वर्णन किया गया है ।

स्वकीया के सम्बन्ध में गोविन्द कवि का नीचे लिखा कवित्त कैसा सुन्दर है—

सासु और ससुर की सेवा में सदा ही प्रीति,

ऐसी बधू दोनों कुल तारि है पै तारि है ।

लाज भरे नैन जुग नील के जहाज मानो,

पति के करोर पाप जारि है पै जारि है ।

'गोविंद' गुनन-भरी नेकहू गुमान नाहिं,

दारिद-औ दुःख-दल टारि है पै टारि है ।

जैसे सब बारिनु में गंगाजू को बारि नीको,

तैसेई स्वकीया सब नारिनु में नारि है ।

आयु के अनुसार नायिका-भेद

आयु के विचार से स्वकीया नायिका के तीन भेद किये गए हैं, अर्थात् १—मुग्धा, २—मध्या और ३—प्रौढा। इस प्रकार भेद करने का अभिप्राय यह है, कि ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों लज्जा की मात्रा कम और काम की मात्रा अधिक होती जाती है।

मुग्धा

मुग्धा वह नायिका है, जिसमें नव यौवन का विकास अथवा काम-कलाओं का विलास पहले ही-पहल प्रादुर्भूत हुआ हो। जिसके हृदय में लज्जालुता के कारण रति में भिन्नक और संकोच की मात्रा अधिक पाई जाती हो, एव जिसका मान अधिक समय तक स्थिर न रह सके।

साधारणतः मुग्धा की चाल धीमी पड़ जाती है, और अपने कमरे से बाहर निकलना उसे अच्छा नहीं लगता। कभी वह मन्द मन्द मुस्कराती है, और कभी उसके मुख-मण्डल पर लज्जा एव संकोच के भाव दिखाई देने लगते हैं। कभी-कभी कुछ गम्भीर वक्रोक्तियाँ उसके मुँह से निकल जाती हैं। वह हर वक्त प्रियतम की चर्चा करना और सुनना ही अपना ध्येय बना लेती है। नवयौवन-विकास के समय मुग्धा के स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसका शरीर भी बदला हुआ दिखाई देता है। अर्थात् उसका बाल्यकालीन कटि-प्रदेश तो पतला होने लगता है, परन्तु नितम्बों में स्थूलता आ जाती है। उदर क्षीण होकर उरोज उभरने लगते हैं। चितवन में चाञ्चल्य और बाँकपन तथा चेहरे पर यौवन की उमंगों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उदर पर, नाभि से निकली हुई रोम-राजि यौवन के आगमन की प्रतीक-सी जान पड़ती है। मुग्धा अपने प्रियतम से मिलने के लिए, सर्वदा समुत्सुक रहती हुई भी, भूठी भिन्नक के कारण अनिच्छा-सी प्रकट करती रहती है।

साहित्यदर्पण मे मुग्धा का लक्षण इस प्रकार किया गया है, देखिए—

मध्यस्थ प्रथिमानमेति जघनं, वद्धोजयोर्मन्दता ।
दूर यात्युदरञ्च, रोमलतिका, नेत्रार्जवं धावति ॥
कन्दर्पे परिवीक्ष्य नूतनमनोराज्यभिषिक्तं क्षणात् ।
अङ्गानीव परस्परं विदधते निर्लुण्ठन सुभ्रुवः ॥

संक्षेप में मुग्धा का लक्षण इस प्रकार समझिए—

भलकति आवे तरुनई नई जासु अँग-अंग ।
तासौ मुग्धा कहत हैं जे प्रवीन रस रंग ॥

मुग्धा के उदाहरण मे बालम कवि क्या कहते हैं, देखिए—

मृगन की मीनन की चञ्चलाई चखन मे,
मोतिन की हीरन की जोति है रदन में ।
ओठन मे आई है मिठाई सब सिमिटि कै,
दाख में न ऊख में न स्वाद सरदन मे ।
महाकवि 'बालम' के खुले हैं बिसाल भाल,
रातो दिन राजति मसाल-सी सदन में ।
विषना गुलाब कै-सो अरक उतारि मानो,
चन्द की निकाई राखी प्यारी के बदन में ।

×

×

×

इसी सम्बन्ध मे पद्माकरजी की भी सूक्ति सुनिए—

ये अलि या बलि के अघरानि मे आनि चढी कछु माधुरई-सी ।
ज्यौ 'पदमाकर' माधुरी त्यौ कुच दोउन की बढती उनई-सी ॥
ज्यौ कुच त्यौही नितम्ब चढे कछु ज्यौही नितम्ब त्यौ चातुरई-सी ।
जानि न ऐसी चढाचढि मे किहि धौ कटि बीचई लूटि लई-सी ॥

×

×

•

×

कवि गंग की कल्पना का भी चमत्कार देखिए—

जल मे दुरी हैं जैसे कमल की कलिका द्वै,
 उरजन ऐसे दीनी सरुचि दिखाई-सी ।
 'गंग' कवि साँझ-सी सुहाई तरुनाई आई,
 लरिकाई मध्य कछु मै न लखि पाई-सी ।
 स्यामा को सलोनो गात ता मे दिन द्वैक माँझ,
 फिरी - सी चहति मनमथ की दुहाई-सी ।
 सीसी मे सलिल जैसे सुमन पराग तैसे,
 सिसुता में झलमलै जोवन की भाँई-सी ।

× × ×

दास कवि क्या कहते हैं, उनकी उक्ति भी सुन लीजिए—

आनन में मुसकानि सुहावनी बकुरता अखियान छई है ।
 बैन खुले मुकुले उरजात जकी तियकी गति ठौन ठई है ॥
 'दास' प्रभा उछरै सब अग सुरंग सुवासता केलिमई है ।
 चन्द्रमुखी-तन पाय नवीनो भई तरुनाई अनन्द मई है ॥

× × ×

इस विषय में मतिरामजी ने भी खूब ऊँची उड़ान भरी है, यथा—

नेक मन्द मधुर कपोल मुसिक्यान लगी,
 नेक मन्द गमन गयन्दन की चाल भौ ।
 रंचक न ऊँचौ लगौ अञ्चल उरोजन ते,
 अंकुरनि बंक दीठि नेक सो बिसाल भौ ।
 'मतिराम' सुकवि रसीले कछु बैन भये,
 बदन सिंगाररस बेलि आलबाल भौ ।
 बालतन यौवन-रसाल उलहत सब,
 सौतिन के झाल भौ निहाल नँदलाल भौ ।

उपर्युक्त सभी पद्यों में नायिका की वय-सन्धि-जन्य उस अवस्था का वर्णन है, जिसमें लज्जालुता का प्राधान्य रहता है। इस सम्बन्ध में महाकवि विहारी का निम्नलिखित दोहा बड़ा सुन्दर है—

लिखन बैठि जाकी छुबी गहि-गहि गरब गरूर ।
भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥

मुग्धा के भेद

मुग्धा नायिका के भी दो भेद किये गए हैं, १—अज्ञात यौवना और २—ज्ञात यौवना ।

अज्ञात यौवना

जो नायिका मुग्धावस्था प्राप्त होने पर भी, अपने भोलेपन के कारण, यह नहीं जान पाती कि वह युवती हो गई; या जो अपने जीवन में एक विचित्र प्रकार के परिवर्तन के होते हुए भी उसका कारण नहीं समझ सकती, उसे अज्ञात यौवना कहते हैं ।

उदाहरण देखिए—

कारे चीकने है कलु काहे केस आपु ही ते,
बढ़ि-बढ़ि बिथुरि छुवालों लागे छलकन ।
बार-बार बदन बिलोकन लगी हैं सौति,
औरै तौर सौरभ समूह लागे हलकन ।
कौन घों बलाय बसी अंग मे हमारे हमें,
देखिबे को कान्ह ' हनुमान ' लागे ललकन ।
जंघ लागी सटन घटन लागी लक औ,
बढ़न लागीं ओखें री नितम्ब लागे दलकन ।

×

×

×

दूसरा उदाहरण—

कोकिल कूक सुने उमंगै मन और सुभाउ भयो अब ही को ।
 फूले लता-द्रुम-कुंज सुहात लगै अलि-गुंजन भावतो जी को ॥
 कारन कौन भयो सजनी यह खेल लगै गुड़ियान को फीको ।
 काहे ते साँवरों अंग छबीलो लगै दिन द्रैक ते नैननि नीको ॥

×

×

×

अज्ञातयौवना के उदाहरण मे मतिराम का यह सवैया भी पढ़ने लायक है—

खेलन चोरमिहीचनी आजु गई हुती पाछिले द्यौस की नाई ।
 आली कहा कहो एक भई 'मतिराम' नई यह बात तहाई ॥
 एकहि भौन दुरे इक संग ही अंग सों अंग छुवायो कन्हाई ।
 कम्प छुट्यौ घन स्वेद बढ़्यौ तन रोम उठ्यौ अँखियाँ भरि आई ॥

×

×

×

और भी देखिए—

लाल तिहारे सग में खेलै खेल बलाइ ।
 मँदत मेरे नैन हो करन कपूर लगाइ ॥
 अघर परसि मीठी भई दई हाथ ते डारि ।
 लावति दतुअनि ऊख की नौखी खिजमतगारि ॥

उक्त दोहरे मे नायिका के मधुर ओठों से लगकर दातुन मीठी हो जाने का वर्णन है । अरे नौकराइन, तू ऊख की दातुन उठा लाई, कहीं ऊख की दातुन भी की जाती है !

अज्ञातयौवना के उदाहरण में निम्नलिखित पंक्तियाँ कितनी मार्मिक हैं—

कौन रोग दुहुँ छतियन उकस्थौ आय ।
 दुखि-दुखि उठत करेजवा लागि जनु जाय ॥

उपर्युक्त बरवै में पहले पहल यौवन अंकुरित होने का वर्णन है ।

ज्ञात यौवना

जिस नायिका को अपने अंकुरित यौवन का ज्ञान हो जाता है, और जो अपने जीवन में एक नये प्रकार की भलक अनुभव करने लगती है, उसे ज्ञात यौवना सज्ञा दी गई है ।

ज्ञात यौवना कभी सकुचाती हुई-सी, इधर-उधर देखती है, कभी चञ्चलता पूर्वक चलती और कभी हाथ उठाती है । वह हर वक्त शृंगार की चेष्टा करती रहती है । उसे अपने अंगों का उभार देखकर बड़ा आनन्द आता है, परन्तु वह इस भाव को सखियों से छिपाए रखने की चेष्टा करती है । यथा—

चाव सों चटक रचि-रचि के रुचिर चीर,
रुचि सों पहिरि के विनोद बरसति जाति ।
कसि-कसि कंचुकी विमल बँगला में बैठि,
सौतिन के सकल सुहाग करषति जाति ।
निरखि-निरखि कर पायन की लागी 'हनु-
मान' तरुनाई की निकाई परखति जाति ।
बेरि-बेरि मुकुर बिलोकति धरति फेर,
आँचर उघारि हेरि हेरि हरषति जाति ।

बड़े चाव से शृङ्गार करती हुई नायिका बार-बार शीशे में अपना रूप निहारती और आँचर उघार-उघार कर अपने विकसित यौवन को देख प्रसन्न होती है ।

नीचे लिखा कवित्त भी ज्ञात यौवना का सुन्दर उदाहरण है—

बिसरन लागो बालपन को अयानप
सखीन सों सयानप की बतियाँ गढ़ै लागी ।
हग लागे तिरछे चलन पग मन्द लागे,
उर में कछूक उकसनि-सी बढै लागी ।
अंगन में आई तरुनाई यों भलकि,
लरिकाई अब देह लें हरै-हरै कढ़ै लागी ।

होन लगी कटि अब छटि^१ की छलासी-

द्वैज चंद की कला सी तन दीपति बढ़ै लगी ।

नायिका के शरीर से जैसे-जैसे धीरे-धीरे बचपन के चिन्ह दूर होते जाते हैं, तैसे-तैसे उसके लड़कपन की भोली बातें भी कम होती जाती हैं । उसकी आँखों में चंचलता और शरीर में यौवन की दीप्ति स्पष्ट दिखाई देने लगी है ।

ज्ञात यौवना के उदाहरण में विहारी के निम्नलिखित दोहे भी बड़े सुन्दर हैं—

इतै उतै सकुचति चितै चलत डुलावति बाँह ।

दीठि बचाई सखिन की छिनुक निहारति छाँह ॥

× × ×

करि चन्दन की खौरि दै बन्दन बैदी भाल ।

दरप भरी दिन द्वैक ते दरपन देखति बाल ॥

ज्ञात यौवना के भेद

ज्ञात यौवना नायिका के दो भेद किये गए हैं, १—नवोढ़ा और २—विश्रब्ध नवोढ़ा ।

नवोढ़ा

अत्यन्त भय और लज्जा के कारण जो नवविवाहिता नायिका रति से दूर रहना चाहती है, उसे नवोढ़ा कहते हैं । यथा—

लावति न अंजन मँगावति न मृगमद,

कालिंदी के कूल न तमाल तरे जाति है ।

हेरति धन न वन गहन बनक बैनी,

बाँधेई रहति नीली सारी न सुहाति हैं ।

‘गोकुल’ तिहारी यह पाती बाँचि हैगो कौन,

याहू में तो कारे अखरान ही की पाँति है ।

जा दिन तें मिले बाग में री गूजरी सों कान,
ता दिन ते कारो रंग हेरे अनखाति है ।

नायिका लज्जा और भय के कारण कृष्ण से ही दूर नहीं रहती बल्कि वह प्रत्येक काली वस्तु को देखकर बिदकती है । यहाँ तक कि काली स्वाही से लिखा पत्र भी नहीं पढ़ती ।

नवोढ़ा के उदाहरण में मतिरामजी का निम्नलिखित सवैया भी पढ़ लीजिए—

साथ सखी के नई दुलही को भयो हरि को हियो हेरि हिमंचल ।
आय गए मतिराम तहाँ घर जामें इकन्त अनन्द सों चंचल ।
देखत ही नँदलाल कों बाल के पूरि रहे असुआन दगंचल ।
बात कही न गई सु रही गहि हाथ दुहँ सों सहेली को अचल ।

नई दुलहिन सखी के साथ बैठी थी, इतने ही में वहाँ नन्दलाल आ गए । उन्हें देखते ही उसका हृदय एक दम बैठ सा गया, मुँह बन्द हो गया, आँखों में आँसू झलक आए और वह दोनों हाथों से सहेली का आँचल पकड़े रह गयी । बिहारीलालजी की उक्ति भी सुन लीजिए—

ज्यों ज्यों परसै लाल तन त्यों-त्यों राखे गोइ ।
नवल बधू डरि लाज तें इन्द्रबधू सी होइ ॥

नवोढ़ा पत्नी पति को देखते ही संकोच से सिक्कड़-बटुर कर इन्द्र-बधू की भाँति बैठ जाती है ।

विश्रब्ध नवोढ़ा

जिस नायिका को अपने पति पर कुछ विश्वास तथा प्रेम और रति में अनुराग होने लगता है, उसे विश्रब्ध नवोढ़ा कहते हैं ।

विवाह होकर नई पत्नी जब घर में आती है, तब उस पर संकोच और भय का प्रभाव होता है । कभी-कभी तो संकोच से उसके मुँह पर लालिमा झलकने लगती है । प्रेम जनित लज्जा से मुख पर लालिमा आ जाना स्वाभाविक-सा है । परन्तु ज्यों-ज्यों भय और लज्जा की मात्रा कम

होती जाती है, त्यों ही त्यों उसमें प्रेम-भाव और रति-अनुराग बढ़ता जाता है, वह नवोढ़ा से विश्रब्ध नवोढ़ा बनती दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिक विकास का कैसा सुन्दर विश्लेषण है।

उदाहरण देखिए—

जाहि न चाह कहूँ रति की सु कछू पति को पतियान लगी है ।
 त्यों 'पदमाकर' आनन में रुचि कानन भौह कमान लगी है ।
 देति पिया न छुवै छुतियाँ बतियान में तो मुसक्यान लगी है ।
 पीतमै पान खवाइबे को परियंक के पास लों जान लगी है ।
 नायिका पान देने के मिस पति के समीप जाने लगी है । अब उसे उतनी भिभक नहीं रही ।

विश्रब्ध नवोढ़ा का नीचे लिखा उदाहरण भी पढ़ने योग्य है—

रैन में जगाई केलि करन न पाई इमि,
 ललन सताई परियंक अंक महियाँ ।
 ससकि असकि कहरति ही बिताती निसा,
 मसकि 'प्रवीन बैनी' कीनी चित्त चहियाँ ।
 भोर भए भौन के सकोन लागि गई सोय,
 सखिन जगाइबे को आनि गही बहियाँ ।
 चौकि परी चकि परी औचक उचकि परी,
 बक परी जकि परी सक परी नहियाँ ।

रात-भर की जागी हुई नायिका सबेरे घर के किसी कोने में सो गई । इसी बीच में सखियाँ वहाँ जा पहुँची और हाथ पकड़ कर उसे जगाने लगीं । हाथ छूते ही वह एक दम चौंक पड़ी और सकपका कर "नहीं नहीं" कहने लगी ।

इन भेदों के अतिरिक्त साहित्य-दर्पणकार ने मुग्धा के पाँच भेद और किये हैं। अर्थात् १—प्रथमावतीर्ण यौवना, २—प्रथमावतीर्ण मदन विकारा, ३—रतिवामा [जिसे रति में भिभक हो], ४—मानमृदु (अचिर स्थायी मानवती) और ५—समम्भिक लज्जावती ।

प्रथमावतीर्णं यौवन-मदन विकारा रतौवामा ।
कथिता मृदुश्च माने समधिक लज्जावती मुग्धा ॥

—साहित्य-दर्पण

स्वकीया के अन्तर्गत मध्या नायिका-वर्णन

जिस नायिका के हृदय में लज्जा और कामेच्छा दोनों समान रूप से भरी रहती हैं उसे मध्या कहते हैं ।

मध्या नायिका में मुग्धा की तरह लज्जा की प्रबलता नहीं होती, जो वह प्रेम को प्रकट ही न होने दे । वह अपने पति के निकट आने पर शर्म से इधर-उधर छिपने की कोशिश नहीं करती, प्रत्युत उसके पास ही बैठ जाती है । उस समय वह किम्भक के कारण रसीली बातों में आनन्द लेने में आनाकानी नहीं करती । एक ओर प्रेम का प्रभाव उसे पति के पास से उठने नहीं देता दूसरी ओर लज्जालुता स्पष्ट रूप से हृदयगत भावों को प्रकट नहीं होने देती । प्रेम और लज्जा दोनों का पलड़ा समान बना रहता है न पहला कम और न दूसरा ज्यादा । यह अवस्था बहुत सूक्ष्म और अचिर स्थायिनी होती है ।

कविवर तोषनिधि ने मध्या नायिका का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है । देखिए—

लाज बिलोकन देत नहीं रतिराज बिलोकन ही की दई मति ।

लाज कहै मिलिये न कहूँ रतिराज कहै हित सों मिलिये पति ।

लाजहु की रतिराजहु की कहै 'तोष' कछू कहि जाति नहीं गति ।

लाल तिहारियै सोंह करों वह बाल भई है दुराज की रैयति ।

हे लाल, तुम्हारी सौगन्ध खाकर कहती हूँ, आजकल वह बाला लाज और रतिराज दो राजाओं की रिआया बनी हुई है । कामदेव तो उसे तुमसे मिलने को प्रेरित करता है, परन्तु लाज की आज्ञा होती है कि हरगिज नहीं उनके पास भी न भाँको । यहाँ नायिका पर लाज और कामेच्छा दोनों का समान प्रभाव है, अतः यह मध्या नायिका हुई ।

और भी देखिए, कविवर ब्रजचन्दजी क्या कहते हैं—

ललना लजीली उर काम हू तैं कीली नीली—

सारी में लसै ज्यौं घटा कारी बीच दामिनी ।

कहैं ' ब्रजचन्द ' हुती संग में सहेलिन के,

हेरति हँसति बतराति हंसगामिनी ।

तौलों तहाँ गेह में सुनाह आयो नेह भरो,

बैठि गयौ ताकों लखि बैठि गई भामिनी ।

कन्त हेरे सामुहैं तो अन्त हेरे चन्द्रमुखी,

अन्त हेरे कन्त तब कन्त हेरे कामिनी ।

यहाँ भी लाज और रतिराज दोनों का कामिनी पर समान प्रभाव है । वह नायक को देखना तो चाहती है, और देखती भी है, परन्तु ज्योंही नायक उसकी ओर देखने लगता है, त्योंही वह दूसरी ओर देखने लग जाती है । यही भाव नीचे लिखे दोहे में कैसी सुन्दरता से व्यक्त किया गया है—

देखत बनै न देखिबो, अनदेखे अकुलाहि ।

इन दुखिया अखियान कौ सुख सिरज्यौ ही नाहि ॥

आँखें प्रियतम को बिना देखे अकुला उठती हैं और देखने का अवसर मिलता है, तो इनसे भले प्रकार देखा भी नहीं जाता । उस समय वे लज्जा से नीचे झुक जाती हैं ।

मध्या के भेद

साहित्य-दर्पणकार ने मध्या के पाँच भेद माने हैं । अर्थात् विचित्र सुरता, प्ररूढ़ स्मरा, प्ररूढ़ यौवना, ईषत्प्रगल्भवचना और मध्यम ब्रीडिता । परन्तु हिन्दी साहित्य-ग्रन्थों में इनका उल्लेख नहीं किया गया । हिन्दी वालों ने मध्या के धीरा, धीराधीरा और अधीरा ये तीन भेद माने हैं । ये धीरादि भेद प्रौढ़ा नायिका में भी होते हैं, जिनका उल्लेख प्रौढ़ा के साथ किया जायगा ।

मध्या धीरा

पति के परकीया के पास जाने पर उसके काम-केलि-सूचक चिह्नों को देखकर जो नायिका व्यंग्य द्वारा रोष प्रकट करती हुई भी पति के प्रति आदर-भाव नहीं त्यागती वह मध्या धीरा कहाती है। यह नायिका नायक को उसकी अनुचित चेष्टा के लिये झिड़कती तो है, परन्तु बात चीत में निरादर के भाव नहीं आने देती। वह अपने पति से जान बूझ कर पूछती है, “कहिये प्राणनाथ, आप रात कहाँ रहे। ऐसा क्या काम लग गया, जो घर की सुध-बुध ही भूल गए !” इस प्रकार की मीठी चुटकियों द्वारा एक प्रकार से वह पति को लज्जित कर देती है।

मतिरामजी ने मध्या धीरा का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है, देखिए—

तुम कहा करो कहुँ कामते अटक परे,
 तुम्हे कौन दोस सो तो आपनो ही भाग है।
 आए मेरे भौन बड़े भोर उठि यार ही में,
 अति हरबरिन बनाय बाँधी पाग है।
 मेरे ही बियोग रहे जागत सकल राति,
 गात अलसात मेरो परम सुहाग है।
 मन हू की जानी प्रान प्यारे 'मतिराम' इन
 नैनन ही माहिं पाइयतु अनुराग है।

प्राणनाथ, रात ऐसे किस काम में फँस गए थे जो तमाम रात वहीं बिता दी ! और अब इतने सबेरे ऐसी घबराहट में उठे चले आए हो कि पगड़ी भी ढग से नहीं बाँधी ! इस अलसाए गात से मालूम होता है कि मेरे वियोग में आपको रात भर नीद नहीं आई ! आपके हृदय में मेरे प्रति जो अपार अनुराग का सागर लहरा रहा है, वह आँखों के रास्ते उमड़ा पड़ता है ! मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप मुझसे इतना हित करते हैं ! इस पद्य में नायिका ने नायक की कैसी मीठी चुटकियाँ ली है।

नीचे लिखा अन्योक्तिपूर्ण पद्य भी मध्या धीरा का उत्कृष्ट उदाहरण है—

भ्रिलि मिलि वृन्दन गुलाब अरबिन्दन के,
कुन्दन कुमोदनि के मोद अनुकूले हौ ।
कहूँ अनुकूले कहूँ डोले हौ सुवास बसि,
कहूँ रस लोभ के सुभाय लागि भूले हौ ।
सौरभ सुजाति अधराति मालतीन मिलि,
सरस सुहाग अनुराग अग फूले हौ ।
कैसे वह सेबन सुगन्ध तजि मालती को,
कौन बन बेलिन भँवर आञ्जु भूले हौ ।

यहाँ नायक को भौरा मान कर उसे कैसे व्यंग्य-वाच्यों से बीधा गया है। और भी देखिए—

आवत जात के भौन के भीतर नींद भर्यौ रम्यौ बालम बाल सों ।
मान को ठान कियो न सयान सो जानि लयो गुरु शानन चाल सों ।
अंजन लीक लगी अधरान में, पीक कपोलन जाबक भाल सों ।
आब गुलाब लै सीरो कर््यौ मुख लाल को पौछो सफेद रुमाल सों ।

नायक के अधरों में अंजन-लीक, कपोलों में पान की पीक और मस्तक में जाबक लगा देख, नायिका सारा रहस्य ताड़ गई ! परन्तु उसने मान नहीं किया बल्कि वह सफेद रुमाल से उसका मुँह पौछने और गुलाबबल छिड़क कर उसे शीतलता पहुँचाने लगी ।

मध्या धीराधीरा

पति में परस्त्री के साथ की गई काम-केलि के चिह्न देख रो-रोकर व्यंग्य-वचनों द्वारा कोप प्रकाशित करने वाली नायिका मध्या धीराधीरा कहलाती है। नायक रुठी हुई नायिका (धीराधीरा) को मनाता है— उसके निहोरे करता है; परन्तु वह रोती ही जाती है और बार-बार व्यंग्य-वाच्य छोड़ती हुई कहती है—“मैं रोती हूँ तो रोने दो। मेरे रोने

से तुम्हें क्या ! मैं तुम्हारी कोई लगती थोड़े ही हूँ, जो तुम्हें मेरा कुछ ख्याल होगा ।” इस नायिका के कथन में कुछ प्रकट और कुछ गुप्त रोष होता है । उदाहरण में मतिरामजी का सवैया दिया जाता है—

आजु कहा तजि बैठि हो भूषन ऐसे ही अंग कछु अरसीले ।
बोलति बोल रुखाई लिये ‘मतिराम’ सुने ते सनेह-रसीले ।
क्यों न कहौ दुख प्रान प्रिया असुआन रहे भरि नैन लजीले ।
कौन तिन्हें दुख है जिनके तुमसे मनभावन छैल छबीले ।

यहाँ रूठी हुई नायिका से नायक पूछता है—“कहो क्या मामला है, आज आँखों में ये आँसू कैसे हैं ? बातें भी कुछ रुखी-सूखी करती हो । वस्त्राभूषण भी सब अस्त-व्यस्त दिखाई देते हैं । खैर तो है ? कोई तकलीफ़ हो तो बताओ ?” नायक की उक्त सब बातों का नायिका अपने एक ही व्यंग्य में उत्तर दे उसे निरुत्तर कर देती है । वह कहती है—“आप भी क्या बहकी बातें करते हैं । भला जिसके आप जैसे छबीले छैल मनभावन हों, उसे भी कोई तकलीफ़ हो सकती है ?”

इस प्रसंग में महाकवि पद्माकर का भी निम्नलिखित कवित्त पदने लायक है । देखिए—

ए बलि, कहाँ हो किन ? का कहत कन्त ? अरी,
रोस तजि, रोस कै कियौ मैं का अचाहे कौ ?
कहे ‘पदमाकर’ यहै तो दुख दूरि करो,
दोस न कछु है तुम्हें नेह निरबाहे कौ ।
तौ पै इत रोवति कहा हौ ? कहाँ कौन आगे ?
मेरेईजु आगे किये आसुन उमाहे को ।
को हों मैं तिहारी ? तू तो मेरी प्रान प्यारी,
अजु होती जो पियारी तब रोती कहौ काहे को !

अर्थ स्पष्ट है । इसी आशय का निम्नलिखित श्लोक भी प्रसिद्ध है । सम्भव है, इसी का भाव लेकर पद्माकरजी ने उक्त कवित्त रचा हो ।

वाले ! नाथ ! विमुञ्च मानिनि रुषं, रोषान्मया किं कृतम् ?
खेदोऽस्मासु, नमेऽपराध्यति भवान् सर्वेऽपराधा मयि ।
तर्किक रोदिषि गद्गदेन वचसा ? कस्याग्रतो रुद्यते ?
एतन्मम् ! काऽह तवास्मि ? दयिता ! नास्मीत्यतो रुद्यते ।
पद्माकरजी का एक उदाहरण और भी देखिए—

कीजियत प्यार आज तेरे पर तेरी सोंह,
तन मन-धाम तोपै दीजियत बार-बार ।
कहै 'पदमाकर' सुदेख मृगनैनी दृग,
आँसु भरि आए बिन गुन के निहारि हार ।
नैनन ते आँसु ढरि परे ते कपोलन, क—
पोलन ते गिरे ते उरोजन पै बार-बार ।
बड़े-बड़े मोती मीन देत रबनीसै, रज—
नीस मनो देत सभु सीस पर ढार-ढार ।

मध्या अधीरा

मध्या अधीरा नायिका नायक में अन्य रति सूचक चिह्न देखकर उससे एक दम रुष्ट हो जाती है, और उसे कटु भाषण पूर्वक बड़े अनादर से, भाँति-भाँति की झिड़कियाँ देने लगती है। यथा—'जाओ, जाओ ! जिस कुलटा से लगन लगी है, उसी को प्रसन्न करो ! मेरे आगे इस प्रकार की मुद्रा बनाने और धूर्त्तता दिखाने की आवश्यकता नहीं ! जब तुम्हारे हृदय में मुझ जैसी के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तब मेरे पैरों पर गिरने का नाटक दिखाने से क्या लाभ ? इत्यादि—

देखिये, कविवर मतिराम ने मध्या अधीरा का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है ।

कोऊ नहीं बरजै 'मतिराम' रहौ तितही जितही मनभायौ ।
काहे को सौँहैं ! हजार करौ 'तुमतो कबहूँ अपराध न ठायौ ।

सोवन दीजै, न दीजै हमै दुख यों ही कहा रसबाद बढ़ायौ ।
मान रखौ ही नहीं मनमोहन मानिनी होय सो मानै मनायौ ।

रूठी हुई अधीरा नायक के मनाने और सौगन्ध खाने पर कहती है—
“तुम्हें रोकता कौन है, जहाँ तुम्हारा मन भावै वहाँ खुशी से जाओ !
तुम्हारा दोष कौन बताता है, तुम तो व्यर्थ ही बार-बार शपथ खाते हो ।
अच्छा, अब व्यर्थ विवाद न बढ़ाओ, मुझे सोने दो । मोहन ! यहाँ मान
तो है ही नहीं, यदि मानिनी होती, तो मनाए से मान जाती ।” दूसरा
अर्थ यह कि तुम्हारे हृदय में मेरा कुछ मान (आदर) तो रहा ही नहीं
है । यह तो तुम्हारा दिखावटी नाटक है । यदि हृदय में आदर होता तो
मैं मनाने से मान भी जाती ।

एक उदाहरण और भी पढ़ लीजिए—

साँची कहौं जाकी मानत सौहजू कौन के नेह रहे सरसे हौ ।
रैनि जगौं अँखियाँ तरजी बिरुभीं अँग-अगन सों परसे हौ ।
जैहौं जहाँ मिलि आए तहाँ हमकों इक बातन सों परसे हौ ।
चन्द हूँकै कितहूँ सरसे हमकों रवि हूँकरिकै दरसे हौ ।

नायिका कहती है, चन्द्र बन कर तो किसी और जगह रस बरसाते रहे,
अब सूर्य बनकर यहाँ दिखाई दिये हो । भाव यह कि चन्द्र रात्रि में दिखाई
देता है, इसलिए चन्द्र बन कर यानी रात्रि में तो कहीं अन्यत्र रहे, और
सूर्य दिन में उदय होता है—इसलिए सूर्य बन कर अर्थात् दिन में मेरे
पास आए हो । दूसरा भाव यह भी कि चन्द्रमा शीतकर होने से प्रायः
आहाद जनक होता है, और सूर्य प्रखर रश्मि होने से उच्चाप द्वारा
प्रायः कष्ट ही देता है । इसी प्रकार आनन्द देने तो दूसरी जगह गए
और जलाने के लिए अब यहाँ आए हो ।

स्वकीयान्तर्गत प्रौढ़ा या प्रगल्भा

किंचित् लाज युक्त और सम्पूर्ण काम कला सम्पन्न नायिका प्रौढ़ा
कहलाती है । प्रौढ़ा भय, संकोच और लज्जा को त्याग कर, काम-कैलियों

में काल बिताना ही अपना ध्येय बना लेती है। उसके तन, मन और वचन में सदैव मदन की दुन्दुभि बजती रहती है। रातों रति में रत रहने पर भी, प्रौढ़ा की कामवासना तृप्त नहीं होती।

कविवर कालिदास ने प्रौढ़ा का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

प्रथम समागम के औसर नबेली बाल,
सकल कलानि करि प्यारे कों रिभायो है।
देखि चतुराई मन सोच भयो पीतम के,
लखि कै चरित्र मन सम्भ्रम भुलायो है।
'कालिदास' ताही समै निपट प्रवीन तिया,
काजर लै भीति ही पै चित्रक बनायो है।
व्यात लिखी सिंहनी निकट गजराज लिख्यौ,
गर्भ ते निकसि छौना मस्तक पै आयो है।

प्रथम समागम काल ही में नायिका की केलि-कुशलता देख, नायक को जो सम्भ्रम हुआ, उसे नायिका ने चित्र बनाकर तुरन्त दूर कर दिया। चित्र का भाव था कि जिस प्रकार सिंह का बालक गर्भ ही से हाथी पर आक्रमण करने का भाव लेकर और उसका प्रकार सीखकर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार स्त्रियों में भी केलि-कुशलता स्वाभाविक ही होती है। इसमें नायिका का प्रौढ़त्व पूर्णतया प्रकट होता है।

कविवर मतिराम ने "रसरज" में प्रौढ़ा का जो उदाहरण दिया है, उसे भी देखिए—

प्रान प्रिया मनभावन संग अनंग तरंगनि रंग पसारे।
सारी निसा 'मतिराम' मनोहर केलि के पुंज ह्वार उघारे।
होत प्रभात चल्यौ चहै प्रीतम सुंदरि के हिय में दुख भारे।
चन्द्र सो आनन दीपसी दीपति स्याम सरोज से नैन निहारे।

सारी रात रति में रत रहकर भी, प्रातःकाल प्रियतम को शैया से उठ जाने के लिए उद्यत देख नायिका को अत्यन्त दुःख हुआ,

और वह चन्द्र-समान मुख-मण्डल, दीप-शिखा जैसी देह-दीप्ति और नील कमल-से नेत्रों को देखने लगी। इससे नायिका का यह भाव था कि जब चन्द्रमा, दीपक और कुमुदिनी मौजूद हैं, तो निश्चय ही अभी रात्रि है, फिर नायक उठ कर क्यों जाना चाहता है।

प्रौढ़ा के भेद

प्रौढ़ा के धीरा आदि तीन भेद तो पहले ही बताए जा चुके हैं। उनके अतिरिक्त हिन्दी रीति-ग्रन्थों में रति-प्रीता और आनन्द-सम्मोहिता दो भेद और भी माने गये हैं। इनके लक्षण और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—

रति-प्रीता

जो नायिका रति में अत्यन्त निरत रहती है, उसे रति-प्रीता कहते हैं। रतिप्रीता नायक के बाहुपाश से एक क्षण के लिए भी अलग होना नहीं पसन्द करती। प्रातःकाल होने पर भी वह विविध बहाने बनाकर पति को यही भुलावा देना चाहती है कि अभी काफी रात बाकी है, तुम अभी से उठने की क्यों चिन्ता करते हो।

कविवर कालिदास का नीचे लिखा पद्य रति-प्रीता का सुन्दर उदाहरण है, देखिए—

रति-रन बिसै जे रहे हैं पति सनमुख
तिन्हैं बकसीस बकसी है मैं बिहँसि कै ।
करन कों कंकन उरोजन कों चन्द्रहार,
कटि कों सुकिकिनी रही है कटि लसि कै ।
'कालिदास' आनन कों आदर सों दीन्हों पान,
नैनन कों कज्जल रखौ है नैन बसि कै ।
एरी बीर, बार ये रहे हैं पीठि पाछे याते,
बार-बार बाँधति हों ब्यार बार कसि कै ।

उक्त पद्य में नायिका का सखी से बातचीत करते हुए भी प्रणय-प्रसंग की ही चर्चा करना वर्णित है। इससे उसका रति में अत्यन्त निरत होना व्यक्त होता है, अतः वह रति-प्रीता हुई। इस प्रसंग में प्रवीणजी का भी यह पद्य पढ़ने लायक है—

कूर कुक्कुट कोटि कोठरी निवारि राखौ
 चुनि दै चिरैयन कौ मूँदि राखौ जलियो ।
 सारंग मे सारंग मिलाऊँ हो 'प्रवीन' राव,
 सारंग दै सारंग की जोति करौ थलियो ।
 तारा-पति तुम सौँ कहति, कर जोरि-जोरि,
 भोर मति करियो सरोज मुद कलियो ।
 मोहि मिल्यौ इन्द्रजीत धीरज नरेन्द्रराज,
 ए हो चन्द, आजु नेक मन्द गति चलियो ।

यहाँ भी नायिका कुक्कुटों और चिड़ियों को इसलिए मूँद रखना चाहती है कि वे प्रभात होने की सूचना न दे सकें। वह चन्द्रदेव से भी यही प्रार्थना करती है कि प्रथम तो तुम आज सबेरा करना ही मत और यदि इतना न कर सको तो आज अपनी चाल तो अवश्य ही बहुत धीमी रखना, जिससे रात्रि अधिक देर तक रहे।

आनन्द-सम्मोहिता

रति के सुख से पैदा हुए आनन्द में निमग्न रहने वाली नायिका को आनन्द-सम्मोहिता कहते हैं। यह रति के आनन्द में इतनी विभोर हो जाती है कि इसे अपने तन बदन की भी सुष नहीं रहती। सम्भोग की अवस्था में सारा शृंगार जिस प्रकार अस्त-व्यस्त हो गया, उसी प्रकार दिखाई दे रहा है, परन्तु वह आँखें मूँदे सुरत-सुख की स्मृति में तल्लीन है। देखिए—

कुन्दन की छुरी आबनूस की छुरी सौँ मिली,
 सौँन जुही माल किधौ कुबलय हार सौँ ।

कैधौ चन्द्र-चन्द्रिका कलंक सौ कलित भई,
कैधौ रति ललित बलित भई मार सौ ।
'कालिदास' मेघ माहि दामिनी मिली है कैधौ,
अनल की ज्वाल मिली कैधौ धूम धार सौ ।
केलि समै कामिनी कन्हैया सौ लपटि रही,
कैधौ लपटानी है जून्हैया अन्धकार सौ ।

भाव स्पष्ट है । कृष्ण के साथ रति-निरत नायिका की कैसी सुन्दर उत्प्रेक्षाएँ हैं ।

प्रौढ़ा (प्रगल्भा) धीरा

जो नायिका पति में पर स्त्री रति सूचक चिह्न देख, रति-क्रिया में मान सहित उदासीन रहै, परन्तु पति के प्रति आदर-भाव ज्यों का त्यों बनाए रखे उसे प्रौढ़ा धीरा या प्रगल्भा धीरा कहते हैं । यह नायिका प्रियतम की इच्छा पूरी न कर बात को बड़ी चतुराई से उड़ा देती है ।

उदाहरण देखिए—

जगर-मगर दुति दूनी केलि मन्दिर में,
बगर-बगर धूप अगार बगार्यौ तू ।
कहै 'पदमाकर' त्यों चन्द ते चटकदार,
चुम्बन में चारु मुख चन्द अनुसार्यौ तू ।
नैनन में बैनन में सखी और सैनन में,
जहाँ देखो तहाँ प्रेम पूरन पसार्यौ तू ।
छिपत छिपाए तऊ छल न छबीली अब,
उर लगिवे की वार हार न उतार्यौ तू ।

नायिका ने केलि मन्दिर की सजावट भी खूब की है । वह बातचीत में भी पूर्ण प्रेम प्रदर्शित कर रही है, परन्तु हृदय से लगने के समय गले का हार नहीं उतारती । इसी में उदासीनता दिखाती हुई आलिंगन क्रिया को टाल रही है । यही उसका धीरत्व है । कविहर मतिराम ने भी प्रौढ़ा धीरा का सुन्दर उदाहरण दिया है, उसे भी देख लीजिए—

वैसे ही चित्तै कै मेरे चित्त को चुरावति हौ,
बोलति हौ वैसेई मधुर मृदुबानी सों ।
कवि 'मतिराम' अंक भरत मयंक मुखी,
वैसे ही रहति गहि भुज लतिकानि सों ।
चूमति कपोल पान करति अघर रस,
वैसे ही निहारी रीति सकल कलानि सों ।
कहा चतुराई ठानियत प्रान प्यारी तेरो,
मान जानियत रूखी मुख मुसक्यानि सों ।

यहाँ भी नायिका की सब क्रियाएँ पूर्व जैसी ही हैं । वह मधुर भाषण, चुम्बन, आलिंगन आदि सब कुछ करती है, परन्तु उसकी मुस्कराहट में वह सरसता नहीं । सूखी हँसी स्पष्ट जता रही है, कि वह नायक से कुछ खिंची हुई है ।

प्रौढ़ा (प्रगल्भा) धीराधीरा

प्रगल्भा धीराधीरा व्यंग्य-वचनों द्वारा नायक की मानपूर्णा चुटकियाँ लेने तथा उसके प्रति तर्जन ताड़न द्वारा कोप प्रकट करने में, तनक भी संकोच नहीं करती । कभी-कभी तो वह नायक से यहाँ तक कह डालती है—“अहा हा ! कैसे सुन्दर मालूम देते हो । उसके नखच्चूतों ने तो आज आपकी शोभा और भी बढ़ा दी है ! क्या कहने हैं !!”

पद्माकरजी ने प्रौढ़ा धीराधीरा का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

छवि अलकन भरी पीक पलकन त्यों ही,
स्रम-जल-कन अलकन अधिकाने न्वै ।
कहे 'पदमाकर' सुजान रूपखानि तिया,
ताकि-ताकि रही ताहि आपुही अजाने ह्वै ।
परसत गात मनभावन को भावती की
गई न्नादि भौहैं रही ऐसे उपमाने छ्वै ।

मानो अरविन्दन पै चन्द्र कौ चढाय दीन्हों,

मान कमनैत बिन रोदा की कमाने द्वै ।

नायक के शरीर में रति-चिन्ह देख कर पहले तो नायिका अनजान-सी देखती रही, परन्तु ज्यों ही प्रिय ने उसका शरीर छुआ, त्यों ही भावती की भौहें चढ गईं ।

इस प्रसंग में कविवर मतिराम का नीचे लिखा सबैया भी पढ़ने लायक है । देखिये—

पीतम आए प्रभात प्रिया ढिग राति रमे रति-चिन्ह लिये ही ।

बैठि रही पल्लगा पर सुन्दरि नैन नवायकै धीर धरे ही ।

बाँह गहै 'मतिराम' कहै न रही रिस मानिनि के हठ कै ही ।

बोली न बोल कछू सतराय पै भौहै चढाय तकी तिरछैही ।

रति-चिन्हों से युक्त प्रियतम के प्रभात-समय अपने पास आने पर, प्रिया निगाह नीची किये चुपचाप पल्लग पर बैठी रही । अन्त में प्रियतम ने उसका हाथ पकड़ा, तब भी वह बोली नहीं, केवल भौहें चढा कर टेढ़ी निगाह से देखती रही ।

इसी के उदाहरण में नीचे लिखा दोहा भी कैसा सुन्दर है—

आवत उठि आदर कियो बोले बोल रसाल ।

बाँह गहत नँदलाल के भये बाल दृग लाल ॥

प्रौढ़ा (प्रगल्भा) अधीरा

प्रगल्भा अधीरा नायिका पति में परस्त्री के साथ की गई रति के चिन्हों को देखकर उसे मान से डाटती, डपटती और कभा-कभी उस पर प्रहार भी कर बैठती है । हाथ झटक तथा धक्का देकर वह नायक से कहती है—“ खबरदार, मेरा हाथ छुआ तो ! मैं तुम्हारी कौन हूँ ? जो लगती हो, उसी के पास जाओ, और उसी के साथ रंग-रेलियों करो ।”

उदाहरण में पद्माकरजी का नीचे लिखा कवित्त देखिये—

रोस करि पकरि परौसते लियाई घरै,
पीकों प्रानप्यारी भुज लतनि भरै भरै ।
कहै 'पदमाकर' ये ऐसो दोस कीनों फिरि,
सखिन समीप यों सुनावति खरै खरै ।
प्यौछल छिपावै बात हँस बहरावै, तिय
गदगद कण्ठ दृग आँसुन भरै भरै ।
ऐसी घन धन्य धनी धन्य है सु ऐसो जाहि,
फूल की छुरी सों खरी इनति हरै हरै ।

नायिका नायक को पड़ौस मे से 'रँगो हाथों' पकड़ लाई है और सब सखियों के सामने उसे अनेक खरो-खोटी सुना रही है। प्रिय अपना दोष छिपाना और हँसी में बात टालना चाहता है, परन्तु नायिका उसे कब छोड़ने वाली है। वह फूल की छड़ी से धीरे-धीरे उसकी ताड़ना भी करती जाती है।

“ इसी भाव का मतिरामजी का पद्य भी पढ़ लीजिये—

जाके अंग अंग की निकाई निरखत आली,
बारने अनंग की निकाई कीजियतु है ।
कहै मतिराम' जाकी चाह ब्रज नारिन को,
देह आँसुआन के प्रवाह भीजियतु है ।
जाके बिन देखे न परत कल तुम हू के,
जाके बैन सुनत सुधा-सी पीजियतु है ।
ऐसे सुकुमार पिय नन्द के कुमार कौं यों,
फूलन की मालन की मार दीजियतु है ।

यहाँ नन्दलाल पर भी फूल-मालाओं की मार पड़ रही है। ठीक है, दबी बिल्ली चँहों से कान कटाती है।

मध्या और प्रौढा के अन्य भेद

स्वभावानुसार मध्या और प्रौढा के अन्य सुरत दुःखिता, गर्विता और मानवती ये तीन भेद और भी होते हैं ।

अन्य सुरत दुःखिता

किसी दूसरी स्त्री के शरीर पर प्रिय सम्भोग-चिन्ह देखकर दुखी होने वाली नायिका अन्य सुरत दुःखिता कहाती है ।

अन्य सुरत दुःखिता और खण्डिता में अन्तर यह है कि पहली किसी स्त्री के शरीर पर स्वपति के साथ की गई काम-केलि के चिन्ह देखकर अत्यन्त दुखी होती है, और दूसरी अपने पति के शरीर पर पर-स्त्री-सम्भोग-जनित चिन्ह देखकर मान करती है ।

अन्य सुरत दुःखिता का उदाहरण कमला-पति ने इस प्रकार दिया है—
गुन एक अपूरन तो मे लख्यौ सुतौ सीखिवे को अभिलाष करौं ।
'कमलापति' तोसी हितू है तुही, लखि कै सब भाँति अनन्द भरौं ।
यहि हेत कहौ यह बात बलाय ल्यौं दूजौ उपाय न चित्त धरौं ।
चित्त और को हाथ में लीवो बताय दै पाहुनी पायन तेरे परौं ।

यहाँ नायिका पाहुनी के शरीर में रति-चिन्ह देखकर दुखी होती हुई, व्यंग्य-वचनों द्वारा उसे उपालम्भ दे रही है—'हे पाहुनी, पराया चित्त कैसे चुराया जाता है, इसकी विधि कृपा कर मुझे भी बता दे । मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ ।"

इस प्रसंग में पद्माकरजी का उदाहरण भी देखिये—

घोय गई केसरि कपोल कुच गोलन की,
पीक लीक अधर अमोलन लगाई है ।
कहै 'पदमाकर त्यों नैन हूँ निरंजन मे,
तज तन कम्प देह पुलकनि छाई है ।
बाद मति ठानै भूठ वादिनि भई री अब,
दूतपनो छोड़ि धूतपन में सुहाई है ।

आई तोहि पीर न पराई महा पापिनि तू,
पापी लों गई न कहूँ वापी न्हाइ आई हं ।

प्रियतम को बुलाने के लिए भेजी गई दूती जब लौटकर आई तो नायिका ने उसकी दशा देखकर समझ लिया कि यह तो स्वयं ही गड़बड़ कर आई है । नायिका ने जब उससे पूछा कि “तेरे कपोलों और कुचो पर से केसर कैसे छूट गई और आँखों का काजल कहाँ उड़ गया” तो वह कहने लगी—मैं बावड़ी में स्नान कर आई हूँ । इस पर नायिका कुपित होकर कहती है—पापिन, क्यों भूठ बोलती है ! तू बावड़ी नहा आई है ! उस पापी तक नहीं गई ? अन्य सुरत दुःखिता का कितना स्पष्ट उदाहरण है ।

इसी भाव का एक संस्कृत श्लोक भी है । सम्भव है, पद्माकरजी ने उसी के आधार पर उपर्युक्त कवित्त लिखा हो । वह श्लोक इस प्रकार है—

निःशेष च्युत चन्दनं स्तनतटं निमृष्ट रागोऽधरः ।
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः ॥
मिथ्यावादिनि दूति बाँधवजनस्याज्ञात पीडागमे ।
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥

इस प्रसंग में नीचे लिखा पद्य भी कितना उत्कृष्ट है—

चाख्यौ कै पियूख अभिलाख्यौ कै अनन्द उर
भाख्यौ ना बनत 'ईस' और जो कपट में ।
घरत कहूँ को पॉय परत कहूँ को जाय,
करति कला तू भाय जैसी नाहिं नट मे ।
जान ना दुराव तू अजान ना दुराव भले,
मेरे जान आई आज कारे के रूपट में ।
कालिदी के तीर तू अकेली तजी भीर वीर,
लैन गई नीर भरि लाई नेह घट में ।

अरी, तू कितना ही क्यों न छिपा, परन्तु तेरी ये लटपटी चाल और अटपटी बाते साफ जाहिर कर रही हैं कि तू आज काले (कृष्ण) के

भूपट्टे में आ गई ! तू गई तो थी भीड़ से बचकर अकेली जमना तट से पानी भरने, परन्तु भर लाई तू घट हृदय) में प्रेम । यह क्या कर डाला ! छिपाती क्यों है, साफ-साफ बता कि क्या माजरा है !

गर्विता

जो नायिका अपने रूप या प्रिय के प्रेम का गर्व करती तथा उसे वक्रोक्तियों द्वारा प्रकट करती रहती है, उसे गर्विता या वक्रोक्ति-गर्विता कहते हैं ।

इस गर्विता या वक्रोक्तिगर्विता के दो भेद हैं । १—रूप गर्विता और २—प्रेम-गर्विता । कुछ लोगों ने गर्विता का 'गुण-गर्विता' भेद भी माना है ।

रूप-गर्विता

जो नायिका अपने रूप का गर्व करती है, उसे रूप-गर्विता कहते हैं । इस सम्बन्ध में महाकाव्य शङ्कर का उत्कृष्ट उदाहरण देखिए—

आनन की ओर चले आवत चकोर मोर—

दौरि-दौरि बार-बार बैनी भटकत हैं ।

भूमि-भूमि चखन को चूमि-चूमि चञ्चरीक,

लटकी लटन में लिपटि लटकत हैं ।

बैठि-बैठि 'शङ्कर' उरोजन पै राजहंस,

मोतिन के तार तोरि-तोरि पटकत हैं ।

आज इन बैरिन सों वन में बचावै कौन,

अबला अकेली मै अनेक अटकत हैं ।

रूप गर्विता नायिका ने अपना सौन्दर्य कैसे सुन्दर ढंग से बयान किया है । वह यह नहीं कहती कि मेरा मुँह चन्द्रमा जैसा है, मेरी लटें नागिन सरीखी हैं, मेरी आँखें कमल के समान हैं, बल्कि इन्हीं बातों को वह बड़े ही सुन्दर ढंग से व्यक्त करती है । वह कहती है—न जाने चकोर क्यों मेरे मुँह की ओर दौड़-दौड़ कर आते हैं, इन मोरों को भी क्या हो

गया है, जो मेरी लटकी हुई लटों को पकड़ कर भटकते हैं। ये भौंरे भी बार-बार मेरी आँखों के पास आ-आकर न जाने क्यों मँडराते हैं।” अभिप्राय यह कि चकोर चन्द्रमा को बहुत चाहते हैं। नायिका के मुख की ओर उनके उड़-उड़ कर आने का मतलब यह कि उसके मुँह को देखकर उन्हें चन्द्रमा का भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार भ्रमरों को उसकी आँखों से कमल का और वेणी से मोरो को सर्प का भ्रम होता है। कवि की क्या ही अनौखी सूझ है। नायिका ने कैसी वक्रोक्तियों द्वारा अपने रूप की प्रशंसा की है।

नीचे लिखा कवित्त भी रूप-गर्विता का बड़ा सुन्दर उदाहरण है—

नेक जो हँसो तो लाल माल होत हीरन की,
 नेक जो मुरो तो मेरी नील मनि भलकी ।
 अंजुरी भरी है मुख धोइवेको भारी लैकै,
 सखिन निहारी दुति राती होति जल की ।
 जो मै रचों चीर तो कुचील जुरे जोबन, न,
 देखिबे को आँखे गुनघरहू की ललकी ।
 आँगन कढ़ों तो भोर भीरन अँधेरो होत,
 पाय जो धरों तो महि होत मखमल की ।

उपर्युक्त छन्द मे भी रूप-गर्विता नायिका ने अपना सौन्दर्य बड़े ही सुन्दर ढंग से वर्णन किया है।

प्रेम-गर्विता

पति-प्रेम पर इतराने वाली नायिका को प्रेम गर्विता कहते हैं।

उदाहरण देखिये—

आखिन में पुतरी है रहैं द्वियरा मे हरा है सबै रस लूटैं ।
 अंगन संग बसैं अंगराग है जीवते जीवन मूरिन दूटैं ।
 ‘देवजू’ प्यारे के न्यारे सबै गुन सो मन मानिक तैं नहिं छूटैं ।
 और तियान ते तौ बतियाँ कुरैं मो छतियाँ ते छिनौ जब छूटैं ।

यहाँ नायिका को अपने पति प्रेम का इतना विश्वास और गर्व है कि वह दृढ़ता पूर्वक कह सकती है—“ और तियान ते तौ बतियाँ करें मो छतियाँ ते छिनौ जब छूटैं ।” दूसरी स्त्रियों से तो वह तब ही न बातें करेगी, जब मुझ से अलग होंगे। वह तो मुझसे क्षण-भर के लिए भी अलग नहीं होते। प्रेम-गविता का कितना सुस्पष्ट और सुन्दर उदाहरण है। नायिका ने वक्रोक्ति द्वारा किस प्रकार अपने प्रति पति-प्रेम की प्रगाढ़ता प्रदर्शित की है।

मानवती

पति के अपराध से अप्रसन्न होकर मान करने वाली नायिका को मानवती कहते हैं।

मानवती के उदाहरण में नीचे लिखा सवैया देखिये—

ये घन घोर उठे चहुँ ओर इन्हें लखि का करिहै रिस ह्वै तू ।
सौत पै जाय है जो कमलापति' पाइहै छाँह छिनैकन छ्वै तू ।
जानि लई अब ही सिगरी कलपैहै सु हाथ के हीर को ख्वै तू ।
पाँय परे हू न मानती री अब जाजनि ऐसी मिजाजिनि है तू ।

किसी मानिनी नायिका के प्रति सखी की उक्ति है। सखी कहती है—
‘अरी बावली इन उमड़ धुमड़ कर घिर आने वाली, घन-घटाओं को तो देख। क्या इन्हें देखती हुई भी तू मान-मुद्रा नहीं तोड़ेगी। याद रख, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, परन्तु यदि वह भी अकड़ गए और सौत के पास चले गए तो फिर तुझे उनकी परछाईं भी देखने को न मिलेगी। अब तो तू जान बूझ कर अपने हाथ के हीरा को खोए दे रही है, पीछे पछतायगी। चल, रहने दे ! प्रिय के पैरों पड़ने पर भी नहीं मानती ! ऐसा भी क्या लूँठना ।

इसी सम्बन्ध में नीचे लिखा सवैया भी कितना सुन्दर है—

मानी न मानवती भयो भोर सु सोच ते सोय गए मनभावन ।
तेहते सासु कही दुलही भई बार, कुमार को जाव जगावन ।

मान को रोस जगैवे की लाज लगी पगनूपुर पाटी बजावन ।
सो छुवि हेरि हिराय रहे हरि कौन को रुसिवो काको मनावन ।

रात को बहुत रात तक मनभावन ने मानिनी को मनाया, पर वह न मानी । प्रातःकाल होने पर नायक को नींद आ गई, वह सो गया । उसे सोता देख मानवती की सास ने उसे ही नायक को जगाने भेजा । अब वह मान के कारण पति को बोलकर जगा भी नहीं सकती, उधर सास की आज्ञा भी कैसे टाली जाय । अन्त में पैर के बिल्लुए पल्लंग की पाटी से खटखटा कर बजाने लगी । नायिका की उस चतुर्गई को देखकर हरि (नायक) भी 'हिराय' रहे ! फिर भला किसका रुठना और कैसा मनाना ।

स्वकीया के विशेष भेद

ज्येष्ठा और कनिष्ठा

यदि किसी नायक के कई स्त्रियाँ हों, तो उसकी सबसे अधिक प्यारी स्त्री ज्येष्ठा और शेष कनिष्ठा कहाती है । कविवर मतिराम ने अपने नीचे लिखे कवित्त में ज्येष्ठा और कनिष्ठा का कैसा सुन्दर वर्णन किया है । देखिये—

बैठीं एक सेज पै सलौनी मृग-नैनी दोऊ,
आनि तहाँ पीतम सुधा-समूह बरसै ।
कवि मतिराम' ढिंग बैठ्यो मनभावन के,
दुहूँ के हिये में अरविन्द मोद सरसै ।
आरसी दै एक सो कख्यौ यों निज मुख लखौ,
अरविन्द वारिज विलास कर दरसै ।
दरप सों भरी जौलों दरपन देखै तौलों,
'यारे प्रान प्यारी के उरोज हरि परसै ।

भाव स्पष्ट है । नायक अपनी चतुराई से कनिष्ठा को दर्पण देखने में लगाकर ज्येष्ठा का आलिंगन करता है ।

इसी के उदाहरण में नीचे लिखा दोहा कितना उत्कृष्ट है—

तीज परब सौतिन सजै भूषन बसन सरीर ।

सबै मरगजे मुँह करी बहै मरगजी चीर ॥

तीज के त्यौहार पर सभी सपत्नियों ने वस्त्रालङ्कारों से अपने-अपने शरीर अलङ्कृत किये। परन्तु उस मरगजे (मसले हुए) वस्त्रों वाली ने सबके मुख मरगजे (मर्दित)—से कर दिये।

साहित्य-दर्पणकार ने प्रौढा नायिका के छह भेद और भी माने हैं, जिनके नाम ये हैं—

१—स्मरान्धा, २—गाढतारुण्या, ३—समस्त रति-केविदा, ४—भावोन्नता, ५—दरव्रीडा और ६—आक्रान्त नायिका। हिन्दी रीति-ग्रन्थकारों ने प्रायः इन भेदों का उल्लेख नहीं किया, इसलिए हम भी यहाँ इनके लक्षण मात्र लिख देना ही पर्याप्त समझते हैं।

स्मरान्धा—काम-कला में अन्धी होकर सुध-बुध विचार देने वाली नायिका स्मरान्धा कहाती है।

गाढ तारुण्या—सविशेष तारुण्य युक्त नायिका गाढ तारुण्या कहाती है।

समस्त रति-केविदा—समस्त काम-कलाओं—रति के आसनादिकों—को जानने वाली नायिका को समस्त रति-केविदा कहते हैं।

भावोन्नता—भ्रू-कटाक्षादि सकेतों द्वारा रति विषयक मनोभाव प्रकट करने वाली भावोन्नता कहालाती है।

दरव्रीडा—जिसे काम-क्रीडाओं में नाम मात्र को लज्जा रह गई हो।

आक्रान्त नायिका—सुरत के पश्चात् विगड़े हुए शृङ्गारादि सँवारने के बहाने से नायक को पुनः रति-क्रीडा में प्रवृत्त कर सुगंध होने वाली।

परकीया नायिका

जो स्त्री छिप कर पर-पुरुष से प्रेम करती है, उसे परकीया कहते हैं।

उदाहरण मे कविवर गोविन्दजी का एक पद्य उद्धृत किया जाता है ।
देखिए—

दिन अरु रैनि गृह काज बिसराय गयो,

मूरति रसाल मेरे मन मे अरति है ।

जबहीं जसोदा सुत गैया लैके बन जाय,

मन्द मुसक्यानि मोकों नाहिं बिसरति है ।

‘गोविन्द’ गोपालजू की मूरति अनौखी देखि,

शान अरु ध्यान बुद्धि सबही जरति है ।

मैने समुभायो मन केाटि करि बार-बार,

उन्है विन देखे मोहि कल ना परति है ।

गौएँ ले जाते हुए गोपाल की मोहनी मूर्ति देखकर, नायिका घर के सब काम-काज भूल गई ! उसकी सारी सूझ-समझ भी बिसर गई । मोहन पर मुग्ध हुए मन को करोड़ों बार मना किया पर वह मदन गोपाल की मधुर मुसकान पर ऐसा मस्त है कि बिना उनके उसे कल ही नहीं पड़ती ।

देखिये ग्वाल कवि ने परकीया का वर्णन कैसी सुन्दरता से किया है—

गोपी गति लोपी की सुनी मै बात कैयन पै,

मोकों तो कुजातिनी कमीन कहि बोली वे ।

आपने न अश्रौगुन गनत परपति पगी,

ऐसी बेसरम करे मोही सौं ठठोली वे ।

ग्वाल कवि छिपि-छिपि कै अंधियारी रातिन मे,

सोये पति लागि कै किवार बन्द खोलीं वे ।

वनन में बागन में जमुना किनारन मे

खेतन खदान में खराब होत डोली वे ।

परकीया के सम्बन्ध में आनन्दघनजी का उदाहरण भी देखिए—

क्यों हँसि हेरि हर्यौ हियरा अरु क्यों हित कै चित चाह बढाई ।

काहे को बोलै सुधा-सने नैननि नैननि में न सलाका चढ़ाई ।

सो सुधि मो हिय ते 'घनआनंद' सालति क्यों हूँ कड़े न कड़ाई ।
मीत सुजान अनीति की पाटी इते पै न जानिये कौने पढ़ाई ।

क्यों तो उसने मुस्कराते हुए मेरी ओर देखकर मेरा मन मोह लिया,
और न जाने क्यों प्रेम-पूर्ण व्यवहार करके अनुराग बढ़ाया । उसकी वाणी
भी कैसी मधुर थी । बोलते समय कानों में सुधा-बिन्दु से पड़ते थे ।
उसकी इन सब बातों की मुझे रह-रह कर याद आती है । बहुतेरा भुलाना
चाहता हूँ, परन्तु वे भूलती ही नहीं ।

परकीया के भेद

परकीया नायिका के दो भेद हैं । १—ऊढा परकीया और २—अनूढा
परकीया । इन्हीं को विवाहिता और अविवाहिता भी कहते हैं ।

ऊढा

जो विवाहिता स्त्री अपने पति से प्रेम न कर, गुप्तरूप से परपुरुष
के प्रेम-पाश में फँसी रहती है, वह ऊढा परकीया कहाती है । उदाहरण
देखिए—

सूखी-सी ससमी-सी भ्रमी व्याकुल-सी बैठी कहूँ,
नजरि लगी है तुन तोरि तोरि नाख्यौ मै ।
'वैनी कवि' भोर ही ते भौरी भई डोलति ह्यौ,
राज करो जाय यह काज अभिलाख्यौ मै ।
ललकै हमारो जीय बोलेना बिलोके क्यों हूँ
मुख आँखे मूँदि रही यातें दीन भाख्यौ मै ।
पलकें उघारो कैसे कठि जाय आँखिन ते,
सोर ना करौरी चितचोर मूँदि राख्यौ मै ।

चित्त-चोर की छुवि नायिका की आँखों में बस गई है । कहीं आँखें
खोलने से वह छुवि निकल न जाय, इसलिए वह उन्हें खोलना नहीं
चाहती । सखी समझती हैं, न जाने इसे क्या हो गया है, जो न बोलती है

और न आँखें खोलती है । वह सबेरे से ही घबराई हुई-सी भागी फिरती है । नज़र लग जाने का सन्देह कर उसने टोना टन-मन भी बहुत किये हैं । पर यहाँ तो ऐसी नज़र लगी है, जो साधारण भ्राड़-फूँक से दूर नहीं हो सकती, उसका प्रतीकार तो स्वयं वह नज़र ही है ।

कविवर पद्माकरजी ने ऊढ़ा का उदाहरण यों दिया है—

गोकुल के कुल को तजि कै भजि कै बन-बीथिन में बढि जैये ।
त्यो 'पदमाकर' कुंज कछार बिहार पहारन मे चढि जैये ।
है नंदनन्द गोविन्द जहाँ तहाँ नन्द के मन्दिर में मढि जैये ।
यो चित चाहत एरी भट्ट मनमोहनै लैकै कहूँ कढि जैये ।

यहाँ नायिका चाहती है कि सब घरवार और पुर-परिवार परित्याग कर मनमोहन को साथ ले, किसी निविड़ वन, कुञ्ज कछार या गिरिगुहा में जा बैठे ।

इस प्रसंग में मतिरामजी का भी यह उदाहरण देखने लायक है—

क्यों इन आँखिन सों निरसक है मोहन को तन पानिप पीजै ।
नैकु निहारे कलंक लगै यहि गाँव बसे कहो कैसे कै जीजै ।
होत रहै मन यो 'मतिराम' कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे ।
है बनमाल हिये लगिये अरु है मुरली अघरा रस पीजै ।

इस गाँव में जब किसी की ओर तनक देखने मात्र से कलक लगता है, तब भला निर्वाह कैसे हो सकेगा । यहाँ भला निःशक होकर मनमोहन की रूप-सुधा का पान कैसे किया जा सकेगा ? अब तो इसका एक ही उपाय है, वह यह कि कहीं वन में जाकर कठिन तपस्या की जाय जिससे अगले जन्म में हम वनमाल या मुरली बन सकें । वस तभी निर्भयता पूर्वक मोहन के हृदय का आलिंगन या अघरामृत का पान किया जा सकेगा ।

अनूठा

जो अपनी कौमारवस्था में ही गुप्त रूप से किसी पुरुष के प्रेम-पाश में फँस जाती है, उसे अनूठा (अरकीया) कहते हैं । उदाहरण देखिए—

प्रीति पतिव्रत सों बल बैर कहौ केहि भोंति भद्र भ्रम भागै ।
 काज सरै तो लजाति हों लाजन, लाज सरै तो विदा हित माँगै ।
 है रही साँप-छूँदर की गति काम अकाम हिये अनुरागै ।
 ऐसो उपाय बताय सखी हरि अक लगै पै कलक न लागै ।

नायिका (अनूटा) बड़े असमंजस में पड़ी है, प्रीति निवाहती है, तो पतिव्रत' नष्ट होता है और पतिव्रत' रक्खा जाय तो प्रीति हाथ से जाती है । लाज रखे तो काज नहीं सरता और काज पूरा किया जाय तो लाज विदा होती है । साँप-छूँदर की-सी गति हो रही है । ऐसी विषम परिस्थिति में वह सखी से पूछती है—हे सखी, अब तू ही कोई ऐसा उपाय बता जो मोहन से मिलना भी हो जाय और कलंक भी न लगे ।

इस प्रसंग में पद्माकरजी ने नीचे लिखा उदाहरण दिया है—

जाव नहीं कुल गोकुल में अरु दूनी दुहूँ दिसि दीपति जागै ।
 त्यों 'पदमाकर' जोई सुनै जहाँ सो तहाँ आनंद में अनुरागै ।
 ए दई ऐसो कछू करि ब्यौत जु देखैं अदेखिन के दग दागै ।
 जामे निसक है मोहन को भरिये निज अंक कलक न लागै ।

यहाँ भी दैव से ऐसा कोई उपाय सुझा देने की प्रार्थना की गई है, जिससे मोहन को गले भी लगाया जा सके और लोकापवाद भी न हो ; और भी देखिए—

गोप सुता कहै गौरि गुसाँइनि पाय परों बिनती सुनि लीजै ।
 दीन दयानिधि दासी के ऊपर नैसुक चित्त दया रस भीजै ।
 देहि जो ब्याहि उछाह सों मोहनै मात-पिता हू के सो मन कीजै ।
 सुन्दर साँवरो नन्दकुमार बसै उर जो बर सो बर दीजै ।

यहाँ कुमारी (अनूटा) गोपबाला पार्वतीजी से प्रार्थना कर रही है हे देवी, मेरे माता-पिता को ऐसी बुद्धि दो, जिससे वे मोहन के साथ मेरा विवाह कर दे, क्योंकि वही मेरे हृदय में बसा हुआ है ।

भेद

उपर्युक्त ऊढ़ा और अनूढ़ा दोनों प्रकार की नायिकाओं के उद्बुद्धा और उद्बोधिता ये दो दो भेद हैं ।

उद्बुद्धा

जो स्वयं अपनी इच्छा से प्रेरित होकर उपपति से प्रेम करती है, वह उद्बुद्धा कहाती है ।

यथा—

बिलखि बिसुरै छन मौन है छली-सी बलि,
चौकत चहूँघा हेरि ऐसी चोप चटकी ।
कालिह ही तै कलप समान पल बीत्यौ रहि,
बान-सी हिये मे तान बाँसुरी की खटकी ।
कवि लछिराम' कल कनक लता लौँ लकि,
लोटति अटारी पै नवेली बङ्क लटकी ।
भाँभरी सौँ औचक निहारी फहरानि आजु,
रसिक सिरोमनि, तिहारे पीत पटकी ।

यहाँ नायिका भरोखे में होकर मोहन का पीत पट देख उन पर मुग्ध हो गई है । उसी समय से उसकी जो दशा हो रही है, उसका वर्णन उक्त पद्य में किया गया है ।

उद्बोधिता

जो स्त्री उपपति द्वारा प्रेरित होकर प्रेम में प्रवृत्त होती है, वह उद्बोधिता कहाती है । उद्बोधिता का उदाहरण नीचे दिया जाता है—

पहले हम जाइ दयो कर में तिय खेलति ही घर में फरजी ।
बुधिवन्त एकन्त पढ़ो तबहीं रतिकन्त के बानन लै लरजी ।
बरजी हमै औरै सुनाइबे कौँ कहि 'तोष' लख्यो सिगरी मरजी ।
गरजी है दियो उन पान- हमैं पढ़ि सौँवरे रावरे की अरजी ।

यहाँ नायक पत्र द्वारा नायिका से प्रेम प्रदान करने की प्रार्थना करता है। उसी पत्र को लेजाने वाला दूती नायक से कह रही है, नायिका ने आपका पत्र पढ़ लिया था, मुझमें कहीं किसी से उसकी चर्चा न करने के लिए भी कह दिया है।

परकीया के अन्य छह भेद

परकीया नायिका के सुरत गुप्ता विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, अनुशयाना और मुदिता ये छह भेद और भी हैं।

सुरत गुप्ता

पर पुरुष के साथ की गई रति के चिन्हों को छिपाने वाली परकीया सुरत गुप्ता कहाती है। यथा—

भलो नहीं यह केवरो सजनी गेह अराम।

बसन फटै कंटक लगै निसिदिन आठौ याम। (मतिराम)

यहाँ नायिका प्रेमी के साथ की गई रंग-रेलियों में फटे वस्त्रों को, घर में लगे केवड़े के मत्थे मढ़ती हुई रति की बात छिपाती है। वह कहती है—“सखी, यह केवड़े का वृद्ध तो बड़ा ही दुःखदायी है। जब उसके पास होकर निकलो, तभी उलझकर कपड़े फटते हैं, और काँटों तो चौबीसों घंटे लगा करते हैं। देखो न मेरे वस्त्रों का क्या हाल होगया! काँटों के लगने से शरीर में जगह-जगह क्षत हो गए हैं।

सुरत गुप्ता के भेद

सुरतगुप्ता तीन प्रकार की होती है। १—भूत सुरत संगोपना, २—वर्तमान सुरत संगोपना और ३—भविष्यत् सुरत संगोपना।

भूत सुरत संगोपना

जो अपनी चतुराई से पिछली रति को छिपाती है, उसे भूत सुरत संगोपना कहते हैं। उदाहरण में नीचे लिखा पद्य देखिए—

मोतिन की माल तोरि चीर सब चीर डार्यौ,

फेर नहीं जैहौं श्याली दुरविकरारे हैं।

‘ देवकी नंदन ’ कहै धोखे नाग छौनन के,

अलके प्रसून तेऊ नौचि निरवारे हैं ।

जान मुख चन्दकला चौच दीनी अधरन,

तीनों ये निकुंजन मे एकै तार तारे हैं ।

ठौर-ठौर डोलत मराल मतवारे तैसे,

मोर मतवारे त्यों चकोर मतवारे हैं ।

यहाँ नायिका रति-क्रिया में टूटे मोतियों के हार, बिथुरी अलकों और अधर पर हुए दंश-चिन्हों को वन में मत्त होकर घूमने वाले मराल, मोर और चकोरों के मत्थे मढ़ कर भूत सुरत को छिपाती है ।

कवि लछिरामजी का भी उदाहरण देखिए, कैसा सुन्दर है---

औघट अकेली नीर तीर जमुना के भरि,

जौलों कटी कहर कराल मग हाली तै ।

कवि ‘लछिराम’ तौलौ तीखन फनाली फन्द,

बार-बार फैली फूल फुफकार लाली तैं ।

गिरि गई गागरि बिगरि गई बेंदी सिर

फिरि गई पूतरी प्रकास पर माली तैं ।

बूझि बनमाली सों लुटाव मुकताली, बड़े

भागन बची मै भाजि विषघर काली तैं ।

यहाँ भी नायिका गागर फूट जाने, बेंदी बिगड़ जाने तथा अन्य वेश-भूषा अस्त-व्यस्त हो जाने का कारण, विषघर काली की फुसकार से भीत होकर, भागना बताती है, और बनमाली को गवाह के रूप में पेश करती है ।

इस प्रसंग मे रहीम कवि का यह बरवै भी कितना उत्कृष्ट है---

अबनहि तोहि पढ़ावों सुगना सार ।

परिगो दाग अधरवा चौचि तुचार ॥

यहाँ नायिका केलि-क्रिया मे हुए अधर-दत्त को ‘सुगना’ के ज़िम्मे डाल कर सुरत-सगोपन करती है ।

वर्तमान सुरत संगोपना

वर्तमान रति को भी अपनी वाक्चातुरी और प्रत्युत्पन्न मति द्वारा छिपाने वाली नायिका सुरतसंगोपना ऋहाती है। जैसे नीचे लिखे पद्य में रतिक्रियानिरत नायिका सखियों द्वारा देखी जाने पर, चिल्लाने लगती है—“दौड़ो-दौड़ो मैंने दही का चुराने वाला आज बिलकुल मौके पर पकड़ लिया है !”

छूटि जाय गैया कै बिलैया चाटि चाटि जाय,
कौन दुख दैया दैया सोच उर धार्यौ मै ।
हो ही जमवैया औ धरैया निज सैया तरे,
कहौ जो कहैया हास होयगो विचार्यौ मै ।
‘बाल’ कवि होलै कै अवैया निरदैया यही,
आज या समैया ओट पैया गई पार्यौ मै ।
मैया कौ बुलाओ या कन्हैया को करैगो हाल,
दधि को चुरैया मैया पकरि पछार्यौ मै ।

और भी देखिये, यह दूसरी नायिका अपनी वर्तमान रति को किस युक्ति से छिपाती है—

आन ते न आयो यही गँवरे को जायो माई-
बापुरे जियायो प्याय दूध बारे बारे को ।
‘रसखान’ सो तौ पहचानियो न मानत है,
लोचन लजैया औ नचैया द्वारे द्वारे को ।
बबा की सों सोचु कछु मडुकी उतारे को न,
गोरस के डारे को न चीर चीरडारे को ।
यहै दुख भारी गहै डगर हमारी मॉफ़,
नगर हमारे ग्वार बगर हमारे को ।

अब कविवर पद्माकर का भी एक पद्य पढ़ लीजिए। इस पद्य में
हि० न०—१०

नायिका कृष्ण का होली खेलने में रपट कर अपने ऊपर गिरना बताकर असली बात छिपाती है ।

ऊधम ऐसो मन्थौ ब्रज में सबै रंग-तरंग उमगनि सीचै ।
त्यौ 'पदमाकर' छजनि छातनि छवै छिति छाजती केसरि कीचै ।
द्वै पिचकी भजी भीजी तहाँ परे पीछे गुपाल गुलाल उलीचै ।
एक ही सग इहाँ रपटे सखी, वे भए ऊपर हौ भई नीचै ।
इसी प्रसंग में नीचे लिखा दोहा भी कितना सुन्दर है—

चढ़त घाट रपद्यौ सुपग भरी आनि इन अंक ।
ताहि कहा तुम तकि रहीं यामें कौन कलंक ॥

भविष्य सुरत संगोपना

भविष्य के प्रेम-रहस्य को प्रकट न होने देने वाली भविष्य सुरत संगोपना कहाती है, यथा—

ग्रीषम मे वापी-कूप सरवर सूखे सब,
जल नदी फिरना तैं आवातु नगर मे ।
जहाँ जात-आवात लगत काँट भारन के
हौं न जैहौं हौं ही पानी पीवति हौ घर मे ।
अति दूरि ही तैं भरी गागरि लै आवति हौं,
छूटत पसीना काँपै अंग थर-थर में ।
कहति हौ पुनि सासु नैनद भकै न मोपै,
जाऊँगी तो आऊँगी मै भरि दुपहर में ।

उक्त पद्य में नायिका पानी भरने के बहाने प्रिय से मिलकर लौटना चाहती है । विलम्ब से लौटने के कारण कोई उस पर सन्देह न करे, इसलिए वह पहले से ही उसकी पेशबन्दी करती हैं—“ मैं साफ-साफ बताए देती हूँ कि तुम कोई पीछे नाराज़ न होना । मुझे इतनी दूर पानी लेने भेजोगी तो मैं दोपहर तक लौट कर आऊँगी ।”

इसी भाव को पद्माकरजी ने अपने एक कवित्त में इस प्रकार चित्रित किया है ।

आजु ते न जैहौं दधि बेचन दुहाई खाउं,
 भैया की कन्हैया उतै ठाढे ही रहत है ।
 कहै 'पदमाकर' त्यों सँकरी गली है अति,
 इत उत भाजिवे को दौव न लहत है ।
 दौरि दधिदान काज ऐसो अमनैक तहाँ,
 आली बनमाली आय बहियौं गहत है ।
 भादों सुदी चौथ को लख्यौ री मृग अक याते,
 भूठ हू कलंक मोहि लागिबो चहत है ।

भैया की सौगन्द खाती हूँ, आज से मैं तो उधर दही बेचने जाऊँगी नहीं । भला कोई बात है जो बनमाली, उस सँकरी गली में घेर कर, दही के लिये हमसे छीना-भपटी करते हैं । मैंने तो इस बार भादों सुदी चौथ का चन्द्रमा देख लिया है, सो मुझे तो वैसे ही हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई कलंक सिर न लग जाय ।

विदग्धा

चातुर्य और कौशल द्वारा छिपकर पर-पुरुष के साथ रति करने वाली नायिका विदग्धा कहाती है । यह दो प्रकार की मानी गई है । १—वचन-विदग्धा और २—क्रिया विदग्धा ।

वचन-विदग्धा

वाक्चातुरी से स्वकार्य साधने वाली वचन-विदग्धा कहाती है । वचन-विदग्धा और स्वयं दूतिका दोनों ही बातें बनाकर नायक को प्रेम-पाश में फँसती हैं । भेद केवल इतना है कि वचन-विदग्धा जाने-पहचाने व्यक्ति से अपनी इच्छा प्रकट करती है, और स्वयंदूतिका अपरिचित पुरुष को समझा-बुझाकर राजी करती है । उदाहरण बेस्विए—

तोरत फूल कलीन नवीन गिर्यौ मुँदरी को कहुँ नग मेरो
 संग की हारीं हेराय गोपाल गई अरसाय उराम अँधेरो
 साँसति सासु की जाय सकौं न अहो छिन एक न गैयन फेरो
 कुंजबिहारी तिहारी थली यह जात उतारी दया करि हेरो
 यहाँ नायिका कैसी चतुराई से, अपने अकेले रह जाने की बा
 कर, नग ढूँढने के बहाने अँधेरे कुंज में, गोपाल को बुलाती है ।

कवि कालिदास का भी नीचे लिखा पद्य पढ़िये, इसमें नायिका
 उलझी हुई बेसर सुलभाने के बहाने से ही, नन्दलाल को
 करती है—

चूमों कर-कंज मंजु अमल अनूप तेरे,
 रूप के निधान कान्ह मोतन निहारि दै ।
 कहै 'कालिदास' हँसि हेरि मेरे पास हरि,
 माथे धरि मुकुट लकुट कर डारि दै ।
 कुँवर कन्हैया मुख चन्द की जुन्हैया चारु,
 लोचन चकोरन की प्यास निरवारि दै ।
 मेरे कर मेहदी लगी है प्यारे नन्दलाल,
 लट उरभी है नैक बेसर सुधारि दै ।

और भी देखिए; नीचे लिखे सवैया में नायिका पति के परदेश
 जाने के कारण किस प्रकार घर में अपना अकेला होना प्रकट करती
 जब लौ घर को घनी आवै घरै तब लौ तो कहुँ चित दैवौ करै
 'पदमाकर' ये बछुरा अपने बछुरान के संग चरैवो करै
 अरु औरन के घरसों हम ते तुम दूनी दुहावनी लैवो करै
 नित साँभ सवेरे हमारी हहा हरि गैयाँ भला दुहिजैवो करै
 इसी प्रकार नीचे लिखे पद्य में भी नायिका घर का सुनापन
 अधिक रात में गाय दुहने के बहाने आने के लिये कृष्ण से
 करती है—

धाय रिसाह गई घर आपने तीरथ न्हान गए पितु भैया ।
स्यामै सुनाय कहै को दुहैगो लगै निसि आधिक मे यह गैया ।
दासियौ रूसि गई कितहूँ सजनी यह कौन सुनै दुखदैया ।
दैं पट पौढि रहौगी भद्रू परियंक पै मेरीऊ जानै बलैया ।
नीचे लिखे दोहे भी वचन-विदग्धा के सुन्दर उदाहरण हैं—

कनकलता श्रीफल फरी रही बिजन बन फूल ।
ताहि तजत क्यों बाबरे अरे मधुप मति भूल ॥
× × ×
घाम घरीक निवारिये कलित ललित अलि पुञ्ज ।
जमुना तीर तमाल-तरु मिलति मालती कुञ्ज ॥

क्रिया-विदग्धा

क्रिया-चातुरी द्वारा कार्य साधने वाली क्रिया-विदग्धा कहाती है ।
यथा नीचे लिखे पद्य मे नायिका गुरुजनों के समीप प्रकट रूप से लालन
की रूप-मुग्धा का पान न कर 'माल के लाल' में प्रतिविम्बित उनके चित्र
को देखती है ।

बैठी तिया गुरु लोगन मे रति ते अति सुन्दर-रूप बिसेखी ।
आयो तहाँ 'मतिराम' सो जामें मनोभव ते बढि कान्ति उरेखी ।
लोचन रूप पियोई चहैं अरु लाजन जाति नहीं छुबि पेखी ।
नैन नबाय रही हिय माल में लाल की मूरति लाल में देखी ।
और देखिए—

दोऊ अटान चढे 'पदमाकर' देखि दुहूँ के दुओ छुबि छाई ।
त्यौं ब्रजबालै गुपाल तहों बनमाल तमालहिं^१ की दरसाई ।
चन्द्रमुखी चतुराई करी तब ऐसी कछू अपने मनभाई ।
अंचल खैंचि उरोजन तैं नँदलाल को मालती^२ माल दिखाई ।

१—तमाञ्ज से अँधेरी रात का संकेत क्रिया । २—मालती-माल से
चाँदनी राति का असिप्राय सूचित क्रिया ।

यहाँ भी ब्रजबाल और गोपाल स्पष्ट रूप से अपने मन की बात कर, उसे संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं ।

लक्षिता

जिस परकीया का प्रेम-प्रसंग लक्ष्मणों द्वारा लक्षित हो जाय लक्षिता कहते हैं । उदाहरण देखिये—

सीस सारी सकुरति अलके मुकर रहीं,
 भलक कपोलन अनूप छवि छाई है ।
 बदन बदलि गयो खौर सिर चन्दन की,
 अंजन की रेख देख बिथुर सुहाई है ।
 'देव' जो सुहाग भाग अनुराग उमगत,
 कंचुकी दुहर कैसे दुरत दुराई है ।
 करि रतिरग मनमोहन सों साधे राधे,
 आजु मधुवन ते बिहान होत आई है ।

सिकुड़ी हुई सारी, बिथुरी अलके, मीड़ी हुई कचुकी आदि तथा उसके रात-भर मधुवन में रह कर वहाँ से प्रातः समय आने लक्ष्मणों से राधिका का मोहन के साथ रति-रंग करना लक्षित होगया; वह लक्षिता हुई ।

इस विषय में मतिरामजी का उदाहरण भी पढ़ने लायक देखिए—

आई हौ पायँ दिवाय महावर कुजन ते करि कै सुख सैनी
 साँवरे आजु सँवारो है अजन नैननि को लखि लाज तरैनी
 बात के बूझत ही 'मतिराम' कहा करिये वह भौँह तनेनी
 मूदि न राखति प्रीति अली यह गूदी गुपाल के हाथ की बैनी

बहन, तुम बात पूछने पर भले ही भौँहें चढ़ाओ, परन्तु यह ज में से पैरों में महावर और आँखों में अंजन लगाकर आई हो, इनसे उ

रहस्य प्रकट हो ही जाता है, और यह गोपाल के हाथ की गुद्दी बैनी तो तुम्हारे प्रेम-प्रसंग को बिलकुल ही स्पष्ट किये दे रही है।

अन्त मे कविवर पद्माकरजी का भी एक पद्य पढ़ लीजिए—
ब्रजमंडली देखि सबै 'पदमाकर' है रही यों चुपचापरी है।
मनमोहन की बहियाँ मे छुटी उपटी यह बैनी दिखापरी है।
मकराकृति कुण्डल की भलकै इतहू भुज-मूल पै छापरी है।
इनकी उनसौं जुलगीं अखियों कहिये तो हमे कछू का परी है।

मकराकृति कुण्डल की छाप नायिका के भुज-मूल मे भलकती देख कर ज्ञात होगया कि इसकी मोहन से आँखे लग गई हैं !

लक्षिता के भेद

कुछ लोगों ने लक्षिता के दो भेद किये हैं, १—हेतु लक्षिता और २—सुरत लक्षिता।

हेतु लक्षिता मे परकीया का उपपत्ति के साथ प्रेम ही लक्षित होता है, परन्तु सुरत लक्षिता में काम-केलि के चिन्हों की भी स्पष्ट प्रतीति होती है, जिनके द्वारा लाख छिपाने पर भी सारा भेद खुल जाता है। उदाहरण देखिए—

तू इत जोबन रूप भरी उतहू मन लाल के लालचहा है।
तेऊँ कछू बिनती-सी करी, उनहू बड़ी बेर लौं खाई ह-हा है।
देखि दुहूँ के दुहूँ पर प्यार भयो जिय में सुख मोहि महा है।
प्रीति बड़े दिन ही दिन दूनी दुरावती काहे के होत कहा है।
यहाँ एक दूसरे की बिनती करना आदि प्रेम का हेतु मात्र लक्षित होता है, अतः यह हेतु लक्षिता का उदाहरण हुआ। सुरतलक्षिता के उदाहरण मे पूर्वोद्धिखित लक्षिता के सभी उदाहरण दिये जा सकते हैं।

कुलटा

जो बहुत से नायकों से सुरत करके भी असन्तुष्ट रहती है, वह कुलटा

कहाती है। इसी को व्यभिचारिणी भी कहते हैं। कुलटा और वेश्या दोनों ही बहुत से नायकों को चाहती हैं, भेद केवल इतना है कि कुलटा का लक्ष्य अपनी कामवासना की तृप्ति पर होता है, और वेश्या का धन प्राप्ति पर।

नीचे तीन पद्य उद्धृत किये जाते हैं। ये तीनों ही कुलटा के स्पष्ट उदाहरण हैं। व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं।

पहले पदमाकरजी का पद्य पढ़िए—

यों अलबेली अकेली कहीं सुकुमार सिंगारन कै चली कै चली।
 त्यों 'पदमाकर' एकन के उर मे रस बीजनि ब्वै चली ब्वै चली।
 एकन सों बतराइ कछू छिन एकन कौ मन लै चली लै चली।
 एकन कों तकि धूषट मे मुख मोरि कनैखिन दै चली दै चली।

देखिये, मतिरामजी क्या कहते हैं—

अंजन दै निकसी मति नैननि मंजन कै अति अग सँवारै।
 रूप गुमान भरी मग में पगही के अँगूठा अनौट सुधारै।
 यौवन के मद सों 'मतिराम' भई मतवारिन लोग निहारै।
 जात चली यहि भाँति गली बिथुरी अलके अँचरा न सँभारै।
 और भी देखिए—

गैल में छैलन आवत जानि कै भाँकि भरोखन रीभ रिभावै।
 चचल अचल डारे रहै अँगिराय अनूप सरूप दिखावै।
 मोहति है मुरिकै मुसकान में कोयल ज्यों कल बैन सुनावै।
 लाइ टिको ललचाय चितै अटकी नट की गति मैन चलावै।

अनुशयाना

जो परकीया संकेत स्थान नष्ट होने के कारण दुखी होती है, वह अनुशयाना कहाती है। यह अनुशयाना तीन प्रकार की मानी गई है। १—संकेतविघटना, २—भावी संकेतनष्टा और ३—रमणगमना।

इन्हीं को क्रमशः प्रथमानुशयाना, द्वितीयानुशयाना और तृतीयानुशयाना भी कहते हैं ।

संकेत-विघटना या प्रथमानुशयाना

जो वर्तमान संकेत-स्थान के नष्ट हो जाने से दुःखित होती है, उसे संकेत-विघटना या प्रथमानुशयाना कहते हैं । यथा नीचे लिखे पद्य में नायिका अपने वर्तमान संकेत-स्थान बन बागों को काटकर वहाँ पर तालाब बन जाने से दुःखी होती है । देखिए—

लेत सुखै बिसराय सवै पथ-पन्थि जहाँ सुनिकै सुख पावै ।
भाँति अनेक बिहगम सुन्दर फूले फले तरु ते मन भावै ।
कोऊ सुनै न कहै इनसों कहिकै हित बैन नहीं समुभावै ।
कैसे हैं या पुर के जन ये बन बागन त्यागि तड़ाग बनावै ।

एक उदाहरण और भी देखिए—

मानती री मालिनि कहै ते क्यों न मेरी बात,
काहे ते लतानन की लौद भ्रुकभोरती ।
कहै ' सिरताज ' फुलवारी की बहार देखि
करि अनुराग अनमोले सुख रोरती ।
फूलेरी गुलाब गुलदावदी गहबदार,
बेला औ चमेलिन की बेलिन बिथोरती ।
कारन कहा है इन मालिन को बाग बीच,
नाहक प्रसून ये अनारन के तोरती ।

यहाँ मालिनों द्वारा बाग की लताएँ भ्रुकभोरे और अन्यान्य वृक्षों के फूल तोड़े जाने से नायिका दुःखी होती है । क्योंकि लताओं को भ्रुकभोरने से पत्ते झड़कर उनकी सघनता नष्ट हो जाती है, जिससे फिर वे संकेत-स्थान की ओट का काम नहीं दे सकतीं ।

इस विषय में पद्माकरजी का भी नीचे लिखा दोहा पढ़ने लायक

सौति संयोग न रोग कछु नहिं वियोग बलवन्त ।

ननँद दूबरी होति क्योँ लागत ललित बसन्त ॥

यहाँ भी ननद के दुबली होने का कारण वसन्त द्वारा पतभङ्ग होकर संकेत-स्थान नष्ट हो जाना ही है ।

भावी संकेतनष्टा या द्वितीयानुशयाना

जो भावी संकेत-स्थान नष्ट होने की आशंका से दुःखित रहती है, उसे भावी संकेतनष्टा या द्वितीयानुशयाना कहते हैं । यथा—

बेलिन सों लपटाय रही है तमालन की अ्रवली अति कारी ।

कोकिल केकी कपोतन के कुल केलि करै अति आनँद वारी ।

सोच करै जनि होहु सुखी ' मतिराम ' प्रवीन सबै नरनारी ।

मंजुल बंजुल कुंजन के घन-पुंज सखी ससुरारि तिहारि ।

ससुराल में कोई संकेत-स्थान होगा या नहीं, इस प्रकार सोच करने वाली नायिका से उसकी सखी कह रही है । चिन्ता मत करो, तुम्हारी ससुराल में बड़े-बड़े सघन लता-कुंज हैं । और देखिए—

* छाया रही बहु फूलन की रज मानो मनोज बितान तने हैं ।

सीरे समीर सुधा हू ते सौगुने डोलत मन्द सुगध सने हैं ।

गुंजत पुंज हैं भौरन के तहाँ होत कपोत के घोस घने हैं ।

सोच कहा जु न ज्वार जमी ये तमाल के कुंज तो बेई बने हैं ।

यहाँ भी खेत में ज्वार न उगने के कारण चिन्ता करती हुई नायिका से उसकी सखी कहती है— 'ज्वार नहीं जमी तो न सही, तमाल के कुंज तो कहीं नहीं चले गए ।' निम्नलिखित दोहे का भी यही भाव है—

केलि करें मधु मत्त जहँ घन मधुपन के पुञ्ज ।

सोचु न कर तुव सासुरे सखी सघन बन पुञ्ज ॥

उपर्युक्त सभी उदाहरणों में भविष्य के लिये संकेत-स्थान की चिन्ता करती हुई नायिकाओं का वर्णन है ।

रमणगमना या तृतीयानुशयाना

जो परकीया प्रियतम के संकेत-स्थान पर पहुँच जाने का प्रमाण पा या अनुमान कर, स्वय वहाँ न पहुँच सकने के कारण दुखी होती है, उसे रमण गमना या तृतीयानुशयाना कहते हैं । कविवर मतिरामजी ने रमण गमना का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

साँभ के समै में ' मतिराम ' काम बस बँधी,
 बंसीबट तट में बजाई जाह बाँसुरी ।
 सुमिरि सहेट वृषभानु की कुमरि उर,
 दुख अधिकानों भयो सुख को बिनासु री ।
 सर सौ समीर लाग्यौ सूल सी सहेली सब,
 विष सौ विनोदु लाग्यौ बन सौ निवासुरी ।
 ताप चढि आई तन पीरी बढि आई मुख
 आँखिन मे ऊपर उमडि आए आँसुरी ।

नायिका बशीबट मे बंशी बजती सुन समझ गई कि मोहन तो 'सहेट' में पहुँच गए, परन्तु वह स्वय नहीं पहुँच सकी, इसलिए उसे अत्यन्त दुःख हुआ ।

एक उदाहरण और देखिए—

लपटें सुगन्धन की आवैं गध बन्धन में,
 भ्रमत मदन्ध भौर सरस विराव के ।
 परत पराग पुंज साँवरे बदन पर,
 मजु छवि छैलने छबीले भूरि भाव के ।
 समय की चूक हूक सालति प्रबीनन कौ,
 मौसर न आवै बैन औसर जवाब के ।
 चखन चुबन लाग्यो प्यारी के गुलाब नीर,
 देखि बलवीर सीस सुमन गुलाब के ।

नायक के वस्त्रों से वन-पुष्पों की गन्ध आती है, अंगों में पराग लगा है, जिसके कारण मधुमत्त भोरे मधुर गुजार करते हुए उसके आस-पास मँडरा रहे हैं। शिर पर उसने गुलाब का फूल भी धारण कर रखा है। इन सब चिन्हों को देख नायिका ने जान लिया कि वह संकेत-स्थान में होकर आया है। इससे नायिका को बहुत दुःख हुआ, और उसकी आँखों में आँसू छल-छला आए।

नीचे लिखा दोहा भी रमणगमना का सुन्दर उदाहरण है—

छुरी सपल्लव लाल कर लखि तमाल की हाल ।

कुम्हिलानी उर साल धरि फूल माल-सी बाल ॥

मुदिता

जो नायिका मनचाही साज-सज्जा और गति-विधि देखकर, अपनी अभिलाषा-पूर्ति के विचार से मन ही मन मुदित होती है, वह मुदिता कहाती है। यथा—

मोहन सों कछु चौसनि ते ' मतिराम ' बढ्यौ अनुराग सुहायो ।

वैठी हुती तिय मायके में ससुरारिक काहू संदेस सुनायो ।

नाह के ब्याह की चार सुनी हिय माहि उछाह छबीली के छाये ।

पौढि रही पट ओढि अटा दुख कौ मिसुकै सुख बाल छिपायो ।

नायिका ने पीहर में यह समाचार सुना कि ससुराल में किसी का विवाह है, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा क्योंकि अब उसे शीघ्र ही ससुराल जाने और प्रिय से मिलने का अवसर मिलेगा।

जा सँग नेह निरन्तर हो अति हास बिलासन मोद बढायो ।

खेलत खेल 'गुलाब' कहै नित ही चित चाह कियो मनभायो ।

सास रिसाति रही तबहुँ कबहुँ सपनेहु न कोप जनायो ।

सो ननदी ससुरारि सिधारत कारन कौन बधू सुख पायो ।

जिस ननदी से इतना प्रेम था, उसके ससुराल चले जाने पर नायिका को बिछोह-जन्य दुःख होना चाहिए, पर वह उलटी प्रसन्न हो रही

है। इसका कारण यह है कि ननद के न रहने से प्रिय-मिलन में सुविधा होगी।

बिछुरत रोवत दुहुन के सखि यह रूप लखै न।

दुख अँसुआ पिय नैन हैं सुख अँसुआ तिय नैन ॥ ' मतिराम '

उपर्युक्त दोहे में बिछुडते समय ' पिय ' की आँखों से दुःख के आँसू और ' तिय ' की आँखों से सुख के आँसू निकलने का वर्णन है। पति-पत्नी से बिछुडने के कारण दुखी है, और पत्नी इसलिए प्रसन्न है कि अब उसे उपपति से मिलने का अवसर मिलेगा।

मुदिता का एक उदाहरण और भी देखिए—

माइके के विरह मयक मुखी दुखी देखि,

मेद ताके सासुरे की मालिनि बतायो है।

मोपै ठकुराइनि हुकुम करिवोई करो,

खिजमत करिवो हमारे बाँट आयो है।

भौन में तिहारे बाग ताकों हों ही सेवती हों,

तामे तहखानो सुनो अति ही मुहायो है।

ताकी कोठरीन की अँभ्यारी भारी सुनि कै सु

दुलही दुलारी के महा री मोद छायो है।

जब दुलही ने ससुराल की मालिन के मुँह यह सुना कि वहाँ जो मकान उसके रहने को मिलेगा, उसमें एक बाग है, और बाग के बीच एक सुन्दर तहखाना है, तथा उस बाग की देख-भाल भी उसी मालिन के सुपुर्द है, तो यह जानकर वह (दुलहिन) अत्यन्त प्रसन्न हुई।

सामान्या अथवा गणिका

गणिका या सामान्या वह स्त्री है, जिसके जीवन का मुख्य लक्ष्य अपना रूप और यौवन बेचकर धनसंग्रह करना होता है। ये गणिकाएँ न जाने कितने प्रेमियों को अपने प्रपंच-पाश में फँसाती रहती हैं। उदाहरण देखिए—

नाचति है गावति है रीभति रिभावति है,
 लीवेही की घात बात मुनति न विय की ।
 तनकों सिंगारै नैन कज्जल सुधारै अति-
 बार-बार वारै प्रान ऐसी रीति तिय की ।
 'गंधर' सुकवि हेतु धन ही के बारबधू
 और न विचारै कछू यहै बात जिय की ।
 लाल चाहै जिय सों कै बाल मेरे हिय लागै,
 बाल चाहै हिय सों कै माल लीजै पिय की ।

यहाँ लाल (नायक) तो इस चेष्टा में है कि बाल (नायिका) मेरे हृदय से लगे, परन्तु नायिका इस प्रयत्न में है, कि जैसे बने वैसे नायक के गले में पड़ी हुई मणि-माला भटकनी चाहिये ।

इसी भाव का एक उदाहरण और देखिए । इस पद्य में भी नायिका नायक से रक्कम वसूल करने का प्रयत्न रचती हुई कहती है—“मेरे शिर पर जो मोतियों की झालर लटक रही है, इसके बीच-बीच में लाल मणि और होने, तो वह बड़ी अच्छी लगती ।” पद्य पढ़िए—

दिग आय कै वैठि सिंगार सजे नख ते सिख लौं मुकतालरियाँ ।
 मुसिक्याय कै नैन नचाय कै गाय कियो बस बैन गुलावरियाँ ।
 दरसावति लाल को बाल नई सु सजे सिर भूषण झालरियाँ ।
 छबि होती भली गज मोती के बीच जो होती बड़ी-बड़ी लालरियाँ ।
 इस विषय में नीचे लिखा दोहा भी पढ़िए—

तन सुबरन-सुबरन बसन सुबरन उकति उछाह ।

धनि सुबरन में है रही सुबरन ही की चाह ॥

कुछ लोगों ने गणिका दो प्रकार की मानी है, १—जननी-अधीना और २—स्वतन्त्रा । किन्हीं किन्हीं ने 'नियमा' नाम से इसका तीसरा भेद भी किया है ।

जननिअधीना गणिका उसे कहते हैं, जो माता के अधीन रह कर अपना व्यापार करती है । स्वतन्त्रा से मतलब उस गणिका में है, जो

स्वतन्त्र रह कर अपना पेशा करे । और नियमा उस गणिका को कहते हैं, जो धन के लिए किसी के घर में बैठ गई हो ।

प्रकृति के अनुसार नायिका-भेद

प्रकृति अनुसार नायिका तीन प्रकार की होती है । १—उत्तमा, २—मध्यमा और ३—अधमा ।

उत्तमा

जो धर्म-भावना-युक्त उदार स्त्री पति द्वारा अपना अहित किये जाने पर भी, उसका हित नहीं त्यागती और उसके दोषों को देख कर भी रोष नहीं करती, बल्कि उन दोषों को छिपाती है, तथा सदैव पति की सेवा में संलग्न रहती है, उसे उत्तमा कहते हैं । उदाहरण देखिए—

पाती लिखी सुमुखि सुजान पिय गोविन्द को,
श्रीयुत सलौने स्याम सुखनि सने रहो ।
कहै 'पदमाकर' तिहारी क्षेम छिन-छिन,
चाहियतु प्यारे मन मुदित धने रहो ।
बिनती इती है कै हमेश हूँ उहँ ते निज—
पायन की पूरी परिचारिका गने रहो ।
याही मे मगन मनमोहन हमारे मन,
लगन लगाय मन मगन बने रहो ।

यहाँ उत्तमा नायिका पति द्वारा पति देव से निवेदन करती है कि आप मुझे छोड़ कर वहाँ चले गए हैं, मुझे इसमें भी सन्तोष है । मैं तो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूँ । परन्तु इतनी प्रार्थना अवश्य है कि वहाँ रह कर भी आप मुझे अपने चरणों की पूरी सेविका ही समझते रहें ।

एक उदाहरण और भी देखिए—

नैनन को तरमैये कहाँ लों कहाँ लों हियो बिरहागि में तैये ।
एक घड़ी न कहूँ कलपैये कहाँ बलगि प्रानन को कलपैये ।

आवै यही अब जी में विचार सखी चलु सौति हु के घर जैये ।

मान घटे तो कहा घटि है जु पै प्रान पियारे कौ देखन पैये ।

यहाँ नायिका पति के दर्शनार्थ सपत्नी के भी घर जाने के लिए तैयार है । वह कहती है—“सौत के घर जाने से मेरा मान घटेगा, सो भले ही घट जाय, पर प्राणप्रिय के दर्शन तो हो ही जायेंगे ।” उत्तमा नायिका की कैसी भद्र भावना है । वह सौत के घर चले जाने पर न तो पति से अप्रसन्न होती है, और न सौत से डाह करती है । उसे तो केवल पति के दर्शन इष्ट हैं, जिन्हें वह अपमानित होकर भी प्राप्त करना चाहती है ।

नीचे लिखा दोहा भी उत्तमा नायिका का कैसा उत्तम उदाहरण है, नायिका पतिदेव से कहती है—

जाको जावक सिर धर्यौ प्यारे सहित सनेह ।

हमको अञ्जन उचित है तिन चरनन कीखेह ॥

प्राणनाथ, जिसके पैरों में लगा हुआ जावक (महावर) आप अपने मस्तक में लगाते हैं, मुझे तो उसके चरणों की धूलि आँखों में आँजनी चाहिये । क्यों, है न ठीक ?

मध्यमा

जो स्नेहशीला किन्तु शक्तिता स्त्री प्रियतम के दोष देखकर कुछ कोप करती हुई उसे व्यंग्योक्तियों सुनाती और दुखी होती है, तथा प्रिय के साथ व्यवहार-नीति बर्तती है, उसे मध्यमा कहते हैं ।

नाट्यशास्त्रकार के मत से मध्यमा का लक्षण इस प्रकार है । जो परपुरुष की कामना करे, अथवा परपुरुष मुझे चाहै ऐसी इच्छा रखे, कामकला में कुशल हो, अचिर क्रोध करे, एवं क्षण में प्रसन्न हो जाय, ऐसी स्त्री मध्यमा कहाती है ।

पद्माकरजी ने मध्यमा का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

मन्द मन्द उर पै आनन्द ही के आँसुन की,

बरसैं सु दुन्दै मुकुतान ही के दाने सी ।

कहै 'पदमाकर' प्रपंची पंचवान के सु
कानन के मान पै परी त्यों घोर घाने सी ।
ताजी त्रिवलोन मे बिराजी छुबि छाजी सवै,
राजी रोमराजी करि अमित उठाने सी ।
सौहै देखि पीकों बिहँसौहै भए दोऊ दग,
सौहैं सुनि भौहैं गई उतरि कमाने सी ।

नायिका कुपित होकर, पति से न बोलने का विचार कर, भौहैं चढाए
बैठी थी, परन्तु ज्योंही प्रिय समीप आया, त्योंही उसकी आँखों में बरबस
प्रसन्नता झलकने लगी, और पति के शपथ खाने पर तो उमका कोप
काफूर ही हो गया ! इस प्रसंग में मतिरामजी का नीचे लिखा पद्य
भी देखने लायक है—

आयो प्रानपति राति अनतै बिताइ वैठी
भौहनि चढाइ रंगी सुन्दरि सुहाग की ।
बात न बनाइ पर्यौ प्यारी के पगनि आइ,
छल सों छिपाइ छैल छुबि रति-दाग की ।
छूटि गयो मान लगी आपही सँवारन के,
खिरकी सुकवि 'मतिराम' पिय पाग की ।
रिस ही के आँसू भए आनँद के आँखिन मे,
रोष की ललाई सो ललाई अनुराग की ।

प्राणपति के कहीं दूसरी जगह रात बिताकर आने पर, नायिका के
नेत्र रोष से लाल हो गए, और उनमे आँसू उमड़ आए । पर जैसे ही
नायक नायिका के बातों में बहलाकर उसके पैरों में गिरने लगा, तैसे ही
मानिनी की आँखों में भरे दुःख के आँसू आनन्द के आँसू बन गए, और
कोप की लालिमा अनुराग की अरुणिमा में बदल गई । वह अपने हाथों
से पति की बिखरी हुई पगड़ी के पेच सँभालने लगी । यहाँ प्रिय के
अपराध करने पर नायिका का क्रुद्ध होना और उसके पैरों पडने पर प्रसन्न
हो जाना यही व्यवहार-नीति हुई ।

हस प्रसंग में नीचे लिखा दोहा भी देखने योग्य है—

रख्यौ मान मन को मनहि सुनत कान के बैन ।

बरजि बरजि हारी तऊ रुके न गरजी नैन ॥

पति के शब्द सुनते ही नायिका का मान मन का मन ही में रह गया । उसने अपनी आँखों को बहुतेरा रोकना चाहा, पर भला वे क्यों रुकने लगी थी । वे तो दर्शनों की गरज़ मन्द थीं ।

अधमा

जो स्त्री अपने प्रियतम के प्रेम-पूर्ण व्यवहार के बदले में भी उसका अहित तथा अपमान करती है, वह अधमा कहाती है ।

नाट्य-शास्त्रकार ने अकारण क्रोध करने वाली, दुष्ट प्रकृति, कटु-नाशिणी, गुरुमानवती, पति से विरुद्धाचरण करने वाली स्त्री को अधमा कहा है । उदाहरण देखिये—

दबक्यौ रहै नाह गुनाह बिना गुन गावै सदा मुख आखर में ।

अति सज्जन साधु महा मनकौ जु बिना अपराध घरे भर में ।

सपनेहू न आन तिया सुमिरै तबहूँ नहिं सेज में नीकी रमें ।

तरपै नित बिज्जुलि-सी पिय पै भरपै भ्रमनाय सवै घर में ।

अधमा नायिका के डर के मारे नायक बिना अपराध किये भी छिपा रहता है । वह बेचारा इतना सीधा-सादा है कि हर समय पत्नी के ही गुण गाया करता है, कभी स्वप्न में भी परस्त्री का ध्यान नहीं करता. नो भी नायिका उम पर भ्रूल्लाती-भ्रुंभ्रुलाती ही रहती है । बेचारे को कभी प्रेम-दृष्टि से देखती तक नहीं ।

कविवर लछिरामजी अधमा के सम्बन्ध में क्या कहते हैं, देखिये—

बसन सँवारे ते भ्रमकि भ्रहराति ठाढ़ी,

बाढ़ी रोष सरि मन बौरतै रहति हैं ।

सौरभ सुघारे ते अकेली है उचकि जाति,

भूषण, हबेली तें बिथोरतै रहति है ।

कवि 'लछिराम' ऐसी बाम में न देखी बाम,
धीरज तिरीछे नैन तोरतै रहति है ।
ज्यों-ज्यों करजोरि कै निहोरत किसोर त्यों-त्यों,
मोरि मुख भौहनि मरोरतै रहति है ।

बेचारा पति नायिका के वस्त्र सँभालता है, तो वह उस पर भुँझलाती है । आभूषण सँभाल कर रखता है, तो उन्हें इधर-उधर बखेर देती है । ऐसी उलटे स्वभाव की स्त्री है, कि खुशामद करने पर भी उसका मुँह सीधा नहीं होता, जब देखो तब टेढी निगाह से ही पति के प्राण सुखाती रहती है ।

जाति के अनुसार नायिका-भेद

जाति के अनुसार नायिका के चार भेद माने गये हैं । १—पद्मिनी, २—चित्रिणी, ३—शंखिनी और ४—हस्थिनी ।

पद्मिनी

जो स्त्री अत्यन्त सुन्दरी, सुकुमारी और अल्प रोमवती हो, जिसके शरीर में पद्म-पुष्प की-सी गन्ध आती हो, तथा संगीत में जिसे अधिक अनुराग हो, उसे पद्मिनी कहते हैं ।

उदाहरण देखिये—

तन सुवास दृग सलज सुभ-मन सुचिकरम पुनीत ।
इन सुबरन बरनी लई जगत निकाई जीत ॥

चित्रिणी

नाचने-गाने एवं हँसी-मज़ाक में रुचि रखने वाली, शीलवती, अल्प लज्जा युक्त विचित्र प्रकृति स्त्री को चित्रिणी कहते हैं । इसका मुख मण्डल चित्र के समान, शरीर मझोला, नाक तिल के फूल जैसी और नेत्र नील कमल-सदृश होते हैं ।

उदाहरण—

मित्र नाहिं चितवत कहीं चित्र रही चितलाय ।

पत्री हेरति है कोऊ पत्री सनमुख पाय ॥

शंखिनी

जिस स्त्री का शरीर कुश, स्वभाव निर्लज्ज, घमण्डी और क्रोधी होता है, उसे शंखिनी कहते हैं। इसका कण्ठ शंख के समान तीन रेखा युक्त होता है। निम्नलिखित दोहे से शंखिनी का लक्षण और भी सुस्पष्ट हो जाता है—

देह छीन, मोटी नसे, कुच लघु निलज-निसंक ।

कोपवती नख दन्त रुचि शखिनि पीके अंक ॥

उदाहरण देखिये—

सनख हियो लखि लाल को यह मन होत सँदेह ।

नखन खोदि चाहति कियो लालन के हिय गेह ॥

प्रिय के हृदय पर नखक्षत देखकर ऐसा सन्देह होता है, मानो नायिका नखों से खोदकर नायक के हृदय में घर करना चाहती है।

हस्तिनी

जो स्त्री स्थूल, अधिक रोमों वाली, क्रोधिनी, उग्र स्वभावा और हाथी के समान भ्रूम-भ्रूम कर चलने वाली होती है, उसे हस्तिनी कहते हैं, जैसा कि निम्नलिखित दोहे में भी बताया गया है—

थूल अंग लोमन छयो गोरी भूरे केस ।

गजगौनी दुरगंधिनी भनी हस्तिनी भेस ॥

हस्तिनी का उदाहरण देखिए—

रेगनि मोटी गोरटी जोबन मद ँड़ाति ।

सखिन संग गजगामिनी चली ठवनि सौ जाति ॥

कुछ साहित्यकारों ने वर्णानुसार नायिका के निम्नलिखित भेद और

भी किये हैं । १—दिव्य अर्थात् देवतिय । २—अदिव्य यानी नरतिय ।
३—दिव्यादिव्य अर्थात् ससार मे जन्मी हुई देवतिय ।

नायिकाओं के अन्य दश भेद

अवस्था (परिस्थिति) के विचार मे नायिकाओं के दश भेद किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं । १—प्रोषितपतिका, २—खण्डिता, ३—कलहान्तरिता ४—विप्रलब्धा, ५—उत्कण्ठिता, ६—वासकसज्जा, ७—स्वाधीनपतिका, ८—अभिसारिका, ९—प्रवस्यत्पतिका और १०—आगतपतिका ।

साहित्य-दर्पणकार ने अवस्था के विचार मे केवल आठ ही भेद माने हैं । उन्होंने प्रवस्यत्पतिका और आगतपतिका इन दो नायिकाओं का उल्लेख नहीं किया । नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि भी साहित्य-दर्पणकार की भाँति आठ ही भेद मानते हैं ।

उपर्युक्त भेद स्वकीया १—मुग्धा, २—मध्या, ३—प्रौढा परकीया और सामान्या नायिकाओं में होते हैं ।

प्रोषितपतिका

जो नायिका पति के परदेश चले जाने के कारण, विरह व्यथित हो, केश-प्रसाधनादि श्रृंगार न करता हो, वह प्रोषितपतिका कहाती है । यह पाँच प्रकार की होती है—मुग्धा प्रोषितपतिका, मध्या प्रोषितपतिका, प्रौढा प्रोषितपतिका, परकीया प्रोषितपतिका और सामान्या प्रोषितपतिका ।

मुग्धा प्रोषितपतिका

इस नायिका में मुग्धा और प्रोषितपतिका दोनों के लक्षण मिलते हैं । पद्माकरजी का उदाहरण देखिए,

माँगि सिख नौ दिन की न्यौते गे गोविन्द तिय,

सौ दिन समान छिन जान अकुलावै है ।

कहै 'पदमाकर' छपा कर छपाकर ते,

बदन छपाकर मलीन मुरभावै है ।

बूझत जू कोऊ कै कहा री भयो तोंहि तब—

और ही की और कछू बेदना बतावै है ।

आँसू सकै मोचि न सकोच बस आलिन मे

उलही विरह-बेलि दुलही दुरावै है ।

× × × ×

नायिका अपनी विरह-जन्य वेदना को छिपाती रहती है, उसका शरीर सूख कर काँटा-सा बनता जाता है। वह सखियों पर अपना यह रहस्य प्रकट नहीं करना चाहती, इसी लिए बड़ी मुश्किल से उनके आगे अपने आँसू रोक पाती है।

देखिये, द्विजदेव की नायिका किस प्रकार मनोज के हवाले पड़ी हुई है—

पति प्रीत के भारन जाती उनै मति खवै दुख भारन साले परी ।

मुख बात ते होतौ मलीन सदा सोई मूरति पौन के पाले परी ।

द्विजदेव अहो करतार ! कछू करतूति न रावरी आले परी ।

वह नाहक गोरी गुलाब कली-सी मनोज के हाथ हवाले परी ।

देखते हो, विरह-ताप से उस नायिका की क्या दशा हो रही है ! कामदेव के काबू में पड़ कर वह गुलाब कली-सी कमनीय कान्ता किस तरह भस्म हुई जाती है ! हा दुर्दैव ! तेरी विचित्र गति जानी नहीं जाती !

× × × ×

इसी प्रसंग में नीचे लिखा दोहा देखिये—

वे ही कदम कलिन्दजा वे ही केतिक कुंज ।

सखि, लखिए घनस्याम बिन सब मे पावक-पुंज ॥

मध्या प्रोषितपतिका

इस नायिका में मध्या और प्रोषितपतिका दोनों के लक्षणों का मिश्रण होता है। उदाहरण देखिए—

चन्द कौ उदोत होत नैन चन्द कान्त कन्त—

छायो परदेस देह दाहनि दहतु है ।

उसीर गुलाब नीर करपूर परसत
विरहा अनल ज्वाल जालनि जगतु है ।
लाजनि ते कल्लु न जनात्रै काहू सखिन सो,
उर को उदारि अनुरागि उमगतु है ।
कहा कहौ मेरी वीर उठि है अधिक पीर,
सुरभि-समीर सीरो तीर सो जगतु है ।

क्या किया जाय, विरहताप के मारे नाक में दम है । सारे शीतल
उपचार व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, सुगंधित समीर जिससे शान्ति मिलनी
चाहिए, शरीर में तीर के समान लग रहा है ।

पद्माकरजी ने मध्या प्रोषितपतिका का उदाहरण इस प्रकार दिया है—
ऊबत हौ डूबत हौ, डगत हौ डोलत हौ,
बोलत न काहे प्रीति रीति न रितै चले ।
कहे 'पदमाकर' त्यो उससि उसासनि सों
आँसू हैं अपार आय आँखिन इतै चले ।
आँधि ही के आगम लों रहते, बनै तो रहो,
बीच ही क्यों बैरी बद बेदना बितै चले ।
एरे मेरे प्रान प्रानप्यारे की चलाचल मे,
तब तो चले न, अब चाहत कितै चले ।

जब प्राणनाथ परदेश गये तब तो मेरे प्राण निकले नहीं, परन्तु अब
उनके पीछे उन्होंने चलने की ठानी है । अरे भलेमानसो. उनके आने तक
तो उहरो. उनकी अवधि तो पूरी हो जाने दो !

प्रौढा प्रोषितपतिका

नीचे लिखे कवित्त में गुलाब कविजी ने प्रौढा प्रोषितपतिका का
कैसा विचित्र चित्र खींचा है, देखिए—

छै है बकमण्डली उमंडि नभ-मण्डल मे
जुगनु घुमडि ब्रज नारिन जरैहै री ।

दादुर मयूर भीने भीगुर मचैहैं सोर,
दौरि दौरि दामिनी दिसा न दुख दैहैं री ।
सुकवि 'गुलाब' ह्वै हैं किरचि करेजनि की.
चौकि चौकि चोपन सों चातक चिचैहैं री ।
हंसन सों हस उड़ि जैहैं ऋतु पावस मे,
ऐ हैं घनस्याम घनस्याम जो न ऐ हैं री ।

अरी सखी, वर्षा ऋतु मे श्याम घन तो उमड़-धुमड़ कर आवे ही गे,
पर यदि घनश्याम (कृष्ण) न आए तो सच समझना, ब्रज-नारियों
के हंस (प्राण) हंसों की भाँति उड़ जायगे । जिस समय पावस की काली
रात मे जुगुनु चमकेगे, मोर मटक-मटक कर नाचेगे, भीगुर भिगारेगे,
और पापी पपीहा पीउ-पीउ पुकारेगे, भला उस समय बिरहिणी ब्रज-बालाओं
के हृदय टुकड़े-टुकड़े हुए बिना रह सकेंगे ?

नीचे लिखा कवित्त प्रोषितपतिका का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है—

कंचन मे आँच गई चूनि चिनगारी भई,
भूषन भए हैं सब दूषन उतारि लै ।
बालम बिदेस ऐसे बैस मे न लागि आगि,
बरि बरि हियो उठै बिरह वयारि लै ।
एरी पर घर कित मॉगन को जैहै आहु,
आँगन में चन्दा ते आँगार चारि आरि लै ।
सँभ भए भौन सँभवाती क्यों न देति आली !
छाती ते छुवाय दीया-बाती क्यों न बारि लै ।

कोई प्रोषितपतिका अपनी सखी से कहती है - सखी, मेरे शरीर के
ताप से खोने के आभूषण इतने गरम हो गए हैं कि उनमें लगी हुई
चुन्नी (नग) चिनगारी बन गई हैं । अरी तू आग लेने के लिए पराए
घर क्यों जाती है, चन्द्रमा में, से चार आँगारे क्यों नहीं आर लेती । वह
भी तो आज खूब दहक रहा है । और चन्द्रमा मे मे भी आँगारे आर

कर क्या करना है, दीपक ही तो जलाना है ? सो वह तो मेरी छाती से छुवाने पर ही जल उठेगा !

परकीया प्रोषितपतिका

इसके लक्षण नाम से ही स्पष्ट हैं । उदाहरण में मतिरामजी का नीचे लिखा सवैया देखिए—

हाँ मिलि मोहन सों 'मतिराम' सुकेलि करी अति आनंद भारी ।
तेई लता-दुम देखत दुःख भये अँसुवा अँखियान ते जारी ।
आवति हौँ यमुना-तट को नहिं जानि परै बिछुरे गिरधारी ।
जानति हौँ सखि आवन चाहत कुंजन ते कठि कुंजबिहारी ।

अभिसार-स्थान देख कर नायिका को केलि की स्मृति हो आई,
और उसकी आँखों से आँसू गिरने लगे । वहाँ उसे ऐसा अनुभव होने
लगा, मानो अभी इधर-उधर के किमी कुंज में-मे निकल कर कुंजबिहारी
आते हैं ।

इस प्रसंग में कविवर घनानन्दजी का उदाहरण भी देखने योग्य है—

एरे वीर पौन तेरो चहुँ ओर गौन यासों,
तेरे सम कौन मेरे बैन सुन कान दै ।
जगत के प्रान बड़े-छोटे को समान घन—
आनंद निधान सुखदान दुखियान दै ।
रूप उजियारे गुनबारे वे सुजान प्यारे
अब है अमोहा बैठै पीठि कै अयान दै ।
विरह-बिथा की मूरि अँखिन में राखों पूरि,
हा-हा तिन पायन की धूरि नेक आन दै ।

अरे पावन पवन, और नहीं तो प्राणप्यारे के पैरों की धूलि ही
उड़ाकर मेरी आँखों में डाल दे । इसी से मुझे बड़ा सन्तोष मिलेगा । इस
धूल को ही मैं विरह-व्यथा की ओषधि समझूँगी ।

मतिरामजी का नीचे लिखा दोहा भी कितना उत्कृष्ट है, देखिए—

लाज छूटी गेहौ छुट्यौ, मुख सों छुट्यौ सनेह ।

सखि, कहियो व निटुर सों रही छूटिवे देह ॥

हे सखी, उस निटुर नायक से नेह जोड़ कर लाज से हाथ धोए, बर-बार छोड़ा, अब उसके परदेश चले जाने से प्रेम भी छूट गया ! अब तो बस देह छूटनी ही और शेष रह गई है ।

खण्डिता

जो नायिका अन्य नारी संभोग-जनित रति-चिन्हों युक्त पति को प्रातः समय घर आया देखकर उससे कुपित होती है, उसे खण्डिता कहते हैं ।

नाट्य शास्त्रकार खण्डिता की परिभाषा इस भाँति करते हैं—जो नायिका वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर पति के आगमन की प्रतीक्षा में बैठी हो, परन्तु पति अन्य स्त्री पर आसक्त होने के कारण, उसके पास न आवे, उस समय दुखी होने वाली नायिका खण्डिता कहाती है ।

खण्डिता भी मुग्धा, प्रौढा आदि भेदों से पाँच प्रकार की होती है । इस सब में अपने अपने लक्षणों के साथ खण्डिता के लक्षण मिश्रित रहते हैं । नीचे पाँचों प्रकार की खण्डिताओं के उदाहरण दिये जाते हैं—

मुग्धा खण्डिता

बाल सखिन की सीखते मान न जानति ठानि ।

पिय बिन आगम भौन मे वैठी भौहैं तानि ॥

मतिरामजी कहते हैं कि बेचारी मुग्धा खण्डिता स्वयं तो मान करना जानती ही नहीं, सखियों के सिखाने पर भी उसे मान करना नहीं आता । जब सखियाँ उसे बहुत सिखाती-पढाती हैं, तो वह पति की अनुपस्थिति में ही—शून्य घर में भौंहे चढा कर बैठ जाती हैं ।

मुग्धा खण्डिता के उदाहरण में पद्माकरजी के नीचे लिखे पद्य पढ़ने योग्य हैं—

खाये पान-बीरी-सी बिलोचन बिराजे आज,
अंजन अंजाये अधराधर अमीके हैं ।
कहै 'पदमाकर' गुनाकर गोविन्द देखो,
आरसी लै अमल कपोल किन पीके हैं ।
ऐसो अबलोकिबेई लायक मुखारबिन्द,
जाहि लखि चन्द्र अरबिन्द होत फीके हैं ।
प्रेम रस पागि जागि आये अनुराग माते,
अब हम जानी कै हमारे भाग नीके हैं ।

आप प्रेम-रस मे पग और रात-भर जग कर अब सुबह यहाँ आए हैं ।
बड़ी खुशी की बात है ! पधारिए, अच्छा है, आपने आकर मेरे सौभाग्य-
सूर्य को चमका दिया !

और देखिए—

मुँदिगो मयंक परियक पै परी है कहा,
आजुकी घरी को यह आनंद निहारै किन ।
कहै 'पदमाकर' त्यों रग मे रंगीलेई—
छुबीले छैल ऊपर फबीले चौर ढारै किन ।
एहो सुखदान प्रान प्यारे को बखान करो,
प्यारी पलकनि ते पगनु धूरि झारै किन ।
मंगलामु ी के बँगला ते प्रात आए रंग—
लालन कौ देखि मंगलारती उतारै किन ।

अरी बावली, तू अभी पलंग पर ही पड़ी है । उठ, देख चन्द्र छिप
गया, सबेरा होगया, इधर मंगलामुखी के बँगले से लालन भी आगए,
इनकी छुबीली रंगत तो देख ले । खैर, ला झटपट आरती का सामान ला,
इनकी आरती तो उतार ले ।

मध्या खण्डिता

मध्या खण्डिता के सम्बन्ध मे मतिरामजी का उदाहरण देखिए—

जावक लिलार ओठ अजन की लीक सोहै,

पैयन अलीक लोक लीक न बिसारिये ।

कवि 'मतिराम' छाती नखदत्त जगमगे,
डगमगे पग सूधे मग मे न धारिये ।
कस कै उघारत हौ पलक पलक याते,
पलका में पौढ़ि स्रम राति को निवारिये ।
अटपटे बैन कछु बात न कहत बनै,
लटपटे पेच सिर पाग के सुधारिये ।

जाइये वह पलंग पड़ा है, उस पर सोकर थकावट दूर कर लीजिए !
उल्टी-सुल्टी पगड़ी को तो संभालिए, आखिर यह आपकी हालत क्या हो
रही है !

कवि गोकुलजी का भी नीचे लिखा कवित्त मध्या खण्डिता का सुन्दर
उदाहरण है—

आए उठि प्रात अंगिरात है जम्हात जात,
पकज से नींद भरे लोचन भ्रपकि रहे ।
मरगजे बागे, लागो अंजन अघर भाल—
जावक, सुमन-हार हियरे चपकि रहे ।
'गोकुल' सनेह भरे हिये तेह तपनि के,
आखर फुलिंग ऐसे ओठन लपकि रहे ।
देखि छवि बोलति न लाज भरी घूँघट मे,
बड़ी बड़ी आंखिन ते अँसुआ टपकि रहे ।

अन्यत्र केलि कर के आये हुए नायक की दशा देखकर नायिका बड़ी
दुःखित होती है, और उसकी आँखों से आँसू टपक पड़ते हैं ।

कोऊ करै कितेक हू तजौ न टेक गोपाल ।

निसि औरन के पग परौ दिन औरनि के लाल ।—'मतिराम'

हे नन्दलाल, तुमसे चाहे कोई कितना ही क्यों न कहे, पर तुम
अपनी आदत नहीं छोड़ते । रात में तो गैरों के पैरों में जाकर पड़ते हो,
और दिन में औरों के ।

अब पद्माकरजी का भी एक उदाहरण देख लीजिए—

ख्याल मन भाए कहुँ करिकै गोपाल धरै,
 आए अति आलस भरेई बड़े तरके ।
 कहै 'पदमाकर' निहारि गज गामिनी के,
 गज मुकुतान के हिये पै हार दरके ।
 एते पै न आनन है निकरै बधू के बैन
 अधर उराहने सु-दीवे काज फरके ।
 कंधन ते कंचुकी भुजान ते सु-बाजूबन्द,
 पौचन ते कंकन हरेई हरे सरके ।

जब रात-भर मनमानी मौज मार के अलसाए हुए मोहन बड़े सबेरे
 घर आए, तो उन्हें देखकर नायिका मन में अत्यन्त दुखी हुई, परन्तु
 उसके मुँह से उलाहना देने के लिए एक शब्द भी न निकला ! केवल ओठ
 हिल कर रह गए ।

प्रौढ़ा खण्डिता

नीचे प्रौढ़ा खण्डिता का एक सुन्दर उदाहरण दिया जाता है ।
 देखिए—

कानन ते भोर भए आए हो सुजान कान्ह,
 आनन की आभा आनि भाँति पेखियतु हैं ।
 बिन गुन माल उर उघरी गुपाल लाल,
 लाल लाल ओखे कौन लेखे लेखियतु है ।
 सुन्दर अधर पर पीक की लसति लीक,
 बीच कारे काजर की रेख रेखियतु है ।
 एते पर कहत कि देखो तब कहो ये जू,
 आगि लगी कोऊ का दिया लै देखियतु है ।

सारे चिन्हों से तो प्रतीत होता है कि तुम केलि कर के आए हो, फिर
 भी कहते हो कि देख लो तब कहना ! स्पष्ट तो देख रही हूँ, और कैसे

देखा जाता है। क्या कहीं आग लगने पर उसे दीपक लेकर देखा करते हैं।

कविवर वैनी प्रवीनजी का नीचे लिखा सवैया भी प्रौढा खण्डिता का सुन्दर उदाहरण है—

भोर ही न्योति गई ती तुम्हें वह गोकुल गाँव की ग्वालिनि गोरी ।
आधिक राति लौं 'वैनी प्रवीन' कहा ढिंग राखि करी वरजोरी ।
आवै हँसी हमें देखत लालन ! भाल मे दीनी महावर घोरी ।
एते बड़े ब्रज मण्डल में न मिली कहुँ माँगे हू रंचक रोरी ।

अन्य स्त्री के साथ केलि कर आए हुए नायक के माथे पर महावर का दाग देखकर नायिका व्यंग्य से कहती है, इतने बड़े ब्रजमण्डल में क्या तुम्हें कहीं ज़रा-सी भी रोरी नहीं मिली, जो उस निगोड़ी ने महावर में तिलक किया है !!

परकीया खण्डिता

परकीया खण्डिता के उदाहरण में नीचे लिखा वैनी प्रवीनजी का कवित्त देखने लायक है—

कहा कहाँ प्यारे कछू कहिबे की बात नाहि,
वातन बनाइ मन धीर लाइयतु है ।
आठहू पहर हरि हहरि हिये में हम,
रावरे 'प्रवीन वैनी' गुन गाइयतु है ।
याह जो नदी है तामें नाव को उपाव कहाँ,
अथाह नदी में पैरि पार पाइयतु है ।
आपनी हमारी यह समुझ न देखो बूझि,
जहाँ रैनि चाहै तहाँ भोर आइयतु है ।

वाह, मैं तो हर वक्त तुम्हारी प्रशंसा के ही गीत गाती रहती हूँ, तुम्हारी ही रटना लगाये रहती हूँ, और तुम्हारा यह हाल कि जहाँ रात को आना चाहिए वहाँ तुम सुबह आते हो !!

द्विजदेवजी ने परकीया खण्डिता का निम्नलिखित उदाहरण दिया है—

बाँके सक हीने राते कज छुबि छीने माते,
भुकि-भुकि भूमि-भूमि काहू को कछू गनैन ।
'द्विजदेव' की सौ ऐसी बनक बनाइ बहु—
भाँतिन बगारे चित चाह न चहुँधा चैन ।
पेखि पेर जात जौ पै गत न उछाह भरे,
बार बार तातें तुम्हैं बूझती कछूक बैन ।
एहो ब्रजराज ! मेरे प्रेम धन लूटिबे को,
बीरा खाइ आए कितै आपके अनोखे नैन ।

कहो ब्रजराज, मेरे प्रेम-धन को लूटने के लिए आपकी आँखों ने कहाँ बीरा खाया है ! अर्थात् वह किसके साथ रास-रग करते हुए रात-भर जागने के कारण लाल हो रही हैं !

कलहान्तरिता

जो स्त्री प्रिय का अपमान करके पीछे पछुताती है, उसे कलहान्तरिता कहते हैं ।

नाट्य शास्त्रकार ने—जिसका प्रियतम ईर्ष्या अथवा कलह के कारण उसके पास न आता हों, ऐसी क्रोधावेश के कारण सन्तप्त रहने वाली स्त्री को कलहान्तरिता कहा है ।

यह भी मुग्धा, मध्या, प्रौढा, परकीया और सामान्या भेद से पाँच प्रकार की है ।

मुग्धा कलहान्तरिता

जिसमें मुग्धा और कलहान्तरिता दोनों के लक्षण पाए जायें वह मुग्धा कलहान्तरिता होती है । उदाहरण देखिए—

वा दिन वा मँडवा के तरे जेहि के संग भाँवरि आनि सो खेली ।
आय अचानक ही अँखिमीचनो ताहि रच्यो लिएँ साथ सहेली ।

मेरे ही संग छिप्यौ चाहै कुज रिसाय कै मैं भई तासौं अकेली ।

आयौ यही पछितायौ अली गयौ आजु को खेलिवौ कुज चमेली ।

उस रोज़ मंडप के नीचे जिसके साथ भावरे फिरी थीं, वही नायक आज आँखमिचौनी खेलते समय मेरे साथ ही छिपना चाहता था, पर मैं नाराज़ होकर उससे अलग हो गयी । परन्तु हाय, मेरे ऐसा करने से आज उसके साथ चमेली कुजों में खेलना ही गया !

नीचे लिखा सवैया भी मुग्धा कलहान्तरिता का सुन्दर उदाहरण है—

लखि लाल लजाय रही ललना कहि सुन्दर बैठि अलीगन में ।

हरि हारे बुलाय न बोली जबै, तब तेऊ गए उठि के बन में ।

करते इतनी तो करी पहले पुनि कैसी तची है तिया तन मे ।

कहिकै न सकै सखिहू सौं कछू पछुताति महा मन ही मन मे ।

पहले तो ललना लाल को देखते ही लज्जित होगई और सखियों मे जा बैठी । जब हरि के बार-बार बुलाने पर भी न आई तो वह भी उठकर बन की ओर चले गए । भोली बाला करते तो यह कर बैठी, परन्तु पीछे मन ही मन पछुताती है । अपनी मुग्धता के कारण बेचारी मन की व्यथा सखियों से भी नहीं कह सकती ।

इसी प्रसंग मे देव कवि का नीचे लिखा पद्य भी पढने लायक है—

सखी के सँकोचे गुरु सोच मृगलोचनि—

रिसानी पिय सौं जु उन नैकु हँसि छुवो गात ।

‘देव’ वै सुभाय मुसुक्याय उठि गए, इहिं—

सिसकि-सिसकि निसि खोय रोय पायो प्रात ।

कौन जानै बीर, बिन बिरही बिरह बिथा,

हाय-हाय करि पछिताति न कछू सुहात ।

बड़े-बड़े नैननि तैं आँसू भरि-भरि ढरि,

गोरो-गोरो मुख आज ओरो-सो बिलानो जात ।

पहले तो नायक के ज़रा शरीर छू लेने पर नायिका आगबबूला हो गयी, और अब पछुताकर रोती है । मारे दुःख के बेचारी नेत्रों से

अविरल अश्रुधारा बहा रही है। उसकी आँखों से लगातार आँसू बहते देख ऐसा प्रतीत होता है, मानो उसका गोरा मुख मण्डल एक बड़ा-सा ओला है, जो पिघल-पिघल कर आँसुओं के रूप में बहा जाता है।

महाकवि मतिराम का दोहा भी देखिए—

आई गौने कालिह ही सीखे कहा सयान ।
अबहीं ते रूसन लगी अबहीं ते पछितान ॥

मध्या कलहान्तरिता

इसमें मध्या और कलहान्तरिता दोनों के चिन्ह रहते हैं। देखिए, कवि रघुनाथ इसका कैसा सुन्दर उदाहरण देते हैं—

सुरति के चिन्ह भावते के भाल-उर लखे,
कोप भरे जोवन के ओप भरे तन मे ।
केलि के म्हुल सौ बहानो करि वैठी आय,
एहो ' रघुनाथ ' है उदास गुरुजन में ।
कहा कहाँ भट्ट उठी इतने में घन-घटा,
बकन की पाँति सो दिखाई दीन्ही घन में ।
तब तो अयान बस कीन्हे मान गुन गौरि,
अब सुखदानि पछितान लागी मन मे ।

पहले तो अपने यौवन और सौन्दर्य के अभिमान में, नायक से उदासीन होकर, केलि-भवन छोड़कर चली आई—मान कर वैठी, परन्तु अब जब काली-काली घन-घटाएँ उमड़-धुमड़ कर बहराने लगीं और उनमें श्वेत बलाकाओं की पाँति उड़ने लगीं, तब प्रिय का वियोग अस्वरने लगा। पहले तो अज्ञानवश मान किया, परन्तु अब वह मान मिट्टी में मिल गया ! और नायिका मनही मन पछिताने लगी।

कवि मतिरामजी का निम्न लिखित सबैया भी मध्या कलहान्तरिता का उत्कृष्ट उदाहरण है—

पॉयन आय परे तो परे रहे, केती करी मनुहारि सुहेली ।
मान्यो मनायो न मैं 'मतिराम' गुमान मे ऐसी भई अलबेली ।
प्यारो गयो दुख मानि कहौ अब कैसे रहौं इहि राति अकेली ।
आपु ते ल्याउ मनाइ कन्हाई कौ मेरो न लीजियो नाम सहेली ।

नायक ने मेरे पैरों में पड़ कर मुझे मनाना चाहा, बड़ी मिन्नत-
खुशामद की, परन्तु मैंने उस समय अपना मान नहीं छोड़ा । अब वह रुठ
कर कहीं चला गया, अरी सखी ! तू ही उसे बुला ला, देख मेरा नाम न
लेना, नहीं तो वह हरगिज़ न आवेगा ।

प्रौढ़ा कलहान्तरिता

हनुमान कवि ने प्रौढ़ा कलहान्तरिता का उदाहरण यों दिया है—

बैठी रति-मन्दिर में सुभग बनाए बेस,
जाके रूप आगे रति-रूप हू निदरिगो ।
आयो तहाँ लाल तासों बोली नाहिं बाल,
नैक ऐसे कछु अकस अखारौ आनि अरिगो ।
एते मोंभ रुसि 'हनुमान' मनभावन गो,
लागी पछितान प्रेम-पुंज यों पसरि गो ।
कानन ते पैठि हिय बसौ हो जु मान सोई—
हाय इन आखिन ते आँसू है निकरिगो ।

नायिका सब तैयारी किये रति-मन्दिर में बैठी थी, परन्तु जब नायक
वहाँ आया, तो बाला उससे बोली नहीं । यह देख नायक भी रुठ कर चला
गया । अब तो नायिका पछिताने लगी, और जो मान कानों के रास्ते
कर हृदय में घुस बैठा था, वही अब आँखों के रास्ते आँसू बनकर
नकल पड़ा, अर्थात् नायिका रोने लगी !

देव कवि का नीचे लिखा सवैया प्रौढ़ा कलहान्तरिता का उत्कृष्ट
उदाहरण है । देखिए—

बैरिनि जीभहिं काटि करौं मन द्रोही को मीजिकै मौन धरौंगी ।
 जाने को 'देव' कहा भयो मोहिं लरी कहें लोक में लाज मरौंगी ।
 प्रानपती सुख सर्वस वे उन सौं गुन रूप को गर्व करौंगी !
 अंजुलि जोरि निहोरि गरे परिहों हरि प्यारे के पायँ परौंगी ।
 अब अपनी ज़बान पर क्वाबू रखूंगी, और उनसे कभी ऐसी-वैसी
 बातें न कहूंगी । मैं उन्हें हाथ जोड़ कर—निहारे करके जैसे भी बनेगा
 मनाऊंगी । भला मैं अपने सर्वस्व से रूप-यौवन का गर्व करूंगी ! नहीं,
 कभी नहीं ।

इसी प्रसंग में निम्न लिखित बरवै भी देखने लायक है ।

रसना, मति इन नयना निज गुन लीन ।

कर ! ते पिय भिभकारे अजुगुति कीन ॥

प्रौढा कलहान्तरिता पश्चात्ताप करती हुई कहती है—अरे, इस
 'रसना' ने प्रियतम से कठोर शब्द कहे तो अपने अनुरूप ही कार्य
 किया, क्योंकि इसका नाम ही 'रसना' है । इससे तो सरस व्यवहार
 की आशा ही व्यर्थ है । ऐसे ही 'मति' (बुद्धि पद में नहीं) और
 'नयना' (नेत्रों) ने जो उनके साथ रूखा व्यवहार किया, उन्होंने
 भी अपने गुणों के अनुरूप ही किया परन्तु हे 'कर' (हाथ) तूने प्रिय
 को फिड़का यह बहुत बुरा किया ! तेरा तो नाम कर है । तुम्हें तो उनका
 आदर करना चाहिए था ।

परकीया कलहान्तरिता

इसका लक्षण भी इसके नाम के अनुरूप ही समझना चाहिए । देव
 कवि ने नीचे लिखा सबैया इसके उदाहरण में दिया है—

प्रेम-समुद्र पर्यौ गहिरे अभिमान के फेन रह्यौ गहिरे मन ।

कोप-तरंगन ते बहिरे अकुलाय पुकारत क्यों बहिरे मन ।

'देवजू' लाज-जहाज ते कूदि मज्यौ मुख मुँदि अजौ रहि रे मन ।

जोरत तोरत प्रीति तुही अब तेरी अनैति तुही सहि रे मन ।

नायिका पश्चात्ताप पूर्वक कहती है—अरे मन, कभी तू प्रीति जोड़ता है, और कभी तोड़ता है । अब इस जोड़ तोड़ की नीति का दुःखद परिणाम भी तुही भोग, घबराता क्यों है !

इस प्रसंग में महाकवि पद्माकरजी का नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने लायक है—

कासे कहा मैं कहौ दुख यों मुख सूखतई है पियूख पिये ते ।
त्यौँ ' पद्माकर ' या उपहास को त्रास मिटै न उसास लिये ते ।
ब्यापै बिधा यह जानि परी मनमोहन मीत सों मान किये ते ।
भूलि हू चूक परै जो कहूँ तिहि चूक की हूक न जाति हिये ते ।

मनमोहन से मैंने मान करके जो भयकर भूल की है, उसके दुःख को मैं ही जानती हूँ । सच है, कभी-कभी भूल से भी जो ग़लती हो जाती है, तो उसकी कसक दिल में बराबर बनी रहती है ।

विप्रलब्धा

जो स्त्री अपने प्रियतम को संकेत-स्थान में न पाकर दुखी होती है, उसे विप्रलब्धा कहते हैं । इसके भी मुग्धा आदि पाँच उपभेद हैं ।

मुग्धा विप्रलब्धा

जिसमें मुग्धा और विप्रलब्धा दोनों के लक्षण हों, वह मुग्धा विप्रलब्धा होती है । कविवर मतिराम ने इसका उदाहरण नीचे लिखे प्रकार दिया है—

आलिन के सुख मानिने को पिय प्यारे की प्रीति गई चलि बागै ।
छाय रह्यौ हियरो दुख सों जब देख्यौ न ह्यौ नँदलाल सभागै ।
काहू सों बोल कछू न कहै ' मतिराम ' न चिच कहूँ अनुरागै ।
खेल सहेलिन में पर खेल नवेली कों खेलनि जेल सी लागै ।

यहाँ नायिका को संकेत-स्थान पर प्रियतम के न मिलने के कारण शोर उपताप हो रहा है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता । उसे तो खेल भी जेल जैसा प्रतीत होता है ।

इसी प्रसंग में नीचे लिखा कवित्त भी कैसा सुन्दर है—

केलि के बगीचा ते अकेली अकुलाय आई,
नागरि नबेली बेली देखत इहर परी ।
कुंज के अवास तहाँ गुजरत भौर-पुञ्ज,
सीतल समीर सीरे नीर की नहर परी ।
देव तिहिं काल गूँदि ल्याई माल मालिनि यों,
देखत बिरह-बिख-व्याल की लहर परी ।
छोह भरी छुरी सी छुबीली छिति माँहि फूल—
छुरी सी छुवत फूल छुरी सी छहर परी ।

नायिका प्रथम तो संकेत-स्थान में प्रिय को न पाकर वहाँ से वैसे ही अकुलाई हुई लौटी थी, उसी समय मालिन हार बनाकर ले आई। बस फिर क्या था, माला को देखकर तो नायिका के शरीर में सर्प-विष की-सी लहर दौड़ गई और वह क्षोभ में भरी हुई, छड़ी की भाँति भूमि पर गिर पड़ी !

इस सम्बन्ध में निम्न लिखित पद्य भी पढ़ने योग्य हैं—

लख्यो न कन्त सहेट में लख्यो नखत को राय ।
नवल बाल कौ कमल सौ गयौ बदन कुम्हिलाय ॥

× × ×
ल्याईं लिवाय सखी सब साथ की सौहन खाय कै सुन्दरि को है ।
कुंज के भीतर सूनो चितै करि बैठि रही है नवाय कै भौरै है ।
लाल भई दुति कोयन की चमकै पुतरी अति दीठि लजों है ।
लोहित कजन मध्य मनो रस चाखत लोल मधुव्रत सो है ।

इस सबैये में भी सहेट में नायक के न मिलने के कारण उत्पन्न हुए दुःख का वर्णन है। उस समय लज्जा और निराशा के कारण हुई लाल कोयों में काली पुतलियों इस प्रकार चल रही हैं, मानो लाल कमलों में घुस कर भौरै मकरन्द-पान कर रहे हों। कैसी सुन्दर सूरु है !

मध्या विप्रलब्धा

निम्नलिखित कवित्तों में अभिसार-स्थान में प्रियतम के न मिलने के कारण मध्या विप्रलब्धा नायिका की सखेद अवस्था का वर्णन है—

आई काम-कामिनी-सी कन्त पै एकन्त तहाँ,
ताहि न बिलोक्यो अति व्याकुल हूँ गौन की ।
ता समै तिया को तन ताप तेज ताती छुवै,
हाती^१ सब सीतलता सरिता के पौन की ।
स्वास के समीरन उसास भौर भीर नहीं,
तीर रहै ठाढी मति धीर ऐसी कौन की ।
डरपि-डरपि चलीं साथ की सहेली सब,
भरपि-भरपि गई बेली रंगभौन की ।

×

×

×

रति को तमासो सुनो सोये गुरुजन जब,
कीन्हें अभिसार तब साधि कै रमल सो ।
रघुनाथ ' मन मे मनोरथ की सिद्धि जानि,
चूपुर बजन लागे पाईं मे दमल सो ।
केलि के महल बीच प्यारे सों न भेट भई,
ऐसी दशा भई मानों खायो है अमल सो ।
भोर के समै को ऐसो प्यारी को बदन रख्यो,
एरी भट्ट फेरि भयो सँभ के कमल सो ।

प्रौढ़ा विप्रलब्धा

इसके उदाहरण में कविवर मतिराम का नीचे लिखा कवित्त पढ़िए—

सकल सिंगार साजि संग लै सहेलिन को,
सुन्दरि मिलन चली आनँद के कन्द को ।

कवि ' मतिराम ' बाल करति मनोरथनि,
देख्यो परयंक पै न प्यारे नँदनन्द को ।
नेह तँ लगी है देह दाहन दहत गेह,
बाग के बिलोक द्रुम बेलिन के वृन्द को ।
चन्द को हँसत तब आयो मुख चन्द अब—

चन्द लाग्यो हँसन तिया के मुख चन्द को ।

सकेत स्थान में प्रियतम को न पाकर नायिका का चेहरा फीका पड़ गया, उसे घोर निराशा हुई ! संकेत-स्थान में आते समय तो उसने अपने चन्द्रानन से चन्द्रमा को फीका कर दिया था, क्योंकि वह प्रकुल्ल-बदन थी, परन्तु वहाँ से लौटते समय चन्द्रमा ने उसके मुख-मण्डल की हँसी उड़ाई । अर्थात् निराशा-जन्य दुःख के कारण नायिका का मुँह और शरीर कुम्हला गया—उदास और फीका पड़ गया !

कविवर वैनी प्रवीनजी प्रौढा विप्रलब्धा का उदाहरण इस प्रकार देते हैं—

उरज उतंग अभिलाषी सेत कंचुकी है,
राखी ना कछूक चित चोप रंग रेजे मे ।
मोतिन की माल मलमल बारी सारी सजै,
भलमल जोति होति चॉदनी अमेजे मे ।
बिहँसि बदन बिमलासी सो अटा पै गई,
देखे ना 'प्रवीन वैनी' पिय सुख सेजे मे ।
गरद^१ भई है वह दरद बतावै कौन,
सारद मयक मारी करद करेजे मे ।

उस दिन उस चॉदनी रात में प्रियतम को पर्यङ्क पर न पाकर नायिका शिथिल हो गयी । अब उसकी विरह व्यथा का कौन वर्णन करे । ऐसा प्रतीत हुआ, मानो शरद चन्द्रमा ने उसके कलेजे में अपनी किरणों की कटारी मारी ।

परकीया विप्रलब्धा

रघुनाथ कवि ने परकीया विप्रलब्धा का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

भादव की राति अंधियारी घेरे घन घटा,

बरसै मुसलधार मोद भरै मन में ।

ऐसी समै भीजत कुँवर कान्ह जू के लीन्है,

कुँवरि नबेली गई पागी प्रेम पन में ।

जौन थल मिलन बतायो तहाँ पायो नाहिं,

‘रघुनाथ’ मदन सतायो ताही छन में ।

जेई बूदें नीर की मुखद लागे धीर छूटै,

तेई बूदें तीरसी तिया के लागीं तन में ।

भादों की अंधेरी रात में, भीगती हुई नायिका संकेत-स्थान पर पहुँची, परन्तु वहाँ प्रियतम न पाया तो वह विरह-विकल हो उठी। आते समय वर्षा की जो बूंदें उसके शरीर को आनन्ददायिनी प्रतीत होती थीं वे ही अब उसके शरीर में तीर के समान लग रही थीं।

इस प्रसंग में कवीन्द्र कवि का नीचे लिखा कवित्त भी देखने योग्य है—

कैसी ही लगन जामें लगन लगाई तुम,

प्रेम की पगनि के परेखे हिये कसके ।

केतिको छुपाय के उपाय उपजाय प्यारे,

तुम ते मिलाय के बढ़ाये चोप चसके ।

भनत ‘कविन्द’ केलि-कुंज में बुलाय कर,

बसे कित जाय दुख दै हमें अबस के ।

पगनि में छाले परे नाँघिबे को नाले परे,

तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के ।

वाह ! ऐसी घोर वर्षा में हमें तो संकेत-स्थान में बुला लिया, परन्तु कन्हैयाजी स्वयम् गायब हो गये ! नदी-नाले लाँघकर ज्यों-स्यों हम यहाँ पहुँच पायीं, चलते-चलते पाँवों में छाले पड़ गये, परन्तु तो भी लाल के दर्शनों के लाले ही पड़े हुए हैं !

उत्कण्ठिता

जो नायिका संकेत-स्थान में पहुँच नायक को न पाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती हुई चिन्तित होती है, उसे उत्कण्ठिता या विरहोत्कण्ठिता कहते हैं। इसके भी मुग्धा आदि पाँच उपभेद हैं।

मुग्धा उत्कण्ठिता

मुग्धा उत्कण्ठिता के उदाहरण में नीचे लिखा सबैया देखने योग्य है—

ज्यों-ज्यों चलैं सजनी अपने घर त्यों-त्यों मनो सुख-सिन्धु में पैठे ।
ज्यों-ज्यों वितीतति है रजनी उठि त्यों-त्यों उनीदे से अंगनि पैंठे ।
आवत बात न कोऊ हिये चित कैसे तजै कुल कानि अकैठे ।
ज्यों-ज्यों सुनै मग पायन की धुनि सेज पै त्यों-त्यों लली उठि बैठे ।

मुग्धा उत्कण्ठिता नायिका की उत्कण्ठता कितनी बढ़ी हुई है। ज्यों ही वह किसी के पावों की आहट सुनती है, त्यों ही पलंग पर उठकर बैठ जाती है कि शायद प्रियतम आए हों।

मतिरामजी का नीचे लिखा सबैया भी मुग्धा उत्कण्ठिता का उत्कृष्ट उदाहरण है—

बीति गई जुग जाम निशा 'मतिराम' मिटी तम की सरसाई ।
जानति हों कहूँ और तिया सों रहे रस मे रमि के रसराई ।
सोचति मेज परी यो नवेली सहेली सों जात न बात सुनाई ।
चन्द चढ्यौ उदयाचल पै मुखचन्द पै आनि चढी पियराई ।

नायिका के दुःख का ठिकाना नहीं है, ज्यों-ज्यों रात बीतती जाती है, और चन्द्रमा ऊँचा चढ़ता जाता है, त्यों ही त्यों निराशा के कारण चन्द्रमुखी का मुख फीका पड़ता जाता है।

मध्या उत्कण्ठिता

मध्या उत्कण्ठिता के उदाहरण में मतिरामजी का निम्नलिखित सबैया देखिये—

बारहिँ बार विलोकति द्वारहिँ चौकि परै तिन के खरके हूँ ।
सेज परी 'मतिराम' विसुरति आई अहौ अबही लखि मै हूँ ।
संग सखीन के खेलत हीँ अज हूँ रजनी पति के अथये हूँ ।
लालन बेगि न जाहु घरै फिरि बाल न मानिहै पाँय परे हूँ ।
नायक से सखी कहती है—नायिका तुम्हारी प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता के साथ कर रही है । जल्दी घर जाओ, अगर वह रुठ गयी तो फिर पॉव पड़ने पर भी न मानेगी ।

इसी के उदाहरण में पद्माकरजी का भी सवैया पढ़िये—

आये न कन्त कहाँ धौं रहे भयो भोर चहै निसि जाति सिरानी ।
त्यौँ 'पदमाकर' बूभो चहै पर बूभि सकै न सँकोच की सानी ।
धारि सकै न उतारि सकै सु निहारि सिँगार हिये हइरानी ।
सूल से फूल लगे फर पै तिय फूल छुरी सी परी मुरझानी ।

पति की प्रतीक्षा में रात्रि समाप्त होने पर आ गयी, नायिका बड़े असमंजस में पड़ी है कि क्या करे, शृंगार को घारे रहे अथवा उतार दे । इस समय उसके शरीर में फूल शूल की तरह चुभ रहे हैं ।

कविवर बिहारी का नीचे लिखा दोहा भी मध्या उत्कण्ठता का उत्तम उदाहरण है—

नभ लाली चाली निसा चटकाली धुनि कीन ।
रति पाली आली अनत आए वनमाली न ॥

प्रौढ़ा उत्कण्ठता

प्रौढ़ा उत्कण्ठता का उदाहरण वैनी प्रवीनजी ने इस प्रकार दिया है—

कान्ह रूपवती मे रमे हूँ लोभी लालची हूँ,
ललकत डोलें बोले तजत सुभाए ना ।
काहू सग सखिन के रंग मढ़ि रहे कै धौं,
कै धौं उर उड़ि कै अनंग-वान लाए ना ।

कौन असमंजस 'प्रवीन बैनी' याते और,
भोर होत आली ! नभ लाली तैं बताए ना ।

अथवत^१ इन्दु अरविन्द-वन विकसत,
गुंजत मिलिन्द हैं गोविन्द गेह आए ना ।

चन्द्रमा अस्त हो गया, पौ फटगयी, कमल विकसित हो गये, भौरे
गुंजारने लगे परन्तु गोविन्द अब तक घर नहीं आये, न जाने सारी रात
कहाँ बिता दी !

और भी देखिए—

लखु चौदनी चार मलीन भई गन तारन के पियरान लगे ।
चिरियाँ चहुँ ओर करे चरचा चकई चकवा नियरान लगे ।
सिगरी निसि मैन मरोरनि में ये सिँगार कछू जियरान लगे ।
मनमोहन तो हियरा न लगे नथ के मुकता सियरान लगे ।

उपर्युक्त सबैया मे भी 'उत्कण्ठा' मे रात बीत कर प्रातःकाल हो
जाने का वर्णन है ।

परकीया उत्कण्ठिता

परकीया उत्कण्ठिता के उदाहरण मे कवि लीलाधरजी ने निम्न-
लिखित कवित्त लिखा है—

डर भौ नगर कै धौं काहू सों भ्रगर कै धौं,
बीच ही बगर आन बधू बिरमायो है ।
'लीलाधर' गैल में कि भूल्यौ तम रैल में—
कि धौं सुकाहू खेल मे सखान अरुभायो है ।
दूती ही सों दोष भौ कि मोही सों सरोष भौ,
कि कलह परोस भौ सुघर हरि धायो है ।
केलि की न चाह धौं, हिये न कै उछाह धौं,
सु कौन हेतु नाह धौं सहेट नाहि आयो है ।

नाना प्रकार की आशङ्काएँ करके नायिका पूछती है कि क्या कारण हुआ जो नायक 'सहेट' में नहीं आया ।

मतिरामजी का नीचे लिखा पद्य भी परकीया उत्कण्ठता का सुन्दर उदाहरण है—

जमुना के तीर भये सीतल समीर जहाँ
मधुकर, मधुर करत मन्द सोर हैं ।
कवि 'मतिराम' तहाँ छवि सों छबीली बैठि,
अंगनि तैं फैलत सुगन्ध के भूकोर हैं ।
पीतम बिहारी के निहारिबे को बाट ऐसी,
चहुँ ओर दीरघ दृगनि करि दौर हैं ।
एक ओर मीन मानो एक ओर कज-पुंज,
एक ओर खजन चकोर एक ओर हैं ।

नायिका चारों ओर चकित होकर देख रही है । कभी उसकी आँखें मछली-सी हो जाती हैं, कभी कमल-सी 'कभी खंजन-सी' और कभी चकोर-सी । यहाँ पर मछली आदि की उपमाओं द्वारा नायिका के हृदय में उभरने वाले, उत्सुकता, हर्ष, रोष आदि भावों की ओर संकेत है ।

वासकसज्जा

सुसज्जित भवन में, सखियों द्वारा सजकर, संभोग-सामग्री सहित समागम के लिए समुद्यत होने वाली नायिका वासकसज्जा कहाती है । इसके भी पाँच उपभेद हैं ।

मुग्धा वासकसज्जा

जिसमें मुग्धा और वासकसज्जा दोनों के चिन्ह परिलक्षित हों उसे मुग्धा वासकसज्जा कहते हैं । उदाहरण देखिए—

छूट्यो डर भावती को जानि परी एरी भद्र,
देखु चोपचोरी आजु लागी है टहल में ।

मायके की सखी सों मँगाय फूल मालती के,
चादर सों ढाँके छाया तोसक-पहल मे ।
'रघुनाथ' भावते के पानदान भरि बीरी,
भरी घरी पोथी कोऊ कथा की रहल में ।
अतर गुलाब को छिरकि हेत सौरभ के,
चहल पहल कीन्हे रति के महल में ।

नायक से मिलने के लिए महल मे खूब चहलपहल हो रही है ।
बड़े-बड़े सामान जुटाये जा रहे हैं, परन्तु सब गुप्त रूप से—छिपे-छिपे ।
आखिर मुग्धा ही तो ठहरी !

और भी देखिए—

फूल सी आप ही आपने हाथन फूल के गूँथति हार नवीने ।
आप ही आपने हाथ दुकूल कियो चहै केसरि के रँग भीने ।
भेद कहै न सखीनहू सों, हरखे हिय मे पिय आयबौ कीने ।
प्यारी कछू मिसि कै मग देखति द्वार की देहरी में हग दीने ।

नायिका चुपचाप अपने हाथ से ही अपना शृंगार कर रही है !
सखियों को भी भेद नहीं बताती । तरह-तरह के बहाने बना कर बार बार
देहली की ओर देखती है ।

निम्नलिखित दोहा भी मुग्धा वासकसज्जा का सुन्दर उदाहरण है—

साजि मेज भूषन बसन सब की नजर बचाइ ।
रही पौढि मिस नीद के, हग दुबार सों लाइ ॥

मध्या वासकसज्जा

जिसमें मध्या और वासकसज्जा दोनों के लक्षण मिले वह मध्या
वासकसज्जा कहाती है । उदाहरण देखिए—

फटक सिलानि सों सुधार्यौ सुधा-मन्दिर,
उदधि दधि कैसो अधिकार्ई उमगै अमन्द ।

बाहर तैं भीतर लौँ भाँतिन दिखैये ' देव '

दूध कैसो फेनु फैल्यौ आँगन फरस बन्द ।

तारा सी तश्नि तामे ठाढ़ी भिलिमिलि होति,

मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका के मकरन्द ।

आरसी से अम्बर मे आभा सी उज्यारी लागै,

प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सौ लगत चन्द ।

उक्त पद्य में मध्या वासकसज्जा के सौन्दर्य का वर्णन किया गया है । नायिका की सजावट बड़ी सुहावनी हुई है, उसका शृङ्गार अभूतपूर्व है । उस समय चन्द्रमा उसके मुख-मण्डल का प्रतिबिम्ब (परछाईं)-सा प्रतीत होता है ।

इस प्रसंग मे कवि रघुनाथजी का भी नीचे लिखा कवित्त बड़ा सुन्दर है—

मनिमय भूषन पहिरि नख-सिख प्यारी,

बैठी पीठि पीछे आसरो कै परियंक को ।

कहै 'रघुनाथ' पिय प्यारे की बिलोकै गैल,

हीं मे कछू कछू ऐल सौतिन के सक को ।

जानिबे को निसि दिसि ऊरध कों देख्यो ज्यों ही,

त्योही फैल्यौ आनन-प्रकास ऐसे अंक को ।

भौर लौँ उड़त एक रहिगो कलंक बाकी,

छुपि गयो ब्योम बीच मंडल मयंक को ।

नायिका रात में शृङ्गार किये बैठी रही, परन्तु नायक के दर्शन न हुए । अन्त मे उसने आसमान की ओर मुँह उठाकर यह जानना चाहा कि कितनी रात और शेष है, तो देखती क्या है कि चन्द्रमा तो व्योम-मण्डल मे विलीन हो गया है, परन्तु उसका कलङ्क-रूप (काला धब्बा) भौरा गुंजारता फिरता है । भौरा का गुंजारना प्रातःकाल होने का स्पष्ट प्रमाण है । कवि ने कैसी सुन्दरता और विलक्षणता से रात का समाप्त होना व्यक्त किया है ।

प्रौढ़ा वासकसज्जा

जो प्रौढ़ा नायिका नायक से मिलने के लिए साजसज्जा सजाती है, उसे प्रौढ़ा वासकसज्जा कहते हैं। उदाहरण मे मतिरामजी का सबैया देखिए—
बारनि धूपि अंगारन धूप कै धूम अंध्यारी पसारी महा है।
आनन चन्द समान उग्यो मृदु मद हँसी जनु जोन्ह छटा है।
फैलि रही 'मतिराम' जहाँ तहाँ दीपति दीपन की परभा है।
लाल तिहारे मिलाप को बाल सु आजु करी दिन ही में निसा है।
यहाँ नायिका ने धुआँ के घटाटोप से दिन में ही रात का दृश्य उपस्थित कर दिया, नायिका का मुख इस अलौकिक रात का चन्द्रमा और उसकी मुस्कराहट चोंदनी है। दीप्ति रूपी दीपक भी जहाँ-तहाँ झिल-मिला रहे हैं।

नीचे लिखा दोहा भी प्रौढ़ा वासकसज्जा का सुन्दर उदाहरण है—

सत्र सिंगार सुन्दरि सजे बैठी सेज बिछाय।

भयो द्रौपदी को बसन बासर नाहिं बिलाय ॥

भाव स्पष्ट ही है। सुन्दरी सब शृंगार सजाकर तैयार बैठी है, परन्तु दिन द्रौपदी का चीर बन गया है, वह समाप्त ही नहीं होता।

परकीया वासकसज्जा

कवि लछिरामजी ने परकीया वासकसज्जा का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

खेल मिस मोहिनी सहेलिन सों दुरि ब्यौस,

आई कुंज-बन परिहरि कै नगर को।

' लछिराम ' सौरभित सकल सिंगार सजे,

सुमन सँवार्यौ छैल आनंद बगर^१ को।

मजुल मजेजदार^२ बंजुल भरोखनि तें,

भारै भूमि गुंजरत भौर की रगर को।

भेलि बेलि गुंजन में मालती निकुंजन में,
नौल तरु-पुजन मे परखै डगर को ।

नवेली नायिका सुसज्जित होकर घर से 'कुंज-वन' मे आ गयी है, और वहाँ नवल तरु-पुंजों मे बैठ नायक की प्रतीक्षा कर रही है ।

नीचे लिखा कवित्त भी परकीया वासक सज्जा का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

पायन पलोटि पोटि सौंभ ते सुआई सासु,
कहत कहानी देवरानी नींद धिरकी ।
ननद पढाई राति जागिबे परोसिनि के,
मूँदि के किवार बैनी गूँदि राखी सिर की ।
सारी-मुक-पींजरा पै पँवई गिलाफ डारि,
भीतर धरावति हिये में प्रीति थिरकी ।
चन्द सौ वदन ढाँकि भौँकति भरोखा बैठि,
मद करि दीपक कमन्द डारि खिरकी ।

परकीया वासक सज्जानायिका ने सास को तो पैर दबा-दबा कर शाम से ही सुला दिया, छोटी देवरानी कहानी सुनते-सुनते सो गई । बाकी रही ननद, सो उसे पडौसिन के घर रतजगे में भेज दिया । तोता और मैना के पिंजड़ों पर गिलाफ डाल-डाल कर उन्हें भीतर टँगवा दिया । इस प्रकार सब ओर से निश्चिन्त हो, सब शृङ्गार सजा, दीप-ज्योति धीमी कर, खिड़की में कमन्द लटका कर भरोखे में बैठी प्रतीक्षा करने लगी ।

स्वाधीनपतिका

जिसके रति-गुणों से वशीभूत होकर प्रियतम उसका संग नहीं छोड़ता, वह विचित्र विलासयुक्त नायिका स्वाधीनपतिका कहाती है । इसके भी पाँच उपभेद हैं ।

मुग्धा स्वाधीनपतिका

जो मुग्धा अपने पति को वश में कर ले उसे मुग्धा स्वाधीनपतिका कहते हैं। उदाहरण में मतिरामजी का सवैया पढ़िए—

आपने हाथ सों देत महावर आपहि बार सिंगार तनी के।

आपन ही पहिरावत आनि कै हार सँवारि कै मौलसिरी के।

हौं सखि लाजन जात मरी 'मतिराम' स्वभाव कहा कहाँ पीके।

लोग मिले घर घर करैं अबही ते ये चेरे भये दुलही के।

मेरा प्रियतम अपने हाथ से ही मेरा सारा शृंगार करता है, क्या कहूँ, मैं तो मारे शर्म के मरी जाती हूँ। यह सब देखकर लोग ठीक ही कहते हैं कि ये तो अभी से अपनी स्त्री के गुलाम बन गये।

इस प्रसंग में नीचे लिखा कवित्त भी क्या ही सुन्दर है, देखिए—

केलि-कोठरी तें कढ़ै बाहिर घरीक हू न,

छोड़ि खेल संग के सखान को दियो है री।

गेह के उचित जन हास-परिहास करें,

तऊ चित्त में न नेकु सकुच छियो है री।

परिपूर जोबन न भलक सरीर आई,

उर अबही ते यहि भावहि लियो है री।

जादिन ते आई गौनिहाई बाल तादिन ते,

साँवरे सलौने पर दौना सौ कियो है री।

अलबेली बाला ने गौने को आते ही लाल पर जादू-सा कर दिया है, जिससे वह घड़ी-भर के लिये भी घर से बाहर नहीं निकलता। उसने सखाओं के साथ खेलना भी छोड़ दिया। संगी साथी मज़ाक बनाते हैं, पर उसे ज़रा भी संकोच नहीं होता।

× × × ×
इस सम्बन्ध में नीचे लिखे दोहे भी पढ़ने लायक हैं—

तुब अयानपन लखि भट्ट लट्ट भये नँदलाल।

जब सयानपन पेखि हैं तबघौं कहा हवाल ॥

नहि पराग नहि मधुर मधु नहि विकास यहि काल ।
अली कली ही सों बिंध्यौ आगे कवन हवाल ॥

मध्या स्वाधीनपतिका

जिस मध्या मे स्वाधीनपतिका के गुण विद्यमान हों वह मध्या स्वाधीन-
पतिका कहाती है ।

नीचे दिया गया मतिरामजी का कवित्त स्वाधीनपतिका का सुन्दर उदा-
हरण है—

जगमगे जोवन अनूप तेरो रूप चाहि,
रति ऐसी रंभा-सी रमासी बिसराइये ।
देखिबे को प्रान प्यारी पास खरो प्रान प्यारो,
धूँधट उठाइ नेक बदन दिखाइये ।
तेरे अंग-अंग में मिठाई औ लुनाई भरी,
'मतिराम' सुकवि प्रगट यह पाइये ।
नायक के नैनन मे नाइये सुधासी सब,
सौतिन के लोचन न लोन सो लगाइये ।

उक्त पद्य मे नायिका के रूप लावण्य का वर्णन है । सखी कहती है
कि अरी नायिका तू सौतों की आँखों में तो अपने लावण्य का लवण बुरक
दे, और प्रियतम को रूप-सुधा का पान करा दे ।

कविवर दिनेशजी का भी नीचे लिखा सवैया पढ़ने लायक है—
तेरियै कीरति कान सुनै अरु तेरोई रूप सदा दृग देखैं ।
तेरियै बात कहै रसना अरु भूलि हूँ और की ओर न पेखैं ।
तू जिय में हिय में पिय के पिय तो बिन जात घरी जुग लेखैं ।
जानि 'दिनेस' किये बस तैं कि भये हरि आपुही हाथ की रेखैं ।

नायक को तेरे सिवा न तो किसी की बात अच्छी लगती है, और
न सूरत । वह हर वक्त तेरी ही चर्चा किया करता है मालूम नहीं उन्हें तैने

बस में कर लिया है, अथवा स्वयम् ही उसने तेरी ऐसी अधीनता स्वीकार कर ली है ।

प्रौढा स्वाधीनपतिका

प्रौढा स्वाधीनपतिका मे प्रौढा और स्वाधीनपतिका दोनों के गुण पाए जाते हैं ।

नीचे उदाहरण मे कविवर सेनापति का कवित्त दिया जाता है ।
देखिए—

फूलन सों बाल की बनाय गुह्री बेनी लाल,
भाल दीनी बेदी मृग-मद की असित है ।
अंग-अंग भूषन बनाए ब्रजभूषन जू,
बीरी निज कर सों खबाई करि हित है ।
है कै रस बस जब दैवे को महावर को,
'सेनापति' स्याम गह्यौ चरन ललित है ।
चूमि कर प्यारे को लगाइ रही आँखिन सों,
एहो प्रानप्यारे यह अति अनुचित है ।

नायक नायिका पर इतना अनुरक्त है कि वह उसका शृंगार तक अपने हाथों से करता है । सारा शृंगार कर चुकने पर जब नायक नायिका के पावों में महावर देने लगा, तब नायिका ने उसके हाथ चूमते हुए कहा—प्राणनाथ, यह आप क्या करते हैं, ऐसा करना तो अत्यन्त अनुचित है । भला आप मेरे पाँव छुएँगे ?

और भी उदाहरण देखिए—

बारिद बार सही 'रघुनाथ' कहै जनु चारु किये दृग मोर हैं ।
ईंछन कंज सही सुथरे, जिन लोचन भौर किये बरजोर हैं ।
बोलनि जो सो सही मुकता जिन आँखिन को किये हंस किशोर हैं ।
प्यारी को आनन इन्दु सही जिहिं कीन्हे गुबिन्द के नैन चकोर हैं ।

उक्त सवैया में भी नायक की नायिका में अनन्य अनुरक्ति का वर्णन किया गया है । नायिका के बाल क्या हैं, काले बादल हैं, बिन्दे देखने

के लिए नायक की आंखें मदमत्त मयूर की भाँति नाच उठती हैं। इसी प्रकार उसके कमल समान लोचनों पर नायक के नेत्र मधुलुब्ध मधुपों की भाँति मँडराया करते हैं। नायिका जब बोलती है तो मानों उसके मुख से मोती भरते हैं, जिन्हें नायक की आंखें हस बन कर चुगा करती हैं। नायिका का मुखमंडल तो पूर्ण चन्द्रविम्ब समान है ही, जिसे नायक के नयन-चकोर निर्निमेष होकर देखते रहना चाहते हैं।

परकीया स्वाधीनपतिका

परकीया स्वाधीनपतिका के उदाहरण में कमलापति कवि का नीचे लिखा सवैया पढ़िए—

चढ़ि ऊँची अटा पर बोंसुरी लै अब नाम हमारो बजाइये ना ।
सुनि चौचँदहाई चबाव करै यह बात कबौ बिसराइये ना ।
'कमलापति' सोंची कहाँ इतनी सुनि कोह कछू मन लाइये ना ।
बिनती परि पाँथ तिहारी करौ कुल कानि हमारी गँवाइये ना ।

×

×

×

×

निम्नलिखित सवैया भी परकीया स्वाधीनपतिका का सुन्दर उदाहरण है—
हौं हू समै लखि कै उत आय कह्यौ करिहौ सब रावरे जी को ।
बारही बार न ऐये इतै यह मेरो कछू है परौस न नीको ।
चाह भरे धँसि चन्दन लावत हार बनावत मौलसिरी को ।
कोऊ कहुँ यह जानि जो जाय तो होय लला मोहिं लील को टीको ।

अभिसारिका

जो स्त्री काम के वशीभूत हो, लज्जा त्याग कर, संकेत-स्थान पर नायक को बुलाती अथवा स्वयं वहाँ जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। -
इसके भी मुग्धा आदि पाँच उपभेद हैं।

मुग्धा अभिसारिका

जो मुग्धा अभिसरणा करती है, उसे मुग्धा अभिसारिका कहते हैं।
उदाहरण देखिए—

दाबि दाबि दन्तन अघर छतवन्त करै,
आपने ही पायन की आइट सुनत सौन ।
'द्विजदेव' लेति भरि गातन प्रसेद अलि,
पात हू की खरक जु होती कहूँ काहूँ भौन ।
कंटकित होती अति उससि उसासनि तैं,
सहज सुवासन सरीर मजु लागै पौन ।
पंथ ही में कन्त के जौ होत यह हाल तौ पै,
लाल की मिलनि हूँ है बाल की दसा घौँ कौन ।

उक्त-पद्य में अभिसरण को जाती हुई मुग्धा का कैसा सुन्दर चित्र खींचा गया है । जब अभिसार को जाते हुए मार्ग ही में उसकी यह दशा है तब लाल से मिलकर तो न जाने क्या हालत हो जायगी ।

मध्या अभिसारिका

कविवर द्विजदेवजी ने मध्या अभिसारिका का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

पायलन डारै कटि किकिनी उतारै कहूँ,
हाथनि ते भारि भीर टारति मिलिन्द की ।
भूषन चमक तैं चमकि लगै पायन में
'द्विजदेव' अखिन बचाय अलिबुन्द की ।
भौन ते दमकि दामिनी लौँ दुरै दूजे भौन,
त्यागि गरवीली गति गौरव गयन्द की ।
या बिधि तैं जाति चली साँवरी उमाहँ सखी,
आजु भई चाहँ भाग उदित गोविन्द की ।

गज क्री-सी धीमी-धीमी चाल छोड़कर, नायिका चपला की तरह चंचलता पूर्वक अपने घर से निकल कर दूसरे घर में छिप गयी ।...आज गोविन्द के भाग उदय होना चाहते हैं ।

इस प्रसंग में दत्त कवि का नीचे लिखा कवित्त भी क्या ही सुन्दर है, देखिए—

सखिन समाज तैं उठाय अरविन्द- नैनी,
‘दत्त कवि’ कहै जाव बीती जानि रतियौं ।
भूखन बनाय पहराय जरतारी सारी,
हीरन किनारी दै सँवारी हंस-गतियौं ।
किंकिनी की नीकी जोति भल्लर-मलर होति,
लाज ते नबेली के कढ़ै न मुख बतियौं ।
नूपुरन दाबि-दाबि भूपर धरति पग,
दन्त दाबि अघर हथेरी दाबि छतियौं ।

‘अब जाओ, रात काफी चली गई’ सखी द्वारा यह कहे जाने पर अभिसारिका वस्त्रालङ्कारों से सुसज्जित हो चल देती है। उस समय लज्जा के कारण उसके मुँह से बात तक नहीं निकलती। चलने में कहीं नूपुर बजने न लगे इसलिए वह दबे पाँव जा रही है, फिर भी यदि कभी कोई भूषण बज उठता है, तो वह अपने ओठों को दाँतों से और छाती को दोनों हाथों से दबा लेती है।

प्रौढ़ा अभिसारिका

कवि भुवनेशजी ने इसका उदाहरण इस प्रकार दिया है—

अघखुले नैन कंज खंजन अचैन करैं,

सैन करै छन्दन छुरा को छोर छुरकत ।

कवि ‘भुवनेस’ छुबि केस की कहाँ लौं कहै,

माखि-माखि मोरि मन मारैं मनि मरकत ।

ओजित^१ मनोज ओज उरज सरोज सोहैं,

पग मग परत मजीठ-माठ ढरकत ।

मुख मंजु चन्द भास^२ उदित अमन्द हास,

जाति नँदनन्द पास बन्द-बन्द फरकत ।

भाव स्पष्ट है ।

×

×

×

×

पद्माकरजी का नीचे लिखा सवैया भी प्रौढा अभिसारिका का उत्कृष्ट उदाहरण है—

कौन है तू कित जाति चली बलि बीती निसा अधराति प्रमानै ।
हौं 'पद्माकर' भावती हौं निज भावते पै अबही मुहि जानै ।
तू अलबेली अकेली डरे किन ? क्यों डरौ मेरी सहाय के लानै ।
है सखि सग मनोभव सो भट कान लौं बान सरासन तानै ।

अरी सखी, तू इस आधी रात में अकेली कहाँ जा रही है ? मैं अपने मनभावन से मिलने जा रही हूँ । तू चिन्ता मत कर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कामदेव रूपी योद्धा है, जिसने कान तक शरासन तान रक्खा है ।

परकीया अभिसारिका

नीचे लिखा कवित्त परकीया अभिसारिका का कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है—

सोये लोग घर के बगर के किवार खोलि,
जानी मन माँहि निज गई जुग जामिनी ।
चुप चाप चोरा चोरी चौकत चकित चली,
प्रीतम के पास चित चाह भरी भामिनी ।
पहुँची सँकेत के निकेत समु सोभा देत,
ऐमी बन-बीथिन विराजि रही कामिनी ।
चामीकर चोर जान्यौ चंपलता भौर जान्यौ,
चन्द्रमा चकोर जान्यौ मोर जान्यौ दामिनी ।

रात्रि में चुपचाप अकेली जाती हुई अभिसारिका को चोरों ने (उसकी कान्ति के कारण) स्वर्ण समझा, भौरों ने देह-दीप्ति के कारण चंपलता जाना चकोरों ने चन्द्रमा और मोरों ने दामिनी समझा ।

अभिसारिका के अन्य भेद

उपर्युक्त पाँच उपभेदों से अतिरिक्त समूय के विचार से अभिसारिका

के—शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका और दिवाभिसारिका ये तीन भेद और किये गए हैं ।

शुक्लाभिसारिका

चाँदनी रात में चाँदनी रात के अनुरूप श्वेत वस्त्र धारण कर अभिसार को जाने वाली अथवा नायक को सकेत-स्थान में बुलाने वाली शुक्लाभिसारिका कहाती है । यथा—

अंगन में चन्दन चढ़ाय घनसार सेत,
सारी क्षीर फेन ऐसी आभा उफनाति है ।
राजतरु चिर सुचि मोतिन के आभरन,
कुसुम कलित केस सोभा सरसाति है ।
कवि 'मतिराम' प्रान प्यारे को मिलन चली,
करि कै मनोरथनि मृदु मुसिकाति है ।
देति न लखाई निसि चन्द की उज्यारी मुख—
चन्द की उज्यारी तन छाहाँ छिपिजाति है ।

×

×

×

दूसरा उदाहरण देखिये—

कनक बरन बाल नगन जटित माल,
मोतिन की माल उर सोहै भली भाँति है ।
चन्दन चढ़ाये चारु चन्दमुखी चाँदनी-सी,
निकसि अबास तैं सिधारी मुसकाति है ।
चूनरी बिचित्र स्याम सजि कै 'मुमारखजू',
ढाँपि नख सिख लौँ अधिक सकुचाति है ।
चन्द्र में लपेटि कै समेटि कै नक्षत्र मानो,
घौस कों प्रनाम किये राति चली जाति है ।
अब बिहारीलालजी का भी नीचे लिखा दोहा देखिये—
जुवति जोन्ह में मिलि गई नैकु न परति लखाय ।
सँघे के डोरन लगी अली चली सँग जाय ॥

शुक्लवसना नायिका चाँदनी में इतनी मिल गई है कि पहचानी भी नहीं जाती। केवल उसके शरीर की सुगन्ध से जाना जाता है कि वह जारही है।

कृष्णाभिसारिका

जो नायिका अँधेरी रात में (अँधेरे के अनुरूप) काले या नीले वस्त्र धारण कर अभिसार को जाती अथवा नायक को संकेत-स्थान पर बुलाती है उसे कृष्णाभिसारिका कहते हैं। यथा—

कारो नभ कारी निसि कारियै डरारी घटा,
भूकन बहत पौन आनंद को कन्द^१ री।
'द्विजदेव' सौवरी सलौनी सजी स्याम जू पै,
कीन्हो अभिसार लखि पावस अनन्द री।
नागरी गुनागरी सु कैसे डरै रैन उर,
जाके संग सोहै ये सहायक अमन्द री।
बाहन^२ मनोरथ उमाहै संगवारी सखी,
मैन मद सुभट मसाल मुख चन्द री।

जिस कृष्णाभिसारिका नायिका के साथ मनोरथ की सवारी, कामदेव संरक्षक और मुखचन्द्र रूपी मशाल मौजूद है, उसे कारी अँधियारी में किसका डर है।

शकरजी का भी नीचे लिखा कवित्त कृष्णाभिसारिका का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

साजि कै सिंगार शकरारि बस नारि कर
आरती को थार लै तयार भई जान के।
रैन अँधियारी बरसत बहु बारी नारी,
पकरै किवारी ठाड़ी सोचति बियान को।

मावस की राति कारी पावस की घात भारी,
ना बस की बात हारी कैसे मिल्लू कान को ।
बोली बदरान सों बुझै न बीजुरीकी आगि,
बीजुरी न मारै बजमारे बदरान को ।

शंकरारि (कामदेव) के वशीभूत हुई नायिका, शृङ्गार सजाकर हाथ में आरती की थाली ले, अभिसार के लिए जाने को तैयार हुई । परन्तु अंधेरी रात और पानी बरसता देख द्वार के किवाड़ पकड़े खड़ी रह गई । वह मन ही मन मावस की अंधेरी रात और उस पर वर्षा की घात को सोचती हुई कहती है—ऐसे में मैं किस प्रकार कृष्ण से जाकर मिलूँ । इन बजमारे बादलों पर बिजली भी तो नहीं गिरती जो ये इस प्रकार बेमौक़े बरस रहे हैं ।

दिवाभिसारिका

जो नायिका दिन में, दिन के अनुरूप वस्त्र पहनकर, अभिसरण करती या नायक को सकेत-स्थल पर बुलाती है, उसे दिवाभिसारिका कहते हैं ।
यथा—

चण्डकर^१-मण्डल प्रचण्ड नभ मण्डल तैं,
घुमड़ी परत अली अलिगन लहरी ।
केहरि कुरग इक संग बर वैर तजि,
काहिल कलित परे सोहैं तरु छहरी ।
ऊरध उसासन ते सुखत अधर एरी,
हेरि-हेरि छतियाँ हमारी जाति हहरी ।
गाढी प्रीति कौन की हिये में आइ बाढ़ी जाइ,
ठाढी सिर लेति ऐसी जेठ की दुपहरी ।
और भी देखिए—
सारी जरतारीकी भलक भलकत तैसी,
केसरि को अंगराग कीन्हों सब तन में ।

तीखन तरनि की किरनि हूँ ते दूनी दुति,
जगत जवाहिर जटित आभरन में ।
कवि 'मतिराम' आभा अंगन अंगार कैसी,
धूम कैसी धार छवि छाजति कचन मे ।
ग्रीष्म दुपहरी मे पिय को मिलन जाति,
जानी जाति नारि न दबारी जाति बन में ।

नायिका ने जैसी जरी की साड़ी पहनी हुई है, वैसा ही केसर का अङ्ग राग भी लगा लिया है । सुनहरी आभूषणों की द्युति सूर्य की किरणों से दुगुनी दिखाई देती है । नायिका के प्रत्येक अंग से अग्नि की सी आभा झलक रही है, जिसमें उसके केश-पाश धूम-धार-से प्रतीत होते हैं । इस प्रकार वेश-भूषा से सजकर, ग्रीष्म की दुपहरी में अभिसार को जाती हुई नायिका, ऐसी जान पड़ती है मानो वन में दवाग्नि चली जा रही हो ।

अभिसार के स्थान—साहित्य-दर्पणकार ने अभिसार के निम्नलिखित स्थान बताए हैं—खेत, बगीचा, टूटा देवालय, दूती-गृह, वन, शून्यस्थान, श्मशान, नदी आदि का तट अथवा अन्धकारावृत कोई भी जगह ।

इसी प्रसंग में कविवर विश्वनाथजी ने भिन्न भिन्न प्रकार की नायिकाओं के अभिसार करने का ढंग भी बताया है । वह इस प्रकार—

यदि कोई कुलीन कामिनी अभिसरण करेगी, तो वह अपने शरीर को भले प्रकार वस्त्रों में ढक कर घूँघट काढ लेगी, और लजाती हुई दबे पैरों चलेगी, जिससे आभूषणों का शब्द न होने पावे ।

यदि वेश्या अभिसरण करेगी, तो वह वस्त्रालङ्कारों से अच्छे प्रकार सुसज्जित हो, आभूषणों को झुनकारती और आनन्द से मुस्कराती हुई जायगी ।

यदि कोई दासी अभिसरण करेगी, तो मारे प्रसन्नता के उसके दोनों नेत्र विकसित हो रहे होंगे, तथा नशे के कारण वह अटपटी बातें करती एवं लटपटी चाल चलती हुई जायगी ।

प्रवत्स्यत्पतिका

जो नायिका अपने प्रियतम के परदेश जाने का समाचार सुनकर व्याकुल हो उठती है, उसे प्रवत्स्यत्पतिका कहते हैं। इसके भी मुग्धादि पाँच भेद माने गए हैं।

मुग्धा प्रवत्स्यत्पतिका

उदाहरण में कविवर मतिरामजी का नीचे लिखा पद्य पढ़िए—

जा दिन ते चलिवे की चरचा चलाई तुम,
ता दिन ते बाके पियराई तन छाई है ।
कहे 'मतिराम' छोड़े भूषन बसन पान,
सखिन सों खेलनि हँसनि बिसराई है ।
आई श्रुतु सुरभि सुहाई प्रीति वाके चित,
ऐसे मे चलो तो लाल रावरी बड़ाई है ।
सोवति न रैन-दिन रोवति रहति बाल,
बूझें ते कहति सुधि मायके की आई है ।

नायक के परदेश जाने की चर्चा सुनते ही नायिका ने रोना शुरू कर दिया, वह साफ़-साफ़ नहीं कहती कि मैं प्राणनाथ के परदेश जाने के कारण रोती हूँ, बल्कि इस भाव को छिपाकर यह बहाना बनाती है कि मुझे तो अपने मा-बाप, भाई-बहन की याद आ रही है, इसीलिए मेरी आँखों से आँसू बह रहे हैं।

और भी देखिए, प्रवत्स्यत्पतिका के उदाहरण में निम्नलिखित दोहे कितने सुन्दर हैं—

बोलत बोल न बलि विकल थरथरात सब गात ।

नव जोवन के आगमन सुनि प्रिय-गमन प्रभात ॥

मुग्धा नायिका प्रातः प्रिय-गमन की चर्चा सुन कुछ भी नहीं बोलती, केवल विकल होकर काँपती है ।

×

×

×

×

आज सखी हौ सुनति हों, पौ फाटे पिय गौन ।
पौ मे क्षौ मे होड़ है, पहले फाटे कौन ॥
देखूँ पहले पौ फटती है, या मेरा हृदय विदीर्ण होता है । देखिये—
इसी प्रसंग का दूसरा दोहा

सजन सकारे जायँगे, नैन मरेंगे रोय ।

विधना ऐसी रैन कर, भोर कभू ना होय ॥

सुना है, कि सबेरे प्राण-पति परदेश चले जायँगे, हे विधाता ! ऐसी 'रैन' कर दे कि भोर कभी न हो । यानी रात ही बनी रहे, जिससे प्राणपति परदेश न जा सके ।

नीचे लिखा ग्वाल कवि का कवित्त मुग्धा प्रवत्स्यत्पतिका का कैषा अनूठा उदाहरण है । देखिए—

ससिमुखी सूक गई तब ते बिकल भई,

बालम बिदेसहु को चलिबो जबै कयो ।

दूध दही श्रीफल रुपैया धरि थारी माँहि,

माता सुत-भाल जबै रोरी को टीको दयो ।

तौंदुर बिसरि गयो, बधू सों कह्यौ लै आउ—

तब ते पसीना छुटयो मन, तन कों तयो ।

तौंदुर लै आई तिया आँगन में ठाढी रही,

करके पसारिवे में भात हाथ में भयो ।

पति के विदेश जाने की तैयारी देख नायिका सभावित विरह-ताप से जलने लगी । उसके शरीर से पसीना छूट निकला । माता ने पुत्र के मस्तक पर विदाई का तिलक लगाया, तो देखा कि थाली में चावल ही न थे । बहू से चावल लाने को कहा गया । वह मुट्ठी में चावल लेकर आई, परन्तु सास के पास पहुँचते-पहुँचते हाथ के पसीना और विरह-ताप की गर्मी से मिल कर चावलों का भात होगया । विरह-जन्य ताप का कितना अत्युक्ति-पूर्ण वर्णन है ।

मध्या प्रवत्स्यत्पतिका

गंग कवि ने मध्या प्रवत्स्यत्पतिका का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है—

बैठि है सखिन सग पिथ को गमन सुन्यौ,

सुख के समूह में वियोग आगि भरकी ।

‘गंग’ कहै त्रिविध सुगंध लै बहौ समीर,

लागत ही ताके तन भई बिथा ज्वर की ।

प्यारी को परसि पौन गयो मानसर पै सु—

लागत ही औरै गति भई मानसर की ।

जलचर जरे औ सेवार जरि छार भई,

जल जरि गयौ पक सूख्यौ भूमि दरकी ।

इस नायिका ने तो अपनी विरहामि से जल, थल, पृथ्वी-पवन सबही को भस्मसात् करने की ठान ली । जीव-जन्तुओं का खातमा ही कर दिया !

इस प्रसंग मे दास कवि का नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने लायक है—

बात चली यह है जब ते तब तें चले काम के तीर हजारन ।

नींद औ भूख चली तन ते अँसुआ चले नैनन ते सजि धारन ।

‘दास’ चली कर तें बलया^१ रसना^२ चली लक ते लागी अबार न ।

प्राण के नाथ चले अनतैं^३ तनतैं नहिं प्राण चले केहि कारन ।

नायिका कहती है, प्राणनाथ तो परदेश को जाने लगे, परन्तु मेरे प्राण शरीर से क्यों प्रयाण नहीं करते !

मौढ़ा प्रवत्स्यत्पतिका

उदाहरण में मतिरामजी का कवित्त देखिए—

मलय समीर लागे चलन सुगंध सीर,

पथिकन कोन्हें परदेसनि तें आवने ।

‘मतिराम’ सुकवि समूहन कुसुम फूले,

कोकिल मधुप लागे बोलन सुहावने ।

१—कंकण या चूड़ी । २—कौंधनी । ३—अन्यत्र—विदेश ।

आयो है बसन्त भये पल्लवित जलजात,
तुम लागे चलिबे की चरचा चलावने ।
रावरी तिया को तरुवर सरबरन के,
किसलै कमल है हैं बारक विछावने ।

कैसी सुन्दर सुखद वसन्तश्री दिखायी दे रही है, ऐसे आनन्दमय समय मे जो लोग परदेश में थे, वे भी अपने घर वापस आ रहे हैं, परन्तु मेरे प्राणनाथ ! तुमने बाहर जाने की तैयारी कर दी !! है कि नहीं अन्धेर की बात !

इस प्रसंग में देव कवि का भी नीचे लिखा कवित्त पढ़ने योग्य है—

नील पट तन पै घटान सी घुमाइ राखों
दन्त की चमक सों छटासी विचरति हौं ।
हीरनि की किरनै लगाइ राखों जुगुनू सी,
कोकिला पपीहा पिकबानी सों ढरति हौं ।
कीच अँसुवान की मचाँकँ कवि 'देव' कहै,
पिया को विदेस हौं सिधारिवो हरति हौं ।
इन्द्र कैसो घनु साजि बेसर कसति आजु,
रहुरे बसन्त तोहि पावस करति हौं ।

ठहर वसन्त, ठहर ! तुझे अभी वसन्त से पावस बनाती हूँ । इस अद्भुत पावस मे मेरे शरीर की नीली साड़ी घन-घटा का रूप धारण करेगी, दाँतों की दमक बिजली की तरह चमकेगी, हीरों की किरणें जुगनु की-सी जगमगाइट पैदा कर देगी, और मेरा मृदुभाषण पपीहा की बोली का काम करेगा । अँसुओं की वर्षा से सर्वत्र कीच ही कीच हो जायगी । फिर देखना है, प्राणनाथ कैसे परदेश जाते हैं ! भला पावस मे भी कोई घर से बाहर जाया करता है ।

और भी देखिए—

साने कै परागन सों रागन रचत भौर,
है गए हैं नौरे आम धागन भुके पवैं ।

प्रगट पलासन हुतासन सो सुलगत,
बन और मन देत अग अंग पै जरै ।
कहै कवि 'सिव' अब आयो ऋतुराज ब्रज,
ऐसे मे वियोग बाते कोऊ हियरे धरै ।
देखो नए पल्लव पवन लागे डोलै मानो,
चलत विदेसन विदेसिन मना करै ।

प्राणनाथ, देखते नहीं हो, कैसी सुन्दर वसन्त-श्री छाया हुई है। ऐसे में कौन परदेस जाता है। तब, गुल्म, लताओं के ये नये-नये पत्ते इधर-उधर हिल-हिल कर मना कर रहे हैं कि ऐसे सुखमूल समय में किसी को घर छोड़ कर न जाना चाहिये !

परकीया प्रवस्यत्पतिका

मतिरामजी ने परकीया प्रवस्यत्पतिका का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है। देखिये—

मोहन लला कौ मुन्यौ चलन बिदेस भयो,
बाल मोहनी कौ चित्त निपट उचाट में ।
परी तालाबेली तन मन मे छुबीली राखै,
छिति पर छिनक छिनक पाँव खाट में ।
पीतम नयन कुबलयन कों चन्द घरी,
एक में चलैगो 'मतिराम' जिहि बाट में ।
नागरि नवेली रूप आगरि अकेली रोती
गागरि लै ठाढ़ी भई बाट ही के घाट में ।

जब परकीया को अपने प्रिय के परदेश जाने का समाचार मिला, तो वह हक्की-बक्की रह गयी। उस समय उसे और तो कुछ सूझा नहीं, रास्ते में रीता घड़ा लेकर आ खड़ी हुई, जिससे शकुन बिगड़ जाय और प्यारा विदेश जाने का विचार त्याग दे।

यहाँ पद्माकरजी का निम्नलिखित सवैया भी देखने योग्य है—
 जो उर झार नहीं झरसी मृदु मालती माल बहै मग नाखै ।
 नेहवती जुवती 'पदमाकर' पानी न पान कछू अभिलाखै ।
 भाँकि झरोखे रही कब की दबकी वह बाल मनै मन भाखै ।
 कोऊ न ऐसो हित् हमरो जु परौसिनि के पिय कों गहि राखै ।
 क्या करे बेचारी, विवश होकर छिपी-छिपी इधर-उधर झरोखों में
 झँखती फिरती है, खान-पान त्याग दिया है, उसकी यही एकान्त
 अभिलाषा है कि कोई ऐसा हो जो इस " परौसिन के पिय" अर्थात् मेरे
 प्यारे को परदेश जाने से रोक दे ।

आगतपतिका^१

जिस नायिका का हृदय प्रियतम के प्रवास से लौटने पर आनन्द से
 भर जाता है, वह आगतपतिका कहाती है । इसके भी मुग्धा आदि पाँच
 भेद किये गए हैं ।

मुग्धा आगतपतिका

वादि^२ ही चन्दन चारु घिसै घनसार घनो घँसि पंक बनावत ।
 वादि उसीर समीर चहै दिन-रैनि पुरैनि^३ के पात विछावत ।
 आपु ही ताप मिटी 'द्विज देव' सुदाघ निदाघ की कौन कहावत ।
 वावरी तू नहिं जानति आज मयक लजावत मोहन आवत ।
 अरी सखी, व्यर्थ ही तू ये घिसापिसी कर रही है । अब चन्दन
 और कपूर की क्या ज़रूरत है, इस और कुमुदिनी के पत्तों को क्या
 करेगी । अब तो अपने आप सब ताप मिट जायगा, शायद तुझे मालूम
 नहीं कि आज प्राणनाथ घर आ रहे हैं ।

नीचे लिखा सवैया भी मुग्धा आगतपतिका का कैसा सुन्दर
 उदाहरण है—

१—किसी-किसी ने आगतपतिका को आगमिष्यतपतिका नाम से
 लिखा है । २—व्यर्थ । ३—कुमुदिनी ।

कानि करै गुरु लोगन की न सखीन की सीखन ही मन लावति ।
एँड भरी अँगराति खरी कत धूँषट में नए नैन चलावति ।
मञ्जन कै, हग अञ्जन आँजति अंग अनंग उमग बढ़ावति ।
कौन सुभावरी तेरौ पर्यौ खिन आँगन में खिन पौरि में आवति ।

पति के आने पर मुग्धा नायिका ऐसी आनन्द-विह्वल हो गई है कि उसे गुरुजनों का भी संकोच नहीं रहा । वह चाहे जहाँ खड़ी अँगड़ाइयाँ लेने लगती है । कभी स्नान करके नेत्रों को अञ्जनादि से अलकृत करती है, कभी आँगन में आती है और कभी दौड़ कर पौरी में जाती है ।

मध्या आगतपतिका

उदाहरण में मतिरामजी का संवैया पढ़िए—

चन्द्रमुखी सजनीन के संग हुती पति अंगनि में मनु फेरत ।
ताहि समै पिय प्यारे की आगम प्यारी सखी कछौ द्वारते डेरत ।
आय गए ' मतिराम ' जबै तब देखत नैन अनंद भये रत ।
भौन के भीतर भाजि गई हँसि कै हरुवे हरि को फिर हेरत ।
पति के आने का शुभ संवाद सुनकर नायिका सखियों का साथ छोड़ कर खिलखिलाती हुई घर के भीतर भाग गयी । भला इस प्रसन्नता का भी कुछ ठिकाना है !

कविवर पद्माकरजी ने भी इस प्रसंग में क्या ही अच्छा कहा है—
नँदगाउँ ते आइगौ नन्दलला लखि लाड़िली ताहि रिभाय रही ।
मुख धूँषट घालि सकै नहिं मायके मायके पीछे दुराय रही ।
उचके कुच कोरन की ' पदमाकर ' कैसी कछू छुबि छा़य रही ।
ललचाय रही सकुचाय रही सिर नाय रही मुसिक्याय रही ।

नायिका मायके में थी, नायक भी वहीं पहुँच गया । मायके में भला बेटी धूँषट कैसे काटे, अतः उसने अपना मुँह मा की पीठ के पीछे छिपा लिया ।...एक ओर पति के आने की प्रसन्नता थी, दूसरी ओर मायके का संकोच—दोनों भावों का मिश्रण बड़ा ही सुन्दर प्रतीत हुआ ।

इसी प्रसंग में कविवर प्रवीनराय का भी नीचे लिखा पद्य पढ़ने लायक है—

सीतल समीर ढार मंजन कै घनसार,
अमल अँगौछे आछे मन तैं सुधारि हौं ।
दै हौं ना पलक एक लागन पलक पर,
मिलि अभिराम आछी तपनि उतारि हौं ।
कहत ' प्रवीनराय ' आपनी न ठौर पाय,
सुन बाम नैन ! या वचन प्रतिपारि हौं ।
जब ही मिलेगे मोहि इन्द्रजीत प्रान प्यारे,
दाहिनो नयन मूँदि तोही सौं निहारि हौं ।

नायिका की बाईं आँख फड़क-फड़क कर उसे प्रिय-आगमन की सूचना दे रही है। इसीलिए वह कहती है, कि प्राणनाथ के आने पर मैं बाएँ नेत्र से ही पहले उन्हें निहारूँगी—उस समय सीधी आँख मूँद लूँगी। बाएँ नेत्र से इसलिए कि उसने ही उनके आने की सर्व प्रथम सूचना दी। इससे उपहार के तौर पर उसे ही पहले प्राणनाथ के दर्शन का अवसर दूँगी।

यह प्रसिद्ध बात है कि स्त्रियों की बाईं आँख या बायों अङ्ग फड़कना शुभ होता है।

इसी सम्बन्ध में कविवर तोष की भी उक्ति सुनिए, कैसी सुन्दर है—

पैजनी गढ़ाइ चोंच सोने तैं मढ़ाइ दै हौं,
कर पर लाइ पर रुचि सौं सुधारिहौं ।
कहै कवि 'तोष' छिन अटक न लैहौं कबों,
कंचन कटोरे अटा खीर भरि घरिहौं ।
ऐरे कारे काग तेरे सगुन संजोग आज,
मेरे पति आवैं तो वचन तैं न टरिहौं ।
करती करार तौन पहिले करौंगी सब,
अपने पिया कौं फिरि पाछे अंक भरिहौं ।

महाकवि विहारी का भी नीचे लिखा दोहा कैसा उत्कृष्ट है—

वाम बाहु फरकत मिलै जो हरि जीवन मरि ।

तौ तोही सों भेटि हौं, राखि दाहिनी दूर ॥

प्रौढ़ा आगतपतिका

देखिए, प्रौढ़ा आगतपतिका के उदाहरण में प्रह्लाद कवि क्या कहते हैं—

आजु आली माथे ते सु बेदी गिरे बेर-बेर,

मुख पर मोतिन की लरी लरकति है ।

घरत ही पग कील चूरे की निकरि जाति,

जब तब गाँठि जूरे हू की भरकति है ।

जानि न परत ' प्रह्लाद ' परदेस पिउ,

उससि उरोजन सों आँगी दरकति है ।

तनी तरकति कर चूरी करकति अंग—

सारी सरकति आँखि बाँई फरकति है ।

अरी सखी, आज बड़े अच्छे-अच्छे शकुन हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अब प्राणनाथ बहुत जल्द दर्शन देने वाले हैं । तू देखती नहीं कि माथे से बार-बार बिंदी गिरना, मुँह पर मोतियों की लड़ियों का लटक आना आदि सभी शुभ शकुन दिखायी दे रहे हैं ।

नीचे लिखा देवजी का कवित्त भी प्रौढ़ा आगतपतिका का कैसा सुन्दर उदाहरण है, देखिये—

घाई खोरि-खोरि ते बघाई पिय आगम की,

मुख कर कोरि कोरि भौवरें भरति है ।

मोरि-मोरि बदन निहारति बिहारी भूमि—

भोरि-भोरि आनंद घरी सी उघरति है ।

'देव' कर जोरि-जोरि बन्दत सुरन गुरु-

लोगन के लोटि-लोटि पायन परति है ।

तोरि-तोरि मोतिन के हार पूरै चौकन—

निछावर कौ छोर-छोर भूखन धरति है ।

अरी सखी, प्रियतम के आगमन की सूचना पाते ही, उस नायिका के हर्ष का ठिकाना न रहा, मारे खुशी के वह अनेक बहानों से बार-बार प्रियतम के पास चक्कर काटने लगी । कभी वह गर्दन मोड़-मोड़ कर पति के मुख को निहारती, कभी लालन के सानन्द घर वापस आने के हर्ष में देवताओं की वन्दना करती और कभी बड़ी-बूढियों के पैर पर लौटती । अरी बहन, वह तो ऐसी आनन्द विभोर होगई कि अपने हार तोड़-तोड़ कर मोतियों से चौक पूरने लगी तथा निछावर करने के लिए आभूषण उतार-उतार कर रखने लगी ।

परकीया आगतपतिका

कविवर 'बैनी प्रबीनजी' ने परकीया आगतपतिका का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

इक आली गई कहि कान मे आय परी जहँ मैंन मरोरि गई ।

हरि आए विदेश तँ 'बैनी प्रबीन' सुने सुख सिन्धु हिलोरि गई ।

उठि बैठि उतायल चाव भरी, तन मे छुन में छुबि दौरि गई ।

जेहि जीवन की न रही हुती आस सँजीवन सी सु निचोरि गई ।

नायिका पति-वियोग से व्यथित होकर अपने जीवन से निराश हो चुकी थी, इतने ही में एक सखी ने अचानक आकर प्रिय के परदेश से आने की सुख-सूचना सुनाई । फिर क्या था, मुर्दा जिस्म में जान पड़ गयी । अथवा दुःखित हृदय में हर्ष की हिलोरें उठने लगीं । जिस जीवन की आशा ही न थी उसे सजीवनी-सुधा प्राप्त होगयी !

इसी प्रसंग में कविवर महेशजी का भी उदाहरण देखिए—

सुनि बोल सुहावने तेरे अटा यह टेक हिये में धरौं पै धरौं ।

मढ़ि कंचन चोचि पँखौवन में मुकुताहल गँदि भरौं पै भरौं ।

सुख पीजरे पालि पढ़ाइ घने गुन औगुन कौटि हरौं पै हरौं ।

बिन्दरे हरि मोहि 'महेश' मिलैं तहि कागते हंस करौं पै करौं ।

अट्टालिका पर सुबह ही सुबह कौआ बोल रहा है। सबेरे कौए का बोलना किसी प्रिय के आगमन की सूचना देता है। नायिका कहती है—
अरे काग, अगर मेरा बिछुड़ा प्रिय मुझे मिल गया तो मैं तेरी चोंच सोने में मढ़ा दूंगी और पखों में मोती गूँघ दूंगी। निश्चय ही उस समय तू काग से हंस बन जायगा ! ज़रा उन्हें आने तो दे ।

उपर्युक्त दश भेद मुग्धा, मध्या, प्रौढा और परकीया में ही होते हैं। किसी किसी ने सामान्या में भी इन भेदों को माना है, परन्तु सामान्या में उक्त दश भेद मानना उचित नहीं जान पड़ता, इसीलिए हमने सामान्या के उदाहरण नहीं दिए ।

नायिकाओं के सात्विक अलङ्कार

अङ्गज अलङ्कार-वर्णन

भाव

यौवनावस्था में नायिका के मुख अथवा शरीर के दूसरे अंगों में उत्पन्न होने वाले विविध विकारों को सात्विक भाव या सात्विक अलंकार कहते हैं। ये अलंकार तीन प्रकार के माने गए हैं—१ अंगज, २ अयत्नज और ३ स्वाभाविक।

भाव, हाव और हेला ये तीन अंगज अलंकार कहाते हैं।

शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य, ये सात अयत्नज अलंकार कहाते हैं, क्योंकि ये यत्न द्वारा प्राप्त नहीं किये जा सकते।

लीला, विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिञ्चित, विभ्रम, ललित, मोट्टायित कुट्टमित, विद्धत, मद, तपन, मौग्ध्य, विचेप, कुतूहल, हसित, चकित और केलि ये अठारह स्वभावसिद्ध होने से स्वाभाविक अलंकार कहाते हैं। परन्तु इन्हें यत्न पूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है।

स्वाभाविक अलंकारों में से पहले के दश पुरुषों में भी हो सकते हैं, परन्तु इन सबके द्वारा चमत्कार स्त्रियों में ही उत्पन्न होता है।

नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि ने केवल प्रथमोक्त दश अलंकार ही माने हैं।

बाल्यावस्था के अन्त और तादृश्य के प्रारम्भ-समय निर्विकार मन में जब पहले पहल काम-विकार उत्पन्न होता है, तब उसे 'भाव' कहते हैं।

नाट्यशास्त्रकार ने वाणी, अंग, मुख, सत्व और अभिनय द्वारा अन्तर्गत मनोविकार प्रकट करने को 'भाव' कहा है।

भाव के सम्बन्ध में मतिरामजी का उदाहरण देखिए—

गहि हाथ सों हाथ सहेली के साथ में आवति ही वृषभानु लली ।
'मतिराम' सु वात ते आवत नीरे निवारति भौरन की अवली ।
लखि के मनमोहन सो सकुची, कछौ चाहति आपनि ओट लली ।
चित चोरि लियो, दग जोरि तिया, मुख मोरि कछू सुसक्याति चली ।

यहाँ वृषभानुलली के निर्विकार मन में पहले-पहल मनमोहन के प्रति प्रीति के अंकुर उत्पन्न हुए हैं, जिससे वह सकुचा गई और मुँह मोड़ कर मुस्कराने लगी । मानो नन्दनन्दन ने आँखें मिलाकर राधिका का चित्त चुरा लिया ।

इस प्रसंग में संस्कृत का भी एक उदाहरण दिया जाता है, देखिए—

स एव सुरभिः कालः स एव मलयानिलः ।

सैवेयमवला किन्तु मनोऽन्यदिव दृश्यते ॥

वही वसन्त ऋतु है, वही मलयानिल और वही यह रमणी है, परन्तु आज उसका मन कुछ और हाँ दिखाई देता है ।

यहाँ भी तारुण्य उदय होने पर, वसन्त ऋतु के कारण रमणी के मनोभाव कुछ और ही दिखाई देते हैं ।

हाव

भृकुटी तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों से संभोगादि की इच्छा प्रकाशित करने वाले भाव जब अल्प मात्रा में लक्षित होते हैं, तब उनकी 'हाव' संज्ञा होती है । अथवा यों कहिये कि रति-समय में नायिका की स्वाभाविक भावभंगि को हाव कहते हैं । हाव और भाव में यह अन्तर है कि भाव मन में रहते हैं, और हाव भ्रूनिक्षेप आदि चेष्टाओं द्वारा बाहर प्रदर्शित होने लगते हैं ।

हिन्दी में हेला, लीला, विलास आदि अलङ्कार हाव के अन्तर्गत ही माने गए हैं, परन्तु साहित्यदर्शकाकार ने उन्हें अलग रखा है । लक्षण

दोनों ने एक से ही किये हैं । संयोग शृङ्गार में ही इनका उपयोग होता है, अन्य रसों में नहीं ।

रसतरंगिणीकार स्त्रियों की स्वाभाविक शृङ्गार-चेष्टा को हाव कहते हैं । उन्होंने भी लीला, विलास आदि दश स्वाभाविक अलंकारों को हाव के अवान्तर भेद माना है । इनमें से लीला, विलास, विच्छिन्ति, विभ्रम और ललित इन पाँचों को शारीरिक हाव ; मोहायित, कुदमित, विव्वोक और विद्वत इन चारों को मानसिक हाव तथा क्लिकिञ्चित को संकीर्ण हाव बतलाया है ।

नीचे लिखा संस्कृत का श्लोक हाव का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

विवृण्वती शैल-सुतापि भावम्—

अङ्गैः स्फुरद्बाल कदम्ब कल्पैः ।

साचीकृता चास्तरेण्, तस्थौ,

मुखेन पर्यस्त विलोचनेन ॥

इन्द्र के कहने से कामदेव ने हिमालय में भी अपना मोहक माया-जाल फैलाया, जिससे पार्वती को देखकर महादेवजी का चित्त चलायम्बन हो उठा । उस समय विकासोन्मुख कदम्ब-कुसुम की भाँति (रोमाञ्चयुक्त) कोमल अंगों द्वारा अपना मनोभाव व्यक्त करती हुई पार्वती, तिरछी चितवन युक्त वदनारविन्द से सुशोभित, कुछ तिरछी-सी खड़ी रहीं ।

यहाँ पार्वती जी के शरीर का रोमाञ्चयुक्त होना तथा तिरछी चितवन से देखते हुए तिरछा खड़े रहना, उनके मनोगत भावों का परिचायक है ।

हेला

जब भाव पूर्ण स्फुटता से परिलक्षित होता है, तब उसकी 'हेला' संज्ञा होती है ।

भरत मुनि के मत में शृङ्गार रस से उत्पन्न हुआ हाव जब ललित अभिनय युक्त होता है, तब उसे 'हेला' कहते हैं ।

हेला के उदाहरण में पद्माकरजी का सवैया देखिए—

फाग की भीर अभीरिनि मे गहि गोविन्दै लै गई भीतर गोरी ।

भाई करी मन की 'पदमाकर' ऊपर नाइ अभीर की भोरी ।

छीनि पितम्बर कम्मर तें सु विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी ।

नैन नचाइ कही मुसुकाइ लला फिरि आइअों खेलन होरी ।

यहाँ गोपियों ने गोविन्द के साथ होली खेल कर खूब मनमानी की ! कपोलों से गुलाल मल दिया तथा उनका पीताम्बर छीन लिया, और अन्त में वे विदा देते हुए अँखें नचाकर मुस्कराती हुई बोलीं—अच्छा लला, ज़रा फिर होली खेलने आना !

उपर्युक्त भाव, हाव और हेला तीनों अङ्गज अलंकार उत्तरोत्तर एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं—अर्थात् भाव से हाव और हाव से हेला की उत्पत्ति मानी गई है ।

अयत्नज अलंकार-वर्णन

शोभा

रूप, यौवन, लालित्य, सुखभोग आदि से सम्पन्न शरीर की सुन्दरता को 'शोभा' कहते हैं । शोभा-सम्पन्न शरीर विना आभूषणों के भी सुन्दर प्रतीत होता है ।

शोभा के उदाहरण में हरिऔधजी के नीचे लिखे दोहे कैसे सुन्दर हैं—

छुन छुन नवता लहत है छुवि छुलकति अबदात ।

चन्द सरिस सुन्दर बदन मृदुल सलौनो गात ॥

×

×

×

तिल बनि जाति तिलोत्तमा काम कामिनी छाम ।

है ललाम ताको निलय ललना रूप ललाम ॥

उपर्युक्त दोहों में तारुण्य-जनित शोभा का कैसा अच्छा वर्णन किया गया है । इसी सम्बन्ध में, अब ज़रा किसी संस्कृत के कवि की कल्पना भी देखिए—

उस सुन्दरी की आँखें खञ्जन पत्नी को परास्त करने वाली हैं। दोनों कोमल कर कमलों से प्रतियोगिता कर रहे हैं। स्तन करि-कुम्भ की भाँति अत्यन्त उन्नत हो रहे हैं, उसके देह की कान्ति सुवर्ण और चम्पा के फूल की तरह है, तथा मधुर वाणी सुधा-रस बरसाने वाली है। उसके कटाक्षों की छटा विकसित कमल-पुष्पों की माला के समान सुशोभित है।

दीप्ति

अत्यधिक मात्रा में बढी हुई कान्ति को ही 'दीप्ति' कहते हैं, यथा—

दीपावलि तन दुति निरखि दबकी सी दिखराति ।

विविध जोति उजरी फिरति जरी बीजुरी जाति ॥

× × ×

विलसत यौवन में अहै वाको भाव अनूप ।

लोक विकासक काम को दुति है विकसित रूप ॥

सुन्दरी की तन-द्युति देखकर दीपावली छिपी जाती है, और बिजली जलने लगी है।

× × × ×

सुन्दरी की द्युति को लोक-विकासक काम का विकसित रूप समझना चाहिये।

दीप्ति के सम्बन्ध में कविराज विश्वनाथ का भी निम्नलिखित उदाहरण पढ़ने योग्य है—

तारुण्यस्य विलासः समधिक लावण्य सम्पदो हासः ।

धरणीतलस्थाभरणं युवजन-मनसो वशीकरणम् ॥

वाह ! चन्द्रकला तो मानो यौवन का विलास तथा बढी हुई लावण्य-सम्पत्ति का मधुर हास है। इतना ही क्यों, यदि उसे पृथिवी का आभूषण और नवयुवकों के मन को आकृष्ट करने वाला वशीकरण मन्त्र कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी।

माधुर्य

प्रत्येक दशा मे रमणीय होना ही 'माधुर्य' कहाता है ।

माधुर्य के उदाहरण में आगे लिखे गए दोहे कितने सुन्दर हैं, देखिए—

अधर पान की पीक तें अधिक ललाम लखात ।

मिसी मले नवला दसन नव नीलम बनि जात ॥

× × ×

तिरछे चलि लहि बंकता करि चंचलता मान ।

अधिक मधुमयी बनति हैं ललना की अखियान ॥

मिस्सी मलने से नवला के दाँत 'नव नीलम' की पंक्ति के समान दमक रहे हैं ।

× × ×

तिरछी चितवन से तो ललना की सहज आकर्षक आँखे और भी अधिक मदमाती बन गई हैं ।

माधुर्य के उदाहरण में संस्कृत के किसी कवि का निम्नलिखित पद्य भी पढ़ने योग्य है—

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं,

मलिनमपि हिमाशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।

इयमधिक मनोशा वल्कलेनापि तन्वी,

किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम ॥

राजा वल्कल-धारिणी तपस्विनी शकुन्तला को देख कर कहते हैं—
अहा ! सिवार से लिपटा हुआ भी कमल (इसका शरीर) कैसा अच्छा मालूम देता है । चन्द्रमा मे काला चिन्ह भी उसकी शोभा बढ़ाता है । सच है, सब ही चीजों से मधुर आकृतियों की छवि बढ़ने लगती है ।

प्रगल्भता

रति-क्रिया में निर्भय होने का नाम 'प्रगल्भता' है । इसमें रमणियाँ

आलिंगनादि के बदले में, स्वयं भी उन्हीं व्यापारों को करके प्रियतम को दास बना लेती हैं ।

उदाहरण देखिए—

सौंभहिते रति की गति जेतिक कोक के आसन जे गिरा गावति ।
वारिज नैननि बारहिबार न चूमिवे के मिस मोर छुपावति ।
केलि कला के तरगन सों हृदि मोहनलाल कों ज्यौं ललचावति ।
अक में बीति गई रतियाँ हैं तऊ छतियाँ हिय छोड़ि न भावति ।

×

×

×

दोऊ आलिंगन करहिं दोऊ करहिं कलोल ।

पिय कौ तिय तिय कौ पिया चूमत अधर कपोल ।

उपर्युक्त पक्तियों में निर्भय होकर रति करने का वर्णन है ।

औदार्य

प्रत्येक दशा में विनीत रहने को 'औदार्य' कहते हैं, यथा—

मधुर बोलि सनमान करि सब को हित उर धारि ।

करति सदन कों सुर-सदन सुर-ललना-सी नारि ।

° सब की शुभ कामना करती हुई, देव-तिया-सी ललना, मीठी बोली बोल कर अपने घर को 'सुर-सदन' के समान बना देती है ।

औदार्य के सम्बन्ध में नीचे लिखा श्लोक भी कैसा सुन्दर है—

न ब्रूते परुषं गिरं वितनुते न भ्रूयुगं भङ्गुरं,

नोत्सं क्षिपति क्षितौ श्रवणतः सामे स्फुटेऽप्यागसि ।

कान्ता गर्भं गृहे गवान्-विवर व्यापारिताच्या बहिः,

सख्या वक्तृमभिप्रयच्छति परं पर्यश्रुणी लोचने ॥

मेरा स्पष्ट अपराध होने पर भी, वह कामिनी कठोर शब्द नहीं कहती, न भौंहें चढ़ाती है और न क्रोध के कारण आभूषणों को उतार-उतार कर फेंकती है । हाँ, वह भरोखों में होकर सजल नेत्रों से अपनी सखी की ओर ताकने अवश्य लगती है ।

धैर्य

आत्मश्लाघा से युक्त अचञ्चल स्वाभाविक मनोवृत्ति का नाम 'धैर्य' है ।

धैर्य के सम्बन्ध में तोष कवि का नीचे लिखा सवैया देखिए—
कुल के डर सों, परलोक सों लोक सों हौं न डरौं बु डरौ सुडरौ ।
कवि 'तोष' कहै मनमोहन सों वह मो मन मूढ डरौ सु डरौ ।
मोहि देखि जरौ सो जरौ जग में औ, मरौसों मरौ औ लरौ सो लरौ ।
करि कौल करार टरौं न कबौं करि कौल करार टरौ सो टरौ ।

नायिका को न कुल-कानि का डर है और न लोक-लाज का । वह अपने 'कौल' पर बड़ी दृढता में डटी हुई है । इसी अचञ्चल मनोवृत्ति का नाम धैर्य है ।

और भी उदाहरण देखिए—

नव प्रसून नावक बने पावक मलय समीर ।

परम धीर अनुरागिनी है है नाहिं अधीर ॥

भले ही नव विकसित प्रसून प्राण-धातक बन जायें, और मन्द मलय-समीर प्रचण्ड पावक का रूप धारण करले; पर अनुरागिनी कदापि धैर्य न छोड़ेगी ।

पिय मुख चन्द्र चकोरिका जोहै पंथ निहारि ।

सुधा बिन्दु होवे गरल बरसै इन्दु अँगार ॥

सुधा चाहे अपना स्वभाव छोड़ कर विषम विष-बिन्दु बन जाय, इसी तरह सुधाकर भी चाहे अँगारे बरसाने लगे—अपने कर्त्तव्य से विचलित हो स्वभाव के प्रतिकूल कार्य करने लगे, परन्तु परम धीरा अनुरागिणी नायिका प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में उसकी बाट जोहती रहेगी ।

इसी प्रसंग में संस्कृत का भी नीचे लिखा उदाहरण देखने लायक है—

ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्ड-कलः शशी,
दहतु मदनः किंवा मृत्योः परेण विधास्यति ?

मम तु दयितः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया ।
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो नच जीवितम् ॥

काम पीड़िता विरहिणी कहती है,—चन्द्रमा रोज़ रात्रि को अंगारे बरसावे—चिन्ता नहीं, कामदेव जितना भी जला सके, जलाता रहे, वह आग्निर मार ही तो डालेगा, इससे अधिक तो कुछ नहीं कर सकता । इस अस्थिर शरीर और प्राणों के लिए मैं अपने पति के और पिता के पवित्र कुलों को कलकित न करूँगी अर्थात् पतिव्रत धर्म से विचलित न होऊँगी । कितना उच्च आदर्श है, धर्म में कितनी अटल दृढ़ता है । शास्त्रों में कहा भी है—

न जातु कामान्न भयान्न लोभात्-
धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।
धर्मो नित्यो जीवित चाप्यनित्यं,
देहोऽनित्यो हेतुरस्याप्यनित्यः ॥

स्वाभाविक अलङ्कार-वर्णन

लीला

अत्यन्त अनुराग के कारण, अंग, वेश, अलंकार और प्रेम-भरे वचनों द्वारा नायक-नायिका के परस्पर अनुकरण करने को 'लीला' कहते हैं । इसमें प्रायः नायक-नायिका दोनों अनुरागवश होकर एक साथ ही, एक दूसरे की वेश-भूषा धारण कर परस्पर प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं ।

लीला के उदाहरण में भुवनेशजी का निम्नलिखित सवैया देखिए—
रूप रच्यौ हरि राधिका को उनहूँ हरि रूप रच्यौ छवि छावत ।
गावत तान तरंग दुहूँ दुहूँ भाव बताय दुहूँन रिभावत ।
त्यौँ 'भुवनेश' दुहूँन के नैन दुहूँन के आनन पै टक लावत ।
छाह रही छवि बैसई री सुनी जो हुती चन्द चकोर कहावत ।

भाव स्पष्ट ही है । इसी सम्बन्ध में देवजी का भी सवैया नीचे दिया जाता है, उसे भी पढ़ लीजिये । ७

कालि भट्ट बनसीवट के तट खेल बड़ो इक राधिका कीन्हो ।
साँझ निकुञ्जनि माँझ बजायो, जु स्याम को बेनु चुराह के लीन्हो ।
दूर ते दौरत 'देव' गए सुनि कै धुनि रोस महा चित चीन्हो ।
संग की औरै उठीँ हँसि कै, तब हेरि हरै हरिजू हँसि दीन्हो ।

हे सखी, कल राधिका ने बड़ा तमाशा किया । उसने मोहन की बॉसुरी चुरा ली, और वंशीवट जाकर वह उसे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बजाने लगी । वंशी की धुन सुनते ही कृष्ण भी कुंजों में दौड़ आए । उन्हें देख सब गोपियाँ हँस पड़ीं ! यह कौतुक देख कन्हैयाजी भी मुस्कराने लगे !

लीला के उदाहरण में मतिरामजी का भी नीचे लिखा सबैया बड़ा सुन्दर है—

प्यार पगी पगरी पियकी घर भीतर आपन शीश सँवारी ।
एते मे आँगन ते उठिकै तहँ आय गयो 'मतिराम' बिहारी ।
देखि उतारन लागी प्रिया, प्रिय सौँहन सों बहुरयो न उतारी ।
नैननि बाल लजाय रही मुसक्याइ लई उर लाइ पियारी ।

पति ने पत्नी को मर्दाना वेश बनाते देख लिया, इससे सारा मज़ा मिट्टी में मिल गया । पत्नी पगड़ी-वगड़ी उतार फेंकने को उद्यत होगई, परन्तु पति ने शपथ दिलाकर उसे ऐसा न करने दिया । इस पर पत्नी ने शर्म से आँखे नीची कर लीं ! इस प्रकार प्राणप्रिया को लज्जित देखकर पतिदेव ने मुस्कराते हुए उसे हृदय में लगा लिया ।

इसी प्रसंग में संस्कृत का भी एक उदाहरण देखिए—

मृणाल व्याल वलया वैणी बन्ध कपर्दिनी ।
हरानुकारिणी पातु लीलया पार्वती जगत् ॥

कमल-नाल के नकली सर्प को ककण की जगह में धारण किए, और वैणी (केश-पाश) का जटा-जूट बनाकर शङ्कर का स्वाँग भरने वाली पार्वती जगत् की रक्षा करे ।

विलास

सयोग-समय में बैठने, उठने, चलने आदि की विशेषता तथा मुख-नेत्र आदि की कटाक्ष आदि चमत्कारपूर्ण विलक्षण चेष्टाओं को विलास' कहते हैं। इसमें कुछ विचित्र चेष्टाओं से युक्त; स्वेद, रोमाञ्च आदि सात्विक विकारों से पूर्ण, धैर्य रहित, लोकोत्तर काम-कौशल प्रकट होता रहता है।

विलास के उदाहरण में कविवर बेनी प्रवीनजी लिखते हैं—

आछे उरोज लची सी परै कटि मत्त गयन्दनि की गति डोलनि ।
रूप अनूपम आनँद सों अलि पीतम मोल लिए बिन मोलनि ।
को बरनै कवि 'बैनी प्रवीन' रही छवि त्यों फवि गोल कपोलनि ।
पैनि चितौनि रसीले विलोचन, मंद हँसी मृदु माधुरी बोलनि ।

उपर्युक्त पद्य का भाव स्पष्ट है। इसी प्रसंग में पद्माकरजी का सवैया भी पढ़ लीजिए—

आई है खेलन फाग इहाँ वृषभान पुरा ते सखी संग लीन्हे ।
त्यों 'पदमाकर' गावती गीत रिभावती भाय बताय नवीने ।
कञ्चन की पिचकी कर में लिये केसरि के रँग सों अँग भीने ।
छोटी सी छाती छुटी अलके अति वैस की छोटी बड़ी परवीने ।

×

×

×

देखिए मतिरामजी विलास के उदाहरण में क्या कहते हैं—

किंकिनि कलित कल नूपुर ललित रव,
गौन तेरो देखि कै सकति करि गौन को ।
मृदु मुसक्यानि मुखचन्द चाँदनी सों राखि,
कै उज्यारो घाम नाम राम हारा भौन को ।
सहज सुभावन सों मोहन के भावन सों,
हरति है कवि 'मतिराम' मन रौन को ।

रूप मद छुकी अति छवि सों छबीली देति,
तिरछी चितौनि मैंन बरछी सी कौन को ।

× × ×
विलास के उदाहरण में नीचे लिखा दोहा भी पढ़ने योग्य है—
तेरी चलति चितौनि मृदु मधुर मन्द मुसक्यानि ।
छाय रही लखि लाल की रखियन मिस अखियानि ॥
× × ×

विच्छित्ति

सौन्दर्य को बढ़ाने वाले थोड़े-से भी शृंगार का नाम 'विच्छित्ति' है । एक प्रकार से विच्छित्ति को कला-पूर्ण सुधरी हुई सादगी का रूप समझना चाहिए । सच्चे सौन्दर्य के लिये विशेष बनावट-सजावट की आवश्यकता नहीं होती । किसी ने ठीक ही कहा है—“ नहीं दरकार ज़ेवर की जिसे खूबी खुदा ने दी ।” वास्तविक सौन्दर्य तो थोड़ा साफ़-सुथरा रहने, या नाममात्र को कुछ शृङ्गार कर लेने से ही दमक उठता है । परन्तु जहाँ सौन्दर्य नहीं होता, वहाँ कितना ही शृंगार क्यों न कीजिए कुछ भी सुहावनापन नहीं दिखाई देता ।

पद्माकरजी ने विच्छित्ति का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है, देखिए—

मानो मयकहि के परियक निशंक लसै सुत बंक मही को ।
त्यौं 'पदमाकर' जागि रह्यो जनु भाग हिये अनुराग जु पीको ।
भूषण भार सिंगारन सों सजी सौतिन कौ जु करै मुख फीको ।
जोति को जाल विसाल महा तिय भाल पै लाल गुलाल को टीको ।

यहाँ भाल के लाल टीके मात्र ने भूषणों के भार से लदी हुई सपत्नियों के मुँह फीके कर दिये हैं ।

नीचे लिखा सवैया भी विच्छित्ति का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है, देखिए—

प्यारी की ढोड़ी को बिन्दु 'दिनेस' किधौँ बिसराम गोविन्द के जी कौ ।
चार चुम्ब्यौ कनिका मनि नील को कैधौँ जमाव जम्यो रजनी कौ ।
कैधौँ अनंग सिगार को रंग लिख्यो वर मन्त्र बसीकर पीकौ ।
फूले सरोज में भौँरी बसी किधौँ फूल ससी में लग्यौ अरसी कौ ।

यहाँ ढोड़ी की काली बूँद ने वही काम कर दिखाया, जो ऊपर के सवैये मे गुलाल के टीके ने किया है । अर्थात् इस ज़रासी काली बूँद ने ही नायिका की सुन्दरता मे चार चाँद लगा दिए हैं ।

विच्छित्ति के सम्बन्ध मे मतिरामजी का भी उदाहरण देख लीजिए । उनकी नायिका को लाल टीके या काले तिल की ज़रूरत नहीं । उसने तो सफ़ेद साड़ी धारण करके ही श्याम पर अपना रंग जमा लिया है । यद्यपि यह बात निश्चित है, कि काले रंग पर कोई रंग नहीं चढता, परन्तु मतिरामजी ने अपने कौशल से नायिका की श्वेत साड़ी का रंग श्याम (कृष्ण) पर चढ़ा दिया है । खूब !

वारने सकल एक रोरी ही की आड़ पर,
हा-हा न पहरि आभरन और अंग मे ।
कवि 'मतिराम' जैसे तीछन कटाच्छ तेरे,
ऐसे कहा सर है अनंग के निषग मे ॥
सहज सरूप सुघराई रीभो मनु मेरो,
लुभि रह्यौ रूप अदभुत की तरंग में ।
स्वेत सारी ही सों सब सों तो रँग्यौ स्याम रग,
स्वेत सारी ही में स्याम रंग लाल रंग में ।

×

×

×

अब विच्छित्ति के सम्बन्ध में संस्कृत के महाकवि माघ का उदाहरण भी देख लीजिए—

स्वच्छाम्भः स्नपन विधौतमङ्गमोष्ठ—

स्ताम्बूल द्युति विशदो विलसिनीनाम् ।

वासस्तु प्रतनु विविक्तमस्त्वित्यान्—

आकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शून्यः ॥

विलासवती रमणियों के लिये शृङ्गार की आवश्यकता नहीं। उनके लिये निर्मल जल से स्नान करना, पान खाकर ओठों को रचा लेना और स्वच्छ एव सादे वस्त्र पहन लेना ही पर्याप्त है। वशतें कि यह थोड़ी-सी वेश-रचना कामोत्तेजक शक्ति से शून्य न हो !

विव्वोक

अत्यन्त गर्व के कारण संयोग-काल में, प्रिय या इष्ट वस्तु के अन्यादर करने का नाम विव्वोक है। इस निरादर में प्रेम की ही प्रधानता रहती है। इसमें मन में निरादर वस्तु या व्यक्ति के गुणों पर मुग्ध रहते हुए भी वाणी द्वारा केवल उसके दोष ही बताए जाते हैं। अत्यन्त अभिमत वस्तुओं के लिये भी स्वीकृति व्यञ्जक निषेध ही किया जाता है। अर्थात् अभिलषित वस्तु को सीधी तरह स्वीकार न कर निषेध पूर्वक ही स्वीकार किया जाता है।

विव्वोक के उदाहरण में मतिरामजी का सबैया देखिए—

मानहुँ आये है राज कहूँ चढ़ि बैठ्यो है ऐसे पलास के खोडे ।
गुज गये सिर मोरपखा ' मतिराम ' हू गाय चरावत छोडे ।
मोतिन को मेरे हार गहे अरु हाथनि सों रही चूनरि ओडे ।
ऐसे ही डोलत छैल भये तुम्हें लाज न आवति कामरि ओडे ।

छैल तो बनते हो, परन्तु कम्मल ओडे फिरते हो, भले आदमी तुम्हें शर्म नहीं आती !! कैसी मीठी भर्त्सना है।

विव्वोक के उदाहरण में तोषनिधिजी का भी कवित्त देखिए—

ए अहीर वारे तोसों जोरि कर कोरि कोरि,

विनय सुनावों बलि बॉसुरी बजावै जनि ।

बाँसुरी बजावै तो बजाउ मो बलाय जुने,

बड़ी बड़ी आँखिन ते एक टक लावै जनि ।

लावे है तो लाव टक तोष' मो सों कहा काम,
परिनाम दौरि दौरि मेरी पौरि आवै जनि ।
आवै है तो आव हम आइवो कबूलो पर,
मेरे गोरे गात में असित गात छ्वावै जनि ।

अरे अहीर वाले, तू बाँसुरी मत बजा । अच्छा, बाँसुरी बजाना नहीं छोड़ता तो मत छोड़, मगर मेरी ओर इन बड़े-बड़े दीदों से घूरता क्यों है ? घूरता है, तो घूराकर ! इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, परन्तु तैने मेरी देहरी की धूल क्यों ले रक्खी है । अगर मेरे दरवाजे पर आना भी नहीं छोड़ता तो मत छोड़, मगर खबरदार ! अपना काला हाथ मेरी गोरी देह से मत लगाना । इस बात को तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती ।

यहाँ पर बाँसुरी मत बजाओ, टकटकी बोंध कर मेरी ओर मत देखो, दौड़-दौड़ कर बार-बार मेरे घर मत आओ और मेरे गोरे शरीर से अपनी काली देह मत छुआओ, इन सभी निषेधों में विधि की व्यञ्जना है । अर्थात् इस नहीं-नहीं के रूप में गोपी कहती है कि ये सब काम करो और बार-बार करो ।

और भी देखिये—

फूलन की माल मो सों कहत मुलाम ऐसी,
फूलन की माल मेलि राखत न क्यों गरे ।
मेरे डग रोज ही बतावत सरोज ऐसे,
लै लै कै सरोज रोज मन में न क्यों भरें ।
हों तो री न जैहौ आजु बनमाली पास वोई,
पिय आय पास पाय इतको न क्यों धरें ।
मेरो मुख चन्द-सौ बतावे ब्रजचन्द रोज,
कहौ ब्रजचन्द जू सों चन्द देखिवो करें ।

गोपिका कहती है—ब्रजचन्द्र से कह देना, वह मेरा मुख चन्द्रमा-सा बताया करते हैं, यदि ऐसी बात है, तो वह चन्द्रमा को ही क्यों नहीं

देखते रहते । इधर-उधर से ताक-भाँक कर मेरे आनन पर क्यों दृष्टि डाला करते हैं ।

यहाँ भी नायिका मन में तो मनमोहन की ताक-भाँक से प्रसन्न होती है, वह जो उसे फूल-माला के समान मृदु और उसके नेत्रों को कमल के समान सुन्दर बताते हैं, इससे उसके हृदय में गुदगुदी उत्पन्न होती है, परन्तु ऊपर से दिखाने के लिये वह रूखी-रूखी बातें सुनाती हैं ।

अब इस प्रसंग में रसखानजी की उक्ति भी सुन लीजिये—

दानी भए नए माँगत दान हौ, जानि हैं कस तौ बंधन जैहौ ।

टूटे छुरा बछुरादिक गोधन जो घन है सो सबै घन दैहौ ।

रोकत हौ बन मे 'रसखानि' चलावत हाथ घनो दुख पै हौ ।

जैहै जो भूषन काहू तिया को तो मोल छला के लला न बिकैहौ ।

हे गोपाल, यह जो रास्ते में रोककर तुम गोपियों से छेड़-छाड़ करते हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा । जानते हो, अगर किसी गोपी का कोई भूषण टूट गया या जाता रहा तो उसकी मारी जिम्मेदारी तुम्हीं पर होगी । उसका मूल्य कहाँ से दोगे ? तुम यदि स्वयं विक्रय भी मूल्य चुकाना चाहोगे तो तुम्हारी कीमत तो गोपी के एक छल्ले के बराबर भी न होगी !

किलकिञ्चित

प्रिय-समागम से उत्पन्न हुई प्रसन्नता के कारण कुछ मुस्कराने, झूठ मूठ रोने, हँसने, भय, त्रास, क्रोध, श्रम आदि के आशिक मिश्रण को किलकिञ्चित कहते हैं । इसमें नायिका मधुर मुस्कराहट के साथ, प्रिय को झिड़की देती है और सुख होने पर भी बनावटी रोना रोने लगती है ।

उदाहरण देखिये—

वह साँकरी कुञ्ज की खोरि अचानक राधिका माधव भेट भई ।

सुसक्यानि भली अँचरा की अली त्रिवली की वली पर दीठि गई ।

भहराइ भुकाइ रिसाइ 'ममारख' बाँसुरियाँ हँसि छीनि लई ।

भूकुटी मटकाइ गुपाल के गाल में आँगुरी ग्वालि गड़ाइ दई ।

प्रेम-पूर्ण क्रोध के कारण ग्वालिन का मुस्कराकर वंशी छीन लेना और गोपाल के गाल में उँगली गड़ा देना किलकिञ्चित है ।

किलकिञ्चित के उदाहरण में मतिरामजी का सवैया कितना सुन्दर है, देखिये—

लालन बाल के द्वै ही दिना में परी मन आइ सनेह की फाँसी ।
काम कलोलनि में ' मतिराम ' लगी मनोँ बाँटन मोद की आसी ।
पीतम के उर बीज भयो दुलही के विलास मनोज की गाँसी ।
स्वेद बढ़्यौ तन कम्प उरोजनि आँखिन आँसू कपोलनि हाँसी ।

लाल के प्रेमातिरेक के कारण ललना के कपोलों से तो मुस्कराहट भलक रही है, परन्तु आँखों से आँसू निकल रहे हैं । अर्थात् हृदय में तो वह प्रसन्न है, परन्तु प्रकट में क्रोध सा दिखा रही है ।

निम्नलिखित दोहे भी किलकिञ्चित के सुन्दर उदाहरण हैं—

कहति । नटति रीभृति खिभृति मिलति खिलति लजि जात ।
भरे भौन मे करत है नैनन ही सों बात ॥

× × ×

चढ़त भौंह धरकत हियो हरषत मुख मुसिक्यात ।
मद छाकी तिय को जु पिय छवि छकि परसत गात ।

× × ×

इसी प्रसंग में संस्कृत का उदाहरण भी देख लीजिये—

पाणि रोधमविरोधित वाञ्छ्छ,
भर्त्सनाश्च मधुरस्मित-गर्भाः ।
कामिनःस्म कुरुते करभोर—
ह्रीरि शुष्क रुदितञ्च सुखेऽपि ॥

सुन्दरी सुख-समय में भी पति को मधुर मुस्कराहट पूर्वक भिड़कती और सूखा-बनावटी रोना रोती है ।

विभ्रम

प्रिय-आगमन आदि के समय, प्रेम और प्रसन्नता के कारण, जल्दी-जल्दी घबराहट में क्रिया और अलङ्कार-धारण में विपर्यय कर डालने— अर्थात् किसी अलङ्कार की जगह कोई अलङ्कार, या किसी वस्त्र के स्थान में कोई वस्त्र धारण कर लेने एवं कुछ करने के बदले कुछ करने लगने का नाम 'विभ्रम' है। इससे प्रिय के प्रति प्रेम-विह्वलता के कारण उता-वलापन प्रकट होता है।

विभ्रम के उदाहरण में मतिरामजी क्या कहते हैं, सुनिये—

मकल सहेलिन के पीछे पीछे डोलति है,

मन्द मन्द गौन आजु आप ही करतु है।

सनमुख पिय मुख होत 'मतिराम' जवै,

पौन लागे धूँधट को पट उघरतु है।

यमुना के तट बसीबट के निकटनन्द-

लाल पै सकोचनि ते चाह्यौ न परतु है।

तन तो तिया को वर भाँवरें भरतु मन—

साँवरे बदन पर भाँवरें भरतु है।

×

×

×

सोँझि ते चली आवत जात जहाँ तहाँ लोगनि हूँ न डरौगी।

पीतम सोँ रति ही यह रूप हैं घोये कहाँ अब अडक भरौगी।

जानति हौ 'मतिराम' तऊ चतुराई को बात न हीय धरौगी।

किंकिनि के उर हार किये तुम कौन सोँ जाय बिहार करौगी।

कोधनी को हार की जगह धारण कर तुम किससे विहार करने जा रही हो? क्या सचमुच तुम्हारी अन्नल मारी गई है।

देवजी का भी नीचे लिखा सवैया विभ्रम का कैसा मजीब उदाहरण है, देखिये—

स्याम सों केलि करी सिगरी निसि सोवत प्रात उठी थहराय कै ।
आपने चीर के घोखे बधू पहिरो पट पीत भट्टू भहराय कै ।
बाँधि लई कटि सों बनमाल न किंकिनी बाल लई ठहराय कै ।
राधिका की रस रंग की दीपति संग की हेरि हँसी हहराय कै ।

केलि के पश्चात् राधिकाजी ने अपने वस्त्र पहनने के बदले कृष्ण का पीताम्बर धारण कर लिया । उनकी बनमाला कमर में बाँध ली और अपनी कौंधनी (किंकिणी) वहीं छोड़ दी । यह देख सखियाँ ठहाका मार कर हँस पड़ीं !

संस्कृत के रीति ग्रन्थकारों ने इस प्रसंग में नीचे लिखा उदाहरण दिया है ।

श्रुत्वाऽऽयान्त बहि कान्तमसमाप्तविभूषया ।
भालेऽञ्जन दशोर्लाक्षा कपोले तिलकः कृतः ॥

प्रिय का आगमन सुन शृङ्गार करती हुई नायिका ने व्यग्रता के कारण मस्तक में कुकुम-बिन्दु की जगह काजल लगा लिया और जो लाक्षा-राग ओष्ठों पर लगाना चाहिए था, वह आँखों में आज लिया । इसी प्रकार मस्तक में लगाने का कुकुम-बिन्दु कपोलों पर लगा लिया । विभ्रम का कैसा सुन्दर चित्र खींचा है ।

ललित

संयोग समय में सरस शृङ्गार द्वारा सम्पूर्ण अङ्गों को सजाए रखना, तथा उन की (अंगों की) क्रिया में सुकुमारता और चञ्चलता पैदा कर देना 'ललित' कहाता है । इस भाव द्वारा बोलने, चलने, देखने, मुस्कराने आदि में सुन्दरता उत्पन्न की जाती है ।

ललित के सम्बन्ध में पद्माकरजी का उदाहरण देखिये—

सजि ब्रजचन्द पै चली यों मुख चन्द जाको,
चन्द चाँदनी को मुख मन्द सो करत जात ।

कहै ' पदमाकर ' त्यों सहज सुगन्ध ही के,
पुंज बन कुजन मे कंज से भरत जात ।
घरत जहाँ ही जहाँ पग है पियारी तहाँ,
मंजुल मजीठ ही के माठ से ढरत जात ।
बारन ते हीरा सेत सारी की किनारिन ते
हारन ते मुकता हजारन भरत जात ।

उपर्युक्त कवित्त मे अगों की सजावट और सुकुमार सौन्दर्य का वर्णन है । × × × नायिका जहाँ जहाँ चलती है, वहाँ-वहाँ पगों की लाली से ज़मीन लाल हो जाती है । उसके बालों से मानों हीरा और हारों से हज़ारों मोती झड़ते जाते हैं । यही ललित है ।

इसी आशय का नीचे लिखा मतिरामजी का सवैया भी पढ़ लीजिये—

मन्द गयन्द की चाल चलै कटि किंकिनि नूपुर की धुनि बाजै ।
मोती के हारनि सों हियरा हरिजू के विलास हुलासनि साजै ।
सारी सुही 'मतिराम' लसै मुख संग किनारी की यों छवि छाजै ।
पूरन चन्द पियूख मयूख मनो परिवेख की रेख विराजे ।

शङ्करजी का निम्नलिखित कवित्त भी ललित का क्या ही ललित उदाहरण है । देखिये—

मगल करन हारे मंगल चरन चारु,
मंगल से मान मही-गोद मे घरत जात ।
पंकज की पॉखुरी-सी अँगुरी अँगूठन की,
जाया पचवानजी की भाँवरी भरत जात ।
'शंकर' निरख नख नग-से नखत सेनी,
अम्बरसों छूटि-छूटि पायन परत जात ।
चाँदनी मे चाँदनी के फूलन की चाँदनी पै,
हौलै-हौलै हंसन की हाँसी-सी करत जात ।

चलते समय भूमि पर पड़ते हुए नायिका के अरुण वर्ण चार चरण ऐसे जान पड़ते हैं, मानों वह महीसुत-मंगल को (मंगल ग्रह का लाल वर्ण होता है, और वह पृथिवी का पुत्र माना जाता है) मही की गोद में रखती जा रही है । वाह ! क्या अनूठी सूरत है !

साहित्यदर्पण में ललित का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है—

गुरुतर कल नूपुरानुनादं,
सुललित वतित वाम पाद पद्मा ।
इतरदनति लोलमादधना,
पदमथ मन्मथ मन्थरं जगाम ॥

नूपुर की मधुर ध्वनि करती, सुकुमारता से बाँए पैर को नचाती और दूसरे को भी धीरे से रखती हुई वह हँसगामिनी कामिनी मन्द-मन्द गति से गई ।

मोह्यायित

प्रियतम के रूप, गुण, कर्म, स्वभावादि की चर्चा अथवा प्रशंसा सुनने में अनुरागपूर्वक दत्तचित्त होने पर भी बनावटी अन्यमनस्कता प्रकट करने का नाम 'मोह्यायित' है ।

रसतरंगिणीकार ने, कोई दूसरा न जान सके ऐसे ढग से बार-बार प्रियदर्शन की स्पृहा को 'मोह्यायित' कहा है ।

साहित्यदर्पण में प्रियतम की कथा आदि सुनने में अनुराग से व्याप्त-चित्त होने पर भी कामिनी के कान खुजाने आदि की चेष्टा द्वारा असली भाव छिपाने को मोह्यायित संज्ञा दी है ।

मोह्यायित के उदाहरण में पद्माकरजी का निम्नलिखित सबैया देखिये—

रूप दुहूँ को दुहून सुन्यौ सु रहैं तबते मनो संग सदा हीं ।
ध्यान मे दोऊ दुहून लखें हरषे अँग अग अनंग उछाहीं ।
मोहि रहे कब के यों दुहूँ 'पदमाकर' और कछू सुधि नाहीं ।
मोहन को मन मोहिनी में बस्यौ मोहिनी को मन मोहन माहीं ।

दोनों परस्पर एक दूसरे के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध हैं। मोहन के हृदय में मोहिनी बस गई है और मोहिनी के हृदय में मोहन ने डेरा डाल दिया है।

इसी का संस्कृत का उदाहरण भी देख लीजिये—

सुभग ! त्वत्कथारम्भे कर्णकण्डूति लालसा ।

उञ्जृम्भ वदनाम्भोज भिनत्यङ्गानि साङ्गना ॥

हे सुन्दर, तुम्हारी बात छिड़ने पर वह कामिनी कान खुजाने लगती है, और जम्हाई तथा अगड़ाई लेती हुई अपनी उगलियों चटकाने लगती है। (यह उदाहरण साहित्यदर्पणकार ने अपने लक्ष्यानुसार दिया है)

कुट्टमित

प्रियतम द्वारा केश, स्तन, अघर आदि का स्पर्श किये जाने पर हृदय में प्रसन्न होते हुए भी ऊपर से बनावटी धवराहट या अनिच्छा के साथ हाथ, शिर, नेत्रादि अंगों के विशेष ढंग से चलाने अथवा सीत्कार करने को कुट्टमित कहते हैं। इस प्रकार का नकली रोष-प्रदर्शन प्रायः प्रेम या रति की वृद्धि के लिये किया जाता है।

दास कवि ने कुट्टमित के सम्बन्ध में कैसा सुन्दर सवैया लिखा है, देखिये—

मोहि न देखो अकेलिय 'दासजू' घाट हू बाट हू लोग भरै सो ।

बोली उठोगी वरे ते लै नाउँ तो लागि है आपुनो दाँव अनैसो ।

कान्ह कुबानि सभारे रहो निज, वैसी न है तुम जानत जैसो ।

आओ इतै करौ लैन दही को, चलैवो कहुँ को कहुँ कर कैसो ।

मोहन तुम मुझे जैसी समझते हो, मैं वैसी नहीं हूँ। तुम दही लेने आए हो, या कहीं का हाथ कहीं चलाने। ज़रा होश में रहो, नहीं तो मैं ज़ोर से नाम लेकर चिल्ला उठूँगी।

कविवर मतिरामजी का भी नीचे लिखा कवित्त पढ़ने लायक है—

सोने की सी बेली अति सुन्दर नवेली बाल,

ठाढ़ी ही अवेली अलबेली द्वार महियों।

‘मतिराम’ आँखिन सुधा की बरसा सी भई
गई जब दीठि वाके मुखचन्द पहियाँ ।
नैकु नेरे जाय करि बातन लगाय करि,
कछु मन पाय हरि आय गहीं बहियाँ ।
सैननि चरचि लई, गातनि थकित भई,
नैननि मे चाह करै बैननि मे नहियाँ ।

मोहन ने बातों ही बातों में अलबेली बाला की बाहें पकड़ लीं। ऐसा करने से वह गोपी मन में तो बड़ी खुश हुई, परन्तु मुँह से भूँठमूठ नहीं- नहीं करती रही ।

निम्नलिखित दोहे भी कुट्टमित के बड़े सुन्दर उदाहरण हैं—

कर ऐँचत आवति ईँची तिय आपुहि पिय ओर ।

भूँठहि रुसि रहै छिनक, छुवत छुरा को छोर ॥

×

×

×

पीतम को मनभावती मिलत प्रेम उत्कण्ठ ।

बाँहीं छुटै न कण्ठ ते नाहीं छुटै न कण्ठ ॥

गले से बाँह भी नहीं छूटती और कण्ठ से ‘नाहीं-नाहीं’ निकलना भी बन्द नहीं होता । खूब !

नीचे संस्कृत का भी एक उदाहरण दिया जाता है—

पल्लवोपमिति साम्य सपत्नं दष्टवत्यधरविम्बमभीष्टे ।

पर्यकूजि सरुजेव तरुयास्तार लोलबलयेन करेण ॥

कान्त द्वारा कान्ता का अधर-पल्लव दँष्ट होने पर उसका क्लृप्त-कङ्कणादि युक्त पाणिपल्लव मानो पीड़ा से झनझना उठा। अभिप्राय यह कि अधरोष्ठ दर्शन किये जाने पर तरुणी हाथ से प्रियतम को हटाने लगी। इस क्रिया में धारण किये हुए ककण आदि आभूषण बज उठे। उसी के लिए कवि कल्पना करता है—क्योंकि अधरपल्लव और पाणि-पल्लव नाम साम्य होने के कारण दोनों एक पद्म के हैं। जब अपने पक्षीय

अधरों पर कष्ट पड़ा, तो उस कष्ट को अनुभव कर हाथ (कंकणादि का शब्द होने के रूप में) रो उठे ।

विह्वल

लज्जा आदि के कारण कहने के समय भी बात के न कहने, अथवा अभिलाषा की अमन्तुष्टि का नाम 'विह्वल' है ।

द्विजदेवजी ने विह्वल का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

बोलि हारे कोकिल बुलाय हारे केकी गन,
सिखै हारीं सखीं सब जुगुति नई-नई ।
'द्विजदेव' की सौं लाज वैरिन कुसग इन—
अंगन ही आपने अनीति इतनी ठई ।
हाय ! इन कुंजन में पलटि पधारे स्याम,
देखन न पाई वह मूरति सुधामई ।
आवन समै में दुख दायिनि भई री लाज,
चलन समै में चल पलन दगा दई ।

यहाँ दुःखदायिनी लज्जा के कारण कुंजों में पधारे हुए श्याम के दर्शन कर सकने की अभिलाषा का मन ही में रह जाना, विह्वल है ।

इसी सम्बन्ध में पद्माकरजी का उदाहरण भी पढिये—

सुन्दरि कौं मनि मन्दिर में लखि आप गुविन्द बने बड़ भागे ।
आनन ओप सुधाकर सी 'पदमाकर' जीवन जोति के जागे ।
औचक ऐंचत अञ्चल के पुलके अँग अग हिये अनुरागे ।
मैन के राज में बोलि सकी न भट्ट ब्रजराज सौं लाज के आगे ।

यहाँ भी नायिका मैन (कामदेव) का पूर्ण प्रभाव होने पर भी 'लाज' के कारण ब्रजराज से दो बातें भी न कर सकी । मन की मन में ही रह गई !

नीचे लिखा दोहा भी विद्वत् का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

आज सखी मोहित भये मोहन मिले निकुंज ।
बन्यो न कछु मुँह बोलिबो अड़थो लाज को पुंज ॥

इस दोहे में भी—दो बातें करने का अवसर मिलने पर भी, बीच में, लाज का अड़ंगा लग गया। कम्बख्त शर्म भी कैसी है, जो कहीं कुछ कहने ही नहीं देती। मानों इसकी दुनिया में लव हिलाना भी संगीन जर्म है !

विद्वत् सम्बन्धी संस्कृत का उदाहरण भी नीचे दिया जाता है—

दूरागतेन कुशलं पृष्टा नोवाच सा मया किञ्चित् ।
पर्यश्रुषी तु नयने तस्याः कथयाम्बभूवतुः सर्वम् ॥

परदेश से लौटने पर नायक ने कुशल पूछी, तो नायिका ने कुछ न कहा। हाँ उसने आँसू अवश्य ढलका दिए जिनसे मन का सारा हाल मालूम हो गया।

यहाँ प्रिय के पूछने पर भी संकोचवश, मुख से कुछ न कहना विद्वत् है।

मद

सौभाग्य, सौन्दर्य, यौवन आदि के गर्व से पैदा हुए मनोविकार के 'मद' कहते हैं।

तोषनिधिजी ने मदका उदाहरण इस प्रकार दिया है—

आनि कढ्यौ कहुँ खोरि में लाल यों लाड़िली पौरि ते पौरि कढी है ।
सीस खुले कटि में कसे अंचल कंचुकी आछे उरोज मढी है ।
नैक टरै न दुरै सो अरै है, अहीरिनि के ढिग भीर बढी है ।
गूंग न बैन सुनै न कहै, उँगरै उहि मैन की जुंग चढी है ।

कामदेव की जुंग चढने से नायिका का कैसा हाल हो गया है। न वह किसी की सुनती है और न अपनी कहती है। इधर-उधर हटती भी नहीं,

एक जगह अड़कर खड़ी है । उसे देखने के लिये दर्शकों की भीड़ लगी हुई है ।

यहाँ यौवन या सौभाग्य जनित मद के कारण नायिका किसी को कुछ समझती ही नहीं, तभी तो वह किसी के पूछने गछने की कुछ परवा नहीं करती ।

नीचे लिखे दोहे भी मद के बड़े सुन्दर उदाहरण हैं—

खलित बचन अधखुलित दृग ललित स्वेदकन जोति ।

अरुन बदन छुबि मद छुकी खरी छुबीली होति ॥

× × ×

कौन अहै गुन आगरी रसिक जियत केहि जोहि ।

अरी नागरी ही सकति नागर नर कों मोहि ॥

× × ×

वे किन मे हैं बावरी है जिनमे रस नाहिं ।

मधु न होत तो मधुप क्यों जात माधवी पाहिं ॥

तपन

प्रियतम के वियोग मे कामोद्वेग से उत्पन्न हुई चेष्टाओं का नम्र 'तपन' है ।

तपन के उदाहरण में हरिऔधजी के दोहे कितने सुन्दर हैं—

सीरे सीरे लेप सब बनत दीप के नेह ।

नव वियोग तप तापते तयो भई तिय देह ॥

× × ×

कबहुँ रुकत कबहुँ बहत कबहुँ होत अथाह ।

सोच सकोचन में पर्यौ लोचन वारि प्रवाह ॥

विरह-जनित व्याकुलता का कैसा अच्छा वर्णन है, 'लोचन-वारि-प्रवाह' का 'सोच-सकोच' के फेर में पड़कर कभी रुकना, कभी बहना, और कभी बाढ़ रूप में परिवर्तित होजाना, कैसी सुन्दर कल्पना है ।

तपन के उदाहरण में संस्कृत के एक कवि क्या कहते हैं, उसे भी सुन लीजिये—

श्वासान्मुञ्चति भूतले विलुठति, त्वन्मार्गमालोकते ।
दीर्घं रोदिति विक्षिपत्यतइतः क्षामा भुजाबल्लरीम् ॥
किञ्च प्राण समान ! काक्षितवती स्वप्नेऽपि ते सङ्गमम् ।
निद्रा वाञ्छति न प्रयच्छति पुनर्दग्धो विधिस्तामपि ।

तुम्हारे वियोग में वह बाला लम्बे-लम्बे सोंस ले रही है—पृथ्वी पर पड़ी है। तुम्हारी प्रतीक्षा में अँसू बहा-बहा कर हाथों को इधर-उधर पटकती रहती है। वह चाहती है, स्वप्न में ही तुम्हारा समागम हो जाय, परन्तु निर्दय विधाता नींद आने दे तब तो! तपन का कैसा सुन्दर उदाहरण है।

मौग्ध्य

प्रियतम के आगे जानी सुनी वस्तुओं या बातों के सम्बन्ध में भी अनजान बनकर पूछना 'मौग्ध्य' कहाता है। इसे भोलापन कह सकते हैं। वहाँ-कहीं भोलापन भी शोभा का अंग माना गया है।

मौग्ध्य के उदाहरण में नीचे लिखे दोहे देखिये—

ठोरी लाई सुनन की कहि गोरी सुसक्यात ।
थोरी-थोरी सकुच सों भोरी-भोरी बात ॥
× × × ×
तिय बतरावहु बोलिकै मधुर अमी से बैन ।
खिले कमल से है किधों मुंदे कमल से नैन ॥

इसी प्रसंग में संस्कृत का उदाहरण भी देखिए—

के द्रुमास्ते क्व वा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिताः,
नाथ ! मत्ककण-न्यस्त येषा मुक्ताफलं फलम् ?

हे नाथ, मेरे ककणों में जो मुक्ताफल जड़ा हुआ है, वह किस पेड़ का फल है ? ये पेड़ कौन से गाँव में, किसने लगाए हैं ?

विक्षेप

प्रियतम के समीप अधूरे भूषण धारण कर अकारण ही इधर-उधर देखना तथा चुपके से कोई रहस्य की बात कह डालना विक्षेप कहाता है ।

उदाहरण में हरिऔधजी के दोहे देखिये—

इत उत चितै कबौ कछू धीरे कहि हँसि देति ।

पहिरि अधूरे आभरन मन पूरो करि लेति ॥

× × ×

पहिरै द्वै-द्वै चूरियों इत उत चितवति जाति ।

वतियाँ कहि कहि भेद की भेदभरी मुसुकाति ॥

संस्कृत कवियों ने विक्षेप का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

धर्मिल्लमर्धमुक्त कलयति तिलकं तथा शकलम् ।

किञ्चिद्ददति रहस्य चकित विष्वगवलोकते तन्वी ॥

वह रमणी अपना केश-पाश आधा ही सजाती है, और तिलक भी अधूरा ही लगाती है तथा कुछ रहस्यमयी बातें कहती हुई चकित भाव से इधर-उधर देखती जाती है ।

कुतूहल

रमणीय वस्तु देखने के लिये चञ्चल और उत्सुक होना कुतूहल कहाता है । यह औत्सुक्यपूर्ण चञ्चलता नायक की प्रसन्नता का हेतु होती है ।

उदाहरण में हरिऔधजी के दोहे देखिये—

जाकी कलित कथान को तू भाखति कथनीय ।

सो कित को है कौन है कैसो है कमनीय ॥

अरी सखी, तू जिसकी ऐसी प्रशंसा करती रहती है, आखिर वह कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है ?

अली जहाँ है बजि रही मुरली सब रस मूल ।

चलि चलि अवलोकन करे सो कालिन्दी कूल ॥

अरी बहन, जमुना किनारे कैसी मधुर वशी बज रही है, चल्न वहाँ चलकर उसे देखे । यहाँ देखने की उत्सुकता ही कुतूहल है ।

सस्कृत काव्य मे कुतूहल का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

प्रसाधिकाऽऽलम्बितमग्रपाद माक्षिप्य काचिद्रव रागमेव ।

उत्सृष्ट लीला गतिरागवाद्वादलक्त काङ्क्षा पदवी ततान ॥

कोई युवती महावर लगाने वाली के हाथ से अपना गीला पैर भटक कर भरोखों में से रघुकुमार अज की बरात देखने के लिये दौड़ आई । जिसके कारण सारा स्थान लाक्षा राग से रग गया ।

बरात देखने के लिए उत्सुकता पूर्वक भाग उठना ही कुतूहल है ।

हसित

यौवन-विकास से उत्पन्न हुए अकारण हास को हसित कहते हैं । इससे मानसिक प्रसन्नता प्रकट होती है ।

हसित के उदाहरण मे देवजी का नीचे लिखा कवित्त देखिये—

दुहूँ मुख चन्द और चितवे चकोर दोऊ,

चितैचितै चौगुनों चितौनों ललचात है ।

हॉसनि हंसति बिन हाँसी बिहंसति मिलै,

गातनि सों गात बात बातनि मे बात है ।

प्यारे तन प्यारी पेखि पेखि प्यारी पियतन,

पियत न खाति नैक हू न अनखात है ।

देखि न थकति देखि देखि न सकति 'देव',

देखिवे की घात देखि देखि न अघात है ।

यहाँ एक दूसरे के मुख-चन्द्र को देख कर प्रसन्न होना और अकारण ही बार-बार हँसना हसित है ।

इस सम्बन्ध में विहारीजी का भी नीचे लिखा दोहा कैसा सुन्दर है—

नैकु हँसौही बानि तजि लख्यौ परत मुख नीठि ।

चौका चमकनि चौध में परति चौध-सी दीठि ॥

×

×

×

संस्कृत के किसी कवि का उदाहरण भी देखिए—

अकस्मादेव तन्वद्गी जहास यदिय पुनः ।

नूनं प्रसूनवाण्योऽस्या स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥

रमणी के अचानक और अकारण हँस पडने से प्रतीत होता है कि निश्चय ही उसके मन-मन्दिर पर मनोज का आधिपत्य स्थापित हो गया है ।

चकित

प्रियतम के आगे अकारण ही डरने या घबराने को चकित कहते हैं । भीरुता भी स्त्रियों की शोभा मानी जाती है, क्योंकि इससे हृदय की कोमलता का बोध होता है । स्त्रियाँ तो प्रायः विना कारण ही डर जाती हैं, कारण उपस्थित होने पर तो कहना ही क्या ।

संस्कृत काव्यग्रन्थों में चकित का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

त्रस्यन्ती चल शफरी विघट्टितोरु—

वामोरुरतिशयमाप विभ्रमस्य ।

लुभ्यन्ति प्रसभमहो ! विनापि हेतो—

लीलाभिः किमु सति कारणे तदय्य • ॥

स्नान करते समय जंघाओं में चञ्चल मञ्जुली के टकरा जाने के कारण रमणी मारे डर के तड़प गई ! यहाँ पर यद् भीरुता भी भोलेपन की सूचक है ।

केलि

कान्त के साथ विहार करते समय कामिनी की क्रीड़ाओं का नाम केलि है ।

केलि के उदाहरण में कविवर विहारी का नीचे लिखा दोहा देखिए—

नाक मोरि नाही ककै नारि निहोरे लेय ।

छुवत ओठ पिय ओँगुरिन बिरी बदन तिय देयः॥

अँगुलियों से ओठ छूकर नायिका नायक के मुँह में पान की गिलोरी देती है । इस सम्बन्ध में नीचे लिखे दोहे भी देखने लायक हैं—

सजि सजि सुमन समूह सों बनि बसन्त की बेलि ।

पुलकि पुलकि ललना करति निज लालन ते केलि ॥

×

×

×

हँसि ओठनि बिच कर उचै किये निचौहे नैन ।

खरे ओर पिय के तिया लगी बिरी मुख दैन ॥

इसी प्रसंग में नीचे लिखा श्लोक भी पढ़ने लायक है—

व्यपोहितुं लोचनतो मुखानिलै—

रपारयन्तं किल पुष्पजं रजः ।

पयोधरेणो रसि काचिदुन्मना,

प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥

नायक के नेत्रों पर लगे हुए पुष्प-पराग को, पीन पयोधरा नायिका ने अपने उरोजों के धक्के मार-मार कर उसकी छाती पर गिराया । यानी जो काम फूँक मारने से हो सकता था, उसे कौतुकवश नायिका ने स्तनों के धक्कों से किया । यही केलि है ।

बोधक

किसी-किसी ने बोधक नग्न से एक और अलङ्कार माना है, जिसका लक्षण इस प्रकार किया है—

जिसमे नायक-नायिका अभीष्ट अभिप्राय प्रकट करने के लिये परस्पर कुछ निश्चित संकेत करते हैं, उसे बोधक कहते हैं ।

उदाहरण देखिए—

दोज अटान चढे ' पदमाकर ' देखे दुहूँ को दुवो छुवि छाई ।

त्यौ ब्रजबाल गुपाल तहाँ बनमाल तमालहि की दरसाई ।

चन्द्रमुखी चतुराई करी तब ऐसी कछू अपने मन भाई ।

अञ्जल खेचि उरोजन ते नन्दलाल को मालती माल दिखाई ।

यहाँ नायक नायिका ने परस्पर तमाल और मालती की मालाएँ दिखा कर अपना अभीष्ट प्रकट किया है । यही बोधक हुआ ।

बोधक में क्रियाविदग्धा नायिका के समान ही संकेत आदि से इष्ट-साधन किया जाता है । उदाहरण दोनों के एक ही हैं । क्रियाविदग्धा नायिका में बोधक अलंकार होना आवश्यक है । उसमें बोधक अलंकार होगा तभी वह क्रियाविदग्ध्य द्वारा अपना कार्य साधन कर सकेगी । क्रियाविदग्धा और बोधक अलंकार में केवल इतना अन्तर है कि बोधक अलंकार द्वारा नायक नायिका अपना भावी पुरोगम (प्रोग्राम) निश्चित करते हैं, और क्रियाविदग्धा का कार्य उसी समय सम्पन्न हो जाता है ।

उद्दीपन विभाव

जिनके द्वारा रस उद्दीप्त होता है, वे उद्दीपन विभाव कहाते हैं। नायक-नायिका की चेष्टाएँ, सखा, सखी, दूती तथा रूप, भूषण, चन्द्रमा, चाँदनी, चन्दन, कोकिल-कूजन, भ्रमर-गुंजन, ऋतु, पवन, वन, उपवन, पुष्प, पराग, राग, रागिनी, कविता आदि की गणना उद्दीपनविभावों में की गई है। इनमें से सखा, सखी, दूती, वन, उपवन, षड्ऋतु, चन्द्र, पवन, चन्द्रिका, चन्दन, कुसुम और पराग ये बारह मुख्य माने गए हैं। काव्यों में प्रायः इन्हीं बारह का वर्णन किया गया है।

सखा, सखी, दूती आदि की गणना उद्दीपन विभावों में इसलिये की गई है कि ये नायक-नायिकाओं को मिलाने तथा उनके हास-विलास और आसोद-प्रमोद में सहायक होते हैं।

सखी और दूती में यह अन्तर है कि सखी नायिका के समकक्ष होती है और वह नायिका के लिए जो कुछ करती है, केवल सख्य-भाव से प्रेरित होकर, उसके हित के लिए करती है, और दूती प्रायः अपने अर्थ-लाभ के लिए दूत-कर्म किया करती है। सखी स्वकीया नायिका की होती है और दूती की आवश्यकता परकीया को पड़ती है।

अब आगे मुख्य-मुख्य उद्दीपन विभावों के लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं—

सखा

जिसका शील और व्यसन नायक के समान हो और जो सुख-दुःखादि में उसका सच्चा सहायक रहे, ऐसा पुरुष सखा कहाता है।

दास कवि के नीचे लिखे सर्वैया में दूध और पानी का दृष्टान्त देकर

सखा या सख्य भाव का कैसा सुन्दर विश्लेषण किया है। देखिये—

‘दास’ परस्पर प्रेम लख्यौ, गुन छीर को नीर मिले सरसातु है।
नीरै बेचावत आपने मोल जहाँ जहाँ जाइ कै छीर बिकातु है।
पावक जारन छीर लगै तब नीर जरावत आपुनो गातु है।
नीर बिना उफनाइ कै छीर सु आगि में जातु, मिले ठहरातु है।

सखा के भेद

सखा चार प्रकार के होते हैं। १—पीठमर्द, २—विट, ३—चेट और
४—विदूषक।

पीठमर्द

जो सखा मानवती नायिकाओं को मना कर प्रसन्न करने में समर्थ हो, उसे पीठमर्द कहते हैं। साहित्यदर्पणकार ने नायक के (दानी कृती आदि) सामान्य गुणों से कुछ न्यून गुणों वाले, तथा नायक के सुदूर-वर्ती कार्यों में सहायक होने वाले सखा को पीठमर्द कहा है। पीठमर्द का उदाहरण देखिये—

लाल अपने पै अलि एती ना रिसैये बलि,
कहा भयो बाते हँस्यौ नेंकु नँदनन्द है।
बैठि बोलियत हिलि-मिलि खेलियत कहा,
‘सुन्दर’ यो कीजियत हिये दुख द्वन्द है।
हाहा देखि सौहँ तोहि कोटि कोटि सौहँ करो,
ऐसे समै मान ! तेरी ऐसी मति मन्द है।
कैसो नीको नायक सकल सुखदायक सो,
कैसी नीकी चोदनी औ कैसो नीको चन्द है।

भाव स्पष्ट ही है। पीठमर्द नायिका को मनाकर प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा है।

और भी उदाहरण देखिये—

घोर घटा उँमड़ी चहुँ ओर तैं ऐसे मे मान नकीजै अजानी ।

तूतो बिलम्बति है बिन काज बड़े बड़े बूदन आवत पानी ।

सेख ' कहै उठि मोहन पै चलि को सब राति कहेगो कहानी ।

देखुरी ये ललिता सुलता अब तेऊ तमालन सों लपटानी ।

चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर घन-घटाएँ घिरी आ रही हैं । बावली !
ऐसी सुहावनी ऋतु में तू मान करने बैठी है । अरी, आज-कल तो ये
लताएँ भी उमँग-उमँग कर तमाल-तरुओं से लिपटती जा रही हैं, ज़रा
आँखे खोल कर तो देख !

विट

जो सखा सब प्रकार की कलाओं में कुशल हो, उसे विट कहते हैं ।
साहित्यदर्पणकार ने विट का लक्षण इस प्रकार किया है—

भोग-विलास में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वाहा कर डालने वाला,
नृत्यगीतादि कलाओं में कुछ दखल रखने वाला, वेश्याओं के साथ
व्यवहार करने में कुशल, बातचीत करने में चतुर, मधुरभाषी धूर्त
विट कहाता है ।

विट मौक़ा देख कर मानिनी नायिका के आगे ऐसी बात कहता है,
जिसे सुन उसे मान त्यागते ही बनता है । जैसा कि नीचे लिखे पद्य से प्रकट
होगा । इस छन्द में रूठी नायिका के आगे किसी अन्य सुन्दरी के रूप-
यौवन का वर्णन खूब बढ़ा-चढ़ा कर किया गया है, जिससे उसे सुन कर
नायिका यह सोचने लगे कि मेरे हठ को देख कर कहीं नायक इस सुन्दरी
की ओर आकृष्ट हो गया, तो फिर वह मुझे पूछेगा भी नहीं ।

आज रूप-आगरी विलोकी ब्रज-नागरी मै,

अंग-अंग रूप की तरंग उमगति है ।

'कृष्ण' प्राण प्यारे बरनत न बनत केहूँ'

जोबन कीँ जोति जगा जोति सी जगति है ।

को है ऐसी और तिय सुरपुर नागपुर,
वाके आगे जाकी जोति दृगनि पगति है ।
जाके लौने तन की ललित परछाहीं आगे,
सरद जुन्हाई परछाई-सी लगति है ।

और देखिये, नीचे लिखे सवैया में विट रूठी नायिका को, वसन्त के
आगमन का ज्ञान करा कर, उसका मान भंग करना चाहता है—

पीत पटी लकुटी 'पदमाकर' मोर पखा लै कहूँ गहि नाखी ।
यौ लखि हाल गुपाल को ताछिन बाल सखा सु-कला अभिलाखी ।
कै कल कोकिल कैसो कुहू कुहू कोमल कोरु की कारिका भाखी ।
रूसी हुती ब्रज बाल के सामुहे लाय रसाल की मजरी राखी ।

यहाँ कोयल की बोली बोल और रसाल-मंजरी दिखा कर विट ने
नायिका को वसन्तागमन की सूचना दी है, जिससे वह इस सुहावनी ऋतु में
मान करके उसे व्यर्थ न खोती रहै ।

चेट या चेटक

अपनी चतुराई से नायक-नायिका को यथावसर मिला देने वाला
सखा चेट या चेटक कहाता है । चेट की चतुराईपूर्ण उक्ति सुनिये—

तुमने चुराई कहा बाँसुरी गोपालजू की,
जो सुनि हमारो हियो आगि भयो जात है ।
सदा के जो चोर हूँ सो ताही को कहत चोर,
आजु लो न सुनो ऐमो अजस अघात है ।
कहैं 'चिरजीवी' ताते तो सों हों कहत प्यारी,
सुनि कै हमारी उठौ औसर नसात है ।
चलि कै न पूछौ इतै जड़-सी खडी है कहा,
पूछे बिन बात केती सोंची भई जात है ।

उक्त पद्य में चेट रूठी नायिका पर चोरी का इलजाम लगा उसके

स्वाभिमान को उच्छेजित करता है, जिससे वह मान त्याग कर अपनी सफाई देने के लिये नायक के पास चली जाय।

चेट अवसर को खूब समझता है, और वह समय पर कभी नहीं चूकता। देखिये, नीचे लिखे पद्य में नायक-नायिका को परस्पर बात-चीत करने का मौक़ा देने के लिए कितने ठीक समय पर, और कैसे बहाने से टल जाता है।

दैव संयोग ते आनि जुरे दोऊ कुंज मे कान्हर राधिका रानी।

खेले न बोलि सके कहि 'सुन्दर' सोऊ त्यों बैठि रहे चुप ढानी।

मेरो सकोच कियो इन दोऊन चातुर चेटक यों जब जानी।

या मिस आपु उहाँ ते उठ्यौ जमुना तट जात हौ पीवन पानी।

नीचे लिखे दोहे में चेटक नायिका के सूने घर में नायक के पहुँच जाने की सूचना कैसी चतुराई से देता है।

उतै ग्वालि तू कित चली ये उनये घन घोर।

हौ आयौ लखि तुब घरै पैठत कारो चोर ॥

अरी ग्वालिन, तू कहाँ जा रही है, देख तो सामने से कैसी काली-काली घटाएँ उठती आ रही हैं। और उधर मैं अभी तेरे घर में काले चोर को घुसते देख आया हूँ।

यहाँ चेट घटाओं की ओर संकेत कर के, नायिका को सुहावनी पावस श्रुतु का स्मरण कराता है, और फिर घर में काले चोर के घुसवैठने की सूचना देता है। काले चोर का यहाँ कितना सुन्दर प्रयोग हुआ है। अर्थात् चेटक उस चोर का नाम स्पष्ट नहीं बताना चाहता और व्यंग्य से प्रकट भी कर देता है कि वही काला (कृष्ण) चोर (माखन चोर) तेरे घर में बैठा है। चोर शब्द का प्रयोग इसलिए भी किया कि नायिका तुरन्त घर को लौट जाय।

विदूषक

अपनी विकृत क्रियाओं तथा विचित्र वेश-भूषा, भाषा, चेष्टा आदि द्वारा नायक-नायिकाओं को हँसाने तथा मनाने वाला व्यक्ति विदूषक

कहाता है। वह अपने हास्य-विनोद द्वारा नायक-नायिकाओं के विरह-जन्य दुःख भी कम करता रहता है।

उदाहरण देखिये—

आप ही कुञ्ज के भीतर पैठि सुधारि कै सुन्दर सेज विछाई ।
बाते बनाय अनेकन भाँति की माधौ सौँ आनि कै राधा मिलाई ।
आली कहा कहे होंसी की बात विदूपक जैसी करी है टिठाई ।
जाय रह्यौ पिछवार उतै फिर बोलि उठ्यौ वृषभान की नाई ।

साहित्यदर्पणकार ने उपर्युक्त पीठमर्दादि को शृंगार के सहायक कहा है। उन्होंने नायक के सहायकों के और भी कितने ही भेद किये हैं, यथा अन्तःपुर के सहायक—वौने, नदुसक, किरात, म्लेच्छ (जंगली), अहिर, शकार (रखेली स्त्री का भाई) कुवड़े आदि। दण्ड के सहायक—मित्र, राजकुमार, वन में घूमने वाले पासी आदि; धीर राजा लोग, सैनिक इत्यादि। धर्म के सहायक—ऋत्विक्, पुरोहित, वेदवेत्ता तपस्वी आदि।

सखी

जिस सहचरी से नायिका कोई भेद नहीं छिपाती, अर्थात् जो उसके काम-कला सम्बन्धी सब मर्मों को जानती है, उस सुख-दुःख में सच्ची हितकारिणी और सहायिका को सखी कहते हैं। यथा—

पूरब ते फिरि पश्चिम ओर कियो सुर आपगा धारन चाहै ।
तूलन तोपि कै ज्यौ मतिमन्द हुतासन दण्ड प्रहारन चाहै ।
'दास' जू देखि कलानिधि कालिमा छूरिन सौँ छिलि डारन चाहै ।
नीति सुनाय कै मो मन तैं नँदलाल को नेह निवारन चाहै ।

सखी का नीत्युपदेश सुनने के पश्चात् किसी नायिका की उक्ति है। सखी ने नायिका को पर पुरुष से प्रेम न करने की शुभ सम्मति दी है, उसके उत्तर में नायिका कहती है—सखी का यह प्रयत्न, उतना ही हास्यास्पद है जितना कि किसी का गङ्गा के प्रवाह को पश्चिम की ओर

फेरने की चेष्टा करना अथवा शरीर से रूई लपेट कर दण्ड-प्रहार द्वारा आग बुझाने की कोशिश करना इत्यादि ।

सखी के भेद

सखी चार प्रकार की होती हैं, १—हितकारिणी, २—व्यंग्य-विदग्धा, ३—अन्तरंगिणी और ४—बहिरंगिणी ।

हितकारिणी

जो सखी निश्छल भाव से नायिका की सेवा करती है, वह हितकारिणी कहाती है ।

उदाहरण मे नीचे लिखे दोहे देखिये—

छनिक न छोड़ति सुन्दरी सखी हितू को संग ।

सखी बढ़ावति रहति त्यों सुन्दरि हिये उमंग ॥

× × ×

चित्त चाहत अलि अंग तुव लहि दीपक परिमान ।

लै लै जनम पतंग को सदा बारिये प्रान ॥

× × ×

सुख सों सुख मानति सदा दुख देखे दुख मानि ।

अर्पन कीन्हे प्रान अलि सुकुमारी के पानि ॥

व्यंग्यविदग्धा

जो सखी व्यंग्य-वचन कह कर कार्य-साधन करती है, उसे व्यंग्य-विदग्धा कहते हैं । उदाहरण में कविवर गोविन्द का नीचे लिखा पद्य पढ़िये । इसमें व्यंग्यविदग्धा सखी अपने व्यंग्य-वचनों द्वारा, नायक रूपी भौरे पर, उसके किसी एक नायिका (चमेली) पर ही मुग्ध रहने के कारण कैसी फवतियाँ कसती है ।

फूल्यौ बन देखि कै न काहु फूल प्रीति करे,

देखत न और केहु तरु अरु बेलि को ।

सेवती सुहाई माऊं नेकहूँ न मन देत,
सेवत सदा ही नाहि जूथिका नवेली को।
'गोविन्द' गँवार कहा जानै और फूल जाति,
कबहूँ न चाहत हूँ, कंजबन केली को।
बार-बार गूजि-गूजि चारों ओर फेरा देत,
भौरे मतवारे सब चाहत चमेली को।

इस सम्बन्ध में नीचे लिखा दोहा भी पढ़ने लायक है, देखिये कितना मधुर व्यंग्य है—

गुंज लैन तू आज कत कुंज गई यह काल।
कंठक छूत नख चाहिकै चखन चाहिकै बाल ॥

अन्तरंगिणी

जो सखी नायिका के प्रत्येक आन्तरिक रहस्य को भली भाँति जानती और उसे भली भाँति छिपाए रखती है, उसे अन्तरंगिणी कहते हैं।

चिरजीवी कवि ने अन्तरंगिणी सखी का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

बान लग्यौ है परौसिनी दीठिको ताते कहा भए कान्ह हूँ रीते।
यो जब पूछी प्रिया सखिसो, तब बोली सखी तिय ते भयभीते।
है 'चिरजीवी' न बान बिध्यौ अब कीजै कृपा उन पै निज हीते।
बान को दूसरो शब्द युगाक्षर दीजिये लालै विलोम के जीते।
और भी देखिये—

मनमोहन ल्यावति नहीं सोहन ल्यावति धाय।
कारे याहि डस्यौ नहीं, कारे डस्यौ बनाय ॥

बहिरंगिणी

जो सखी अपने समस्त कार्य स्पष्ट रूप से करती और नायिका की केवल बाहरी बातें जानती है, उसे बहिरंगिणी कहते हैं। यह सखी अपना

काम स्पष्ट बात कह कर करती है। उदाहरण में नीचे लिखे दोहे देखिये—

पिय देखत ही काम ते गरथौ कप तिय आय।
सीत जानि अलि अग्नि कों ल्याई बेगि जराय ॥

और भी

सरद निसा में मानि है कैसे सखी अनन्द।
कन्त बिना लखि कामिनी होत कसाई चन्द ॥

सखी के कार्य

सखी के मुख्य चार कार्य माने गए हैं, अर्थात् १—मण्डन
२—शिक्षा, ३—उपालंभ और ४—परिहास।

मण्डन

नायिका को वस्त्रालङ्कारों से सुसज्जित करना, पैरों में जावक, नेत्रों में अञ्जन लगाना, केश संभालना इत्यादि शृंगार-सम्बन्धी कार्य मण्डन कहाते हैं। यथा—

मञ्जन कै दृग अञ्जन दै मृग खञ्जन की गति देखत हूली।
'वैनी प्रवीन' अभूषन अम्बर और ऊ अङ्गन कै अनुकूली।
राधे कों आजु सिंगारथौ सखी न तिलोक की कोऊ तिया सम तूली।
सोने की बेलि सुगन्ध-समूह मनो मुकुतामनि फूलन फूली।
इसी के उदाहरण में नीचे लिखे दोहे भी पढ़ने योग्य हैं—

सखी तिया की देह में सजे सिंगार अनेक।
कजरारी अखियान में भूल्यौ काजर एक ॥

× × × ×

कहा करौ जो अँगुरिन अनी घनी चुमि जाय।
अनियारे चख लखि सखी काजर देति डराय ॥

प्रायः कवियों ने मण्डन के अन्तर्गत ही नख-शिख-वर्णन माना है।

शिक्षा

नायिका को विलास सम्बन्धी बातें बताने तथा नायक को रिझाने की विधि सिखाने का नाम शिक्षा है, उदाहरण देखिये—

याहि मति जानो है सहज कहै 'रघुनाथ'
अति ही कठिन रीति निपट कुटुंग की ।
याहि करि काहू काहू भाँति सों न कल पायो,
कलपायो तन मन मति बहु रग की ।
और हू कहों सो नैकु कान दैकै सुनि लीजे,
प्रगट कही है बात वेदन के अंग की ।
तब कहूँ प्रीति कीजै पहले ही सीखि लीजै,
बिछुरनि मीन की औ मिलनि पतंग की ।

और देखिये निम्नलिखित सबैया भी कैसे सुन्दर हैं—

आगे तो कीन्हीं लगा-लगी लोयन कैसे छिपै अजहू जो छिपावति ।
तू अनुराग को सोध कियो ब्रज की बनिता सब यों ठहरावति ।
कौन सकोच रह्यौ है 'नेवाज' जो तू तरसै उनहूँ तरसावति ।
बावरी जो पै कलङ्क लग्यौ तो निसंक है काहे न अंक लगावति ।

× × ×

भ्रॉखति है का भरोखा लगी लग लागिवे को इहाँ भेल नहीं फिर ।
त्यौ 'पदमाकर' तीखे कटाछन की सर कौ सर सेल नहीं फिर ।
नैनन ही की घलाघल के घने घावन कों कछु तेल नहीं फिर ।
प्रीति पयोनिधि में घँसिकै हँसि कै कठिबो हँसी-खेल नहीं फिर ।

इस सम्बन्ध में महाकवि विहारी की भी उक्ति सुनिए—

मोहि भरोसो रीझि है उछकि भाँकि इक वार ।

रूप रिझावन हार वह ये नैना रिझवार ॥

उपालम्भ

सखी का नायक-नायिका को उनकी हितकामना से उलाहना देना उपालम्भ कहाता है। यथा—

पान की कहानी कहा पानी को न पान करै,
आहि कर उठत अधिक उर आधि कै।
कवि 'मतिराम' भई विकल विहाल बाल,
राधिकै जिवाव रे अनंग अवराधि कै।
या ही को कहायो ब्रजराज दिन चारि ही में,
करी है उजारि ब्रज ऐसी रीति नाधि कै।
जैसे तैने मोहन विलोक्यो वाकी ओर तै से,
वैरी हूँ सो वैरी न विलोकै वैसे साधि कै।

और भी देखिये—

ब्रज बहि जाय न कहूँ यों आय आखिन तें,
उमड़ि अनौखी घटा बरसति मेह की।
कहै 'पदमाकर' चलावै खानपान की को,
प्रानन परी है आनि दहसति देह की।
चाहिये न ऐसी वृषभानु की किसोरी तोहि,
आई दै दगा जो ठीक ठोकर सनेह की।
गोकुल की कुल की न गैल की गुपालै सुधि,
गोरस की रस की न गौअन की गोह की।

उपालम्भ का नीचे लिखा पद्य भी पढ़ने लायक है :—

दया करि चितै चित हित को चुराय लियो,
फिरि हित चितए न यही सोच नित है।
दिलदार जन पर बस में बसे जे तिन्है,
नेसुक न चाव निसि-वासर चकित है।

देखे टक लागे अनदेखे पलकौ न लगै,
देखे अनदेखे नैना निमिख रहत है ।
सुखी हौ जू कान्ह तुम्हैं काहू की न चिन्ता वह,
देखेहू दुखित अनदेखेहू दुखित है ।

परिहास

नायिका के मनोविनोद या आनंद के लिये, सखी जो बात कहती अथवा चेष्टा करती है, उसे परिहास कहते हैं । यथा—

कल कंचन-सी वह अंग कहीं कहीं रग कदम्बिनि तैं तनु कारो ।
कहीं सेज कली विकली वह होय कहीं तुम सोय रहौ गहि डारौ ।
नित दासजू ल्याव ही ल्याव कहीं कछू आपनो वाको न बीच विचारो ।
वह कौल सी कोरी किसोरी कहीं औ कहीं गिरिधारन पानि तिहारो ।

यहाँ सखी नायक से नायिका की तुलना करती हुई कहती है, “कहाँ वह सुवर्ण वर्ण कुसुम-कली सदृश कोमलाङ्गिनी जो पुष्प-शैया पर भी विकल रहती है; और कहीं तुम काले-कलूटे कठोर काय, जो पेड़ की डाल पर भी झर्राँटे भरने लगते हो । अपना और उसका अन्तर भी विचारते हो, या यों ही उसे लाने को आग्रह करते हो । अरे, उसके पद्म-प्रसून सदृश मृदुल पाणि पल्लव और अपने पहाड़ उठाने वाले कठोर करों का जरा मिलान तो करो ।” यहाँ सखी परिहास के लिये नायक-नायिका की इस प्रकार तुलना कर रही है ।

परिहास का एक उदाहरण और भी देखिये—

वृन्दावनचन्द अहो आनन्द के कन्द तुम,
माधव मुकुन्द हो आनन्द छवि जोरी के ।
नन्दजू के नंद बलदेव के सहोदर—
सखान में सराहे घनश्याम मति भोरी के ।
फागुन के औसर फजीहत बजाय ढोल,
कहत कहाये वृषभान° की किसोरी के ।

गायन के रहुआ गुलाम ब्रज गोपिन के,

हो-हो हरि भङ्गुआ हज़ार दार होरी के ।

यहाँ नन्दलाल को होली का भङ्गुआ बताकर उनसे परिहास किया गया है । नीचे लिखा दोहा भी परिहास का सुन्दर उदाहरण है ।

लाय बिरि मुख लाल के खँच लई जब बाल ।

लाल रहे सकुचाय तब हँसी सबै दै ताल ॥

दूती

नायक-नायिका का संयोग कराने के लिये प्रयत्न करने वाली, तथा सन्देश ले जाने और समयोपयोगी वचन-रचना में निपुण स्त्री को दूती कहते हैं । यह दूती कलाओं में कुशल, उत्साह-सम्पन्न, आज्ञाकारिणी, दूसरों के हृदय की बात ताड़ने में चतुर, अच्छी स्मरण शक्ति वाली, मधुर-भाषिणी, विनम्र और वाक्पटु होनी चाहिये ।

कवि रघुनाथ ने दूती का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

सोह करि कहति हों एहो प्यारे रघुनाथ,

आवति कराएँ वादो उनही के घर सों ।

जैसे बने तैसे द्यौस आज के वितीत कीजै,

अब अकुलाहये न पागे प्रेम वर सों ।

जा पर गुलाल मूठि डारी सो मिलैगी काल्हि,

मारी पिचकारी बाल प्यारी तौन परसों ।

खेलत में होरी रावरे के करवर सों जो,

भीजी ही अतर सों सो अत्र्य है अतरसों ।

दूती के भेद

दूती तीन प्रकार की होती है, १—उत्तमा, २—मध्यमा और ३—अधमा ।

उत्तमा दूती

केवल अपनी जुक्ति सों रचना करति विचित्र ।

बरनत उत्तम दूतिका कविजन परम पवित्र ॥

जो दूती विना सिखाए-पढ़ाए, अपने आप मधुर भाषण द्वारा तत्परता-पूर्वक अपने भेजने वाले का कार्य सिद्ध करती है, उसे उत्तमा दूती कहते हैं । उदाहरण देखिये ।

सुन्दर सुदेस मध्य मूठी में समात जाको,

प्रगट न गात बेस बदन सँवारी है ।

कहै कवि 'दूलह' सु रमनी नेवाज औ,

छुटाँक भरी तोल मानो साँचे कैसी ढारी है ।

पेटी है नरम श्राति लीजिये गोविन्द गहि

निपट नवेली पै समर सुर वारी है ।

रीके गुनमान गोसे गोसे सों मिलैगी मूल-

तान की कमान के समान प्रान प्यारी है ।

उक्त पद में दूती ने नायक के समक्ष नायिका की प्रशंसा कैसे सुन्दर ढंग से की है ।

ठाकुर कवि का नीचे लिखा पद्य भी उत्तमा दूती का सुन्दर उदाहरण है—

हिल-मिल लीजिये प्रवीनन सों आठौ जाम,

कीजिये अराम जासों जिय को अराम है ।

लीजिये दरस जाको देखिबे की साध होय,

कीजिये न जाँच संग नाम बदनाम है ।

'ठाकुर' कहत ठीक मन में विचारि देखो,

मान औ गुमान को रखैया एक राम है ।

रूप-सो रतन पाय जोबन-सो धन पाय,

नाहक गँवाइवो गँवाइन को काम है ।

और भी देखिये—

पिय के हिय के हनन को भयौ पञ्चसर बीर ।
बाल तुम्हें बस करन को रहे न तरकस तीर ॥

मध्यमा दूती

सिखई बातन मे मिलै जो तिय करति बसीठ ।
है वह मध्यम दूतिका रहति बचाए दीठ ॥

जो दूती मेजने वाले के सिखाने-पढ़ाने में कुछ अपनी ओर से भी नमक-मिर्च मिलाकर उसका कार्य साधन करती है, उसे मध्यमा दूती कहते हैं ।

उदाहरण देखिये—

भूमि पै पाँव धरे कबहुँ नहिँ सूरज देखि सकै नहिँ जा को ।
मानस की चरचा का चलाइये, चन्द सकै न चितै पुनि वा को ।
औचक भाँकि भरोखन में जसवन्त विलोकत ताकी प्रभा को ।
लाउँ कहौ किहि भाँति कन्हाई हवाल हवा लो न जानति जा को ।

कविवर मतिरामजी ने मध्यमा दूती का उदाहरण इस प्रकार दिया

है—

चरन धरे न भूमि बिहरै जहाँ की तहाँ,
फूले हैं सु फूलनि बिछायो परियंक है ।
मारके डरनि सुकुमारि चारु अंगन में,
करति न अंगराग कुंकुम को बंक है ।
कवि 'मतिराम' देखि बातायन बीच आयो,
आतप मलिन होत बदन मयक है ।
कैसे वह बाल लाल बाहर विजन आवै,
विजन बयारि लागे लचकति लंक है ।

और भी—

बेगि आय सुधि लेहु यह अली कछौ घनश्याम ।
मैं देख्यौ वह चातकी रटति तिहारो नाम ॥

अधमा दूती

केवल सिखई बात को निस-दिन करति बखान ।

अधम दूतिका कहत हैं ताको सुमति सुजान ॥

जो दूती जैसा उसे सिखाया जाय वैसा ही कह दे, उसमें अपनी ओर से घटत-बढ़त कुछ न करे, उसे अधमा दूती कहते हैं। यह दूती समयोचित बातें करने में सर्वथा असमर्थ होती है, साथ ही यह बात-चीत करने में कुछ कटूक्तियाँ भी कह जाती है। जैसे—

ऐहै न फेर गई जु निसा तन यौवन है धन की परछाहीं ।

त्यों 'पदमाकर' क्यों न मिलै उठि, यों निबहैगो न नेह सदाहीं ।

कौन सयान जो कान्ह सुजान सौं ठानि गुमान रही मन माँहीं ।

एक जु कञ्ज कली न खिलै तो कहा कहुँ भौर के ठौर है नाहीं ।

एक दोहा और देखिये, इसमें नायिका दूती से कह रही है—

कैसी धौं तेरी अरी परी बान यह आन ।

जैसी ये मैं ते कढ़त तैसी करति बखान ॥

दूती के कर्म

इन तीनों दूतियों के संघट्टन और विरह-निवेदन मुख्यतया ये दो कार्य हैं। कुछ आचार्यों ने विनय, स्तुति, निन्दा, प्रबोध, संघट्टन और विरह-निवेदन ये छह कर्म माने हैं। विचार से देखा जाय तो विनय, स्तुति आदि पाँचों ही संघट्टन के साधन मात्र हैं। अधिकांश कवियों ने संघट्टन और विरह-निवेदन इन दो का ही वर्णन किया है। प्रत्येक प्रकार की दूती के कर्मों में दूती के गुणानुसार अन्तर आ जाता है। दूती के छहों कर्मों के लक्षण और उदाहरण इस प्रकार हैं।

विनय

अपने कार्य-साधन के लिए, दूती नायक-नायिका से जो विनम्र विनती करती है, उसे विनय कहते हैं। जैसे—

हा-हा बदन उधारि दृग सफल करैं सब कोय ।
रोज सरोजन के परे हँसी ससी की होय ॥
हँसी ससी की होय देख मुख तेरो प्यारी ।
विधना ऐसी रची आपने हाथ सँवारी ॥
कह पठान सुलतान मेढु उर अन्तर दाहा ।
करु कटाच्छ इहि ओर मोर विनती सुन हाहा ॥

दूती हा हा खाती हुई, नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर उसे बढ़ावा देती है—“अरी, तू ज़रा धूँघट तो खोल, तेरे मुँह उधारते ही कमल-वन में रोने पड़ जायँगे, चन्द्रमा मन्दप्रभ हो जायगा और दर्शक तुझे देखकर अपने नेत्र सफल कर लेंगे ।

स्तुति

अपने कार्य-साधन के लिये दूती नायक अथवा नायिका की जो प्रशंसा करती है, उसे स्तुति कहते हैं ।

उदाहरण देखिये—

अंग तेरो केसर-सो करिहाँ केसरी कैसो,
केसन की सरि कैसे करि सकै तो तमैं ।
कहैं कवि 'गङ्ग' आछे छवि के छबीले नैन,
नीलेऊ नलिन ऐसे नाहीं देखे होत मै ।
अहे हे अहीरी तू धौं इहौ कछू जानति है,
काके भागि औतरी है तो सी तेरे गोत मैं ।
तरुनी-तिलक नन्दलाल त्यों तिलक ताकि,
तो पर हौं वारों तिल-तिल कै तिलोत्तमै ।

दूती नायिका की प्रशंसा करते-करते, तिलोत्तमा को भी उस पर वार कर फोक देना चाहती है । अतिशयोक्ति की इद कर दी ।

आगे लिखे दोहे भी स्तुति के सुन्दर उदाहरण हैं—

दिपति देह छवि देह की किहि विधि बरनी जाय ।

जिहि लखि चपला गगनते छिति पर फरकति आय ॥

यहाँ नायिका की देह-दीप्ति देखकर बिजली भी मारे शर्म के (आकाश से गिर) ज़मीन में गड़ जाती है ।

×

×

×

मुख ससि निरखि चकोर अरु तन पानिप लखि मीन ।

पद पंकज देखत भँवर होत नयन रस लीन ॥

यहाँ नायिका के मुख-चन्द्र को देख चकोर ; तन-पानिप को देख मीन और पद-पंकज को निहार कर भौंरे मुग्ध हो जाते हैं ।

निन्दा

स्वकार्य-सिद्धि के लिए नायक या नायिका के आगे दूती जो उनकी बुराई करती है, उसे निन्दा कहते हैं । जहाँ विनय या स्तुति द्वारा दूती का कार्य-सिद्धि की आशा नहीं होती, वहाँ वह निन्दा द्वारा नायक-नायिका के स्वाभिमान को उल्लेखित कर सहज ही में अपना काम बना लेती है । उदाहरण देखिये—

खेलति फाग सुहाग भरी सुथरी सुर अगना ते सुकुमारि है ।

जैये चले अठिलैये उतै इतै कान्ह खड़ी वृषभानु-कुमारि है ।

‘संभु’ समूह गुलाब के सीसन डारि कै केसरि गार बिगारि है ।

पामरी पाँवड़े होति जहाँ-तहाँ का लला कामरी पै रँग डारि है ।

जाओ-जाओ ! चल दिये राधिकाजी के साथ होली खेलने । भला तुम्हारे इस काले कम्मल पर अपना केसरिया रंग डाल कर कौन उसे (रंग को) खराब करेगी ।

और देखिये—

कंज से सम्पुट हैं ये खरे हिय में गड़ि जात ज्यों कुन्त के कोर हैं ।

मेरु हैं पै हरि हाथ न आवत चक्रवती, पै बड़ेई कठोर हैं ।

भावती तेरे उरोजन के गुन 'दास' लखे सब औरई और हैं ।
संभु हैं पै उपजावे मनोज सुवित्त हैं पै परचित्त के चोर हैं ।
नीचे लिखा कवित्त भी निन्दा का सुन्दर उदाहरण हैं—

सील भरी खरी करि आपने कहे में आँखे,
घरी-घरी घर ही में धूँघट सँभारिलै ।
गोकुल में बसि कुल-कानि न कहाय प्यारी,
आनन छुयाय दृग नीचे कै निहारिलै ।
कहै कवि 'कासीराम' सीता इन्दुमती अरु,
सती पारवती कै-सा पातिव्रत धारिलै ।
जो लौ तेरी दीठि न परै री नन्दलाल तौ लौ,
गरबोली गूजरी गँवारी गाल मारिले ।

प्रबोध

नायक-नायिका के समझाने का नाम प्रबोध है ।

उदाहरण देखिये—

कचन की ककई कर लै हरे हेर हँसौहे कही यह नाइन ।
रात के सोवत के सपनों अपना सुन लीजिये मेरी गुसाइन ।
पै न चलाइये बात कहूँ सुनि पावै न कोऊ कहूँ की चबाइन ।
नौखे वे ठाकुर नन्दकिसोर अनौखी बनी तू नई ठकुराइन ।

संघट्टन

दूती के जिस उद्योग द्वारा नायक-नायिका का सयोग होता है, उसे संघट्टन कहते हैं । जैसे—

नव कुंजन बैठे पिया नंदलालजू जानत हैं सब कोक-कला ।
दिन में तहाँ दूती भोराय कै ल्याई महा छवि धाम नई अबला ।
जब धाय गही 'हरिचन्द' पिया तब बोली अजू तुम मोहि छला ।
हमें लाज लगै बलि पत्र परौं दिन ही ह-हा ऐसी न कीजै लला ।

और भी देखिये—

गोरी कों जु गुपाल को हेरी के मिस लाय ।

विजन साँकरी खोरि मे दोऊ दिये मिलाय ॥

× × ×

रमनी रमन मिलाप यो दूती रहति बराय ।

घन दामिनि कों जोरि कै ज्यों समीर बहिजाय ॥

विरह-निवेदन

दूती जिन शब्दों द्वारा नायक-नायिका की विरह-व्यथा एक दूसरे पर प्रकट करती है, उसे विरह-निवेदन कहते हैं ।

नीचे लिखे दोहे विरह-निवेदन के कैसे सुन्दर उदाहरण हैं ।
देखिए—

कहा कहाँ वाकी दसा जब खग बोलत राति ।

पीय सुनत ही जियति है, कहाँ सुनत मरिजाति ॥

× × ×

ते दीनों लीनों सुकर छुवत छुनकि गो नीर ।

लाल तिहारो अरगजा उर है लग्यो अबीर ॥

× × ×

जब तें आई तड़ित लौं नीलाम्बर में कौंधि ।

तब ते हरि चकृत भए लगी चखनि चकचौंधि ॥

× × ×

विरह-निवेदन में विहारी का नीचे लिखा दोहा भी देखने लायक है—

जो वाके तन की दसा देख्यो चाहत आप ।

तो बलि नेकु विलोकिये चलि औचक चुपचाप ॥

यदि तुम विरहिणी की वास्तविक विकलता देखना चाहते हो, तो चुपचाप अचानक चल कर देखो; क्योंकि • तुम्हारे आने की यदि उसे

पहले से सूचना मिल गई तो प्रसन्नता के कारण उसकी दशा सुधर जायगी । जैसा कि किसी उर्दू शायर ने भी कहा है—

उनके देखे से जो आजाती है रौनक मुँह पर-
वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है ।

वियोगिनी नायिका के दिनोदिन कृश होने का वर्णन किसी संस्कृत कवि ने क्या ही उत्तमता से किया है । वह कहता है—

महिला सहस्रभरिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती ।
प्रतिदिनमनन्यकर्मा अङ्ग तनुकमपि तनू करोति ॥

अर्थात् सहस्रो महिलाओं से भरे तुम्हारे हृदय में स्थान न पा सकने के कारण वह नायिका सब काम छोड़ कर अपनी दुबली-पतली देह को और भी अधिक कृश बना रही है । जिससे वह इतनी नायिकाओं के होते हुए भी आसानी से तुम्हारे हृदय में स्थान पा सके ।

ऊपर दिये उदाहरण साधारणतः सभी दूतियों के समझिये । आगे तीनों प्रकार की दूतियों के केवल संघट्टन और विरह-निवेदन के उदाहरण दिये जाते हैं ।

उत्तमा-संघट्टन

आय आय बादर रहे हैं नभ छाया छाया,
अधिक अँघेरी भई जैसे निसि कारी में ।
बोलि बोलि दादुर करत घन घोर सौर,
तड़िता तरपि बुन्द परत कियारी में ।
कहै ' कमलापति ' बखानत बनै न मो तैं,
जैसी जाय देखी अबै सोभा फुलवारी में ।
बारी बैस बारी कही मानि लै हमारी आज,
को न हरि यारी करै ऐसी हरियारी मे ।

उत्तमा-विरह-निवेदन

एक हती खीनी पर एते पै न एते मान,
भई अति दूबरी बिरह ज्वाल जरती ।
पास धरो चन्दन सुवास ही ते बाढ़ै ताप,
हो तो जो समीर तो उसासे न उसरती ।
चन्दन की रेख रही आभा अवशेष सुतो,
देखतै बनत पै न कहत बनै रती ।
ल्यावती गोविन्द अरविन्द की कली में राखि,
जो न मकरन्द बीच डूबिबे को डरती ।

मध्यमा-संघट्टन

दौरि दूरि ते मै आई कहिबे तिहारे पास,
देखि मनमोहिनी को मोहन अनूप बेस ।
ताकी 'कमलापति' सुसील सुन्दराई बारी,
समता न पावै रचै रूप रति हू हमेस ।
सीरे नैन कीजै चलि बलि जमुना के तीर,
भूषन सों भूषित विलोकि औरै नखतेस ।
फूली फूल बेली सी नबेली बाल भूलति है,
फूल के हिंडोरे आजु फूलन सों गूथे केस ।

मध्यमा-विरह-निवेदन

सेज परी है छुरी-सी भरे तन ताप सों जात छुवा न दई है ।
डोलति बोलति है न कछू दग खोलिवे की सुधि भूलि गई है ।
गोकुल जाति घुरी अंसुवानिसों लीक लखीसी विलोक लई है ।
बाल की लाल दसा सुनिये वह बारि बिहीन की मीन भई है ।

अधमा-संघट्टन

है उत नागर नन्दकुमार औ तूही इतै वृषभानलली है ।
जोरी बनी है दुहूँ की अपूरब पूरब पुन्य की बेलि फली है ।
जोवत हैं कब के मग ठाढे अकेले जहाँ वह कुञ्ज थली है ।
बेगि न जाति लजाति कहा यह जाति जुन्हाई की राति चली है ।

अधमा-त्रिरह-निवेदन

दूरि ही ते देखति दसा मै वा वियोगिनी की,
आई दौरि भाजि ह्याँ इलाज मढि आवेगी ।
कहै 'पदमाकर' सुनो हो घनस्याम ताहि,
चेतत कहूँ जो एक आह कढि आवेगी ।
सर सरितान को न सूखत लगैगी बेर,
एती कछू जुलमिनि ज्वाल कढि आवेगी ।
ताकी विरहागि की कहीं मै कहा बात मेरे—
गात ही छुए तैं तुम्हैं ताप चढि आवेगी ।

स्वयं दूती

जब नायिका अपनी कार्यसिद्ध के लिए स्वयं दूती का कार्य करती है,
तब उसकी स्वयंदूती संज्ञा होती है । यथा—

सहर मँभारत पहर एक लागि जैहै,
छोर में नगर के सराय है उतारे की ।
कहत 'कविन्द' मगमोँभ ही परैगी सौँभ,
खबर उड़ानी है, बटोही द्वैक मारे की ।
घर के हमारे परदेस को सिघारे याते,
दयाकै विचारें हम रीति राह बारे की ।

उतरो नदी के तीर बर के तरेईं तुम,
चौको जनि चौकी तहाँ पाहलू हमारे की।

×

×

×

नीचे लिखा दोहा भी स्वयं दूती का सुन्दर उदाहरण है। देखिए

बसौ पथिक या पौरि में यहाँ न आवै और।

यह मेरो यह सासु को यह ननदी को ठौर ॥

यहाँ स्वयं दूती नायिका पथिक से 'पौरि' में (पौली में) ठहरने की प्रार्थना करती हुई उसे बातों ही बातों में अपने सोने का स्थान भी बता देती है। इसी भाव का एक संस्कृत का उदाहरण भी बड़ा सुन्दर है। नीचे उसे भी पढ़ लीजिये।

श्वश्रूत्र निमज्जति अत्राह दिवस एव प्रलोकय।

मा पथिक रात्र्यन्धक शय्यायां मम निमङ्क्षसि ॥

अर्थात् इस जगह तो मेरी सास (निमज्जति) खूब गहरी नींद में सोती है, और यहाँ मैं सोती हूँ। हे (रात्र्यन्धक) रतौधी वाले पथिक दिन में ही ध्यान से देख लो। ऐसा न हो कि रात में कहीं मेरी खाट पर गिर पड़ो।

स्वयंदूती-संघट्टन

घटा घहरात तामै बीजुरी न ठहरात,
सीतल समीर त्योही लाग्यौ मेह भरु है।

पौरियै रतौधी आवै सखी सबै सोय रहीं,
जागत न केऊ परदेस मेरो वरु है।

ननद नियारी सास मायके सिधारी देखि—

भारी अधियारी तामें सूक्त न करु है।

सावन की सूनी अधराति निसि जागि जागि,

जागि रे बटोही इहाँ चोरन के डरु है।

(२७२)

स्वयंदूती-विरह-निवेदन

आपुस में हमको तुमको लखि जो मन आवत सो कहती हैं ।
बाते चबाव-भरी सुनि कै रिस लागति पै चुप ह्वै रहती हैं ।
ये घरहाँई लुगाईं सबै निसि-द्यौस 'नेवाज' हमें दहती हैं ।
प्रान पियारे ! तिहारे लिये सिगरे ब्रज को हँसिवो सहती हैं ।

षड्ऋतु

गर्मी, सर्दी तथा वर्षा की दृष्टि से, वर्ष के छह विभाग किये गए हैं, जिन्हें ऋतु कहते हैं। सूर्य की गति के अनुसार पूरा वर्ष बारह भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें राशि कहते हैं। अर्थात् मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीन ये बारह राशियाँ हैं। क्रान्त वृत्त के मार्ग में जो नक्षत्र हैं, उनके आकारों की कल्पना करके ही उपर्युक्त नाम रखे गए हैं। क्रान्त वृत्त के मार्ग में जो महा विषुव बिन्दु है, उसी से राशियाँ शुरू होती हैं। जब मीन और मेष राशि पर सूर्य होता है, (अर्थात् मार्च-अप्रैल में) तब वसन्त ऋतु होती है। हमारे यहाँ वसन्तागमन की सूचना देने के लिए वसन्त पञ्चमी का त्यौहार मनाया जाता है। होली भी वसन्त ऋतु का त्यौहार है। अंगरेज़ी का एप्रिल शब्द भी एक्रोडाइट (कामदेव) से ही निकला है। जब वृषभ और मिथुन राशि पर सूर्य होता है, (अर्थात् मई-जून में) तो उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में बड़ी गर्मी पड़ती है, लू चलती है, शर्बत बरफ़ ठंडाई आदि पीना अच्छा लगता है। जब सूर्य कर्क और सिंह राशि पर होता है, (अर्थात् जुलाई-अगस्त में) तब उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में खूब मेह बरसता है। कन्या और तुला राशि पर सूर्य आने पर (अर्थात् सितम्बर-अक्टूबर में) शरद ऋतु होती है। इस ऋतु में चन्द्रमा बड़ा सुहावना और आनन्ददायक दिखाई देता है। वर्षा ऋतु के कारण वायु-मण्डल निर्मल हो जाने से, आकाश बड़ा सुन्दर हो जाता है। वृश्चिक और धनराशि में सूर्य आने पर (अर्थात् नवम्बर-दिसम्बर मास में) हेमन्त ऋतु आती है और उसके पीछे शिशिर ऋतु। इसमें सूर्य मकर और कुम्भ राशि पर होता है। इस समय अंगरेज़ी महीने जनवरी और फरवरी होते हैं।

संस्कृत-कवियों ने प्रायः शिशिर को पहली ऋतु मानकर उसी से ऋतु-वर्णन आरम्भ किया है, परन्तु हिन्दी वालों ने वसन्त को पहली ऋतु माना है, अतः उनका ऋतु-वर्णन वसन्त से ही आरम्भ होता है। वसन्त में होली का भी बड़ा महत्त्व है। प्राचीन समय में वसन्त और होली किस प्रकार मनाये जाते थे, उसका कुछ परिचय निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त हो सकेगा।

वसन्त और होली

प्राचीन भारत में ऋतु सम्बन्धी उत्सव बड़े समारोहपूर्वक मनाए जाते थे। वसन्तोत्सव को मनाते समय तो हर्ष का पारावार ही न रहता था। शरद ऋतु में कौमुदी उत्सव मनाया जाता था। संस्कृत-काव्य-साहित्य इस प्रकार के उत्सव सम्बन्धी वर्णनों से भरा पड़ा है। होलिकोत्सव वसन्तोत्सव का ही एक भेद है, जो विकृत रूप में आज भी मनाया जाता है। फाल्गुन और चैत्र दोनों में मदनोत्सवों की धूम रहती थी। मदनोत्सव के मनाने का वर्णन सुप्रसिद्ध सम्राट् श्री हर्षदेव की रत्नावली में बड़े सुन्दर और सजीव ढंग से किया गया है। विद्वद्वर पं० हजारीप्रसादजी द्विवेदी के "मधुकर" में प्रकाशित एक लेख में उसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—मदनोत्सव के दिन दोपहर के बाद सारा नगर पुरवासियों की करतल-ध्वनि, मदन-संगीत और मृदंग के गम्भीर घोष से मुखरित हो उठता था। नगर के लोग मदमत्त हो जाते थे। राजा अपने ऊँचे प्रासाद की सब से ऊपर वाली चन्द्रशाला में बैठकर नगरवासियों के आमोद-प्रमोद के देखा करते थे। नगर की कामिनियाँ मधु-पान करके ऐसी मतवाली हो जाती थीं, कि उनके सामने जो कोई पुरुष पड़ जाता उस पर पिचकारी (शृंगक) के जल की बौछार करने लगती थीं। बड़े-बड़े रास्तों के चौराहे मर्दल नामक बाजे के गम्भीर घोष और चर्चरी की ध्वनि से शब्दायमान हो उठते थे। ढेर का ढेर सुगन्धित अबीर दसों दिशाओं में इतना उड़ता रहता था, कि दिशाएँ रंगिन हो जाती थीं। जब नगर-वासियों का आमोद पूरे चर्चाव पर आ जाता तो नगरी के सारे राजपथ

केशरमिश्रित अबीर से इस प्रकार भर उठते थे, मानो उषा की छाया पड़ रही हो। लोगों के शरीर पर शोभायमान अलंकार और सिर पर पहने हुए अशोक के लाल फूल इस लाल-पीले सौन्दर्य को और भी अधिक बढ़ा देते थे। ऐसा जान पड़ता था, कि नगरी के सभी लोग सुनहरे रंग में डुबो दिये गए हैं। राजकीय प्रासाद तथा अन्य समृद्धिशाली भवनों के आँगनों में निरन्तर फव्वारा छूटा करता था, जिससे अपनी-अपनी पिचकारी में जल भरने की होड़-सी मची रहती थी। इस स्थान पर पौर युवतियों के बराबर आते रहने से उनकी माँग के सिन्दूर और गाल के अबीर भरते रहते थे। सारा आँगन लाल कीचड़ से भर जाता था और फर्श सिन्दूर-मय हो उठता था।

उस दिन वेश्याओं के मुहल्ले में सबसे अधिक हुर्दग दिखाई देता था। रसिक नागरिक पिचकारियों में सुगन्धित जल भर कर वेश्याओं के कामल शरीरों पर फेका करते थे जिससे वे सीत्कार करके सिहर उठती थीं। वहाँ इतना अबीर उड़ता था कि सारा मुहल्ला अन्धकारमय हो जाता था।

अन्तःपुर की रसिका परिचारिकाएँ हाथ में आम्रमञ्जरी लिए हुए द्विपदी खण्ड का गान करती नृत्य करने लगती थीं। इस दिन इनका आमोद मर्यादा की सीमा पार कर जाता था। वे मधुपान से मत्त हो उठती थीं। नाचते-नाचते उनके केशपाश शिथिल हो जाते थे। कबरी (जूरा) के बाँधने वाली मालती-माला खिसक कर न जाने कहाँ गायब हो जाती थी। पैरों के नूपुर भटकन-मटकन के वेग को न सम्हाल सकने के कारण दुगने जोर से झनझनाने लगते थे। नगरी के भीतर और बाहर सर्वत्र आमोद और उल्लास की प्रचण्ड आँधी चलने लगती थी।

वसन्तोत्सव प्राचीन भारत में किस प्रकार मनाया जाता था, उसका कुछ वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में महाकवि भवभूति की शक्तिशालिन लेखनी

के आधार पर दिया गया है। इससे आजकल की होली से कुछ तुलना की जा सकती है। वसन्तोत्सव मनाते समय कामदेव के मन्दिर में जाकर उसकी पूजा की जाती थी। प्राचीन ग्रन्थों में वसन्त के निम्नलिखित उत्सव मनाए जाने का उल्लेख है—

अष्टमीचन्द्र, शक्रार्चा या इन्द्र पूजन, वसन्त या सुवसन्तक, मदनोत्सव, वकुल और अशोक-वृक्षों के पास विहार और शाल्मलीविनोद। पण्डित हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के उपर्युक्त लेख में लिखा है कि सुवसन्तक वसन्तावतार के दिन को कहते हैं, अर्थात् जिस दिन प्रथम वार वसन्त पृथिवी पर उतरता है। इस तरह आजकल के हिमाचल से यह दिन वसन्त पञ्चमी को पडना चाहिये। इसी दिन मदन की पहली पूजा विहित है। इसी दिन उस युग की विलासिनियाँ कण्ठ में कुवलय की माला और कानों में दुष्प्राप्य नव आम्रमंजरी धारण करके ग्राम को जगमग कर देती थीं। पुराने गर्म कपड़ों को फेंककर लाक्षारस या कुंकुम के रंग से रंजित और सुगन्धित कालागुरु से सुवासित हलकी लाल साड़ियाँ पहनती थीं। कोई-कोई कुसुम्भी डुकूल धारण करती थीं और कोई-कोई कानों में नवीन कर्णिकार का फूल, नील अलकों में लाल अशोक के फूल और वक्षःस्थल पर उत्कुल्ल नव मल्लिका की माला धारण करती थीं।

उन दिनों वसन्त ऋतु की उद्यान-यात्रा और वनयात्राएँ काफी मजेदार होती थीं। कामसूत्र में लिखा है कि निश्चित दिन को दोपहर के पूर्व ही नागरिक-गण सजधज कर तैयार हो जाते थे। घोड़ों पर चढ़कर वे किसी दूरस्थित उद्यान या वन की ओर—जो एक-दो दिन में ही लौट आने योग्य दूरी पर होता था—जाया करते थे। कभी-कभी इनके साथ वेश्याएँ भी होती थीं, और कभी-कभी अन्तःपुर की गृह-देवियाँ।

इन उद्यान-यात्राओं या पिकनिक पार्टियों में हिन्दोल-लीला, समस्या-पूर्ति, आख्यायिका, बिन्दुमती, प्रहेलिका आदि खेल होते थे।

वसन्त-वर्णन

देखिये, ' मदन महीप के बालक ' वसन्त के कैसे ठाठ हैं—

डार टुम पालन विछौना नव पल्लव के,
सुमन भँगूला सोहैं तन छुबि भारी दै ।
पवन भुलावै केकी कीर बतरावे 'देव'
कोकिला हलावै हुलसावै करतारी दै ।
पूरित पराग सों उतारौ करे राई-लौन,
कज कली नायिका-लतान सिर सारी दै ।
मदन महीप जू के बालक वसन्त ताहि,
प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दै ।

और सुनिए, ऋतुराज के आगमन की सूचना पाकर प्रकृति में, उनके स्वागत के लिए, कैसी चहल-पहल दिखाई दे रही है—

कूकि उठीं कोकिला सु गूँजि उठी भौर भीर,
डोलि उठे सौरभ समीर तरसावने ।
फूलि उठीं लतिका हैं लोगन की लौनी लौनी,
भूमि उठीं डालियाँ कदम्ब सरसावने ।
चहकि चकोर उठे करि करि सोर उठे,
टेरि उठीं सारिका विनोद उपजावने ।
चटकि गुलाब उठे लटकि सरोज पुंज,
खटकि मराल ऋतुराज सुनि आवने ।

अब ज़रा पद्माकरजी का भी वसन्त-वर्णन सुन लीजिए—

कूलन में केलि में कछारन में कुञ्जन में,
क्यारिन में कलित कलीन किलकन्त है ।
कहै ' पदमाकर ' पराग में सु पौन हू में,
पातन में पीकन प्लासन पगन्त है ।

द्वार में दिसान में दुनी में देस देसन में,
देखो दीप-दीपन मे दीपति दिगन्त है ।
बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन मे,
बनन में बागन में बगर्यू बसन्त है ।

कैई वियोगिनी गोपी जल-भुन कर वसन्त का ऐसा विचित्र वर्णन
करती है कि उसने वसन्त का नकशा ही बदल दिया है । देखिये—

पात बिन कीन्हे ऐसी भाँति गन बेलिन के,
परत न चीन्हे जैवे लरजत लुञ्ज हैं ।
कहै 'पदमाकर' बिसासी या बसन्त के सु,
ऐसे उतपात गात गोपिन के भुञ्ज हैं ।
ऊधौ यह सूधौ सो छंदेसौ कहि दीजौ भले-
हरि सों, हमारे ह्याँ न फूले बन कुञ्ज हैं ।
किसुक गुलाब कचनार औ अनारन की,
डारन पै डोलत अँगारन के पुञ्ज हैं ।

ऊपर के पद्य में तो विरहिणी ने 'किसुक, कचनार और अनार' की
डालियों पर 'अंगारों के पुञ्ज' ही डुलाए थे, परन्तु नीचे के सवैया में तो
कवि ने सारे वन-बागों में ही आग लगा दी है । देखिए—

आर्यौ बसन्त तमालन ते नव पल्लव की इमि जोति जगी है ।
फूलि पलास रहे जित ही तित पाटल राते ही रग रंगी है ।
मौर के अम्बन सार भई तिहि ऊपर केकिल आनि खगी है ।
भागन भाग बचो बिरही जनु बागन बागन आग लगी है ।

निम्नलिखित सवैया में पद्माकरजी वसन्तागमन की ओर ध्यान दिला
कर ब्रजचन्द से उस वन में जाने के लिए आग्रह करते हैं, जिसमें बेचारी
ब्रजबालाएँ बावली-सी बनी घूम रही हैं । सुनिये—

ए ब्रजचन्द चलौ किन वा ब्रज लूके बसन्त की ऊकन लागी ।
त्यौ 'पदमाकर' पेखौ पलासत पावक-सी मनौ फूकन लागी ।

वै ब्रजवारी विचारीं बधू बन बावरी लौं हिय हूकन लागी ।
कारी कुरूप कसाइने पै सु कूहू कुहू कौलिया कूकन लागी ।

और देखिये, विरहिणी बाला वसन्त के भरोसे कितने धैर्य के साथ वियोगव्यथा को बरदाश्त कर रही है । उसे दृढ विश्वास है कि वसन्त के आते ही कन्त घर आए विना न रहेगे । देखिए—

फूलन दै अबै टेसू-कदम्बन अम्बन बौरन छावनदै री ।
री मधुमत्त मधूवन पुंजन कुंजन सोर मचावनदै री ।
क्यों सहि है सुकुमार 'किसोर' अरी कल केकिलै गावनदै री ।
आवत ही बनि है घर कन्तहि वीर बसन्तहि आवनदै री ।

पूर्य कवि ने वसन्त के आते ही सन्तों के निष्काम और निर्विकार मन में भी काम उत्पन्न कर दिया है, देखिये—

बाटिका विपिन लागी छावन छुबीली छटा,
छिति ते सिंसर के कसालो भयो न्यारो है ।
कूजन किलोल कै लगो है कुल पंछिन के,
'पूरन' समीरन सुगन्ध के पसारो है ।
लागत बसन्त नव सन्त मन जागो मैंन,
दैन दुख लागो विरहीन बरियारो है ।
सुमन निकुञ्जन में कुंजन के पुञ्जन में,
गुञ्जत मिलिन्दन को वृन्द मतवारो है ।

जहाँ वियोगियों ने वसन्त को बुरा-भला कहा है, वहाँ सयोगियों ने उसे आशीर्वाद भी खूब दिया है । सुनिये—

मिलि माधवी आदिक फूल के व्याज विनोद लवा बरसायो करै ।
रचि नाच लतागन तानि बितान सबै विधि चित्त चुरायो करै ।
द्विज देव जू देखि अनौखी प्रभा अलि चारन कीरति गायो करै ।
चिरजीवो बसन्त सदा द्विजदेव प्रसूनन की भरि लायो करै ।

अब साधारण बसन्त-वर्णन का एक कवित्त और पढ़ लीजिए—

खेलन को होरी चले प्रथमहि स्यामा स्याम,
बौरे नव आम फूल सरसों समन्त है ।
पञ्चमी बसन्त रति कन्त केा जनम दिन,
फैली रिनु कन्त जू की सुषमा अनन्त है ।
'गिरधर दास' करे केकिला सरस सौर,
चारों ओर भौरन की भीर दरसन्त है ।
फाग मे बसन्त लाल पाग में बसन्त,
बाल राग में बसन्त बाग बाग में बसन्त है ।

अब ज़रा होली के हुर्दंग की बानगी भी देख लीजिए—

धूमि देखो घरिक धमारन की धूम देखो,
भूमि देखो भूषित छुवावै छवि छवि कै ।
कहै 'पदमाकर' उमग रग सौंच देखो,
केसरि की कींच जो रझौ है ग्वाल गविकै ।
उड़त गुलाल देखो तानन की ताल देखो,
नाचत गुपाल देखो लै हौ कहा दबि कै ।
भोलि देखो भरिफ सकेलि देखो ऐसो सुख,
मेलि देखो मूँठ खेलि देखो फाग फवि कै ।

इस प्रकार मचते हुए होली के हुल्लड़ मे एक मनचली गोपी कृष्ण से कहती है—

खेलो मिलि हेरी घोरी केसरि कमोरी फँके—
भरि भरि भोरी लाज जिय में बिचारौ ना ।
डारो बहु रंग संग चंग हू बजावो गावो,
सबहि रिभावो सरसावो संक धारौ ना ।
जोरि कर कहती निहोरो 'हरिचन्द' प्यारे,
मोरी विनती है एक ताहि तुम टारौ ना ।

नैन हैं चकोर मुख-चन्द सों परैगी ओट,

यातें इन आँखिन गुलाल लाल डारौ ना ।

परन्तु वहाँ ऐसे विनय की कौन परवा करता है । आखिर कृष्ण ने एक मूठ अबीर उसी समय गोपी के मुँह पर मार दी । फिर क्या था अबीर और अहीर-‘कृष्ण’ दोनों एक साथ ही उसकी आँखों में घुस गए । बेचारी उन्हें निकालने के लिए बड़ी छुटपटाई—अनेक प्रयत्न किये । ज्यों त्यों कर अबीर तो आँखों से निकल गया, पर अहीर नहीं निकल पाया ! इससे बेचारी बड़ी परेशान हो गई, उसकी परेशानी उसी की ज़बानी सुन लीजिए—

एकै संग धाए नन्दलाल औ गुलाल दोऊ,

दृगन गए जो भरि आनँद मढ़ै नहीं ।

बोय-धोय हारी ‘पदमाकर’ तिहारी सोंह,

अब तो उपाव कोऊ चित्त पै चढ़ै नहीं ।

कैसी करों कहाँ जाउँ कासों कहाँ कौन सुनै,

कोऊ तो निकासौ जासों दरद बढ़ै नहीं ।

एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखिन सों,

कढ़िगो अबीर पै अहीर को कढ़ै नहीं ।

अन्त में गोपी ने भी बदला लेने के विचार से अपनी सखियों के साथ लेकर नन्दलाल पर हल्ला बोल दिया । देखिए—

डरौ ना अहीरन सों अतर अबीरन सों,

चार चार जनी चार ओरन ते धावो री ।

एक हाथ ओडो पिचकारी की अपार मार,

एक हाथ ओट चोट आँखिन बचावो री ।

कवि ‘सरदार’ आये बड़ो खेलवारो ताहि,

खेल के सवाद अग-अंगन बतावो री ।

कीरति कुमारी कहैं हेरिके कुमारी कोऊ,

हौ री गुनवारी बनवारी बाँधि लावो री ।

गोपी ने सखियों को आज्ञा दे दी—चारों ओर से घेर कर नन्दलाल को बाँध लाओ, पर देखो, अपनी आँखें बचाए रखना, सावधान ! ठीक भी तो है, बेचारी भुगतते हुए भी तो थी । अस्तु—

उधर नन्दलाल ने जो इस मण्डली को अपनी ओर आते देखा तो वे भी ग्वालो की टोली लेकर मैदान में डट गए । फिर क्या था—

लै बलवीर अवीर की मूठि दई अलबेली लली दग दूपर ।
त्यौं बनमाली पै आली चलावती लाल गुलाली की है रही भूपर ।
लै पिचकारी बिहारी तहाँ अधिकारी करी ब्रजवारी बधू पर ।
पीन पयोधर ते उचटी सो परी सब केसर लाल के ऊपर ।

जिस समय यह गोप-गोपिकाओं का हुल्लड़ मचा हुआ था, उस समय की शोभा का वर्णन किसी कवि ने क्या ही अच्छा किया है—

खेलत फाग गुलाल भरे इत ग्वालि, उतै धनश्याम उमंग सों ।
कंचन की पिचकारिन धार खुली अलके सुकतावलि अंग सों ।
भीजि कपोलनि गौ लागि अचल कंचुकी चारु उरोज उतग सों ।
केसरि रंग सों अंग रँग्यो कि रही रँगि केसरि अंग के रंग सों ।

दर्शकों को भ्रम हो रहा है कि गोपी का शरीर केसर-रंग से रंगा है या अंग के रंग से केसर का रंग इतना गहरा हो गया है ।

इस तरह खूब अवीर-गुलाल और रंग की वर्षा हुई, दोनों ओर से खूब कुमकुमे चलाए गए । अन्त में एक बार गोपियों का दाव लग गया ।

फाग के भीर अभीरन त्यौं गहि गोबिन्दै लै गई भीतर गोरी ।
भाई करी मन की ' पदमाकर ' ऊपर नाय अवीर की भोरी ।
छीन पितम्बर कम्मर ते सु बिदा दई मीजि कपोलन रोरी ।
नैन नचाय कही मुसकाय लला फिर आइयो खेलन होरी ।

इस प्रकार गोपी और नन्दलाल खूब मनभाई करके अपने-अपने घर

सिंघार गए । घर पहुँचकर गोपी कपड़े बदलने में लगी । उस समय गोपी की सहेली अपनी साथिन से कहती है—

आई खेलि होरी घरे नवल किसोरी कहुँ,
बोरी गई रंग मे सुगन्धन भुकेरै है ।
कहै 'पदगाकर' इकन्त चाले चौकी चढ़ि,
हारन के बारन ते फन्द बन्द छोरै है ।
घोषरे की घूमन सु उरुन दुबीचै दाबि,
आँगी हू उतारि सुकुमारी मुख मौरै है ।
दन्तन अघर दाबि दूनर भई सी चापि,
चौबर पचौबर कै चूनरि निचोरै है ।

×

×

×

गोपी कपड़े बदल कर बैठी थी, इतने में उसके सग की और भी हुरिहारिन नहा-धोकर आ गई । और परस्पर हास-परिहास होने लगा । नन्दलाल की दुर्गति बनाने की चर्चा चली । एक कहने लगी—बहन, उस समय तुम्हारे सामने आकर वे (नन्दलाल) कैसी भीगी बिल्ली बन गए थे । मालूम होता है, तुमने उन पर अपना जादू डाल दिया था । सखी, सच-सच बताना, तुम्हारी किस बात में ऐसा जादू था जो नन्दलाल इस तरह तुम्हारे वश में होगए ।

फाग में कि बाग में कि भाग में रही है भरि,
राग में कि लाग में कि सौहे खान जूठी में ।
चोरी में कि जोरी में कि रोरी में कि मोरी में कि,
भूमि भुकभोरी में कि भोरिन की ऊठी में ।
'वाल' कवि नैन में कि वैन में कि सैन में कि,
रंग लैन दैन में कि आँगुरी अँगूठी में ।
मूठी में गुलाल में कि ख्याल में तिहारे प्यारी,
का में भरी मोहिनी जो भयो लाल मूठी में ।

अब उर्दू के मशहूर कवि नज़ीर का भी होली-वर्णन देख लीलिए—

जब फागुन रंग भूमकते हों, तब देख बहारे होली की ।
और डफ़ के शोर खड़कते हों तब देख बहारे होली की ।
परियों के रंग दमकते हों, तब देख बहारें होली की ।
खुम शीशे जाम झलकते हों तब देख बहारे होली की ॥

×

×

×

कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो,
मुँह लाल गुलाबी आँखें हों, और होंथों में पिचकारी हो ।
उस रंग भरी पिचकारी को अँगिया पर तक कर मारी हो,
सीनों से रंग ढलकते हों, तब देख बहारें होली की ।

ग्रीष्म ऋतु-वर्णन

जो प्रकृति वसन्त में शोभा और सरसता का स्रोत बनी हुई थी, उसे निर्दय निदाध ने झुलसाकर कैसा बुरा बना दिया, ज़रा मुलाहिज़ा करमाइए—

ग्रीष्म में भीषम है तपत सहसकर,
वापी सर नारे नद नदी सूखि जात है ।
भरपि भरपि भूकभोरि भूरे तत पौन,
धूरि धार धूसरे दिगन्न ना दिखात है ।
श्रीपति सुकवि कहै आली बनमाली बिन,
खाली जग मोहि कैसे वासर बिहात है ।
तावा सो अजिर पग लावा से तचत घर
भयो गिरि आवा से पजावा से धुँआत है ।

अभी क्या है, अभी तो —

प्रबल प्रचण्ड चण्डकर की किरनि देखो,
बैहृ उदण्ड नव खण्ड घुमिलत हैं ।

अवनि कराही कैसे तेल रतनाकर सो,
'नैन कवि' ज्वाला की लहर भलकत हैं ।

ग्रीषम की ज्वाल जाल कठिन कराल यह,
काल ज्वालामुखी हू की देह पिघलत है ।

लुका भयो आसमान भूधर भभूका भयो,
भभकि भभकि भमि दावा उगिलत है ।

जब रत्नाकर भी कड़ाही के तेल की भाँति खौलने लगा, तब कूप-
तड़ागादि का तो कहना ही क्या । वह तो सूख साख कर सिकतामय हो
गए । देखिए—

जैये बिना जीरन सो जलकी जिकिर जीभ,
जर्यौ जात जगत जलाकन के जोर तैं ।

कूप सर सरिता सुखाय सिकतामै भए,
घाई धूरि घौरन घराघर के छोर तैं ।

'बैनी कवि' कहत अनातप चहत सब,
अगिन सो आतप प्रकास चहुँ ओर तैं ।

तवा सो तपत धरामण्डल अखण्डल औ,
मारतण्डमण्डल दवा सो हेत भोर तैं ।

इधर जलाशयों का तो यह बुरा हाल है, उधर प्यास के मारे दम
निकला जाता है । बार-बार पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती—

ग्रीषम की गजब धुकी है धूप धाम धाम.

गरमी भुकी है जाम जाम अति थापिनी ।

भीजे खस बीजन भलैहूँ न सुखात स्वेद,

गात न सुहात बात दावा सी डरापिनी ।

'ग्वाल कवि' कहै कोरे कुम्भन ते रूपन तैं,

लै लै जलधार बार बार मुख थापिनी ।

जब पीयो तब पीयो अब पीयो फेर अब,

पीवत हूँ पीवत बुझै न प्यास पापिनी ।

ग्रीष्म की प्रचण्ड गर्मी से जलाशय ही सूख गए हों, सो नहीं, काँच और पत्थर भी पिघल-पिघल कर बहने लगे हैं । देखिये, गिरधर कवि क्या कहते हैं—

तपत प्रचण्ड मारतण्ड महिमण्डल में,
ग्रीष्म की तीखन तपन आर पार हैं ।
'गिरधर' कहै काच कीच सो बहन लाग्यो,
भयो नद-नदी-नीर अदहन धार हैं ।
भ्रूषट चहुँहन तैं लपट लपेटी लूह,
सेस कैसी फूक पौन भूकन की झार हैं ।
तावा सी अटारी तपी आवासी अवनि महा-
दावा से महल औ पजावा से पहार हैं ।

परन्तु जिन सौभाग्यशालियों के यहाँ ग्रीष्म का घमण्ड घटाने के लिए आवश्यक साधन-सामग्री मौजूद है, उनकी तो बात ही निराली है—वे तो ऊष्माविरोधी उपचार कर कुछ शान्ति प्राप्त कर ही लेते हैं, देखिए—

अवर अतर तर चन्द्रक चहल तन,
चन्द्रमुखी चन्दन महल मैनसाला से ।
खासे खसखाने तहखाने तरताने तने,
ऊजरे बिताये छुए लागत हैं पाला से ।
दत्त कहै ग्रीष्म गरम की भरम कौन,
जिनके गुलाब आब हौज भरे ताला से ।
भाला से भरत भर भाँपन सी वारा बाँधे,
धारा बाँधे छूटत फुहारा मेघमाला से ।
और भी देखिए, पद्माकरजी इस प्रसंग में क्या कहते हैं—
फहरैं फुहारे नीर नहरैं नदी सी बहैं,
छहरैं-छबिन छाम छीटिन की छाटी हैं ।

कहै 'पदमाकर' त्यों जेठ की जलाके तहाँ—

पावे क्यों प्रबेस बेस बेलिन की बाटी हैं ।
बार हूँ दरीन बीच बारहु तरफ तैसा
बरफ बिछाई तापै सीतल सुपाटी हैं ।
गजक अँगूर की अँगूर सो ऊँचो है कुच
आसव अँगूर के अँगूर ही की टाटी हैं ।

ग्वाल कवि की ग्रीष्म-विलास-सामग्री की सूची नीचे लिखे अनुसार है,
उसे भी पढ़ लीजिये—

जेठ को न त्रास जाके पास ये विलास होय,
खस के मवास पै गुलाब उछरथौ करै ।
बिही के मुरब्बे डब्बे चोदी के बरक भरे,
बैठे पाग केबरे में बरफ परथौ करै ।
'ग्वाल कवि' चन्दन चहल में कपूर चूर,
चन्दन अतर तर बसन खरथौ करै ।
कंज मुखी कंज नैनी कंज के बिछौनन पै,
कञ्जन की पंखी कर कञ्जन करथौ करै ।

ग्रीष्म के सम्बन्ध में नीचे लिखा दोहा भी पढने योग्य है—

बैठि रही अति सघन बन पैठि सदन तन माँह ।
निरखि दुपहरी जेठ की छाँहौ चाहति छाँह ॥

और देखिये, सुन्दरी के चेहरे से टपकते हुए पसीने का कैसा सुन्दर
वर्णन किया गया है—

ग्रीष्म में तपै भीषम भानु गई बन कुंज सखीन के मूल सों ।
घामते कामलता मुरझानी बयारि करै घनश्याम दुकूल सों ।
कम्पति औ, प्रगतै पर स्वेद उरोजन दत्तजू ठोड़ी के मूल सों ।
द्वै अरविन्द कलीन पै मानों भरै मकरूद गुलाब के फूल सों ।

पावस-वर्षन

ग्रीष्म की प्रचण्ड ऊष्मा का वर्षन पढते-पढते आपका हृदय अबे या पजावे की भाँति दहक उठा होगा। अब आइये, पावस की नन्हीं-नन्हीं फुहारों और हृदयाह्लादकारिणी हरियाली से ज़रा उसे हराकर लीजिये। देखिये, अब तो—

बीत गयो ग्रीसम बिलीत भयो ताप दाप,
बार-बार सीतल समीर तरजै लगे।
पथिक पधारे निज गेह मे सनेह भरे,
हरे-हरे पात वारे तर तरजै लगे।
दमकि दिमाक तें दुरति दुति दामिनि की,
मुदित मयूर मन मौन बरजै लगे।
घरी-घरी घेरि-घेरि घुमड़ि घमंड भरे,
घाघ से घनेरे घन घोर गरजै लगे।

और देखिये—

कोकिल कदम्बन की डार पै कुहूकै कल,
कुंजन में बौरन के पुंज दरसै लगे।
बिसद बलाकन की पाँति भाँति-भाँति चार,
चाहि चित चातक पियासे तरसै लगे।
मञ्जुल कलापिन की मण्डली भली हैं बनी,
सुखद सुसीतल समीर सरसै लगे।
चारों ओर चपला चमाकै चख चोरि-चोरि,
मन्द-मन्द बारिद के वृन्द बरसै लगे।

वर्षा की इस विलक्षण बहार को देख कर प्रकृति-परी आनन्द-मग्न हो गई है, और कोकिल, मयूर आदि हर्षावेष से नाच उठे हैं, देखिये—

मेचक चिकुर मेघ मण्डित मयंक मुख,
बिलसै बलाक हार हरि कुच केर हैं।

. (२८६)

भनकार नूपुर गरजि घहरात घन,
वन की छटान छहरत छिति छोर हैं ।
सौरभ सुरति स्वेदबुन्द बरसत बारि,
बसुधा सुधान सींचि मोदत अथोर हैं ।
प्रमदा परम परमा की पाय पावस कों
कूकि उठे कोकिल कुहूकि उठे मोर हैं ।

और देखिये, नीचे लिखे पद्य में पावस और प्रमदा की कैसे सुन्दर दंग
से तुलना की गई है ।

उत धनस्याम इत बाम पट सोहै स्याम,
वह अभिराम ये सुकाम सरसाकी है ।
कहै 'नवनीत' रसनीति की तरंग इतै,
उतै मदमेघ इतै चचला चलाकी है ।
भुकि-भुकि भूमै-भूमै गरज अरज भरे,
घुरवा मचाकी इतै लंक लचका की है ।
धुमड़ि घटान ही ते उमड़ि अनग आयो,
दौज और दीसत बहार बरसा की है ।

इसी भाव का कविवर तोषजी का भी पद्य पढ़ लीजिये—

जुगनु उतै हैं, इतै जोति है जवाहिर की,
भिल्ली भनकार उतै इतै वुँधरु लरैं ।
कहै कवि 'तोष' उतै चाप इतै बक भोह,
उतै बक पाति इतै मोठीमाल है गरैं ।
धुनि सुनि उतै सिखी नाचै सखी नाचैं इतै,
पी करै पपीहा उतै इतै प्यारी सी करैं ।
होड़ सी परी है मानों घन घनश्यामजू सों,
दामिनी कों कामिनी कों दौज अंक में भरैं ।

जो वर्षा चराचर प्रकृति को जीवन-दान देती है, वही वर्षा विरहिणी नायिकाओं के प्राण हर लेती है। देखिये, नीचे के पद्य में ब्रजगोपियाँ वर्षा के सम्बन्ध में क्या कहती हैं—

बरसत मेह नेह सरसत अग-अंग,
भरसत देह जैसे जरत जवासौ है।
कहे 'पदमाकर' कलिन्दी के कदम्बन पै,
मधुपन कीन्हों आय महत मवासौ है।
ऊधौ यह ऊधम जताय दीजो मोहन सों,
ब्रज कौ सुवासौ भयो अगिनि अवासौ है।
पातकी पपीहा स्वाँति बूँद कौ न प्यासो काहू
विथित वियोगिनि के प्रानन को प्यासौ है।

और देखिये, यह दूसरी वियोगिनी तो वर्षा का सारा व्यापार ही बन्द कर देना चाहती है।

आई ऋतु पावस न आएँ प्रान प्यारे यातें,
मेघन बरज आली गरजन लावैं ना।
दादुर हटक बकि बकि कै न फोरें कान,
पिकन पटक मोहि सबद सुनावैं ना।
बिरह बिथाते हौँ तो ब्याकुल भई हौँ 'देव'
चपला चमकि चित चिनगी उड़ावैं ना।
चातक न गावैं मोर सोर ना मचावैं धन—
धुमड़ि न छावैं जौलों लाल घर आवै ना।

और तमाशा देखिए, अगर ये सब मना करने पर भी नहीं मानेंगे, तो फिर नायिका इन्हें बल पूर्वक रोकेगी। सुनिये—

पीव पीव करत मिलें जो मोहि आज पीव,
सोने चोँच चातक मढ़ाऊँ अति आदरन।

कठिन कलापिन के कण्ठन कटाह डारों,
देत दुख दादर चिराय डारों दादरन ।
'भोतीराम' भिक्खीगन मन्दिर मुदाह डारों,
बधिक बुलाह बधों बक की बिरादरन ।
बिरहा की ज्वालन सों जिरह जराय डारों,
स्वासन उड़ाऊँ बैरी बेदरद बादरन ॥

नीचे लिखे पद्य में कविवर मुबारक ने पावस का कितना सुन्दर वर्णन किया है । देखिये—

बाजत नगारे घन ताल देत नदी नारे,
भिगुरन भाँभ मेरी भृंगन बजाई है ।
कोकिल अलापचारी नीलग्रीव नृत्यकारी,
पौन बीन घारी चाटी चातक लगाई है ।
मनिमाल जुगुनू 'मुबारक' तिमिर थार,
चौमुख चिराग चारु चपला जराई है ।
बालम विदेस नए दुख को जनम भयो,
पावस हमारे लायो बिरह-बघाई है ॥

अब जरा पावस के अन्धकार का वर्णन भी सुनिए—

'सेनापति' उनये नये जलद पावस के,
चारि हूँ दिसान घुघरत भरे तोय के ।
सोभा सरसाने न बखाने जात केहू भौँति,
आए हैं पहार मानो काजर के ढोय के ।
घन सों गगन छाये तिमिर सघन भयो,
देखि ना परत गयो रवि नभ खोय के ।
चार मास भरि घोर निसा को भरम करि
मेरे जान याही ते रहत हरि सोय के ।

काजल के पहाड़ जैसे काले-काले बादलों ने आकाश में घिर कर, सूर्य-मण्डल को ढाँप दिया, जिससे दिन में भी रत्रि का भ्रम होने लगा। सेनापति कहते हैं—सम्भवतः बरसात के घोर अन्धकार को रात समझ कर ही देवगण चार मास के लिए सो जाते हैं। वर्षा कालीन अन्धकार के सम्बन्ध में कविवर विहारी का यह दोहा भी पढ़ने लायक है—

पावस निसि अंधियार में रश्मौ भेद नहीं आन ।

राति द्यौस जाने परत लखि चकई चकवान ॥

देखिये शङ्करजी ने पावस का वर्णन कितना स्वाभाविक और सुन्दर किया है। साथ ही पावस से हमें जो-जो शिक्षाएँ मिलती हैं, उनका भी उल्लेख आप करते गए हैं।

भूधर से जब श्याम धवल धाराधर धाये,

धूम धूम चहुँ ओर घिरे गरजे भर लाये ।

वारिप्रवाह अनेक चले अचला पर दीखे,

इस विधि कुल्या कूल बहाना हम सब सीखे ।

भावर भील तड़ाग नदी नद सागर सारे,

हिलमिल एकाकार हुए पर हैं सब न्यारे,

सब के बीच बिराज रहा पावस का जल है,

व्यापक इसकी भाँति विश्व में ब्रह्म अचल है ।

×

×

×

उलहे पादप पुंज पाय मुख रस चौमासा,

केवल आक अचेत पड़े जल गया जवासा,

समझे जो प्रतिकूल सलिल मारुत पाता है,

रहता है वह रुग्ण त्याग तन मर जाता है ।

अधिक अंधेरी रात भ्रमक भौंगुर किंगारें

तिलका^१ तान उड़ायरहे निशि अलि^२ गुजारे,

१—एक चित्तीदार कीड़ा ।

२—बड़ा गुधरीला ।

यदि ये गाल फुलाय राग अविराम न गाते ।

तो बरुआ स्वर साध वेणु बँसुरी न बजाते ।

पिस्तुक मञ्छर डॉस, कूतरी खटमल काटे,

दिन में रहैं अचेत रातभर खाल उपाटें,

यो अविवेक प्रधान महातम की बनि आईं,

काम क्रोध, मद, लोभ, मोह अटके दुखदाईं ।

दीपक पै कर प्यार प्रताप पतङ्ग दिखाते,

त्याग त्याग तन प्राण प्रीति रस रीति सिखाते,

जाना अविचल प्रेम निठुर से जो करते हैं,

वे उस प्रिय के रूप, अग्नि में जल मरते हैं ।

कविवर राय देवीप्रसाद पूर्ण' का वर्षा-वर्षान भी पढ़ने लायक है ।

सुखद सीतल सुचि सुगन्धित पवन लागी बहन ।

सलिल बरसन लग्यौ बसुधा लागी सुषमा लहन ॥

लहलही लहरान लागीं सुमन-बेली मृदुल ।

हरित कुसुमित लगे भूमन बृच्छ मंजुल विपुल ॥

हरित मनि के रंग लागी भूमि मन को हरन ।

लसति इन्द्रबधून अवली छटा मानिक बरन ॥

बिमल बगुलन पाँति मनहुँ बिसाल मुकुतावली ।

चन्द्रहास समान चमकति चञ्चला त्यो भली ॥

नील नीरद सुभग सुरधनु ललित सोभा धाम ।

लसत मनु बनमाल धारे ललित श्री घनस्याम ॥

कूप कुण्ड गंभीर सरवर नीर लाग्यो भरन ।

नदी नद उफनान लागे लगे भरना भरन ॥

रटन दादुर बिबिध लागे रुचन चातक बचन ।

कूक छावत मुदित कानन लगे केकी नचन ॥

मेघ गर्जत मनहु पावस भूप को दल सकल ।

विजय दुन्दुभि हनत जग में छीनि ग्रीसम अमल ॥

उर्दू के मशहूर शायर 'नज़ीर' ने बरसात का कैसा अच्छा वर्णन किया है।

बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं,
झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं।
पड़ते हैं पानी हरजा जल-थल बना रहे हैं,
गुलज़ार भीगते हैं सज़े नहा रहे हैं ॥
सन्नों की लहलहाइट कुछ अन्न की सियाही,
और छा रही घटाएँ सुख और सफ़ेद काही।
सब भीगते हैं घर घर ले माहताब माही,
यह रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही ॥
कोई तो भूलने में भूले की डोर छोड़े,
या साथियों से अपने पाँवों से पाँव जोड़े।
बादल खड़े हैं सर पर बरसे हैं थोड़े-थोड़े,
बूंदों से भीगते हैं लाल और गुलाबी जोड़े ॥
गिरकर किसी के कपड़े दलदल में हैं मोअत्तर,
फिसला कोई किसी का कीचड़ में मुँह गया भर।
एक-दो नहीं फिसलते कुछ बस में आन अक्सर,
होते हैं सैकड़ों के सर नीचे पाँव ऊपर ॥

हिंडोला

वर्षा-वर्षान के अन्तर्गत कवियों ने हिंडोला (भूला) वर्णन भी किया है। उसके सम्बन्ध में भी कुछ पद्य पढ़ लीजिये—

सावन की तीजे पिया भीजें बारिखुन्दन सो,
अंग अग ओढ़नी सुरंग रंग बोरे की।
गावत मलारे धुरवान की धुकारे कहुँ,
भिल्ली भनकारें भनकरत भुकारे की।

करत बिहार दोऊ अति ही उदार भरे,
‘वीर’ कहे मंद सोभा पौन के झुकोरे की ।
भूमक भरी की त्यों चमक चारु चपला की,
धमक घटा की तामें रमक हिंडोरे की ॥

कवि तोषजी हिंडोले का वर्णन और ही ढग से करते हैं, देखिए—

दोऊ मखमूल भूलि भूलें मखतूल भूला,
लेत सुख मूल कहि ‘ तोष ’ भरि बरसात ।
कूटि-कूटि अलके कपोलन पै छहरात,
फहरात अंचल उरोज द्वै उघरि जात ॥

रहो-रहो नाहीं नाहीं अब ना भुलावो लाल,
बबाकी सों मेरे ये जुगल जानु यहरात ।
ज्यों ही ज्यों मचत लचकत लचकीलो लंक,
संकन मयकमुखी अकन लपटि जात ॥

ऊपर के पद्य में तो भोटों के डर से मयकमुखी का अग धर-धर काँपने लगता है और वह लाल की अंक में लिपट जाती है, परन्तु नीचे के पद्य में देखिये ‘ भावती ’ कैसी निर्भीकता से पैंग बढ़ा रही है जिसे देख प्रिय दांतों तले उँगली दबाने लगता है—

रहसि रहसि हँसि हँसि के हिंडोरे चढ़ी,
लेति खरी पेगे छुबि छाजै उकसन मे ।
उड़त दुकूल उघरत भुजमूल बढ़ी,
सुखमा अतूल केसफूल की खसन मे ।
अति सुकुमारि देख भये अनिमेख स्याम
रीभूत बिसूर समसीकर लसन में ।
ज्यों ज्यों लचकीलो लक लचकत भावती को,
त्यों-त्यों उत प्यारो गहै आँगुरी दसन में ॥

अब कविवर पद्माकरजी का हिंडोला-वर्णन देख लीजिये—

तीर पर तरनितनूजा के तमाल तरे,
तीज की तयारी ताकि आई तखियान में ।
कहै 'पदमाकर' सु उमंगि उमंग उठे,
मेहदी सुरग की तरंग नखियान में ॥
प्रेम रग बोरी गोरी नवल किसोरी तहाँ,
भूलति हिडोरे यों सुहाई सखियान में ।
काम भूले उर में उरोजन में दाम भूले,
स्याम भूले प्यारी की अन्यारी अँखियान में ॥

और भी देखिये—

भौरन को गूँजिवो बिहार बन कुंजन में,
भंजुल मलारन को गावनो लगत है ।
कहै 'पदमाकर' गुमान हू में मान हू में,
प्राण हू ते प्यारो मनभावनो लगत है ।
भोरन को सोर घन घोर चहुँ ओरन,
हिडोरन को वृन्द छवि छावनो लगत है ।
नेह सरसावन में मेह बरसावन में,
सावन मे भूलिवो सुहावनो लगत है ॥

भूला के वर्णन में नीचे लिखा पद्य भी कितना सुन्दर है—

सावन तीज सुहावन को सजि सोहँ दुकूल सवै सुख साधा ।
त्यो 'पदमाकर' देखे बनै कहते न बनै अनुराग अगाधा ।
प्रेम के हेम हिडोरन में सरसैं बरसैं रस रग अगाधा ।
राधिका के हिय भूलत साँवरो साँवरे के हिय भूलत राधा ॥

हिंडोले का वर्णन प्रायः सभी कवियों ने शृंगार रस में किया है, जिसके कई उदाहरण भी ऊपर दिये गए हैं । अब एक पद्य कविवर 'शंकर' का भी पढ़ लीजिये, जिसमें हिंडोले का वर्णन बीभत्स रस में किया गया है ।

लम्बे लम्बे भोटन सों झूलत ही सौतिनि की,
बिरवा की डारन में पटली अटक गई ।
लागत ही झटका उखर गया आसन सो,
ताडका सी डोरिन को पकरे लटक गई ।
'शंकर' छिनार पट्ट पाथर पै छूट परी,
फाटो पेट फूटी नर पिलही पटक गई ।
छूटि गई नारी सीरी पर गई सारी आज—
मर गई दारी मेरे मन की खटक गई ॥

सपत्नी (सौत) के झूले पर से गिर जाने के कारण नायिका कैसी प्रसन्न हो रही है । उसके हर्ष का पारावार नहीं है । वह अपने मन की 'खटक' जाती रहने से फूली अङ्ग नहीं समा रही ।

शङ्करजी का एक सवैया और देखिए, इसमें नायिका के शरीर पर ही उन्होंने पावस का प्रादुर्भाव का दिया है—

'शंकर' ये बिधुरी लट हैं कि भई सजनी, रजनी अँधियारी ।
माल मनोहर मोतिन की उरभ्नी उर पै कि बही सरिता री ॥
दो कुच हैं, कि दुकूलन पै चकई चक भोग रहे दुख भारी ।
स्वेद चुचात कि पावस तोहि बनाय गया घनश्याम बिहारी ॥

इस प्रसंग में कृष्ण कवि का भी एक सवैया देखिए—

अम्बुद आनि दिसा विदिसा सगरे तमही को वितान सों तान्यो ।
मेचक रग बसे जगमें अति मोद हिये निसिच्यारिन मान्यो ।
पावस के घन के अँधियार मे भेद कछू न परै पहिचान्यो ।
झौस निसा को बिबेक सु तौ चकई चकवान के बोलत जान्यो ॥

चकई-चकवा बोलने हैं, तभी जान पड़ता है कि अब रात है या दिन, नहीं तो पावस के उस घोर घन घटा टोप में रात-दिन का भेद ही नहीं दिखाई देता ।

शरद-वर्णन

मनुष्य परिवर्तन-प्रिय प्राणी है । वह लगातार अधिक समय तक अच्छी से अच्छी चीज़ के भी देखना, सुनना या बर्तना पसन्द नहीं करता । शीघ्र की उत्तम लूश्रों और भभलती भूभल जैसे धूल धक्कड़ से ऊब जाने के कारण उस समय वर्षा श्रुतु कितनी सुहावनी लगती थी, परन्तु अब आप उसी वर्षा की लगातार रिमभिम और कीचड़, मच्छड़ आदि के कारण उकता गए होंगे । अच्छा अब शरद का सुहावना दृश्य देखिये—

शरद का जैसा सर्वांग पूर्ण वर्णन कविवर तुलसीदासजी ने अपने रामचरितमानस में किया है, वैसा अन्यत्र कम मिलेगा । पहले उसे ही देखिये—

वर्षा विगत शरद श्रुतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई ।
 फूले कास सकल महि छाई, जनु वर्षा श्रुतु प्रगट बुढ़ाई ।
 उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमि लोभहि सोखइ सन्तोषा ।
 सरिता सर निर्मल जल सोहा, सन्त हृदय जस गत मद मोहा ।
 रस रस सुखि सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि शानी ।
 जानि शरद श्रुतु खञ्जन आए, पाय समय जिमि सुकृत सुहाए ।
 पक न रेनु सोह अस घरनी, नीति निपुन नृप की जस करनी ।
 जल संकोच विकल भए भीना, विविध कुटुम्बी जिमि घन हीना ।
 बिनु घन निर्मल सोह अकासा, जिमि हरिजन परिहरि सब आसा ।
 कहुँ कहुँ वृष्टि शारदी थोरी, कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ।

X

/

X

फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसा ।
 गुजत मधुकर मुखर अनूपा सुन्दर खग रव नाना रूपा ।

X

o X

X

चातक रटत तृषी अति ओही, जिमि सुख लहइ न शंकर द्रोही ।
शरदातप निशि शशि अपहरई, सन्त दरस जिमि पातक टरई ।

×

×

×

भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाय ।
सद्गुरु मिले नसाहिं जिमि संशय भ्रम समुदाय ॥

नीचे लिखे पद्य में भी शरद के स्वरूप का कैसा चित्रण किया गया है—

आई रितु सरद गगन विमलाई छाई,
खजन की राजी कुंज कुंजन बसै लगी ।
हरित हरित पथ पथिक सिधारे पथ,
अकथ 'मुरारि' ओज जग बिलसै लगी ।
सुमन सरासन के सुमन सरासन ते,
छूटि कै सुमन सर आलिहिं गसै लगी ।
तालन कमल फूले कमल बितूले अलि,
अलि पर पीतिमा पराग की लसै लगी ॥

शरद के आते ही वर्षा के कारण जहाँ-तहाँ रुके हुए पथिकों ने अपना रास्ता पकड़ा । महा कवि तुलसीदास के कथनानुसार 'अगस्त' ने उदय होकर 'पंथजल' सुखा दिया, जिससे चारों दिशाओं के मार्ग कीचड़ रहित हो हरियाली से हरे भरे लगने लगे । कविवर विहारी ने यही बात थोड़े शब्दों में इस प्रकार कही है—

घन घेरो छुटिगो हरषि चली चहुँ दिसि राह ।

कियो सुचैनो आय जग सरद सूर नरनाह ॥

शरद रूपी परम प्रतापी राजा के शासन-सूत्र हात में लेते ही बादलों के दल्ल छिन्न-भिन्न हो गए, जगत् में सर्वत्र शान्ति विराजने लगी और चारों दिशाओं के मार्ग खुल गए । लोग प्रसन्नतापूर्वक व अपने-अपने व्यापार में लग गए ।

शरद में सर-सरिताओं का नीर निर्मल हो जाता है, आकाश के निरभ्र हो जाने से चन्द्रिका अपनी पूर्ण प्रभा से चमकने लगती है। वर्षा से धुल जाने के कारण वन उपवन सब सुहावने दिखाई देने लगते हैं। सरोवरों में कमलवन फूलने और उन पर मधु-लोभी मधुकर गुंजारने लगते हैं। इन्हीं सब बातों में से एक एक को लेकर अधिकांश कवियों ने शरद का वर्णन किया है। देखिये नीचे के पद्यों में शारदी चंद्रिका का कितना सुन्दर वर्णन है—

ग्रीषम को धाम है न धाम घनस्याम यार्ते,
छ्वै गई सुवान स्वेत है गई जरद की।
बीचन दरीचन के आभा है मरीचन की,
कामने निकारी कोर तीखन करद की।
फैल फैल गैलन नवीन विष फैल भरी
दोषत दुखिन दुति पारद वरद की।
गरद करी हों दिन दरद भरी हों सखी,
सरद परी हों लखि चाँदनी सरद की।

और देखिये—

फूले आस पास कौंस विमल विकास बास
रही न निसानी कहुँ महि में गरद की।
राजत कमल दल ऊपर मधुप मैन,
छाप सी दिखाई छवि बिरह फरद की।
'श्रीपति' रसिक लाल आली बनमाली बिन,
कछू ना जुगुति मेरे जोय के दरद की।
हरद तमाम तन भयो है जरद अब,
करद सी लागति है चाँदनी सरद की।

देखिये कविवर पद्माकरजी शरच्चन्द्रिका का वर्णन कैसे सुन्दर ढंग से करते हैं—

तालन पै ताल पै तमालन पै मालन पै,
वृन्दावन बीधिन बहार बंसीवट पै ।
कहे 'पदमाकर' अखण्ड रासमण्डली पै,
मण्डित उमण्डि महा कालिन्दी के तट पै ।
छिति पर छान पर छाजत छतान पर,
ललित लतान पर लाड़िली के लट पै ।
आई भले छाई वह सरद जुन्हाई जिहि,
पाई छवि आजु ही कन्हाई के मुकट पै ।

कविवर 'पूर्ण' जी ने शरत्कालीन निर्मल नील नभ में छिटके हुए तारकवृन्द, का कितना सुन्दर वर्णन किया है । देखिये—

सरद निसा में न्योम लखि के मयक बिन,
' पूरन ' हिये में इमि कारन बिचारे हैं ।
विरह जराइ अबलान को दहत चन्द,
ताते आज तापै बिधि कोपे दया वारे हैं ॥
निसिपति पातकी को तम की घटान बीच,
पटक पछारि अंग निपट बिदारे हैं ।
ताते भयो चूर चूर उछिटे अनन्त कन,
छिटके सघन सो गगन मध्य तारे हैं ॥

चन्द्र-शून्य आकाश में, तारों को चमकते देख कवि कल्पना करता है—“ जान पड़ता है बिधि ने विरहिणी बालाओं पर अत्याचार करने के अपराध में, निर्दय निशाकर को निर्मल नील नभ रूपी काले पत्थर की चट्टान पर पटक कर चूर-चूर कर डाला है । उसी के असंख्य कण जो नभोमण्डल में इधर उधर उछुट गए हैं, वे ही मानो तारे हो गए हैं । ”

शरद् में कवियों ने कृष्ण की रासलीला वन-विहार आदि पर भी बहुत कुछ लिखा है । रासलीला-वर्णन के भी कुछ पद्य देख लीजिये—

खनक चुरीन की त्यों ठनक मृदंगन की,
रनुक भुनुक स्वर नूपुर के जाल को ।
कहै 'पदमाकर' त्यों बाँसुरी की धुनि मिलि,
रह्यौ बँधि सरस सनाको एक ताल को ।
देखत बनत पै न कहत बनत है री,
बिबिध बिलास त्यों हुलास यह खयाल को ।
चन्द छवि रास चाँदनी को परिगास राधि-
का को मन्द हास रास मण्डल गोपाल को ।

और देखिये रासमण्डल को देखकर चन्द्रमा भी इतना मुग्ध हो गया
है कि उसने चलना तक स्थगित कर दिया—

भूल्यो गति मति चन्द चलत न एक पैँड़,
प्यारे मुरलीधर मधुर कल गान की ।
फूली कुसुमावलि बिबिध नव कुंजन में,
सौरभ सुगन्ध छाई जात ना बखान की ।
बाजत मृदग ताल भ्रॉभ मुँहचंग बीन,
उठत संगीत जहाँ अति गति तान की ।
आज रस रास में अनूप रूप दोऊ नचैँ,
नन्दलाल लाड़िली किशोरी वृषभान की ।

हेमन्त-वर्णन

हेमन्त ऋतु में शीत का प्रभाव बढ़ता जाता है, धूप और आग प्रिय लगाने लगती हैं । दिन छोटे होते और रात बढ़ने लगती है । कवियों ने प्रायः इन्हीं बातों का वर्णन हेमन्त में किया है ।

देखिये, कवि गिरधरदासजी हेमन्त के विषय में क्या लिखते हैं—

सूर ऐसे सूर को गरूर रुरो दूर कियो,
पावक खिलौना कर दियो है सबन को ।

बातन की मार ही तें गात की भुलात सुधि,
कांपत जगत जाकी भय आन मन को ।
'गिरधरदास' रात लागे काल रात की सी,
नाहीं सी लगत भूमि राखत चरन को ।
आयो है हिमन्त भूमि कन्त तेजवन्त दीह
दन्तन पिसावत दिगन्त के नरन को ।

हेमन्त ने सूर्य जैसे शूरवीर का भी गरूर चूर चूर कर डाला और
अग्नि सब के लिए खिलौना-सा बना दिया है । हवा लगते ही शरीर शून्य-
सा हो जाता है । रात काल रात्र जैसी प्रतीत होती है भूमि पर पैर रक्खो
तो जान पड़ता है, भूमि है हा नहीं । हेमन्त के ऐसे अत्याचार देख लोग
दाँत कट-कटाकर रह जाते हैं, पर उसका कुछ प्रतीकार नहीं कर पाते ।
मनुष्यों की तो शक्ति ही क्या हेमन्त के भय से परम प्रतापशाली मार्तण्ड भी
घन (स्त्री) की बगल में जा घुसा है । देखिये

बरसै तुसार बहै सीतल समीर नीर,
कम्पमान उर क्यों हू धीर ना धरत है ।
राति न सिराति सरसाति बिथा बिरह की,
मदन अराति जोर जोवन करत है ।
'सेनापति' स्याम हौं अधीन हौं तिहारी सौंह
मिले बिन मिले सीत पार न सरत है ।
और की कहा है सविता हू सीत रिंतु जानि,
सीत को सतायो घन^१ पास ही रहत है ।

हेमन्त से त्राण पाने के लिए लोग प्रायः पाँच तकारों अर्थात् तरणि
तेज (धूप) तेल, तूल. (रूई) तरुणी और ताम्बूल का सहारा लेते
हैं । देखिये कविवर पद्माकर ने इसी भाव को कैसे सुन्दर शब्दों में प्रकट
किया है ।

अगर की धूप मृग मद की सुगन्धवर—

बसन बिसाल लाल अग ढाँकियतु है ।
कहे पदमाकर' सु पौन को न गौन जहाँ,
ऐसे भोन उमगि उमग छाकियतु है ।
भोग औ संयोग हित सुरति हिमन्त हीं में,
एते और सुखद सुहाये वाकियतु है ।
तान की तरंग तरुनापन तरनि तेज,
तेल तूल तरुनी तमोल ताकियतु है ।

जिन लोगों को उपर्युक्त 'पंच तकार' उपलब्ध नहीं, वे बेचारे आग जलाकर उसे ही अपनी छाती से लगाए रहते हैं । भला जब शीत से भीत होकर गर्मी भी घरों के कोनों में जा छिपे, अनल निर्बल पड़ जाय और सूर्य भी ठंडा होने लगे, तब बेचारे निर्धन मनुष्यों के लिए अग्नि की शरणा में जाने के अतिरिक्त अपनी रक्षा का और साधन ही क्या शेष रह जाता है ।

शीत को प्रबल 'सेनापति' कोपि चढ़्यौ दल,
निर्बल अनल गयो सूर सियराय कै ।
हिम के समीर तेई बरसे बिसम तीर,
छिपी है गरम भौन कौनन में जाय कै ।
धूम नैन बहै लोग होत हैं अचेत तऊ,
हिय सों लगाइ रहै नेकु सुलगाइ कै ।
मानों भीत जानि महा शीत ते पसारि पानि,
छुतियाँ की छौह राख्यौ पावक छिपाय कै ।

जान पड़ता है, शीत से भीत हो शरण में आए पावक को, दरिद्र-नारायण ने अपनी छाती से चिपटा लिया है । खूब ! सेनापतिजी की कैसी अनोखी कल्पना है ।

हेमन्त ऋतु में राते बड़ी क्यो हो जाती हैं, इस पर एक संस्कृत कवि की उक्ति सुन लीजिए । ०

अथि दिनमण्डिरेषः क्लेशितः शीत-सङ्घै—
रथ निशि निजभार्यां गाढमालिङ्गय दोर्म्याम्।
स्वपिति पुनरुदेतुं सालसाङ्गस्तु तस्मात्,
किमु न भवतु दीर्घा हैमिनी यामिनीयम् ॥

शीत का सताया सूर्य रात्रि-समय अपनी पत्नी को गाढ आलिङ्गन कर
सा जाता है, प्रातः उठने (उदय होने) का समय होने पर भी जाड़े के
मारे अलसाया हुआ रज़ाई में लिपटा पड़ा रहता है, उठना ही नहीं
चाहता । यही कारण है कि हेमन्त की राते लम्बी हो जाती हैं ।

शिशिर-वर्णन

शिशिर ऋतु मे शीत अपने पूर्ण यौवन पर होता है, अतः उस समय
उसका प्रभाव हेमन्त की अपेक्षा बहुत कुछ बढा-चढा दिखाई पड़ता है ।
इस समय सूर्य भी चन्द्रमा का रूप धारण कर लेता है और दिन में भी
रात की-सी झलक दिखाई देने लगती है । देखिये कविवर सेनापति शिशिर
के सम्बन्ध मे क्या कहते हैं—

शिसिर में ससि के सरूप पावै सविता हू,
घाम हू में चाँदनी की दुति दमकति है ।
'सेनापति' सीतलता होति है सहस गुनी,
दिन हू मे रजनी की भाँई भ्रमकति है ।
चाहत चकेर सूर और डग छोर करि,
चकवा की छाती तचि धीर घसकति है ।
चन्द के भरम मोह होत है कुमोदिनि को,
ससि संक पंकजिनी फूलि ना सकति है ॥

शिशिर में सूर्य भी चन्द्र जैसा प्रतीत होने से, चक्रवाक दिन को भी
रात ही मानकर अहर्निश वियुक्त ही रहे आते हैं । कुमोदिनी दिन मे
मुस्कराने लगती है और पंकजिनी दिन में भी नहीं खिल पाती । शिशिर-
दि० न०—२०

कालीन शीत के कारण जब प्रकृति मे भी इतना विपर्यय हो जाता है तो मनुष्यों की तो बात ही क्या । उनके लिये तो—

सीसा के महल बीच कहल हिमोचल की,
पहल दुलाई बर्क चहल कसाला में ।
चन्दन सौ लागत कुरगसार अंगन में,
अनल अंगीठी जिमि बारि हौद साला में ।
लागत गलीचा ऊन सीतल सिवार तूल,
दीपक नखत रघुनाथ रसथाला में ।
बाला उर बीच जात माला सी जुड़ात अरु—
पाला सम लागत दुसाला सीत काला में ॥

भला जिसमें कस्तूरी-लेप भी चन्दन जैसा शीतल जान पड़े, ऊनी गद्दे-गलीचे सिवार सडश ठंडे प्रतीत हों, और दुशाला भी पाला जैसा लगे, ऐसी कड़ाके की ठंडी रात में किसका साहस है, जो रज़ाई में से निकल कर बाहर पेशाब करने भी जा सके । लेकिन आफ़त तो यह है कि जाड़ों में पेशाब की हाजत भी बहुत लगती है और उसका त्याग करने के लिए खाट से उठना ही पड़ता है । देखिये गंग कवि शिशिर की रात में लघुशंका त्याग कर आना कितनी वीरता का काम बताते हैं ।

केपि कासमीर ते चल्यौ है दल साजि वीर,
धीर ना घरत गलगाजिवे के भीम है ।
सुन्न होत साँभै ते बजत दन्त आधी राति,
तीसरे पहर में दहल दै असीम है ।
कहै कवि 'गंग' चौथे पहर सतावै आनि,
निपट निगोरो मोहि जानि के यतीम है ।
बाढ़ी सीत संका कॅपै उर है अतंका लघु—
संका के लगे ते होत लंका की मुहीम है ।

वास्तव में शिशिर की रात्रि के चौथे पहर में गरमाई हुई रज़ाई के

बाहर निकल लघुशङ्का कर आना लङ्का-विजय करने से कम कठिन नहीं है ।

शिशिर मे शीत का ऐसा ही आतंक छा जाता है । जाड़े के भय से लोग घर से बाहर नहीं निकलते । मनुष्य ही क्यों पशु-पक्षी और वन-स्पतियों तक का शीत में कैसा बुरा हाल हो जाता है, यह नीचे लिखे पद्य में पढ़िये ।

नारी बिन होत नर नारी बिन होत नर,
राति सियराति उरु लाए पयोधर में ।

‘वैनी कवि’ सीतल समीर को सनाका सुनि,
सौवें सब सौंभ ही कपाट दै सहर में ।

पंछी पच्छ जंघरे रहै फूल फल थोरे रहें,
पाला को प्रकास आस पास घराघर मे ।

बसन लपेटे रहै तऊ जानु फेटे रहै,
सीत के ससेटे लोग लेटे रहै घर में ॥

परन्तु जिन सौभाग्यशालियों के पास नीचे लिखे पद्य में वर्णित मसाले मौजूद हों, उन्हें शिशिर के पाले का कसाला कुछ भी नहीं व्यापता ।
सुनिए—

गुलगुली गिलमे गलीचा हैं गुनी जन हैं,
चौदनी हैं चिक हैं चिरागन की माला हैं ।

कहे ‘पदमाकर’ त्यौ गजक गिजा है सजी,
सेज है सुराही है सुरा है और प्याला हैं ।

सिसिर के पाला को न ब्यापत कसाला तिन्हें,
जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं ।

तान तुक ताला हैं बिनोद के रसाला हैं सु—
बाला हैं, दुसाला हैं, बिसाला चित्रसाला हैं ॥

इस प्रसङ्ग में माघ मास का एक साधारण किन्तु सुन्दर वर्णन और भी पढ़ लीजिये ।

आयो अब माह प्यारो लागत है नाह रवि—

करत न दाह जैसे अवरखियतु है ।
कलप सी राति सो तो सोए ना सिराति,
जरा सोइ सोइ जागे पै न प्रात पेखियतु है ।
जानि पै न जात बात कहत बिलात दिन,
छिन सौ न ताते तनकौ बिसेखियतु है ।
'सेनापति' मेरे जान दिन हू ते राति भई,
दिन मेरे जान सपने में देखियतु है ॥

पवन

पवन द्वारा भी रस उद्दीप्त होता है। अधिकांश कवियों ने शीतल, मन्द और सुगन्धित तीन प्रकार के पवन का वर्णन किया है। कुछ लोगों ने पवन के तप्त, तीव्र और दुर्गन्धित ये तीन भेद और भी माने हैं। आगे लुहों प्रकार के पवन का सक्षिप्त रूप में वर्णन किया जाता है।

शीतल पवन

बर्फ, जल अथवा अन्य किसी शीतल वस्तु या स्थान के संसर्ग में होकर बहने वाले वायु को शीतल पवन कहते हैं।

उदाहरण देखिये—

तुग पयोद लसै गिरिशृङ्ग मिल्यौ चलि शीतलता सरसावत ।
त्यौ तरु जूहन पै बिरमाय धने सुख साजन कौ लहरावत ॥
मजु दरी निकरी जलधार बसै पुनि सीकर सग लै धावत ।
श्रीषम हू में कॅपावत गात सुवात हिमाञ्चल छ्वै जब आवत ॥

शीतल पवन जब गर्मियों में भी शरीर में कॅपकॅपी पैदा कर देता है, तब शीत काल में वह क्या दशा कर देगा इसका अनुमान कीजिये। देखिये, नीचे लिखे पद्य में कविवर सेनापति शीतकालीन शीतल पवन के सम्बन्ध में क्या कहते हैं।

बरसै तुषार बहै सीतल समीर नीर,
कम्पमान उर क्यों हू धीर ना धरत है ।
राति ना सिराति सरसाति बिथा बिरह की,
मदन अराति जोर जोवन करत है ।
'सेनापति' स्याम हौं अधीन हौं तिहारी सौंह,
मिले बिन मिले सीत पार ना सरत है ।
और की कहा है सविता हू सीत ऋतु जानि,
सीत के सताये धन पास ही परत है ॥

मन्द पवन

ठहर ठहर कर धीमी गति से चलने वाले वायु को मन्द पवन कहते हैं ।

रनित भृङ्ग घंटावली, भरत दान मधु नीर ।
मन्द मन्द आवत चल्यौ कुंजर कुज समीर ॥

यहाँ मन्द समीर का हाथी के रूप में वर्णन किया गया है । जिस प्रकार मत्त मतंगज मद टपकाता और घटा घहराता मन्द गति में चलता है, उसी प्रकार कुंजर-समीर भ्रमरगुञ्जन रूपी घटा-रव करता एवं मधुरस रूपी दान टपकता हुआ मन्थर गति से चला आ रहा है ।

पवन मन्द गति से क्यों चलता है, इसका कारण नीचे लिखे पद्य में वर्णन किया गया है । देखिये—

गहव गुलाब मजु मोगरे सु बन फूले,
बेले अलबेले खिले चम्पक चमन में ।
भनि ' भुवनेस ' बिकसाने पारिजात कुन्द,
रस सरसाने प्रति सुन्दर सुमन में ।
एहो कान्ह ! चार मति वायु की बिलोकि गति,
बार-बार कारन बिचारी कहा मन में ।

बहित सुगन्ध भार मडित मरन्दधार,

याही हेतु मन्द-मन्द डोलै उपवन में ॥

हे कृष्ण, तुम वायु की मन्द गति देखकर सोच में क्यों पड़ गए ।
उसका कारण तो स्पष्ट है । वह उपवन में खिले विविध पुष्पों के
सुगन्ध-भार से भरा और मकरन्द से लदा होने के कारण धीरे-धीरे
चलता है ।

सुगन्धित पवन

सुगन्धयुक्त पदार्थों से संपर्क कर आने वाला वायु सुगन्धित कहाता
है ।

उदाहरण देखिये—

मौलसिरी मधुपान छक्यौ, मकरन्द भरे अरविन्द नहायो ।

माधवी कुंज सौं खाय धका फिरि केतकी पाटल कों उठि धायो ।

सौनजुही मँडराय रह्यौ छिन संग लिये मधुपावलि धायो ।

चम्पहि चाहि गुलाबहि गाहि समीर चमेलिहि चूमत आयो ॥

इतनी सुगन्धित वस्तुओं के ससर्ग में होकर आने वाला पवन भला
क्यों सुगन्धित न होगा ।

तप्त पवन

सूर्य की कड़ी धूप, अग्नि अथवा अन्य किसी गरम पदार्थ के स्पर्श
करके आने वाला वायु तप्त कहाता है ।

उदाहरण देखिये—

ओबरीन दोबरीन तहखाने खसखाने,

आपके बचाइबे को फिरथौ मै तरसि कै ।

‘रघुनाथ’ की दुहाई पैयत न कहूं कल,

लागत ही बिहवल होत हों अरसि कै ।

आजु के पवन की ब्यवस्था कहौ कहा कहों,

आवतु है तरनि करनि कों गरसि कै ।

मलय के साँपन के विष कों करषि कै की,
दावा मे भरसि कै की बाडव परसि कै ॥

तप्त पवन से त्राण पाने के लिए तहखाने और गुफाओं तक में छिपता
फिरा परन्तु कहीं एक क्षण के लिए भी चैन न मिला । उफ़ू ! आज की
गरम हवा का क्या बयान करूँ । ऐसा जान पड़ता है, मानो वह मलया-
गिरि के सर्पों का ज़हर इकट्ठा कर लाया हो, या दावानल से भुलस
अथवा बड़वाग्नि को स्पर्श कर आया हो ।

देखिये, कवि भुवनेशजी तप्त पवन के सम्बन्ध में क्या कहते हैं—

तपत तंदूरे से हैं तहखाने खसखाने
घघकि घघकि घरा होति है अनल भौन ।
पावक प्रगट 'भुवनेस' साखा चन्दन सों,
दावा लगि लगि जात बन मे बचावे कौन ।
ब्याकुल है जात जल थल के त्यों जीव जन्तु,
ज्वाला सों जुवान मुख बाहर करति गौन ।
तापित प्रचण्ड ताप मारतण्ड मण्डल सों,
ग्रीषम में भीषम है डोलै जबै तप्त पौन ॥

तीव्र पवन

बड़े वेग से बहने वाले वायु को तीव्र पवन कहते हैं ।

उदाहरण देखिये—

तरु गिरि गिरि जात साखा चिरि चिरि जात,
फूल फल पत्र रहि जात नहि तिन मे ।
भनि भुवनेस चहुँ चचला चमकि जात,
दौरि दुरि जात दल बहल को छिन में ।
बककी जमाति मँडराति चले जात हस,
घरि उर संक मानसर के पुलिन में ।

धीर ना थिरात तन कापि कापि जात जब,
चलत प्रचण्ड पौन भादों के दिनन में ।

दुर्गन्धित पवन

दुर्गन्ध युक्त पदार्थों से स्पर्श कर आने वाला वा, दुर्गन्धित कहाता है, जैसे—

किसुक अलग कचनारन बिलग करि,
सेनित की लालिमा प्रसारित सघन मे ।
लतिका फटकि अंग्रि तन्त्रिका लपटि रहीं
सारिका निकारि घूमे गिद्धन के गन में ।
श्रुतुराज देत है दुहाई अवघेश ! दल—
तेरो अरिदल दलि-दलि डारो बन में ।
फूलन के देस मेद मज्जा को प्रवेश त्यों,
सुगन्धन निवेश दुरगधित पवन में ॥

और भी देखिये—

देखत हौ सुचि चम्पक चारु विकसित है दमके निज दापन ।
त्यों 'भुवनेस' सुगन्धसमूह, गुलाब प्रसून पसारत आपन ।
कारन याको प्रसिद्ध बसन्त सु छायेो कहा मति में सिसुतापन ।
डोलै न क्योँ दुरगन्धित पौन जरै बिरही गन को तन तापन ॥

वन

वन की परिभाषा इस प्रकार की गई है—

कहूँ अगम कहूँ सुगम है सुखद दुखद तरु होइ ।
मध्यम दूरि न निकट अति जानि लेहु बन सोइ ।

उदाहरण देखिये—

सीतल समीर मंद, हरत मरंद बुन्द,
परिमल लीन्हे अलि कल छवि छहरत ।

काम वन नन्दन की उपमा न देत बनै,
देखि कै बिभव जाको सुरतरु हहरत ।
त्यागि भय भाव चहुँ घूमत अनन्द भरे,
बिपिन बिहारिन पै सुखसाज लहरत ।
कोकिल चकोर मोर करत चहुँघा सोर,
केसरी किमोर बन चारों ओर बिहरत ॥

अब ज़रा कविवर सत्यनारायण कृत 'हिन्दी-उत्तररामचरित' में वन का वर्णन देख लीजिये—

ये गिरि सोई जहाँ मधुरी मद-मत्त मयूरन की धुनि छाई ।
या वन मे कमनीय मृगानि की लोल कलोलनि डोलनि भाई ॥
सोहै सरित्तट धारि घनी जल वृच्छन की जब नील निकाई ।
बंजुल मजु लतानि की चारु चुभीली जहाँ सुषमा सरसाई ॥
देखिये, कविवर श्रीधर पाठक ने भी वन-शोभा का कैसा सुन्दर वर्णन किया है ।

चारु हिमाचल आँचल मे इक साल विसालन के वन है ।
मृदु मर्मरशालि भरे जलस्रोत हैं पर्वत ओट है निर्जन है ॥
लपटे हैं लता द्रुम गान मे लीन प्रवीन बिहगन के गन है ।
भटक्यौ तहाँ रावरो भूल्यौ फिरै मद बावरौ सो अलि को मन है ॥
अब संस्कृत कवियों के वन-वर्णन का नमूना भी देख लीजिये ।

सरोन्वितं सान्द्र वन गिरौ गिरौ,

वने वने सन्ति रसाल पादपाः ।

तरौ तरौ केकिल काकली रवाः,

रवे रवे हर्षकरी सु माधुरी ॥

पर्वत-पर्वत में सुन्दर सरोवरों से युक्त सुहावने वन हैं, और प्रत्येक वन में रसाल-पादपों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं । उन रसाल तरुओं पर भी कलकण्ठी केकिला का कलरव सुनाई दे रहा है, जिसमें आनन्द-विभोर कर देने वाली मधुरिमा भरी हुई है ।*

अब जरा वन में बोलते हुए पक्षियों के कलरव का आनन्द भी लूटिए । देखिये, उसमें कितनी हृदय-हारिणी और विमुग्ध-कारिणी मधुरिमा भरी हुई है ।

कीरन की भीर कामिनीन ते सहित सोहै,
गूँजि रहे भौर गन मुनि मन हारने !
कोकिला कलापैँ चित चोरत अलापैँ परे,
मन की कला पै थापैँ थिरता अपारने ।
भनैँ 'रघुराज' केकी कूके सुनि खूके चित,
करत चकोर चारि ओर हूँ बिहारने ।
पिक की पुकारैँ त्यों पपीहा की पुकारैँ हिय-
हारैँ बेसुमारैँ पेखि पेखि देवदारने ॥

उपवन

जो ग्राम या नगर के समीप हो तथा जिसमें अधिकांश फलों और फूलों के वृक्ष हों, उसे उपवन कहते हैं । उपवन प्रायःकृत्रिम होते हैं ।

देखिये वनमाली (कृष्ण) ने उपवन को कितना सुन्दर बना लिया है कि वसन्त सम्पूर्णा वन-पर्वतो से सिमट कर उसी में लहराता है ।

मल्ली द्रुम बलित ललित पारिजात पुंज,
मञ्जु बन बेलिन चमेलिन महमहात ।
राजी भूमि हरित हरित तृन जालन सों,
बिच बिच खात त्यों फुहारन सों छहरात ।
जित तित माघवी निकुञ्ज छाड़ बीथिन में,
फटिकसिलान साजी अवनी लहलहात ।
आली वनमाली उपवन चतुराई देखि,
त्यागि गिरि कानन वसन्त नित लहरात ॥

परन्तु देखिये, उपवन में वसन्त-बहार आने पर विरहिणी नायिका को उसका स्वरूप कुछ और ही प्रकार का दिखाई देता है—

आब छिरकाय दै गुलाब कुन्द केवड़ा के,
चन्दन चमेली गुलदावदी निवारी में ।
जूही सोनजूही माल चम्पक कदम्ब अम्ब,
सेवती समेत बेला मालती पियारी में ।
'रघुनाथ' बाग के विलोकियो न भावे मोहि,
कन्त बिन आयो है बसन्त फुलवारी में ।
भागि चलो भीतरै अनार कचनारन तैं,
आगि उठी बावरी गुलाला की कियारी मे ॥

विना प्राण प्यारे के नायिका को वसन्त-आगमन अच्छा नहीं लगता, अनार-कचनार और गुल्लाला के फबीले फूल उसे चिनगारी से मालूम देते हैं । अर्थात् वे आनन्द के बदले उसके दुःख का कारण बन रहे हैं ।

चन्द्र

ग्वाल कवि कृत चन्द्र-वर्णन देखिये—

चम चम चाँदनी की चमक चमकि रही,
राखो है उतारि मानों चन्द्रमा चरख ते ।
अम्बर अवनि अम्बु आलय विष्टप गिरि,
एक ही से पेखे परे बने न परखतें ।
'ग्वाल' कवि कहै दसो दिसा है गई सफेद,
खेद के रह्यो न भेद फूली है हरख ते ।
लीपी अबरख ते कि टीपी पुंज पारदते
कैधों दुति दीपी चार चाँदी के बरख ते ॥

पूर्ण चन्द्र के प्रकाश में दशों दिशाएँ ऐसी सफेद हो गई हैं कि उनमें आकाश, भूमि, जल, धर, वृक्ष पहाड़ सब एक से दीख पड़ते हैं, किसी में कुछ भी भेद नहीं जान पड़ता ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने चन्द्रमा का कितना सुन्दर वर्णन किया है, उसे भी पढ लीजिए—

परत चन्द्र प्रतिबिम्ब कहुँ जलमधि चमकायो ।
लोल लहर लहि नचत कबहुँ सोई मन भायो ।
मनु हरि दरसन हेत चन्द जल बसत सुहायो ।
कै तरंग कर मुकुर लिये सोभित छबि छायो ॥
कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है ।
कै जलउर हरि मूरति बसी बा प्रतिबिम्ब दिखात है ॥

यह तो हुआ शान्त जल-राशि पर पड़ते हुए चन्द्र-विम्ब का वर्णन,
अब ज़रा लोल लहरों में लहराते हुए, चन्द्र-विम्ब का बयान भी पढ़
लीजिए । कवि की क्या ही अनूठी कल्पना और कैसी अनोखी सूझ है ।

कबहुँ होत सत चन्द कबहुँ प्रगटत दुरि भाजत ।
पवन गवन बस बिम्बरूप जल मे बहु साजत ।
मनु ससि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलै ।
कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलै ।
कै बाल गुड़ी नभ मे उड़ी सोइति इत उत धावती ।
कै अवगाहत डोलति कोऊ ब्रज रमनी जल आवती ॥

और देखिए, नीचे लिखे पद्य में, चन्द्र द्वारा विरही जनों के सताए
जाने पर उसे कैसा उपालम्भ दिया गया है ।

सोँभ ही ते आवत हिलावत कटारी कर,
पाय कै कुसगति कृसानु दुखदाई को ।
निपट निसक है तजी ते कुल कानि खानि-
औगुन को नैकऊ तुलैन बाप भाई को ।
एरे मति मन्द चन्द ! आवति न लाज तोहि,
देत दुख बापुरे बियोगी समुदाई को ।
है कै सुधाधाम काम-बिष को बगारै मूढ़,
है कै द्विजराज काम करत कसाई को ॥

कविवर तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस में चन्द्रोदय का कैसा सुन्दर वर्णन किया है, उसका भी नमूना देख लीजिये—

पूरव दिसि गिरि गुहा निवासी. परम प्रताप तेज बल रासी ।

मत्त नाग तम कुम्भ बिदारी, ससि केसरी गगन बन चारी ॥

कविवर केशवदासजी ने चन्द्रमा का वर्णन निम्न लिखे प्रकार किया है ।

चन्द नहीं विष कन्द है 'केशव' राहु यही गुन लीलि न लीन्यो ।
कुम्भज पावन जानि अपावन धोखे पियो पचि जान न दीन्यो ।
या सों सुधाधर शेष विषाधर नाम धरौ विधि है बुधि हीन्यो ।
सूर सों माई कहा कहिये जिन पाप लै आप बराबर कीन्यो ॥

विधाता भी कैसा बौडम है, जिसने इसका नाम सुधाधर रख दिया । अजी यह ता विषधर है भयंकर विषधर । इसीलिए तो राहुने इसे खाते खाते छोड़ दिया । 'सूर' (सूर्य) तो फिर सूर (अन्धा) है. ही उससे तो कहा ही क्या जाय । उसी ने इसे साथ रखकर अपनी बराबरी का दर्जा दे दिया है ।

इस प्रसंग मे गंग कवि का नीचे लिखा सवैया भी पढने लायक है ।

सेत सरीर हिये विष स्याम कला फन री मनि जानि जुन्हाई ।
जीभ मरीचि दसों दिसि फैलति काटति जाहि वियोगिन ताई ।
सीस ते पृच्छ लौ गात गरो पै डसे बिन ताहि परै न रहाई ।
शेष के गोत के एमे ही होत हैं चन्द नहीं ये फनिन्द है माई ॥

अजी, यह ऊपर से देखने का ही गोरा है, हृदय मे तो इसके महा भयकर विष भरा है । वह हलाहल ही तो कलंक के रूप में चमकता है । इसकी किरणों जो वियोगियों को जलाती हैं, उसका कारण यह भीतर भरा हुआ विष ही है । अरे साहब, इसमें कोई अचम्म की बात नहीं; शेष के वंश के ऐसे ही हुआ करते हैं ।

चाँदनी

उदाहरण देखिये—

परम उदार ऋतुराज महाराज आज,
बिमल जहान करिवे की रुचि ठाई है ।
सीतकर रजक रजाय पाय ताही समै,
अम्बर की सोभा करि उज्जल दिखाई है ।
छुटा जनि जानो तरु अटा औ' देवारनि में,
ब्योत करि आछी बिधि वाही सों मढ़ाई है ।
चहुँ ओर अवनि बिराजै अवदात देखो,
कैसी अदभुत यह चाँदनी बिछाई ॥

परमोदार ऋतुपति ने संसार को स्वच्छ और निर्मल करने की इच्छा से, चन्द्र रूपी घोड़ी को आज्ञा दी, जिसे पाकर उसने अपनी उज्ज्वल चाँदनी से समस्त संसार को ऐसा आलोकित कर दिया, मानों स्वच्छ श्वेताम्बर से भूमि, वृक्ष, पर्वत, प्रासाद सब मढ़ दिये गये हों ।

देखिये, किसी संस्कृत-कवि ने चाँदनी का कैसा सुन्दर वर्णन किया है—

मुग्धा दुग्धघिया गवाँ विदधते कुम्भानघो बल्लवाः,
कर्णे कैरवशङ्कया कुवलय कुर्वन्ति कान्ता अपि ।
कर्कन्धू-फलमुच्चिनोति शवरी मुक्ताफलाकाक्ष्या,
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चन्द्रिका ॥

बेचारे ग्वाले दूध के भ्रम से गायों के नीचे दुहावनी रख रहे हैं । स्त्रियों ने नील कमल को ही श्वेत कमल समझ कानों में धारण कर लिया है और भीलनी बेरों को ही मुक्ता फल समझ कर इकट्ठा करने लगी हैं । चाँदनी के कारण सारी चीज़ें सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देने से सब भ्रम में पड़ गए हैं ।

पुष्प

प्रकृति की सुन्दरतम वस्तुओं में से पुष्प भी एक अनुपम चीज़ है। इसमें रूप-रंग, सुगन्ध, कोमलता, सरसता आदि सभी का एकत्र सन्निवेश मिलता है।

पुष्प के सम्बन्ध में कवि नाथूराम 'माहुर' के नीचे लिखे पद्य बड़े सुन्दर हैं।

तजि हौ यहि गोद जो पल्लवों की पल मे परतन्त्रता मे परि हौ ।
उर जायँगे बेवे कटाक्षन ते रंग-रूप अनूपम जो धरि हौ ।
कवि 'माहुर' की यह सीख भली नहि मानिहौ तो दुखकों भरि हौ ।
मिल जायँगे धूल में अग अमूल ये फूलि कै फूल कहा करि हौ ॥
फूल क्या कहता है, वह भी सुन लीजिए । हम फूल कर—

सुषमा-सर सौरभ सों भरि हैं हर हीय के प्यार के प्यार बनेगे ।
प्रिय प्रेमी मलिन्दन के मन के मधु को मधु लै मधुसार बनेगे ॥
विजयी बर वीरन के विजयी प्रति अङ्क के सुभ्र सिंगार बनेगे ।
हिय-हार बनें निज मातृ-भू के पद पंकजों के उपहार बनेगे ।
सुप्रसिद्ध कवि अनीस ने फूल पर क्या ही अच्छा लिखा है ।

डुनो हो बिटप हम पुहुप तिहारे अहैं,
राखि हौ हमें तो सोभा रावरी बढ़ावेंगे ।
तजि हौ हरषि कै तो बिलग नमाने कछू,
जहाँ-जहाँ जैहैं, तहाँ दूनो जस गावेंगे ।
सुरन चढ़ेगे नर सिरन चढ़ेगे फेरि,
सुकवि 'अनीस' हाथ हाथन बिकावेगे ।
देस मे रहेंगे परदेस मे रहेगे काहू—
भेस मे रहेंगे तऊ रावरे कहावेगे ॥

उदू के मशहूर शायर 'नूह' ने फूलों का कैसा अच्छा वर्णन किया है।

बुलबुल का चुराया दिल नाहक यह खाम खयाली फूलों की ,
 लेती ठे तलाशी बादे सवा सब डाली-डाली फूलों की ।
 आलम है अनोखा कलियों का दुनिया है निराली फूलों की ,
 अल्लाह रे इस खुशहाली पर यह खुश इकवाली फूलों की ।
 मिसले बुलबुल नहकत से छुटे दम भर को चमन मुमकिन ही नहीं ,
 होती है तसद्दुक्र फूलों पर खुद रहने वाली फूलों की ।
 माना कि लुटाया रातों को गुलज़ार मे मोती शबनम ने ,
 जब सुबह हुई सूरज निकला तो जेब थी खाली फूलों की ।
 गुलची की भी नजरे पड़ती हैं सर-सर के भी भोके आते हैं ,
 हो ऐसे में किसमें क्यों कर कब तक रखवाली फूलों की ।
 आती है खिज़ाँ अब रुज़सत कर ज़िन्दा जो रहे फिर आएंगे ,
 हमसे तो न देखी जायेगी माली पामाली फूलों की ।
 गुलज़ारे जहाँ को जब देखा तो शकल नज़र आई मुभके ,
 आलम से अलग आलम से जुदा आलम से निराली फूलों की ।
 हर ज़र्रे पर हर पत्ते पर कुरबानो तसद्दुक्र करने को ,
 नहकत का ख़ज़ाना खोल दिया हिम्मत है या अली फूलों की ।
 फिर रुत बदली फिर अब्र उठा फिर सर्द हवाएँ चलने लगीं ,
 हो जायँ परी बन जायँ दुल्हन अब डाली-डाली फूलों की ।
 हारों में गुँधे जकड़े भी गए गुलशन भी छुटा सीना भी छिदा ,
 पहुँचे मगर उनकी गर्दन तक यह खुश इकवाली फूलों की ॥

×

×

×

पराग

पराग भी उद्दीपन-सामग्रियों में से एक है । पराग के सम्बन्ध में नीचे लिखी पंक्तियों पढने लायक हैं —

देखत ही बन फूले पलास बिलोकत ही कछु भौर की भीरन ।
 बावरी-सी मति मेरी भई लखि बावरी कंज खिले घटे नीरन ।

भाजि गयो कढ़ि ज्ञान हिये तैन जानि पर्यौ कव छोड़ि के धीरन ।
अन्ध न कौन के लोचन होहि पराग सने बरसात समीरन ॥

किसी सस्कृत-कवि ने पराग के सम्बन्ध में कैसा सुन्दर लिखा है—

इहालवालेषु तलेषु वीरुधा,
स्रवन्ति नित्य मकरन्द विन्दवः ।
मुहुर्मुहुस्तत्र पतन्ति केसराः,
यदासवार्थ भ्रमरा भ्रमन्त्यमी ॥

अरे इधर लताओं की क्या रियाँ में तो देखो, कैसा सुगन्धित पुष्प-पराग और सुमधुर मकरन्द गिर रहा है, जिसे आस्वादन करने के लिये भौरों की भीड़ मँडरा-मँडरा कर इधर ही आती है ।

अनुभाव

रति आदि मनोविकारों की उत्पत्ति के पश्चात् सत्व सूचक अंग-मंचालन भ्रू-निक्षेप, कटाक्ष आदि जो चिन्ह परिलक्षित होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं । अथवा यों कहिये कि चित्त में उद्भूत रसास्वाद अथवा रति आदि भावों का अनुभव या अनुमान कराने वाली क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं । इन अंग-संचालनादि अनुभावों द्वारा ही हृदय में उद्बुद्ध रति-निर्वेदादि मनोविकारों का दूसरे लोगों को बोध होता है । इन्हीं से रस की पुष्टि भी होती है ।

साहित्यदर्पण में अनुभाव का लक्षण करते हुए उसे सुस्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिया है, उससे अनुभाव का स्वरूप भली भाँति समझ में आ जाता है । नीचे साहित्यदर्पणकार का लक्षण और उदाहरण दोनों दिये जाते हैं, देखिए—

उद्बुद्ध कारणैः स्वैः स्वैर्बहिर्भावं प्रकाशयन् ।
लोके यः कार्य रूपः सोऽनुभावः कल्प्य नाट्ययोः ॥

अर्थात् आलम्बन तथा उद्दीपनादि कारणों से हृदय में जाग्रत रति-भावना को बाहर प्रकाशित करने वाला रति-सूचक कार्य अनुभाव कहाता है ।

उदाहरण के लिये यों समझ लीजिये, कि नीरव निशा में अकेले बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी, वन में बिलुड़ी हुई सीताजी का स्मरण कर रहे हैं । उद्यान के सुरभित एवं सुन्दर सुमनों और शारदी चन्द्रिका के कारण स्मृति और अधिक उद्दीप्त हो जाने से रामचन्द्रजी के हृदय में रति की भावना उद्बुद्ध होने लगी है, और वे अपनी प्रियतमा के लिये व्याकुल हो उठे हैं ।

उपर्युक्त उदाहरण में सीताजी आलम्बन हैं । वन, चन्द्रिका और पुष्पों की सुगन्ध उद्दीपन हैं, तथा सीताजी की याद में विकलता सूचक जो कार्य हैं, वे ही अनुभाव हैं ।

वैसे भी अनुभाव का अर्थ है—भाव अर्थात् विभाव के अनु यानी पीछे होने वाला भाव । विभाव और अनुभाव को ही साधारणतया कारण और कार्य के नाम से भी पुकारते हैं । अभिप्राय यह कि भाव के बोधक को अनुभाव कहते हैं । अनुभावों की गणना नहीं की जा सकती, वे असंख्य हैं ।

प्रत्येक रस के अनुभावों का उल्लेख उसके वर्णन के साथ ही किया गया है ।

अनुभाव के भेद

सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य भेदों से अनुभाव चार प्रकार का है । आत्मा मे अन्तर्भूत रस को प्रकाशित करने वाला, अन्तः-करण का घर्म विशेष 'सत्व' कहाता है । इसी सत्व गुण से उत्पन्न शरीर के स्वाभाविक अंग-विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं । काव्यप्रकाश और साहित्य-दर्पण में सात्विक भावों की गणना अनुभावों के अन्तर्गत ही की गई है । केवल गोबलीवर्दन्यायानुसार, सत्व गुण से उत्पन्न होने

के कारण उनका उल्लेख मात्र पृथक् कर दिया है। देवजी ने इन्हें संचारी भावों में माना है।

सात्विक अनुभाव आठ प्रकार का है—स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वर-भंग, कम्प, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय।

गीता के निम्नलिखित श्लोकों में एक ही जगह कई सात्विक अनुभावों का कैसा अच्छा वर्णन है। देखिए—

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥
गाण्डीवं ससते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।
न च शक्योऽस्म्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥

दोनों ओर की सेनाओं को युद्ध के लिए खड़े देखकर अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं—‘हे कृष्ण, मेरे अंग-प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं मुँह सूखता, शरीर कँपता और रोमाञ्चित होता है। गाण्डीव मेरे हाथों में से छूटा पड़ता है, अन्तस्ताप के कारण मेरा शरीर तबे के समान तप रहा है। हे वासुदेव, इस समय मेरा मन बहुत ही चञ्चल हो उठा है, और अब मैं खड़ा नहीं रह सकता।’ इसमें स्तम्भ, रोमाञ्च, कम्प, प्रलय आदि का कैसा सुन्दर वर्णन किया गया है। अस्तु,

नीचे आठों सात्विक अनुभावों के पृथक्-पृथक् लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं—

स्तम्भ

भय, हर्ष, रोग, शोक आदि कारणों से शरीर की चेष्टाओं का अचानक तथा एक साथ रुक जाना स्तम्भ कहाता है। इसमें सशाहीनता, लड़े रह जाना, शिथिलता, शून्यता, जडता आदि अनुभाव होते हैं। शरीर की स्वाभाविक गति का निरोध-सा होने लगता है। मनुष्य हक्का-बक्का-सा रह जाता है। रुधिर की गति स्थान विशेष पर केन्द्रस्थ होकर अन्यत्र घीमी पड़ जाती है। उस समय स्नायविक शक्तियों के एक ओर लग जाने के

कारण दूसरी जगह उनका प्रभाव तथा कार्य मन्द सा पड़ जाता है । नीचे स्तम्भ के उदाहरण दिए जाते हैं ।

देखा देखी भई छूटि तब तैं सकुच गई,
मिटी कुल कानि कैसो धूँघट को करिबो ।
लगी टकटकी, उर उठी धकधकी, गति—
थकी मति छुकी ऐसो नेह को उघरिबो ।
‘चित्र कैमे लिखे दोऊ ठाढ़े रहे ‘काशीराम’,
नाहीं परवाह लोग लाख करो लरिबो ।
बंसी को बजैवो नटनागर बिसरि गयो,
नागरी बिसरि गयो गागरी को भरिबो ॥

खुलकर परस्पर दर्शन-स्पर्शन होने के कारण सकुच का तो नाम भी नहीं रहा । जब कुल-कानि नष्ट होने का ही भय नहीं, तब धूँघट की परवा किसे है ! दोनों चित्रलिखे से खड़े एक दूसरे को देखते रहते हैं । नागरी को देख कर नटनागर कृष्ण वशी बजाना भूल गए हैं, और नागर का दर्शन कर, नागरी को गागर भरने की सुध नहीं रही । स्तम्भ का कैसा सुन्दर उदाहरण है । और देखिये—

या अनुराग की फाग लखी जहाँ रागती राग किसोर किसोरी ।
त्यौँ ‘पदमाकर’ घाली घली फिरि लालहि लाल गुलाल की भोरी ।
जैसी की तैसी रही पिचकी कर काहू न केसरि रंग सौ बोरी ।
गोरिन के रग भीजिगो साँवरो साँवरे के रंग भीजीँ सु गोरी ॥
उपर्युक्त सबैया मे पिचकारियों का हाथों में जैसे का तैसा रह जाना स्तम्भ सूचक है । रंग की ज़रूरत ही क्या रही । गोरियों के रंग से ही श्रीकृष्णजी रँग गए और कृष्ण के रंग मे गोपियाँ सराबोर होगईं ।

स्तम्भ के उदाहरण मे महाकवि बिहारी का नीचे लिखा दोहा क्या ही सुन्दर है । देखिए—

पाग सजत हरि दग परी जूरा बाँधत बाम ।
रहे पेच करेँ में परे परे पेच में स्थाम ॥

कविवर तोषनिधि का भी यह दोहा देखने योग्य है—

हलत न चलत न परत पल लखत एक टक वाम ।
मित्र चित्र दर्साइ मै कियो कहा यहि धाम ॥

स्वेद

केलि, धूप, क्रोध, लज्जा, हर्ष, भय आदि के कारण रोम-रन्ध्रों से निकलने वाले जल को स्वेद कहते हैं। यों तो साधारण अवस्था में भी शरीर से हर समय पसीना निकला ही करता है, परन्तु विशेष अवस्थाओं में स्नायविक उत्तेजना के कारण, स्वेद-ग्रन्थियों के फैल जाने से, स्वेद की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण देखिए—

किंकिनि नेवर की भुनकारनि चार पसारि महा रसजालहि ।
काम किलोलनि मे 'मतिराम' कलानि निहाल कियो नन्दलालहि ।
स्वेद के बिन्दु लसैं तन मे रति अन्तर ही लपटानि गुपालहि ।
मानो फली मुकुताफल पुजनि हेमलता लपटानी तमालहि ॥

उपर्युक्त सवैया में काम किलोल जन्य स्वेद-विन्दुओं से शरीर के सुशोभित होने का वर्णन है। कृष्ण का आलिगन करते समय गोपी का स्वेदकिन्न सुन्दर शरीर ऐसा प्रतीत होता है, मानों मुक्ता फलों से लदी हुई स्वर्ण-लतिका तमाल वृक्ष में लिपट रही हो।

कज्जल कलित मुकुलित दृग लोल स्वेद-

सलिल कपोल अलकावलि सनति है ।

ललित गुलाल मजु मण्डित बदन मण्ण-

कुण्डल दिपति जो वितान से तनति है ।

कहत 'किशोर कवि सिधिलता अग अग,

भीजे मनसिज ओज आभा उफनति है ।

आवत भुक्त गजगति मति धीर वीर,

आज बलवीर देखि देखत बनति हैं ॥

इस कवित्त मे भी कलित कपोलों का स्वेद-सलिल से सुशोभित होना वर्णित है ।

स्वेद के उदाहरण मे बिहारीजी का निम्नलिखित दोहा भी बड़ा सुन्दर है—

रहौ गुह्री बैनी लख्यौ गुहिवे को त्योंनार ।

लागे नीर चुचान ये नीठ सुखाये बार ॥

चलो रहने दो, आए 'त्यौनार' बनकर । जैसे-तैसे बड़ी 'नीठ' से तो मैने बाल सुखाए थे, सो उनमे फिर पानी चुचाने लगा ।

रोमाञ्च

हर्ष, भय, क्रोध, आश्चर्य, प्रियस्पर्श आदि कारणों से रोमों का खड़ा हो जाना रोमाञ्च कहाता है । जब उपर्युक्त हर्ष आदि कारणों से स्नायुओं के उच्चैजित होने पर, रुधिर की गति तोत्र हो जाती है, तो उसका त्वचा के नीचे रोमों की जड़ों पर दबाव पड़ने से वे खड़े हो जाते हैं ।

रोमाञ्च के उदाहरण मे बैनी प्रवीन का नीचे लिखा सवैया देखिये—

आनन चन्द सो मन्द हँसी दुति दामिनि सी चहुँ ओर रहँ वै ।

'बैनी प्रवीन' बिचोलन चञ्चल माधुरे बैन सुधा से परे च्वै ।

कौतुक एक अनूप लख्यौ सखि आजु अचानक नाह गए छ्वै ।

श्रीफल से कुच कामिनि के दोऊ फूलि कदम्ब के फूल गए है ॥

पति के अचानक स्पर्श कर लेने से नायिका के श्रीफल सदृश कुच रोमाञ्चित होकर कदम्ब के फूल समान बन गए । अर्थात् जिस तरह कदम्ब-कुसुम पर काँटे से खड़े रहते हैं, उसी प्रकार हर्ष से कुचों पर भी रोम खड़े होगए ।

×

×

×

पद्माकरजी ने भी इस आशय का एक सवैया लिखा है, देखिये—

कैधौ डरी तू खरी जलजन्तु तें कै अंग भार सिवार भयो है ।

कै नख ते सिख लौं 'पर्दमाकर' जाहिरै भ्रार सिंगार भयो है ।

कैधौ कछू तोहि सीत बिकार है ताही को ये उद्गार भयो है ।
कैधौ सु बारि विहार ही मे तन तेरो कदम्ब को हार भयो है ॥

उपर्युक्त सवैया मे जलजन्तु आदि के भय से अथवा शीत-विकार आदि के कारण रोमाञ्च होना वर्णित है ।

रोमाञ्च के सम्बन्ध मे निम्नलिखित दोहे भी बड़े उत्कृष्ट हैं—

पुलकित गात अन्हारि यों अरी खरी छवि देत ।
उगे अंकुरे प्रेम के मनहुँ हेम के खेत ॥

हेम के खेत में प्रेम के अंकुरों का उगना कितनी अलौकिक कल्पना है । दूसरा दोहा भी देखिये—

मेरे तन के रोम यह मेरे नाहि निदान ।
उठि आदर आगम करे करो कौन विधिमान ॥

यहाँ मानवती नायिका के निकट प्रियतम के आने ही, उसके रोम-रूपी प्रेमाकुरों ने उठ कर—खड़े होकर उसका स्वागत किया है ।

रामचरित-भानस में भी रोमाञ्च पर अनेक सुन्दर उदाहरण हैं, देखिए—

समाचार जब लक्ष्मण पाये ।
ब्याकुल बिलखि बदन उठि धाये ॥
कम्प पुलक तन नयन सनीरा ।
गहे चरण अति प्रेम अधीरा ॥

× × ×
मंगल समय सनेह बस मोचत जिय मम तात ।
आयसु देहहिं हर्षि हिय कहि पुलके प्रभु गात ॥

स्वर-भंग

नशा, हर्ष, शोक, पीड़ा आदि कारणों मे स्वाभाविक कण्ठ-स्वर में विकार हो जाने को स्वर भंग कहते हैं । •

मनोवेगों के कारण रक्त-प्रवाह और श्वासोच्छ्वास-क्रिया में अन्तर पड़ने से स्वर-तन्तुओं में खिंचाव होने लगता है, जिससे स्वर-भंग हो जाता है। उदाहरण देखिए—

जाति हुती निज गोकुल के हरि आये तहाँ लंखि के मग सूना ।
तासों कइयौ 'पदमाकर' यों अरे साँवरे बावरे ते हमै छू ना ।
आजु घौँ कैसी भई सजनी उत वा बिधि बोल कढ्यौई कहुँ ना ।
आनि लगायो हिये सो हिये भरि आये गरो कहिआयो कछू ना ॥

पद्माकरजी ने कैसी अच्छी बात कही है। गोकुल जाती हुई गोपिका को अकेली देखकर कृष्णजी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। फिर क्या था, प्रेमातिरेक से गोपिका का गला भर आया और उसके मुँह से एक शब्द भी न निकला।

इसी बात को देवजी ने भी बड़ी सुन्दरता से कहा है—

परदेस ते पीतम आए री माय के आय के आली सुनाई जहीं ।
कवि 'देव' अचानक चौकि परी मुनि कै बतियाँ छुतियाँ उमहीं ।
तब लों पिय अँगन आय गए धन धाय हिये लपटाय रही ।
असुआ ढहरात गरो घहरात मरु करि आधिक बात कही ॥

परदेश से 'पीतम' के आने की खबर सुनते ही नायिका के हृदय में प्रेम-पारावार उमड़ पड़ा। वह दौड़ कर प्रियतम के हृदय से लिपट गई, परन्तु गला भर आने के कारण बड़ी कठिनाई में थोड़ी सी बात कह सकी।

स्वर-भंग के उदाहरण में नीचे लिखा दोहा भी बड़ा सुन्दर है—

हौँ जानत जो नहिं तुम्हें बोलत अध अखरान ।
संग लगे कहुँ और के करि आए मदपान ॥

अरे तुम कहीं और के साथ जाकर मदपान कर आए मालूम होते हो, इसी से पूरी बात भी नहीं कह पाते, अस्पष्ट-सा कथन करके चुप हो जाते हो।

कम्प या वेपथु

काम, क्रोध, भय, हर्ष, व्याधि आदि से उत्पन्न अकस्मात् शरीर-कम्प का नाम वेपथु है। हर्ष-विषाद आदि की अधिक उत्तेजना के कारण स्नायविक शक्ति का प्रवाह रुक जाता है, जिससे मांस-पेशियाँ शिथिल होकर कम्प उत्पन्न कर देती हैं।

मतिरामजी का नीचे लिखा कम्प सम्बन्धी सबैया देखिए—

चन्द्रमुखी अरविन्द की मालनि गूथति रूप अनूप बिगारेउ ।
काम स्वरूप तहाँ 'मतिराम' अनन्द सों नन्दकुमार सिधारेउ ।
देखत कम्प छुट्यौ तिहि के तन यों चतुराई कै बोल उचारेउ ।
सीरे सरोज लगे सजनी कर कम्पत जात न हार सँवारेउ ॥

चन्द्रमुखी बड़े मज़े में बैठी-बैठी कमल-पुष्पों की माला बना रही थी, इतने ही में वहाँ नन्दकुमार के पहुँच जाने से, हर्षाधिक्य के कारण उसके शरीर में कम्प होने लगा। परन्तु वह भाव को छिपा गई और कहने लगी— कमल के फूल कितने ठंडे हैं, कि उनकी सर्दों से हाथ कांपने लगे, माला गूथना भी कठिन हो गया।

इसी सम्बन्ध में रसखानजी का सबैया भी कैसा सुन्दर है। देखिए—

पहले दधि लैगई गोकुल में चख चार भए नटनागर पै ।
'रसखानि' करी उन चातुरता कहै दान दै दान खरे अर पै ।
नख ते सिख लौं पट नीले लपेटे लली सब भाँति कँपै डरपै ।
मनु दामिनि सावन के घन में निकसै नहिं भीतर ही तरपै ॥

नटनागर द्वारा दान माँगने का आग्रह करने पर जब नीलवसना ग्वालिनि मारे डर के थरथराने लगी तब ऐसा प्रतीत होता था, मानो सावन के बादलों में भीतर ही भीतर बिजली तड़प रही हो।

वैवर्ण्य

हर्ष, विषाद, मोह, भय, लज्जा, आश्चर्य, क्रोध आदि कारणों से चेहरे

का रंग बदलना या कान्ति-विपर्यय वैवर्य कहाता है। लज्जा, विषाद आदि मनोवेगों के कारण रुधिर-वाहिनी नाड़ियों के सकुचित, शिथिल, या स्नायुओं के उत्तेजित हो जाने से चेहरे पर रुधिर न्यूनाधिक मात्रा में पहुँचता है, जिससे उसका रंग फीका या अधिक लाल दिखाई देने लगता है; यही वैवर्य है।

वैवर्य के उदाहरण में कवि कालिदास का निम्नलिखित कवित्त कितना उत्कृष्ट है—

चलिये गोविन्द चन्द चन्दबदनी के पास,
 'कालिदास' आसरो घरी न पल आधे को।
 तुम्हें देखि पावै सुख पावै बहु भाँति ताहि,
 दीजै नैकु निरखि नतीजा नेह नाधे को।
 देखत सखीन के सु-खीन करि डारी कान्ह,
 दीह दुख पायो विरहानल के दाधे को।
 पीरो परो बदन सदन चलि देखे स्याम,
 मदन सुनार हरथौ सुवरन राधे को ॥

विरहिणी राधिका विरहानल में विदग्ध हो रही है, इस बात का भरोसा नहीं है कि वह घड़ी भर जीवित रहेगी या पल भर, प्राण निकलने को ही हैं। दुःख के मारे उसका सारा शरीर पीला पड़ गया है। कामदेव रूपी स्वर्णकार ने उसका सु-वर्ण रूपी सारा सुवर्ण हर लिया है। अब वह पहचानी तक नहीं जाती। गोविन्द ऐसी दशा में तुम उसके पास चलो, तुम्हें देखकर वह हरी हो जायगी—हर्षित हो उठेगी। 'नेह नाधे' का कुछ तो ख्याल करो।

इस विषय में पद्माकरजी का सवैया भी पढ़ लीजिये।

सापने हू न लख्यो निसि में रति भौन ते गौन कहुँ निज पीके।
 त्यों 'पदमाकर' सौति सजोग न रोग भयो अनभावतो जी के।
 हारन सों हहरात हियो मुकता सियरात सुबेसर ही के।
 भावते के उर लागी जर्जु तऊ भावती के मुख है गयो फीके ॥

ऊपर के पद्य में भावते के हृदय से लगी रहने पर भी भावती का मुख विवर्ण हो जाने का वर्णन है ।

वैवर्ण्य के सम्बन्ध में मतिरामजी का निम्नलिखित कवित्त भी बड़े गुजब का है ।

छल सों छबीली कों सहेलिन लिबाइ कर,
ऊपर अटारी रूप रच्यौ जाइ ख्याल के ।
कवि मतिराम भूषण की भनक सुनि,
चाहि भौ चपल चित रसिक रसाल के ।
आली चली सकल अलोक मिमु करि करि,
आवत निहारि कर मदन गुपाल को ।
लालन को इन्दु सो बदन अवलोकि अर—
विन्द सो बदन कुम्हिलाय गयो बाल को ॥

नन्द-नन्दन मदनगोपाल के अचानक सखी के पास अटारी में पहुँच जाने के कारण वाला सहम गई, और उसका अरविन्द-सा विकसित मुख लाल का मुख-चन्द्र देखकर कुम्हला गया ।

इस प्रसङ्ग में नीचे लिखा दोहा भी बड़ा सुन्दर है—

कहि न सकत कछु लाज ते अकथ आपनी बात ।
ज्यों ज्यों निशि नियरात है त्यों त्यों तिय पियरात ॥

रात ज्यों ज्यों नज़दीक आती जाती है, त्यों-त्यों लज्जा और भय के कारण नायिका का शरीर पीला पड़ता जाता है ।

अश्रु

हर्ष, विषाद, भय, भक्ति, क्रोधादि से उत्पन्न नेत्र-जल को अश्रु कहते हैं । अश्रुओं से हर्ष विषादादि मानसिक भावों का पता लगता है । विशेष दशाओं में आंसुओं से सौन्दर्य की वृद्धि भी मानी गई है । एक विद्वान्

का कथन है कि सुन्दरी की मुस्कान की अपेक्षा उसके आँसुओं में अधिक माधुर्य और आकर्षण होता है ।

कुछ मनोविकारों के कारण अश्रु-कोष सम्बन्धी स्नायुओं को ऐसी उत्तेजना मिलती है, कि आँखों के पास वाली पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं जिससे आँसू निकल पड़ते हैं ।

आँसुओं के सम्बन्ध में पद्माकरजी का नीचे लिखा कवित्त कितना सुन्दर है ।

भेद बिन जाने एती वेदना बिसाहिबे को
आजु हों गई ही बाट बंसीवट बारे की ।
कहै 'पदमाकर' लटू है लोट पोट भई,
चित्त में चुभी जो चोट चाह चटवारे की ।
बावरी लौँ बूझति बिलोकति कहा तू बीर,
जाने केऊ कहा पीर प्रेम घट बारे की ।
उमड़ि उमड़ि बहि बरसै सुआँखिन है,
घट में बसी जु घटा पीत पट बारे की ॥

अरी, आज मैं वशीवट क्या गई, एक आफत मोल ले आई । वंशी वाले की वर्षा की मीठी तान सुनकर लोट-पोट हो गई । उसी चटोर की चाह चित्त में चुभ गई है । उसी पीत पट वाले की घटा मेरे घट में कुछ ऐसी बस गई है कि वही उमड़-उमड़ कर आँखों के रास्ते बरसती रहती है । अश्रुओं का कैसा सुन्दर तथा काव्य-मय वर्णन है ।

अश्रु के उदाहरण में कविवर मतिराम की उक्ति भी सुन लीजिये ।

बैठे हुते लाल मनमोहन बिलोकि बाल,
छिनक सकेच राख्यौ गुरुजन भीर को ।
कवि 'मतिराम' दीठि और की बचाइ देखै,
देखत ही औरै भई राखे अब धीर को ।

तन की खबर भूली खान अरु पान सब,
आँखिन में छाये पुर आनँद के नीर के।
उमँगि हिये ते आये प्रेम को प्रवाह ताते,
लाज गिरि परी जैसे तरुवर तीर के ॥

मनमोहन को देख कर बाला सारी सुध-बुध भूल गई। आनन्द के मारे उसकी आँखों में आँसू छलछला आए। हृदय से प्रेम-पयस्विनी उमड़ पड़ी। जिस प्रकार नदी-नालों में बाढ़ आने से उनके किनारे के दरखून गिर जाते हैं, उसी प्रकार स्नेह-सरिता के प्रबल प्रवाह से लाज का पेड़ गिर गया, अर्थात् बाला के आँसुओं ने उसके मनमोहन पर मुग्ध होने के रहस्य का भण्डा फोड़ कर दिया।

कविवर देवजी आँसुओं का कैसा वर्णन करते हैं सुनिये—

सखी के सकेच गुरु सौच मृगलोचनि —

रिसानी पियसों जो उन नैक हँसि छुओ गात ।

‘देव’ वै सुभाय सुसकाय उठि गए यहि—

सिसकि सिसकि निसि खोई रोइ पाये प्रात ।

को जाने री वीर विन विरही विरह विथा,

हाय हाय करि पछिताय न कछू सुहात ।

बड़े बड़े नैनन सो आँसू भरि भरि ढरि,

गोरो गोरो मुख आञ्जु ओरो से बिलानो जात ॥

सखियों और बड़े बूढ़ों के सामने गान छूने के कारण नायिका ने प्रिय को झिड़क दिया, जिसमें वह उठ गया। फिर क्या था, रात-भर वह अपनी करनी के लिए सिसक-सिसक कर रोती और पछताती रही। आँखों से आँसू बहते रहे। उस समय ऐसा मालूम होता था कि आँखों से आँसू नहीं निकल रहे, वरन् उसका ओले जैसा शुभ्र मुखमण्डल गलगल कर बह रहा है।

आँसुओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित उत्तम दोहे भी पढ़ने लायक हैं—

नभ विमान उतरत भरत इकटक रहे निहारि ।
विह्वुरन अनल बुभाइबे भरो बिलोचन बारि ॥

× × × ×

जिनमे निसिदिन बसतु हौ तुम घन सुन्दर नाह ।
क्यों न चलै तिय दगनिर्तै बहत बारि परबाह ॥

× × × ×

रहिमन अँसुआ नयन ढरि जिय दुख प्रगट करेइ ।
जाहि निकारौ गेह ते कस न भेद कहि देई ॥

× × × ×

बिन देखे दुख के चले देखे सुख के जायँ ।
कहौ लाल इन दगन के अँसुआ क्यों ठहरायँ ॥

अँसुआ के वर्णन में कविरत्न सत्यनारायनजी की भी निम्न लिखित पक्तियाँ पढ लीजिए, कैसी सुन्दर और आकर्षक हैं—

तुव नयन सन टपकत टपाटप यह लगी अँसुवन झड़ी ।
बिखड़ी खड़ी मुअ्र पै परी जनु टूटि मुतियन की लड़ी ।
रोकत यदपि बलसों बिरह की बेदना उर तउ भरै ।
जब अधर नासापुट कँपहि अनुमान सों जानी परै ॥

बिहारी का दोहा देखिए—

पलनि प्रगटि बरुनीनि बढि नहि कपोल ठहरायँ ।
अँसुआ परि छुतियाँ इनक छनछनाय छुपि जायँ ॥

अँसुआ के सम्बन्ध में नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने लायक है ।

गोपिन के अँसुआन के नीर जे मोरी बहे बहिकै भये नारे ।
नारे भये नदिया बहिकै नदिया नद ते भये फाट करारे ।
बेगि चलो तो चलो उतको कवि 'तोष' कहे ब्रजराज दुलारे ।
वे नद चाहत सिन्धु भये 'पुनि सिन्धु ते ह्वै' जलाहल सारे ॥

महाकवि सौदा की उक्ति सुनिए—

समुन्दर कर दिया नाम उस का नाहक सब ने कह कह कर ।

हुए थे जमा कुछ आँसू मेरी आँखों से बह बह कर ॥

महाकवि सुरदासजी ने आँसुओं का कैसा सुन्दर वर्णन किया है, देखिए—

जब जब पनघट जाऊ सखीरी बा जमुना के तीर ।

भरि भरि जमुना उमड़ि चलति है, इन नैननि के नीर ।

इन नैननि के नीर सखीरी, सेज भई घिरनाउँ ।

चाहति हौं ताही पै चढिकै हरिजू के ढिग जाउँ ।

आँसुओं के समुद्र को सेज की 'घिरनी' पर चढ़कर पार करते हुए 'हरिजू' के पास जाना कैसी अद्भुत सूझ है ।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री नाथूराम माहैर ने आँसुओं का कैसा सुन्दर वर्णन किया है । आप के अप्रकाशित 'अश्रुमाल' काव्य से कुछ पद्य यहाँ दिए जाते हैं ।

अश्रु किधौं उमड़े घन-से घिरि आए बुझावन को विरहागिनि ।

मीन किधौं सुत सीप के गोय रहीं हिय हार सनेह के तागन ।

कंज किधौं मकरन्द के बुन्द रहे सरसाय मालिन्द के भागन ।

कै अँखियाँ के लाल सखी खुल खेल रहे अँखियाँ के आँगन ॥

प्रिय के सुभ आगम में अँमुआ प्रगटे छविरामि निहारती हैं ।

कर प्यार अपार दुलारती हैं सिसुनेह की जोति उजारती हैं ।

मुतिया इन्हें जानि अजान कहुँ जुगि जायँ न हँस निचारती हैं ।

यहि ते अँखिया निज लालन को नहिँ गोद ते नीचे उतारती हैं ॥

गग सी तुंग तरग उटे मित ओज भरौं ससि जोति विभंजन ।

लालिमा लोचन लौनी लसै बिलसै है सरस्वति सी मन-रंजन ।

सुर-सुता सम दृश्य दिखाय दियो अँसुआन ने धोय कै अँजन ।

मानहु प्रेम-प्रयाग के तीरथ-संगम माँहि करै दृग मंजन ॥

उदू के किसी कवि ने आसुओं के सम्बन्ध में कैसी अच्छी शेर लिखी है—

तुफ़ बिन ज़बस कि पानी जारी किये है रोकर,
चश्मो से मैं अब अपने बैठा हूँ हाथ धोकर ।

कविवर प्रसादजी ने आसुओं के सम्बन्ध में क्या ही अच्छा कहा है ।
जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति-सी छाई,
दुर्दिन में आसू बनकर वह आज बरसने आई ।

अब जरा हरिऔधजी का आसू-वर्णन भी पढ़ लीजिए ।
आँख का आसू ढलकता देखकर, जी तड़प करके हमारा रह गया,
क्या गया मोती किसी का है बिखर, क्या हुआ पैदा रतन केई नया ।
आस की बूँद कमल से हैं कहीं, या उगलती बूँद हैं दो मछलियाँ,
या अनूठी गोलियाँ चोदी मढी, खेलती हैं खजनों की लडकियाँ ।
या जिगर पर जो फफोला था पड़ा, फूट करके वह अचानक बह गया,
हाथ ! था अरमान जो इतना बड़ा, आज वह कुछ बूँद बन कर रह गया ।

प्रलय

किसी कार्य में तल्लीन होकर सुख-बुध भूल जाना, अथवा सुख-दुख या भय के कारण पूर्व दशा की स्मृति, चेष्टा तथा ज्ञान का नष्ट हो जाना प्रलय कहाता है ।

सुख, दुःख, भय आदि सम्बन्धिनी अत्यधिक उत्तेजना के कारण मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया में अन्तर पड़ जाता है, जिससे वह ठीक-ठीक काम नहीं कर पाता, और मनुष्य को कुछ सुख-बुध नहीं रहती ।

स्तम्भ और प्रलय में इतना अन्तर है कि उसमें शारीरिक क्रियाएँ स्तब्ध होती हैं और इसमें मानसिक ।

प्रलय के सम्बन्ध में मतिरामजी का निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए—
आ दिन ते छवि सों मुसक्यात कहूँ निरखे नन्दलाल बिलासी ।
ता दिन तैं मनही मन में 'मतिराम' पिये मुसक्याति सुधा-सी ।

नेकु निमेष न लागत नैन चकी चितवै तिय देव तिया सी ।
चन्द्रमुखी न हलै न चलै निरवात निवास में दीपशिखा सी ॥

जिस दिन से मुस्कराते हुए नन्दलाल देखे हैं, उस दिन से उस गोप-वधु की दशा ही कुछ और हो गई है। मन ही मन वह उनकी रूप-सुधा का पान करती रहती है। पल को भी उसके पलक नहीं लगते। देव-तियाओं की भाँति वह इक टक टकटकी लगाकर देखती रहती है। वायु से सुरक्षित दीप-शिखा की तरह न वह हिलती है न डुलती है।

प्रलय के उदाहरण में देवजी का निम्नलिखित सबैया भी बड़ा सुन्दर है।

गोरी गुमान भरी गजगामिनी कालि धौं को वह कामिनी तेरे ।
अह जु ती सुचि तैं मुसिक्याइ कै मोहि लई मनमोहन मेरे ।
हाय न पायँ हले न चले अँग नीरज नैन फिरँ नहि फेरे ।
'देव' सो ठौर ही ढाड़ी चितौति लिखी मनो चित्र विचित्र चितेरे ॥

प्रलय के सम्बन्ध में नीचे लिखे, दोहे भी पढने लायक हैं—

केहरि काट पट पीत घर सुप्रमा शील निधान ।
देखि भानु कुल भूषणहि बिसरा सखिन अपान ॥
× × × ×
दै चख चोट अँगोट मग तजी जुवति बन माहिं ।
खरी विकल कब की परी सुधि सररी की नाहिं ॥

जृम्भा

किसी किसी ने जृम्भा अर्थात् वियोग, आलस्य मोह या भयवश बार-बार मुँह खोल कर दीर्घ श्वास-निःश्वास लेने-त्यागने को भी सात्विक भावों में माना है।

विषादादि के कारण रुधिर-वाहिनी नाड़ियों के सिक्कड़ने पर, निःश्वास की गति कुछ मन्द पड़ जाती है। उस समय प्राणप्रद वायु की अधिक हि० न०—२२

आवश्यकता पड़ती है। इसी के लिए मनुष्य गहरे श्वास के रूप में जम्हाई लेने लगता है।

जम्हाई के उदाहरण में मतिरामजी का निम्नलिखित कवित्त कैसा अच्छा है।

केलि करि मारी राति प्रात उठी अलसात,
नींद भरे लोचन युगल बिलसत हैं।
लाजनि तें अंगनि दुरावति है बार बार,
खेचि कर बसन बिहारी बिहँसत है।
कवि ' मतिराम ' आई आलम जम्हाई मुख,
ऐसी मनभावती की छवि सरसत है।
अरुन उद्द्योत मानो सोभा के सरोवर में,
सोभामान सोभा को सरोज बिकसत है ॥

केलि के पश्चात् नायिका का शरीर अलसाया हुआ-सा है। उसे जम्हाइयाँ आ रही हैं। उस समय बार-बार मुँह खोल कर जम्हाई लेने से ऐसा प्रतीत होता है, मानो प्रातःकाल सूर्योदय के समय सौन्दर्य के सरोवर में सुन्दर शोभा का कमल विकसित हो रहा है।

इस प्रसंग में पदमाकरजी का नीचे लिखा सवैया भी बड़ा सुन्दर है।
आरस सों रस सों 'पदमाकर' चौंकि परे चख चुम्बन के किये।
पीक भरी पलकें भलके अलके भलके छवि छूटि छुटा लिये।
सो मुख भाखि सकै अब को रिसकै कसिकै मसकै छुतियों छिये।
राति की जागी प्रभात उठी अंगिरात जम्हात लजात लगी हिये ॥

इस सवैया में भी रति-जनित आलस्य के कारण नायिका के अँगड़ाइयाँ और जम्हाइयाँ लेने का वर्णन है।

कायिक अनुभाव

मनोभावों के अनुसार श्वाँस, भौंह, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा

की जाने वाली कटाक्ष आदि चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं ।
जैसे—

मन्द ही मन्द अनन्दति सुन्दरी जाति हुती अपने कहुँ नाते ।
आगे सवै गुह नारि हुती हरए हरि बात कही इक घाते ।
हाथ उठाइ छुई छितियों मुसक्याइ कै जीभ गही दुहु दाँते ।
वैनन ही कह्यौ हे जगदीस सु नैनन ही कह्यौ जाहु इहाँते ॥

आनन्द में मग्न सुन्दरी धीरे-धीरे कहीं अपनी नातेदारी में जा रही थी । आगे आगे बड़-बूड़ी चल रही थीं, इसी समय एक ओर से मनमोहन ने धीरे से कुछ बात कही । कृष्ण की बात सुन सुन्दरी ने हाथ ऊँचे करके अपनी छाती का स्पर्श किया और फिर वह दाँतों में जीभ दाबकर मुस्करा दी । इसके अनन्तर हे जगदीश कह कर । दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए) नेत्रों के सरेत में ही कृष्ण से कह दिया कियहाँ ठहरना ठीक नहीं, अब चले जाइये । सुन्दरी ने किस अभिप्राय से क्या सकेत किया इसके स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है) । यहाँ सुन्दरी का अंगों का स्पर्श करना, दाँतों में जीभ दाबना, मुस्कराना, तथा सैनों में सकेत करना आदि कायिक अनुभाव हैं ।

मानसिक अनुभाव

अन्त करण की भावना के अनुसार मन-मानस में, आमोद-प्रमोद, हर्ष-विषादादि की जो तरंगें उठती हैं, उन्हें मानसिक अनुभाव कहते हैं ।

उदाहरण देखिए—

आवत कदम्ब कुसुमन के पराग पूरि,
सीरी पौन लहलही ललित लतान की ।
घोरे घन घेरि घेरि पावस अँघेरी पिक—
केकिन की टेर गनि अरि होत प्रान की ।
ऐसे समै कुंज भौन आनँद उछाह बाढ़े,
ठाढ़े टिंग ललन मनोरथ न मान की ।

सौहन सँचाई बात करत रचाई देऊ,

छवि सों बचाई छींटे ओट छतनान की ॥

उपर्युक्त कवित्त में पावस की अँधेरी रात में, जब घन उमड़-धुमड़ रहे हैं लहलहा ल लेत लताओं के छूती हुई ठडी हवा आ रही है, मोर पपीहा बोल रहे हैं, ऐस समय में नायक-नायिका दोनों बड़े आनन्द और उत्साह से प्रेमालाप कर रहे हैं ।

आहार्य अनुभाव

भाँति-भाँति के वेश धारण के आहार्य अनुभाव कहते हैं । लीला, हाव और आहार्य अनुभाव में इतना अन्तर है, कि पहले में नायक, -नायिका दोनों एक साथ रूप बदलते हैं और दूसरे अर्थात् आहार्य अनुभाव में कोई एक ही वेश बदलता है ।

आहार्य अनुभाव के उदाहरण में श्रीधर कवि का पद्य देखिए—

स्याम रंग धारि पुनि बँसुरी सुधारि कर,

पीत पट पारि बानी मधुर सुनावेगी ।

जरकसी पाग अनुराग भरि सीस बाँधि,

कुण्डल किरिट हू की छवि दरसावेगी ।

याही हेत खरी अरी हेरति हौं बाट बाकी

कैयो बहुरूपि हू को ' श्रीधर ' भुलावेगी ।

सकल समाज पहचानेगो न केहू भाँति

आज वह बाल ब्रजराज बनि आवेगी ॥

उपर्युक्त कवित्त में किसी गोप-बाला द्वारा ब्रजराज का स्वर्ग भरे जग्ने का वर्णन है । वह गोपी साँवली सूरत बना, पीत पट, किरिट, कुण्डल और पगड़ी पहन मधुर मुरली बजाती हुई श्रीकृष्ण का इतना अच्छा वेश धारण करके आवेगी, कि कोई उसे पहचान भी न सकेगा । सखी कहती है, कि मैं उसीकी प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हूँ ।

संचारी या व्यभिचारी भाव

परिभाषा

संचारी शब्द सम् उपमर्ग और चर धातु से बना है। इसका अर्थ है—सब भावों को भले प्रकार रसत्व की आर ले जाने वाला, अथवा साथ साथ चलने वाला। अर्थात् जो भाव स्थायी भावों में विद्यमान रह कर, या उनके साथ-साथ चल कर, उन्हें उपयोगी एवं पुष्ट बनाते—रस रूप तक पहुँचाने, और जल तरगवत् उन्हीं में उत्पन्न होकर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव ध्वनि रूप में स्थायी भावों के सहायक और पोषक होते हुए भी, उनमें रस-सिद्धि-काल तक स्थिर नहीं रहते। वे तो चपला की तरह सब रसों में अस्थिरतापूर्वक संचार किया करते हैं। इसीसे उन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। अन्तःसंचारी या मन संचारी भी इनकी सजा है।

साहित्यदर्पण-कार ने संचारी भाव की निम्न प्रकार परिभाषा की है—

विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्व्यभिचारिणः।

स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नान्नयस्त्रयश्च तद्भिदाः॥

अर्थात्—स्थिरता से विद्यमान रत्यादि स्थायी भावों में उन्मग्न-निर्मग्न (आभिभूत-तिरोभूत) होकर निर्वेदादि भाव अनुकूलता से व्याप्त होते हैं। अतएव विशेष रूप से आभिमुख्य चरण के कारण इन्हें व्यभिचारी कहते हैं।

रसतरंगिणीकार के मत में संचारी भाव वह है, जो एक में से दूसरे रस में, दूसरे में से तीसरे और तीसरे में से चौथे रस में, इसी प्रकार अनेक रसों में संचरण करे, तथा अनेक रसों में स्थिर रहे और जिसकी अनेक रसों में व्याप्ति होती हो।

संचारी भाव तेतीस हैं, जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं ।

१—निर्वेद, २—ग्लानि, ३—शका, ४—असूया, ५—मद, ६—
अम, ७—आलस्य, ८—दीनता (दैन्य), ९—चिन्ता, १०—मोह, ११—
स्मृति, १२—धृति, १३—ब्रीडा, १४—चपलता, १५—हर्ष १६—आवेग,
१७—जड़ता, १८—ग^१, १९—विषाद, २०—आत्सुक्य २१ निद्रा,
२२—अपस्मार, २३—स्वप्न २४—विवोध २५—अमर्ष, २६—अव-
हित्या, २७—उग्रता, २८—मति, २९—व्याधि, ३०—उन्माद, ३१—
मरणा, ३२—त्रास, ३३—वितर्क ।

दास कवि ने उपर्युक्त तेतीस संचारी भावों का उदाहरण एक ही कवित्त में दिया है, देखिये—

सुमिरि सकुचि न थिराति सकि त्रसति,
तरति उग्र बानि सगलानि हरखाति है ।
उनीदति अलसाति सेवति सधीर चौकि,
चाहि चित्त समित सगर्व अनखाति है ।
'दास' पिय नेह छिन छिन भाव बदलति
स्यामा सबिराग दीन मति कै मखाति है ।
जल्पति जकाति कहरति कठिनाति माति,
मोहति मरति बिललाति बिलखाति है ॥

× × × ×

नायक कवि ने संचारी भावों को रामचरित मानस के उदाहरण देकर बड़ी ही सुन्दर और सरल रीति से समझाया हैं । संचारी भाव ने क्या अभिप्राय है, यह बात इन उदाहरणों से अच्छी तरह अवगत हो जाती है, देखिए—

(१) निर्वेद—अब प्रभु कृपा करहु इहि भाँती ।
सब तजि भजन करौ दिन राती ॥

- (२) ग्लानि — मन ही मन मनाय अकुलानी ।
 (३) शंका—शिवहि बिलोकि सशंकेउ मारु ।
 (४) असूया --तव सिध देखि भूप अभिलाषे ।
 कूर कभूत मूढ मन माषे ॥
 (५) मद— रण मद मत्त निशाचर दर्पा ।
 (६) श्रम—यके नयन रघुपति छवि देखी ।
 (७) आलस्य अधिक सनेह देह भई भोरी ।
 (८) दैन्य—पाहि नाथ कह पाहि गुमाई ।
 (९) चिन्ता—चितवति चकित चहुँ दिस सीता ।
 कहँ गए नृप किशोर मन चीता ॥
 (१०) मोह—लान्हि लाय उर जनक जानकी ।
 (११) स्मृत—सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत ।
 (१२) धृति—धार बड़ि धीर राम उर आनी ।
 (१३) ब्रीडा—गुरुजन लाज ममाज बड़ि देखि सीय सकुचानि ।
 (१४) आवेग—उठे राम सुनि प्रेम अधीरा ।
 कहँ पट कहु निषग धनु तीग ॥
 (१५) चपलता —प्रभुहिँ चितै पुनि चितै महि राजत लोचन लोल ।
 (१६) जडता—सुनि मग मोँझ अचल हुइ वैसा ।
 पुलक शरीर पनस फल जैसा ॥
 (१७) हर्ष—हरषि राम भेंटेउ हनुमाना ।
 (१८) गर्व—रघुवशिन कर सहज सुभाऊ ।
 भूलि कुमारग देहिँ न पाऊ ।
 (१९) विषाद—सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ।
 (२०) निद्रा—रघुवर जाइ शयन तव कीन्हा ।
 (२१) अमर्ष—जेहि सपनेहुँ पर नारि न हेरी ।
 (२२) औत्सुक्य—जनु तहँ बरसि कमल सित सेनी ।

- (२३) अपस्मार—चितवति चकित चहुँ दिसि सीता ।
(२४) स्वप्न—जागी सीय स्वप्न अस देखा ।
(२५) विबोध—प्रात पुनीत काल प्रभु जागे ।
(२६) उग्रता—एक बार कालहु किन होई ।
(२७) मरण—राम राम कहि राम कहि बालि कीन्ह तनु त्याग ।
(२८) मति—प्रभु तन चितै प्रेम प्रन ठाना ।
(२९) व्याधि—अति परिताप सीय मन माँही ।
(३०) अवहित्थ—तनु सकेच मन परम उछाहू ।
(३१) उन्माद—अहह तात दारुण हठ ठानी ।
(३२) त्रास—भयो बिलम्ब मातु भय मानी ।
(३३) वितर्क—मो सब कारण जान बिघाता ।

संचारी भाव की परिभाषा करने तथा तेतीसों संचारियों के संक्षिप्त उदाहरण देने के अनन्तर अब हम प्रत्येक संचारी भाव पर पृथक्-पृथक् विस्तार पूर्वक विचार करते हैं ।

निर्वेद

आपत्ति ईर्ष्या, इष्ट वस्तु की अप्राप्ति, वियोग दारिद्र्य आदि के कारण या तत्वज्ञान द्वारा क्षणिक विषय भोगों और अनित्य सामारिक सुखों से उपराम होकर मनुष्य अपने आप को धिक्कारने लगता है तो उस अवस्था का नाम निर्वेद है । वैराग्य से उत्पन्न होने पर निर्वेद शान्त रस का स्थायी भाव होता है, परन्तु इष्ट-हानि आदि कारण-जनित निर्वेद कषण, श्वागर, बीभत्स आदि में संचारी भाव बनकर संचरण करता है ।

दीनता, चिन्ता, अभ्रुपात, विवर्णता, आकुलता, दीर्घ श्वासेच्छ्वास आदि इसके लक्षण हैं ।

महाकवि देव का निर्वेद सम्बन्धी उदाहरण आगे दिया जाता है ।

ऐसे जो हों जानतो कि जैहै तू बिषै के संग,

एरे मन भेरे, हाथ पाय तेरे तोरतो ।

आजु लों हौं कत नरनाहन की नाहीं सुनि,
नेह सो निहारि हारि बदन निहारतो ।
चलन न देतो देव' चञ्चल अचल करि,
चाबुक चितावनिन मारि मुँह मोरतो ।
भारी प्रेम पाथर नगारो दै गरे सों बाँधि,
राधावर बिरद के बारिधि मे बोरतो ।

महाकवि देव ने इस छन्द में विषय-वासना में लिप्त अपने मन का तिरस्कार करते हुए उसे बुरी तरह धिक्कारा है। वे कहते हैं कि, मनीगम ! अगर यह मालूम होता कि उद्दिष्ट पथ को त्यागकर तुम सांसारिक विषय-भोगों की ओर दौड़ोगे तो मैं तुम्हारे हाथ-पाँव तोड़े बिना न रहता। चैतानियों के चाबुक मार-मार कर तुम्हारी सारी चञ्चलता भगा देता, और तुम्हें एकाग्रता के खूँटे से बाँध कर ही दम लेता। और नहीं तो तुम्हारे गले से भगवद्भक्ति का भारी भार बाँध कर तुम्हें आनन्द कन्द श्री ब्रजचन्द्र के प्रेम-पयोर्निधि में डुबो देता।

निर्वेद का कैमा सुन्दर उदाहरण है। इससे बढकर विषय-विगच्छि और क्या हो सकती है। इसी सम्बन्ध में महाकवि सूरदास का निम्न लिखित पद भी पढने योग्य है।

तजौ मन हरि विमुखन को सग ।
जाके सग कुबुधि उपजति है परत भजन में भग ।
कहा होत पय पान कराये विष नहीं तजत भुजग ।
कागहि कहा कपूर चुगाये स्वान न्दवाये गंग ।
खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषन अग ।
गज को कहा न्दवाये सरिता बहुरि धरै स्वय छंग ।
पाहन पतिन वान नहीं बेधत रीतो करत निषग ।
'सूरदास' खल कारी कामरि चढत न दूत्रो रग ॥

इस पद में सूरदासजी ने स्वानुभूति द्वारा उपदेश दिया है, कि जो

लोग भगवान् के भक्त नहीं हैं, उनका सम्पर्क भी आधोगति-गर्त में गिराने वाला है। अतः भूल कर भी उनका सग न करना चा ह्ये। इसी भाव को कविवर रसखान ने नीचे लिखे सवैये में बड़ी सुन्दरता पूर्वक व्यक्त किया है, देखिए—

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों।
आठहु सिद्धि नवौ निधि को सुख नन्द की ग य चराय बिसारों।
नैनन सौ 'रसखानि' कनै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों।
कौटिन हू कलघौत के घाम करील के कुजन ऊपर बारों ॥

× × × ×

निम्नलिखित श्लोक पश्चात्ताप जन्य निर्वेद का कैमा सुन्दर उदाहरण है—

मुत्कुम्भ बालुका रन्ध्र पिधान रचनार्थिना।
दक्षिणावर्त शंखोऽय हन्त ! चूर्णी कृतो मया ॥

अरे इस मिट्टी के घड़े के पँदे में छेद हो गया था, तो हो जाता। उस को बन्द करने के लिये इधर-उधर से लाकर कोई कंठड़ी लगाई जा सकती थी। परन्तु हाय ! मेरी मति उलटी हो गई। मैंने तो अपना बहु-मूल्य दक्षिणावर्त शंख फोड़ कर, उसकी ककड़ी में इस तीन कौड़ी के घड़े की रक्षा की। इससे अधिक और मेरी मूर्खता क्या हो सकती है !!

ग्लानि

जुषा, पिपासा, वमन, विरेचन, व्याधि तप, नियम उपवास, मनस्ताप, अति मद्यपान अति मैथुन, अति परिश्रम, अधिक मार्ग चलने आदि से शरीर और मन में जो निर्बलता, अवकलता या असहनशीलता उत्पन्न होती है, उसे ग्लानि कहते हैं।

उत्साहहीनता, कुशता, कम्प, घृणा, उपेक्षा, धीरे-धीरे बोलना, धीरे-धीरे चलना आदि इसके लक्षण हैं।

ग्लानि के उदाहरण में द्विजदेवजी का नीचे लिखा छन्द बहुत प्रसिद्ध है—

बहरि बहरि बनि सवन चहुँघा घेरि
छहरि छहरि बिस बूँद बरसावै ना ।
'द्विजदेव' की सो अब चूक मति दौव अरे,
पातकी पपीहा तू पिया की धुनि गावै ना ।
फेरि ऐसो औसर न ऐहै तेरे हाथ एरे,
मटक मटक मोर सोर तू मचावै ना ।
हौं तो बिन प्रान प्रान चाहति तज्योई अब,
कत नभ चन्द तू अकास चढ़ि घावै ना ।

उपर्युक्त छन्द में वियोगिनी बाला को व्याकुलता-जन्य ग्लानि का वर्णन है। विरह-विधुरा नायिका सन्तापपूर्वक बड़ी धृष्टता से कह रही है— बरसो, बादलो जोर-जोर से बरसो, खूब विष बूँदे बरसाओ। पपीहा तुम्हें चुनौती है, जो एक क्षण के लिए भी पी पी पुकारना बन्द करे। मटक-मटक कर शोर मचाने वाले मोरो, तुम भी अपनी मन मानी करलो, कदाचित् फिर ऐसा अबसर न मिले। विरहिणियों को तपाने वाले चन्द्र, तुम क्यों मुँह छिपाए पड़े हो, तुम भी अपनी सारी कलाओं से आकाश में दौड़ लगाना शुरू कर दो। मुझ विरहिणी की क्या, है, प्राणनाथ के बिना मेरे प्राण तो निकलने ही वाले हैं, अब गए तो क्या, तब गए तो क्या।

इस विषय में महाकवि विहारी का निम्नलिखित दोहा भी बड़े गुजब का है—

सिथिल गात कौपत हियो, बोलत बनत न वैन ।
करी खरी बिपरीत कहूँ कहत रँगिले नैन ॥

अजी यह क्या माजरा है जो शरीर सिथिल दिखाई दे रहा है, हृदय में तीव्र गति से घड़कन हो रही है और मुँह में बात तक नहीं बन आती। ओहो! मालूम हो गया, इन रँगिली अर्थात् शत्रि जागरण के कारण लाल

लाल हुई आँखों ने साफ-माफ बतला दिया कि हो न हो, तुम कहीं ज़रूर गड़बड़ी कर आए हो ; नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत न हो रही होती । सच-सच बताओ क्या बात है ।

हम दोहे में जो ख़री विपरीत 'जन्य शिथिलता, कम्पन और 'बोलत बनत न बैन' का उल्लेख किया गया है वही ग्लानि संचारी है ।

महाकवि देव का भी ग्लानि संचारी विषयक निम्नलिखित छन्द पढ़ने लायक है

रग भरे रति मानत दम्पति वीति गई रतियो छन ही छन ।
पीतम प्रात उठे अलमात चितै चित चाहत घाइ गह्यौ धन ।
गोरी के गात सवै अँगिरात जु बात कही न परी सु रही मन ।
भौहैं नचाय चलाय के लोचन चाहि रही ललचाय लला तन ॥

× × × ×

संस्कृत साहित्य में राम द्वारा परित्यक्ता सीता के दौर्बल्य की ओर संकेत करता हुआ नीचे लिखा श्लोक ग्लानि का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

किशलयमिव मुग्ध बन्धनाद्विप्रलूनम् ।
हृदय कुसुम शोषी दारुणो दीर्घ शोक ।
ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरम्,
शरदिज इव धर्मः केतकी गर्भपत्रम् ॥

जिस प्रकार कोमल पल्लव टहनी से टूटकर कमज़ोर और पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार राजवश-वृत्त से विन्धुत और भगवान् रामचन्द्र से परित्यक्त होकर सीताजी दुर्बल और पाण्डुवर्ण हो गई हैं । विकराल वियोग-बन्ध उनके कलित कलेवर की कोमल कलिका और हृदय के सुन्दर प्रसून के उसी प्रकार भुलसाए डालती है, जिस प्रकार क्वार की कड़ी धूप केतकी के कोमल पत्रों को सुखा देती है ।

यहाँ भी वियोगजन्य दुर्बलता और पाण्डुता वर्णित होने से ग्लानि संचारी है ।

शंका

स्वयं अपनी या अन्य किसी की दुर्नीति एवं क्रूरता द्वारा होने वाली इष्ट-हानि के सोच-विचार को शंका कहते हैं ।

साहित्यदर्पणकार के मत में अन्य की क्रूरता तथा अपने दोषादि से अपने अनिष्ट की ऊहा का नाम शंका है ।

सामान्यतः इसी बात को यों कह सकते हैं, कि जब किसी के मन में इष्ट-हानि की आशङ्का से सकल्प-विकल्प उठने हैं, तो उस अवस्था का नाम शङ्का है । अमुक दंगे में मेरे अमुक सम्बन्धी या मित्र को कुछ हानि न पहुँच जाय, अमुक नदी की बाढ के कारण मेरा अमुक उद्यान नष्ट न हो जाय, अमुक कार्य से कहीं मेरी लोक में निन्दा न हो, इत्यादि बातों के सोच-विचार को शंका कहते हैं ।

नाट्यशास्त्रकार के मत से धर्म, समाज या राज्य के नियमोल्लघन करने पर उत्पन्न हुए सन्देह का नाम शंका है ।

विवर्णता, स्वर-भंग, कम्प, इधर-उधर ताकना, मुँह सूखना, बातचीत करने में अटक जाना आदि शङ्का के लक्षण हैं ।

महाकवि पद्माकर के निम्नलिखित छन्द में शङ्का का बड़ा सुन्दर उदाहरण मिलता है ।

मोहि लखि सेवत विथोरिगो सु बैनी बनी,
तोरिगो हिये को हार छोरिगो सुगैया के ।
कहै 'पदमाकर' त्यों घोरिगो बनेरो दुख,
बोरिगो बिसासी आज लाज ही की नैया के ।
अहित अनैसो ऐसो कौन उपहास यहै,
सोचत खरी मै परी जोवत जुन्हैया के ।
बूझैंगे चबैया तब कै हों कहा दैया इत—
पारिगो के मैया मेरी सेज पै कन्हैया के ॥

अरी मैं तो मो रही थी, मोते ही सोते में यह क्या हो गया। ऐसा कौन सा 'बिमासी' आया जो बात की बात में यह सब कौतुक कर गया। आह ! उमने तो मेरी लाज की नैया ही डुबो दी। हाय भगवान्, अब कोई कुछ पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी, कैसे अपनी सफ़ाई दूँगी, बडे अस-मज्जम में पडी हूँ। विकट समस्या उपस्थित है। बहुतेरा सोचती हूँ, परन्तु कोई हल समझ मे नहीं आता।

उपर्युक्त छन्द में चबाव या लोकापवाद के भय से नायिका के मन में भाँति-भाँति के संकल्प विकल्प और सन्देहों का उठना ही शंका संचारी है।

देवजी ने भी इस विषय मे बहुत सुन्दर सवैया लिखा है। वे कहते हैं—

या डर हौं घर ही मे रहों कवि 'देव' दुरो नहिं दूतिनि को दुख।
काहू की बात कही न सुनी मन माहिं बिसारि दियो सिगरो सुख।
भीर मे भूले भए मखी मै जब ते जदुराई की ओर कियो रुख।
मोहि भटू तब ते निसि द्यौस चितोत ही जात चबाइन को सुख ॥

अरी, उस दिन उस भीड़ में भूल से मैं श्रीकृष्ण की ओर देख क्या उठी, मैने एक आफत सिर ले ली। क्या बताऊँ, इसी बात का सब स्त्रियाँ चारों ओर चबाव करने लगी हैं। कोई कुछ रागती है और कोई कुछ अलापती है। यदुनाथ की ओर मेरी आँखें क्या उठ गईं, मानो कुल-कानि ही नष्ट हो गई। दूतियों की दशा तो तू जानती ही है। इन्हें तो बात का बतगड़ और पर का कौआ बनाना खूब आता है। क्या करूँ, इनके डरके मारे घरमे बाहर नहीं निकलती। न किसी की सुनती हूँ, न अपनी कहती हूँ। किसी से मिलना-जुलना ही नहीं होता। सारा सुख नष्ट हो गया है।

यहाँ भी दूतियों की दुर्नीति-जन्य लोक-निन्दा के भय से हृदय में तरह-तरह की भावोद्भावनाएँ होना शंका संचारी है।

इस विषय में संस्कृत का भी एक उदाहरण आगे दिया जाता है।

प्राणेशेन प्रहित नखरेष्वंगकेषु क्षपान्ते,
जातातङ्का रचयति चिर चन्दनालेपनानि ।
धत्तं लान्नाममकृदधरे दत्त दन्तावघाते,
क्षामाङ्गीय चकितमभितश्चक्षुषी विक्षिपन्ती ॥

रति की समाप्त पर प्रातः काल शैया से उठने ही, बेचारी नायिका अपने शरीर पर प्रयत्नपूर्वक रूप से नखरेषु और अघर बिम्ब पर बने दन्त-क्षत देखकर तिलमिला उठती है। वह सोचती है कि कहीं इन विलास-चिन्हों से कामक्रीड़ा की सारी कलई न खुल जाय, अतः चारों ओर चकित चक्षुषी से देखती हुई, नख-क्षत के स्थान पर चन्दन पोतती और ओष्ठों पर अकित दन्तक्षता पर लान्नाराग (आधुनिक युग का 'लिपस्टिक') लगाती है।

असूया

ईर्ष्या या औद्धत्य के कारण किसी की गुणगणना एवं समृद्धि को सहन न कर, उसकी निन्दा करना अथवा उसे हानि पहुँचाने की चेष्टा करना असूया कहाता है।

दोष-कथन, अवज्ञा भृकुटी भग, तिरस्कार, क्रोध आदि इसके अनुभाव हैं।

पद्माकरजी ने असूया का लक्षण निम्न लिखे प्रकार किया है।

महि न सकै सुख और को यहै असूया जान ।

क्रोध, गर्व, दुख दुष्टता ये स्वभाव अनुमान ॥

महाकवि देव के मत में असूया का लक्षण इस प्रकार है—

क्रोध, कुबोध, विरोध ते सहै न पर अधिकार ।

उपजै जहँ जिय दुष्टता सु असूया अवधार ॥

पद्माकर तथा देव ने क्रोध, कुबोध, विरोध गर्व, दुष्टता आदि से असूया की उत्पत्ति मानी है, परन्तु ईर्ष्या और औद्धत्य में इन सब बातों का समावेश हो जाता है, अतएव इनको अलग गिनाने की आवश्यकता

प्रतीत नहीं होती । ईर्ष्यालु लोग अपनी ईर्ष्या के कारण न जाने क्या-क्या उपद्रव कर डालते हैं । उनमें बोध और प्रेम का तो लेश भी नहीं रहता । संसार का इतिहास साक्षा है कि ईर्ष्या-राक्षसी के कारण बड़े बड़े भयङ्कर अनर्थ हो गए । दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आज भी घर-घर में ईर्ष्या का आधिपत्य स्थापित है । भाई भाई ईर्ष्यालुता की अग्नि में भस्मीभूत हो रहे हैं । सारी जन-समुदाय ईर्ष्या के कारण वैर-विरोध का केन्द्र बना हुआ है । कहीं भी शान्ति दिखाई नहीं देती । देश की दुर्गति का मुख्य कारण ईर्ष्या ही है । जहाँ कोई किसी का उत्कर्ष देख ही न सके, वहाँ का क्या कहना ।

देखिए, असूया के उदाहरण में नीचे लिखा सवैया कितना उत्कृष्ट है ।

क्यों घनश्याम इती दुचिती नक मो तन दीठि करो सुखदाई ।

कज गुलाबहु की अरुणाई लै लाल गुलालहुते सरसाई ।

नैनन पै अति घोर बनो घनि है रंगरेजिनि की चतुराई ।

साँची कहौ इन आँखिन की तुम दीनी कहा नन्दलाल रँगाई ॥

सपत्नी के यहाँ रात्रि-जागरण के कारण नायक की लाल हुई आँखें देखकर नायिका पूछती है—क्यों, इधर-उधर क्या ताकते हो, ज़रा मेरी ओर तो देखो, नेक आँखें तो मिलाओ । आज तुम्हारी आँखें तो इतनी लाल हो रही हैं कि उन्होंने कंज, गुलाब और गुलाल को भी मात कर दिया है । अजी वह कौन चतुर रंगरेजिन मिल गई, जिसने तुम्हारी आँखों को इतना रंग दे दिया । ठीक-ठीक बताओ, आँखों की इस रँगाई के लिए तुम्हें क्या देना पड़ा है ।

रति-सूचक चिन्हों को देखकर नायिका नायक के सपत्नी के यहाँ जाने की बात ताड़ गई । भला उसे नायक का सौत के यहाँ जाना कैसे सह्य हो सकता था । अतएव उसने उसे मीठी चुटकी लेकर डाट बता ही तो दी, और जता दिया कि मैं तुम्हारी उनींदी लाल आँखें देखकर सारा रहस्य समझ गई हूँ ।

यहाँ नायिका को नायक का सपत्नी के घर जाना सहन न होना ही असूया है ।

जैसे को तैसा मिलै तबही जुरत सनेह ।

ज्यों त्रिभंग तन श्याम को कुटिल कूबरी देह ॥

×

×

×

ऊधो जी सहि जात नहिं हम सों अति उपहास ।

जाकी हम दासी सबै सो दासी को दास ॥

उपर्युक्त दोनों दोहे असूया के कैसे सुन्दर उदाहरण हैं । जब जैसे को तैसा मिल जाता है, तभी सच्चा प्रेम स्थापित होता है । जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रजी त्रिभंगी अर्थात् तीन जगह से झुके हुए हैं, उसी प्रकार उनकी प्रेयसी कुब्जा का शरीर भी टेढ़ामेढ़ा है । खूब जुगल जोड़ी बनी है ।

दूसरे दोहे में भी गोपियाँ ऊधो को उलाहना देती हुई कहती हैं—
उद्धवजी, हम सब जिन कृष्णचन्द्र की दासी हैं, वे ही कृष्ण प्रेमासक्ति के कारण कंस की दासी कुब्जा के दास बने हुए हैं । हमसे इस प्रकार का अपमान नहीं सहा जाता ।

उक्त दोहों में ईर्ष्या के कारण कृष्ण और कुब्जा का प्रेम सहन न कर गोपियों ने बड़ी वाक्चातुरी से कुब्जा की निन्दा की है । यही असूया संचारी है ।

पद्माकरजी का भी असूया विषयक निम्नलिखित उदाहरण पढ़ने लायक है—

आवत उसासी दुख लागे और हॉसी सुन,

दासी उर लाय कहो को नहीं दहा कियो ।

कहै 'पदमाकर' हमारे जान ऊधौ उन,

तात को न मात को न भ्रात को कहा कियो ।

कूबरी ककालिनी कलंकिनी कुरूप तैसी

चेटकनि चेरी ताके चिच को चहा कियो ।

(३५४)

राधिका की कहवत कहि दीजो मोहन सों,
रसिक शिरोमणि कहाय धौं कहा कियो ॥

×

×

×

एक श्लोक में असूया का उदाहरण निम्न लिखे प्रकार दिया गया है ।

अथ तत्र पाण्डु-तनयेन
सदसि विहित मधुद्विषः ।
मानमसहत न चेदिपति
पर वृद्धि मत्सरि मनोहि मानिनाम ॥

पाण्डु-पुत्र युधिष्ठिर ने, परम प्रतापशाली आनन्द कन्द भगवान् कृष्ण-चन्द्र के प्रचण्ड प्रताप की प्रशंसा करते हुए, उनका सर्व-प्रथम पूजन किया। तो यह बात दुरभिमानी शिशुपाल को सख्य न हुई। वह अपनी ईर्ष्यालुतापूर्णा मनोवृत्ति के कारण भरी सभा में श्रीकृष्ण के प्रति अनर्गल और अपमानजनक बातें बकने लगा। उस समय उसने अपने दूषित व्यवहार से—“ कुटिल स्वभाव नीच करतूती, देखि न सकहि पराह बिभूती ” इस लोकोक्ति को अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया। वास्तव में दुरभिमानी लोग अपनी अधमता और कुटिलता के कारण दूसरों की समृद्धि नहीं देख सकते।

मद

बेहोशी और हर्षाधिक्य सहित क्षोभयुक्त अवस्था का नाम मद है। इसकी उत्पत्ति मादक द्रव्यों के सेवन से होती है। रूप, यौवन, प्रभुता या धन का गर्व भी आदमी को मदमत्त कर देता है।

प्रलाप, ऊटपटांग व्यवहार, हँसना, बड़बड़ाना, रोने लगना आदि इसके लक्षण हैं।

नाटयशास्त्रकार के मत में मद्य पान करने से मद की उत्पत्ति होती है। उन्होंने मद के तीन भेद माने हैं—तृण, मध्यम और अधम। उनकी

सम्मति में मद के अनुभाव गाना, रोना, हँसना, कठोर शब्द बोलना, सेना इत्यादि हैं। उत्तम प्रकृति का व्यक्ति मद मत्त होकर सेता है, मध्यम प्रकृति का हँसता और गाता है, एवं अधम प्रकृति का कठोर वाणी बोलता तथा रोता है।

उत्तम प्रकृति व्यक्ति तरुण मद की अवस्था में मन्द-मन्द मुस्कराता है। यदि गाता है, तो ठीक ढग से। उसका मन हर्षित होता है। वह कभी कभी बड़ी अटपटी बात कह जाता है। उसकी प्रकृति सुकुमार और चाल उतावली हो जाती है।

मध्यम प्रकृति व्यक्ति मध्य मद की दशा में लडखड़ाता हुआ चलता है। उसके नेत्र रक्त होकर मिचने लगते हैं और हाथ शिथिल हो जाते हैं।

अधम प्रकृति व्यक्ति अधम मद के कारण क्रै करता है, उसे बार-बार हिचकियाँ और उबकाइयाँ आती हैं, उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है जीभ पर काँटे से जम जाते हैं। वह बार-बार थूकता और मुँह में से कफ निकाल कर घृणित चेष्टा करता है।

मद के उदाहरण में नीचे लिखा दोहा कितना सुन्दर है।

छुकि रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गन्ध ।
ठौर-ठौर भोरत भूपत भौर भौर मधु अन्ध ॥

उपर्युक्त दोहे में, पुष्प-रस के मद से मतवाले हुए भौरों के भुण्ड का भौरना-भूपना आदि मद सचारी है।

और भी देखिये—

घन मद यौवन मद महा प्रभुता को मद पाय ।
तापर मद को मद जिन्हें को तिन सकै सिखाय ॥

जो लोग घन, यौवन और प्रभुता के मद में मत्त हो रहे हैं, वे यदि शराब के नशे में भी चूर हो जायें, तब तो गिलोय के नीम पर चढ़ जाने की उक्ति ही चरितार्थ हो जाती है। ऐसे मदमत्तों को समझा-बुझा कर

दुराचारों से बचाने की किसमें शक्ति है। मद—चाहे वह किसी प्रकार का क्यों न हो—बड़े-बड़े अत्याचारों का कारण हुआ है। इसके द्वारा जितने भयंकर अत्याचार हुए और हो रहे हैं, वे किससे छिपे हैं। नरसंहारकारक महायुद्धों की जड़ में मद का पूर्ण प्रभाव होता है। मदोन्मत्तता में विवेक का नष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है। जब बुद्धि की विमलता ही नष्ट हो गई तब शेष ही क्या रहा ?

पद्माकरजी की नीचे लिखी मद विषयक उक्ति पढ़ने लायक है, देखिए—

पुस निसा में सुवारुणी लै बनि बैठे दुहूँ मद के मतवाले ।
 त्यौँ 'पदमाकर' भूमै भुक्कै घन घूमि रचै रस रग रसाले ।
 सीत को जीति अभीत भए सु गने न सखी कछु साल दुसाले ।
 छ्वाकि छका छबि ही को पिये मद नैनन के किये प्रेम के प्याले ॥

अब तक तो लोग मदिरा-पान को ही जानते थे, परन्तु पद्माकर ने नेत्रों के प्यालों द्वारा रूप-सुधा-पान करा दिया, जिसका नशा साधारण मद से बहुत बढ-चढ़ कर होता है।

कविवर बैनी की भी इस विषय की नीचे लिखे उक्ति बड़ी सुन्दर है।

तैसो लसै रंग ईगुर सो अंग तैसी दोऊ अखियो रतनारी ।
 तैसे पके कुंदुरु सम ओठ उरोज दोऊ उमंगे छबि न्यारी ।
 तैसे ही चञ्चल 'बैनी प्रवीन' तू अञ्चल दै वृषभानु दुलारी ।
 जोबन रूप की माती सदा मधुपान किये ते भई अति प्यारी ॥

बैनी कवि ने यौवन और रूप की मदमाती नायिका को मद के प्याले पिलाकर और भी अधिक उन्मत्त कर दिया। एक और एक ग्यारह हो गए, मादकता में चार चोद लग गए।

×

×

×

आगे लिखे श्लोक में मद संचारी का उदाहरण देते हुए मदमाती रमणियों की चहल-पहल का कैसा स्वाभाविक वर्णन किया गया है।
 देखिए—

प्रातिभं त्रिसरकेण गताना, वक्र वाक्य रचना रमणीयः ।

गूढ सूचित रहस्य सहासः, सुभ्रुवां प्रवृत्ते परिहासः ॥

शराब के दौर पर दौर चलने लगे, शिथिलता-जन्य जड़ता का नाश हुआ, तरुणियों के शरीर और मन पर शराब की शरारत दिखाई देने लगी, मद-मत्तता का साम्राज्य स्थापित हो गया । फिर क्या था, प्रसुप्त प्रतिभा में स्फुरणा पैदा हुई, नौक-भोंक और छेड़-छाड़ से हँसी का फव्वारा फूट निकला । इस प्रकार इशारे ही इशारों में न जाने कितने गूढ़ रहस्य खुल गए ।

श्रम

अधिक या शीघ्रता पूर्वक कार्य करने, लम्बा रास्ता तय करने एवं व्यायाम अथवा रति-कर्म से जो थकावट आती, या सन्तोष सहित अनिच्छा होती है, उसे श्रम कहते हैं ।

सोम फूलना, नींद आना, पसीना निकलना, अंगों में शिथिलता होना आदि श्रम के अनुभाव हैं ।

महाकवि पद्माकर और देव ने श्रम के लक्षण क्रमशः इस प्रकार किए हैं—

अति रति अति गति ते जहाँ सु अति खेद सरसाय ।

सो स्रम तहाँ सुभाइये स्वेद उसास मनाय ॥

×

×

×

अति रति अति गति ते जहाँ उपजै अति तन खेद ।

सो स्रम तामें जानिए निरसहता अरु स्वेद ॥

उपर्युक्त दोनों महाकवियों के लक्षणों और हमारे लक्षण में जो थोड़ा अन्तर है, वह स्पष्ट है ।

श्रम के उदाहरण में निम्नलिखित सवैया पढ़िये—

पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर हिये मग में डग द्वै ।

भलकी भरि भाल कनी जल की पट सुखि गये अघराघर वै ।

फिर श्रुति है चलिबोब कितो पिय पर्णाकुटी करिहौ कित है ।
तिय की लखि आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चलीं जल चवै ॥

सीताजी वन को जा रही हैं । अभी पुर से निकल कर कुछ ही क्रम चली होंगी, कि उनके माथे पर पसीना झलकने लगा और ओठों पर कुछ खुरकी-सी आ गई । वह बड़े भोले भाव से रामचन्द्रजी से पूछने लगीं— प्राणनाथ, अभी कितना और चलना है, कहाँ कुटी बनाइयेगा ? मार्ग-श्रम से थकी हुई जनकनन्दिनी की ऐसी बातें सुनकर रामचन्द्रजी की आँखों से जल-धारा बहने लगी ।

श्रम के उदाहरण में द्विजदेवजी का नीचे लिखा छन्द भी बहुत अच्छा है—

सीस फूल सरकि सुहावने ललाट लाग्यो,
लम्बी लटें लटकि परी हैं कटि छाम पर ।

‘ द्विजदेव ’ त्यों ही कछु हुलसि हिये तें हेलि,

फैलि गयो राग मुख पकज ललाम पर ।

स्वेदसीकरनि सराबोर है सुरंग नीर,

लाल दुति दै रही सु हीरनि के दाम पर ।

केलि रस साने दोऊ थकित बिकाने तऊ,

हाँ की हेति कुमक सु ना की धूमधाम पर ।

ऊपर के छन्द में रति जन्य श्रम से हुई थकावट का कैसा स्वाभाविक वर्णन है । बेश-विन्यास का अस्तव्यस्त हो जाना, लम्बी लटों का क्षीण कटि पर बढेगे तौर से इधर-उधर फहराते फिरना, पसीना से सारा शरीर सराबोर होकर उससे वस्त्र भीग जाना आदि वर्णन श्रम संचारी है ।

महाकवि पद्माकर का श्रम सम्बन्धी उदाहरण बड़े मार्के का है, उसे भी देखिए—

कै रति रग थकी थिरू है परियंक पै प्यारी परी सुख पाय कै ।

त्यों ‘पदमाकर’ स्वेद के बुन्द रहे मुकुताहल से तन छाय कै ।

विन्दु रचे मेंहदी के लसैं कर तापर यों रक्षौ आनन आय कै ।
इन्दु मनो अरविन्द पै राजत इन्द्रवधून के वृन्द विछाय कै ॥

उपर्युक्त सवैया मे रति-रंग से थककर, पर्यङ्क पर पड़ी हुई नायिका का वर्णन है । सारे शरीर पर पसीने की बूँदे मातियों की तरह झिलमिला रही हैं । नायिका ने मेहदी की टिकुलियों से रचे हुए हाथ पर अपना मुँह रख लिया है । पद्माकरजी कहते हैं, उस समय ऐसा मालूम होता है, मानो मुखरूपी चन्द्रमा मेंहदी की बूदों रूप इन्द्रवधूटियों के वृन्द कर रूपी कमल पर विछाकर विराजमान हो रहा है । 'इन्दु मनो अरविन्द पै राजत इन्द्रवधून के वृन्द विछाय कै' कैसी अद्भुत सूझ और कितनी विचित्र कल्पना है । इसने सवैये में जान डाल दी है ।

निम्नलिखित श्लोक में श्रम का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया गया है, मुलाहिजा कीजिए—

सद्यः पुरी परिसरे च शिरीषमृद्धी,
गत्वा जवात्रिचतुराणि पदानि सीता ।
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्ब्रुवाणा,
रामाश्रुण कृतवती प्रथमावतारम् ॥

इसका हिन्दी पद्यात्मक अनुवाद (घर ते निकसी रघुबीर बधू) पीछे दिया जा चुका है ।

आलस्य

अधिक जागने, अधिक काम करने, भूख, प्यास, खेद, व्याधि, निराशा, तृप्ति, अथवा समर्थ होते हुए भी अकर्मण्यताजनित निरुत्साह के कारण शरीर में जो शिथिलता आती है, उसे आलस्य कहते हैं । गर्भावस्था अथवा वियोगावस्था में भी आलस्य की अनुभूति होती है ।

सोते, पड़े या बैठे रहना, जँभाई अथवा अँगड़ाइयाँ लेना आदि इसके लक्षण हैं ।

पद्माकरजी ने नीचे लिखे कवित्त में आलस्य का कैसा सुन्दर चित्र खींचा है, जो देखते ही बनता है—

गोकुल में गोपिन गोविन्द संग खेली फाग—

राति भर प्रात समै ऐसी छवि छलकै ।

देहँ भरी आलस कपोल रस रोरी भरे,

नीद भरे नयन कछुक भपै भलकै ।

लाली भरे अधर बहाली भरे मुख बर,

कवि 'पदमाकर' बिलोकै कोन सलकै ।

भाग भरे लाल औ' सुहाग भरे सब अग,

पीक भरी पलकै अबीर भरी अलकै ॥

गोकुल में गोविन्द ने गोपियों के साथ खूब होली खेली, बड़ी 'धमा-चौकड़ी' रही। होली के हुरदग से हुरिहारियाँ इतनी थक गईं कि सब पर आलस्य ने अड्डा जमा लिया। ऊँचा नौंदा का बोल बाला होने लगा। गोपियों की उन अँगड़ाइयों और आँखों की झपाझपी में भी अद्भुत छवि दिखाई देती थी। उनका अलसाया हुआ शरीर भी बड़ा सुन्दर प्रतीत होता था।

महाकवि देव की भी आलस्य विषयक निम्नलिखित उक्ति पढने लायक है।

ऊधौ आए ऊधौ आए हरि के सँदेसो लाए,

सुनि गोपी-गोप घाए धीर न धरत हैं ।

बौरी सम दौरीं उठि भौरी लौं^१ भ्रमति मति,

गनति न जानो गुरु लोगन दुरत हैं ।

है गई बिकल बाल बालम बियोग भरी,

जोग की सुनत बात गात ज्यौं जरत हैं ।

१—'पौरी बौं' पाठ भी मिलता है।

भारे भए भूषन सँभारे न परत अंग,
आगे के घरत पाँव पाछे को परत हैं ॥

ऊधौजी के आते ही गोपियाँ उनसे हरि-श्रीकृष्णजी का सँदेसा सुनने के लिए बड़ी विकलतापूर्वक दौड़ीं। उस समय वे इतनी पागल होगईं, कि उन्हें अपने बड़े-बूढ़ों का भी ध्यान न रहा। परन्तु जब उन्हें उद्धवजी से 'जोग साधने' का सँदेसा मिला, तो उसे सुनकर वे ऐसी उत्साहहीन हो गईं मानो काला साँप सूँघ गया हो। फिर तो भूषणों की कौन कहै, उन्हें अपना शरीर सँभालना भी मुश्किल होगया। घर वापस आने में भी कठिनाई प्रतीत होने लगी। वे आगे चलना चाहती हैं, परन्तु पैर पीछे को पड़ते हैं। यहाँ पर खेद एव निराशा-जन्य आलस्य संचारी हैं।

आलस्य संचारी के उदाहरण में नीचे लिखे कुछ दोहे भी पढ़ने लायक हैं।

निशि जागी लागी हिये प्रीति उमंगत प्रात ।

उठि न सकत आलस बलित सहज सलौने गात ॥

× × ×

पिय सों कथा बिदेस की सुनत जगी सब रात ।

अब कछु अधिक न कहि सको फिरि करिहौँ सखि बात ॥

× × ×

नीठि नीठि उठि बैठि हूँ प्यौ प्यारी परभात ।

दोऊ नींद भरे खरें गरें लागि गिरि जात ॥

× × ×

संस्कृत के नीचे लिखे पद्य में आलस्य संचारी का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया गया है, देखिए—

न तथा भूपयत्यङ्ग न तथा भाषते सखीम् ।

जृम्भते मुहुरासीना बाला गर्भ-भरालसा ॥

गर्भिणी बाला गर्भ-भारजनित आलस्य के कारण इतनी शिथिल हो गई है, कि जहाँ बैठ जाती है, वहाँ से उठने को उसका जो ही नहीं चाहता । और तो और पहले की तरह न तो वह नयनाभिराम वस्त्राभूषणों द्वारा अपने अंग को अलंकृत करती है और न उसे सखियों में बैठकर हास-विलास करना ही सुहाता है । जहाँ जम गई वहाँ बैठी-बैठी जँनाइयों और अँगड़ाइयों लेती रहती है ।

दीनता (दैन्य)

संकटपूर्ण परिस्थिति अथवा इष्ट-हानि या अनिष्ट की प्राप्ति के कारण दुःख होने या मन से ओजस्विता नष्ट हो जाने को दीनता कहते हैं ।

चाटुकारिता आत्मसम्मान हीनता, साहस की कमी, मलिनता आदि इसके लक्षण हैं ।

महाकवि देव ने दीनता संचारी का कैसा अच्छा उदाहरण दिया है—

रैन दिन नैन दोऊ मास ऋतु पावस के,
बरसत बड़े-बड़े बूँदन सों भरि ये ।
मैन सर जोर मोर पवन भ्रुकोरन सों,
आई है उर्मोगि छिति छाती निरभरि ये ।
टूटी नेह नाव छूटो स्याम सों सनेह गुनु,
ताते कवि देव कहै कैसे धीर धरि ये ।
विरह नदी अपार बूड़ति हौँ मँभुधार,
ऊधौ अब एक बार फेरि पार करिये ॥

अपार विरह-नदी के प्रबल प्रवाह में टूटी नेह-नाव को बूड़ने से बचाने के लिए, विरह-विधुरा गोपियाँ ऊधौजी की मिन्नत-खुशामद कर रही हैं ।
“ऊधौजी जैसे बने वैसे एक बार हमारी नेह-नाव को खेकर पार कर दीजिये, बड़ा उपकार होगा ।”

इस विषय में पद्माकरजी की उक्ति भी बड़ी सुन्दर है। देखिए—
कै गिनती सी इती बिनती दिन तीनक लौं बहु बार सुनाई ।
त्यौं पदमाकर' मोह मया करि तोहि दया न दुखीन की आई ।
मेरो हराहर हार भयो अब ताहि उतारि उन्हें न दिखाई ।
ल्याई न तू कबहूँ बनमाल गोपाल की वा पहरी पहिराई ॥

अरी सखी, तुझ से बार-बार मैंने बिनती की है, कि मुझे नई माला नहीं चाहिये. मुझे तो तू गोपाल की पहनी-पहनाई माला लादे। वही मेरे गले की शोभा बढ़ावेगी, उसी से मैं कृतार्थ हो जाऊँगी। मेरे कहीं भाग्य जो गोपाल के गले में पड़ी-पड़ाई माला मुझे पहनने को मिले।

दीनता के सम्बन्ध में नीचे लिखा पद्य भी बहुत ही सुन्दर है—

झूब रही नैया भँकधर में खिवैया बिन,
छाये घटाटोप घन संकट निबारोगे ।
भारी भारी भ्रमर बने हैं क्रूर काल कुण्ड,
मारक बिदारक तरगन ते तारोगे ।
भँभ्रा के भँक्रे भँक्रे भँक्रे रहे बार बार,
बैरी जल जन्तुन के बदन बिदारोगे ।
हाथ मैं अनाथ हाथ कौन को गहूँ हे नाथ,
तुम ही हो साथ नाथ तुम ही उबारोगे ॥

आर्त भक्त की कैसी कष्ट पुकार है। वह व्यथाओं से व्याकुल होकर सीधा भगवान् के दरबार में विनय करता है—“दीनबन्धो मुझे चारों ओर से संकटों ने घेर लिया है, मुक्ति का कोई उपाय नहीं सूझता। आप अनार्थों के नाथ हैं, मैं आपकी शरण में आ पड़ा हूँ, मेरा उद्धार कीजिये।”

कविवर नरोत्तमदास ने भी दीनता का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है। वे सुदामा की स्त्री के मुख से निर्धनता का वर्णन कराते हुए कहते हैं—

कोदों सर्वाँ जुरतो भरि पेट न चाहति हौं दधि दूध मिठौती ।
 सीत बितौतत जो सिसियात तो हौं हठती पै तुम्हें न हठौती ।
 जौ जनती न हितू हरि सो तो मैं काहे को द्वारिकै पैलि पठौती ।
 या घर ते कबहू न गयो पिय दूटो तयौ अरु फूटी कठौती ॥

पतिदेव, मुझे दही-दूध और मिठाई नहीं चाहिए, पर पेट भरने के लिए कुछ दाने तो दरकार होंगे ही; परन्तु हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। सारे भाँट-भटके रीते पड़े हैं। अगर विना चिथड़ों के सिरसिराते हुए भी शीत व्यतीत हो जाता, तब भी मैं कुछ न कहती, परन्तु दुरन्त पूरा उदर-दरी भरने के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए ही। इसीलिए तुम से द्वारका जाने को हठ कर रही हूँ। अच्छा है, तुम्हारे सखा (श्रीकृष्ण) हमारा दुःख दूर कर दें।

दीनता सचारी के सम्बन्ध में नीचे लिखे दोहे भी द्रष्टव्य हैं—

मुख मलीन तन छीन छवि परी सेज पर दीन ।
 लेत क्यों न सुधि साँवरे नेही निपट नवीन ॥

× × ×

जब ते 'पदुमन' प्रभु गए ब्रज तजि यदुकुल माहिं ।
 सारी ब्रजनारी मलिन सारी पलटे नाहिं ॥

× × ×

एक और भी दोहा देखिए—

अब न धीर धारत बनत सुरत विसारी कन्त ।

पिक पापी पीकन लगे बगर्यौ बाग बसन्त ॥

उपर्युक्त दोहे में पति द्वारा विस्मृत होने पर, नायिका को जो निराशा-जन्य दुःसह दुःख हुआ है, वही दीनता सचारी है।

महाकवि 'शंकर' का दीनता विषयक आगे लिखा उदाहरण कैसा अच्छा है—

कर क्रोप जरा मन मार चुकी बलहीन सरोग कलेवर है ।
परिवार घना, घन पास नहीं भुजभङ्ग दरिद्र-भरा घर है ।
सब ठौर न आदर मान मिले मिलता अपमान-अनादर है ।
मुझ दीन अकिञ्चन की सुधि ले सुख दे प्रभुत् यदि शंकर है ॥

×

×

×

निम्नलिखित श्लोक में दीनता का चित्र कैसे करण शब्दों में खींचा गया है, देखिए—

वृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चक गतः स्थूणावशेषं गृहं,
कालोऽभ्यर्णं जलागम कुशलिनी वत्सस्य वार्त्ताऽपि नो ।
यत्नात् सञ्चित तैलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला,
दृष्ट्वा गर्भभरालसा निजवधू श्वश्रू चिरं रोदिति ॥

नेत्रान्ध वृद्ध पति टूटी खाट पर पड़ा है, छप्पर का फूस उड़ गया है, केवल उसकी थुनकिया अटकनी हुई है। बरसात सिर पर आ रही है, पुत्र परदेश में पड़ा है, उसकी कुशल तक नहीं मिली। जिस हड़िया में थोड़ा-सा तेल जोड़-जँगोड़ कर रक्खा था, वह भी फूट गई। न खाने का दान है, न ठहरने को ठिकाना। हा ! आज मेह में भीगते हुए विना दीपक के अंधेरी रात कैसे कटेगी, फिर आसन्नप्रसवा पुत्रवधू को देखकर तो मेरे सन्ताप की सीमा ही नहीं रहती। उसके जापे का कोई प्रबन्ध ही नहीं। यह कह कर दुखिया रोती और बिलखती है।

उपर्युक्त श्लोक के भाव को कविवर सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने निम्नलिखित पद्य में बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया है—

कल्लु शेष रह्यौ घर मे न परच्यौ पति खाट पै वृद्ध है अन्ध भयो ।
सुत को नहिं हाल मिल्यौ तब सो जब सो वह हाय विदेस गयो ।
अट्टु पावस बासन हू गयो फूटि जु तेल परौसिन पास लयो ।
लखि आरत गभिखी पुत्र वधू दुख सो भरि सासु के आयो हियो ।

चिन्ता

इष्ट^१ की अप्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति के कारण उत्पन्न विचार को चिन्ता कहते हैं ।

शून्यता उद्विग्नता, उन्निद्रता, सन्ताप, क्लेशता, श्वास, वैवर्ण्य, ताप आदि इसके लक्षण हैं ।

देवजी का चिन्ता संचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य कितना सुन्दर है ।

जानति नाहिं हरै हरि कौन के ऐसी धौं कौन बधू मन भावै ।
मोही सों रुठि कै बैठि रहे किधौं कोऊ कहुँ कछू सोध न पावै ।
बैसिय भाँति भद्र कबहुँ अब क्यों हूँ मिलै कहुँ कोऊ मिलावै ।
आँसुनि मोचति सोचति यों सिगरे दिन कामिनि काग उड़ावै ॥

किसी सखी की उक्ति है, कि हरि मुझमे ही रुठ गए हैं, या उन्हें अब कोई भी स्त्री नहीं भाती । अथवा उन्होंने किसी अन्य स्त्री से प्रेम कर लिया है । मैं तो यही चाहती हूँ कि वह किसी तरह मुझसे मिल जायँ, इसी विचार से मैं आँखों मे आँसू बहाती हुई सारे दिन काग उड़ाती रहती हूँ । अर्थात् उनके शुभागमन का शकुन देखा करती हूँ ।

चिन्ता संचारी का दूसरा उदाहरण भी देखिए—

भोर ही भुखात है हैं, कन्द मूल खात है हैं,
दुति कुम्हिलात है हैं मुख जलजात को ।
प्यादे पग जात है हैं मग मुरभात है हैं,
थकि जैहैं धाम लागे स्याम क्लस गात को ।
पण्डित 'प्रवीन' कहे, धर्म के धुरीन ऐसे,
मन में न राख्यौ पीन प्रन राख्यौ तात को ।

१—इष्ट पद से साधारणतः जीवन, धन, यश, शरीर, पुत्र, कलत्रादि का ग्रहण होता है ।

मातु कहें कोमल कुमार सुकुमार मोरे—

छौना है हैं सोवत बिलौना करि पात को ॥

माता कौशल्या वनवासी राम के कष्टों का विचार करती हुई कहती हैं. थकामोदा, भूखा-प्यासा मेरा छौना वन में कहीं पत्तों के बिलौने पर पड़ा होगा। यहाँ कौशल्याजी रामचन्द्रजी को इष्ट (आवश्यक) वस्तुएँ न मिलने के कारण जो विचार कर रही हैं वही चिन्ता सचारी है।

चिन्ता सचारी के उदाहरण में महाकवि पद्माकरजी का नीचे लिखा कवित्त कितना सुन्दर है, देखिए—

भिलत भुकोर रहै जोवन को जोर रहै,

समद मरोर रहै सोर रहै तब सों।

कहै 'पदमाकर' तकैयन के गेह रहै,

नेह रहै नैनन न मेह रहै दब सों।

बाजत सुबैन रहै, उनमद मैन रहै,

चित्त में न चैन रहै चातकी के रब सों।

गेह में न नाथ रहै द्वारे ब्रजनाथ रहै,

कौ लौं मन हाथ रहै साथ रहै सब सों ॥

इस उठली हुई जवानी में इतनी सुहावनी ऋतु और उस पर उन्मत्त बना देने वाली पपोहा की पिउ पिउ पुकार तथा वशी की सुमधुर ध्वनि ही चित्त को चञ्चल कर देने के लिए काफी थे; परन्तु अब घर में प्राणनाथ की अनुपस्थिति और मनमोहन का प्रातक्षण्य द्वार के सामने का रहना ये तो और भी गजब दा रहे हैं। भगवान् ही जाने ऐसी विषम अवस्था में कब तक मन को काबू में रख सकेंगी।

संस्कृत साहित्य में चिन्ता का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है।

कमलेन विकसितेन च,

सयोजयन्ती विरोधिनिं शशिनम्,

करतल पर्यस्त मुखी,

किं चिन्तयसि सुमुखि! अन्तराहित हृदया ?

हे सखि, कर कमल पर तैने अपना मुखचन्द्र रख कर महान् आश्चर्य-जनक कार्य किया है। विकसित कमल से चन्द्रबिम्ब का संयोग कराकर सचमुच तैने अनहोनी बात कर दिखाई। भला कभी कलाधर और उत्फुल्ल कमल का भी साथ हुआ है ! अग्नि में से भी वारि-धाराएँ छूटी हैं ! अग्नी बताती क्यों नहीं। इस प्रकार हथेली पर मुँह रख कर तू मन ही मन क्या सोच रही है।

मुखचन्द्र का कर-कमल से संयोग कराना कैसी सुन्दर सूझ है। मालूम होता है, इसी भाव को लेकर पद्माकरजी ने “ चन्द्र मनो अरविन्द पे राजत इन्द्रबधून के बृन्द बिछाय कै ” लिखा है। इस कल्पना के लिए कवियों की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

मोह

भय, दुःख, भ्रम, स्मृति, विस्मय, प्रिय-वियोग, शत्रु के प्रतीकार में असमर्थता, अत्यन्त चिन्ता, अत्यन्त आनन्द, दैवोपघात आदि कारणों से उत्पन्न हुई चित्त की विकलता, भ्रान्ति या साधारण संज्ञाहीनता को मोह कहते हैं।

मूर्छा अज्ञान, भूमि-पतन, चक्कर आना, वस्तु या वस्तुस्थिति को ठीक-ठीक न पहचान सकना आदि इसके लक्षण हैं।

रसतरंगिणीकार ने ‘ मुह वैचित्ये ’ धातु से मोह की व्युत्पत्ति होने के कारण मोह का अर्थ कार्याकार्य का अविवेक किया है।

मोह संचारी के उदाहरण में निम्नलिखित सबैया कैसा सुन्दर है।

दूलाह श्री रघुवीर बने दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं ।
गावति गीत सबै मिलि सुन्दरि बेद जुवा जुरि विप्र पढाहीं ।
राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाहीं ।
याते सबै मुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाहीं ॥

सीताजी अपने कंकण के नग में राम की परछाईं (प्रतिबिम्ब) देख कर आनन्दातिरेक के कारण सब सुध बुध भूल गईं । वह हाथ को जहाँ का तहाँ रखे हुए हैं ।

यहाँ पर आनन्द के कारण सुध-बुध भूल जाना ही मोह संचारी है ।

मोह के उदाहरण में पद्माकरजी का निम्नलिखित पद्य बड़े मार्के का है—

दोउन को सुधि है न कछू बुधि वाही बलाई मे बूड़ी बही है ।

त्यौं 'पदमाकर' दीन मिलाय क्यों चंग चवाइन को उमही है ।

आजुहि की वा दिखा दिख मे दसा दोउन की नहि जात कही है ।

मोहन मोहि रख्यो कब को कब की वह मोहिनी मोहि रही है ॥

उपर्युक्त सवैया में कृष्ण राधिका पर और राधिका कृष्ण पर मोहित हैं । दोनों को अपने तन-बदन की भी सुधि नहीं है । एक ही बार की देखा-देखी में दोनों की जो दशा होगई है, वह वर्णन नहीं की जा सकती । राधाकृष्ण का इस प्रकार परस्पर मोहित होना ही मोह संचारी है ।

महाकवि देव की भी मोह संचारी विषयक निम्नलिखित उक्ति कैसी सुन्दर है—

औरी कहा कोऊ बाल बधू है नयो तन जीवन तोहि जनायो ।

तेरेई नैन बड़े ब्रज में जिन सों बस कीनो जसोमति जायो ।

डोलतु है मनो मोल लियो कवि 'देव' न बोलत बोल बुलायो ।

मोहन को मन मानिक सौ गुन सों गुहि तैं उर सों उरभायो ॥

अरी बाल बधू, तेरे विशाल नेत्रों में ऐसा जादू है, कि उसके कारण यशोदा-नन्दन कृष्ण तेरे हाथ बिक-सा गया है । अब तो वह बुलाने से बोलता भी नहीं है । सचमुच तैने सबको मोहने वाले मोहन का 'मन-मानिक' गुनों की डोरी मे गुहकर अपने हृदय से उलझा लिया है ।

×

×

×

आगे लिखे श्लोक में मोह का उदाहरण कैसा सुन्दर है—

तीव्राभिषङ्ग प्रभवेण वृत्ति,
मोहेन सस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् ।
अज्ञात भर्तृव्यसना मुहूर्त्तं,
कृत्वापकारेव रतिर्बभूव ॥

भगवान् शङ्कर द्वारा अपने पति कामदेव को भस्म हुआ देख, रति शोक से मूर्छित हो गई, आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियों ने अपना व्यापार बन्द कर दिया । इस अचेतना—मूर्च्छा के कारण रति क्षण भर के लिए पति-वियोग रूपी वज्रपात को भूल गई । मानो उस घोर संकटापन्न अवस्था में मूर्च्छा ने थोड़ी देर के लिए आकर उसका दुःख बटा लिया जिसके लिए वह कृतज्ञता प्रकट करने लगी ।

दुःसह दुःख को भुलाने के लिए मूर्च्छा की सहायिका के रूप में कल्पना कैसी सुन्दर और अलौकिक है । शोकाकुल रति मूर्च्छा के कारण ही अपनी वियोग-वेदना को भूल गई ।

स्मृति

सहस्र वस्तु या विषय के अवलोकन अथवा चिन्तन आदि से जो पूर्वानुभूत स्मरण हो आता है उसे स्मृति कहते हैं । सुख और दुःख दोनों की मधुर या अमधुर स्मृति का होना स्वाभाविक है ।

माथा सिकोड़ना, भौहें चढ़ाना, सिर हिलाना आदि इसके लक्षण हैं ।

कविवर आलमजी ने स्मृति के उदाहरण में नीचे लिखा सवैया दिया है—

जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल काँकरी बैठि चुन्यौ करें ।

जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यौ करे ।

‘आलम’ जौन से कुञ्जन में करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यौ करे ।

नैनन मे जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यौ करें ॥

कविवर आलम ने स्मृति का कैसा अच्छा शब्दचित्र खींचा है । आनन्दपूर्ण विहार, प्रेम मय सलाप और कुञ्जों तथा केलियों की याद कर

के सिर धुनना कैसा स्वाभाविक है। किसी समय जिस प्यारे की मञ्जु मूर्ति आँखों के सामने छम-छम नृत्य करती रहती थी, आज उसकी कहानी मात्र सुनकर ही सन्तोष करना पड़ता है।

महाकवि सूरदास की भी इस विषय की उक्ति बड़ी सुन्दर है—वे कहते हैं—

बिन गुपाल बैरिनि भई कुञ्जे ।

तव जे लता लगति अति सीतल, अब भई बिसम ज्वाल की जूजे ।

वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलि गुञ्जे ।

पवन पानि घनसार सजीवनि दधिसुत किरन भानु भइ भुञ्जे ।

ए ऊधौ कहियो माधव सों विरह करद कर मारत गुञ्जे ।

‘सूरदास’ प्रभु को मग जोवत अँखियाँ अरुन भई ज्यों गुञ्जे ।

गोपाल के बिना कुञ्जों की कैसी दशा हो गई। जो लताएँ, गोपाल की मौजूदगी में शान्ति और शीतलता का केन्द्र बनी हुई थीं, अब उनसे असह्य आग की लपटे निकल रही हैं। कृष्ण के बिना अब न यमुना-जल में वह आकर्षण है, और न पक्षियों के कलरव में आनन्द। और तो और सुधाकर (दधिसुत) की किरणों भी अब सूर्य रश्मियों की तरह भस्म कर डालने वाली बन गईं। श्रीकृष्णजी की प्रतीक्षा करते-करते आँखें लाल हो गई हैं। वे आवे तो सब बातें फिर ज्यों की त्यों हो जायँ।

अब इस विषय में महाकवि केशव की उक्ति भी पढ़ लीजिए।

‘केसव’ एक समै हरि राधिका आसन एक लसेँ रंग भीने ।

आनन्द सों तिय आनन की दुति देखत दर्पन त्यों डग दीने ।

भाल के लाल में बाल बिलोकति ही भरि लालन लोचन लीने ।

सासन पीय सबासन सीय हुतासन में जनु आसन कीने ॥

एक दिन राधा-कृष्ण दोनों एक आसन पर बैठ कर दर्पण में मुँह देखने लगे। राधिकाजी के चूड़ामणि में जड़े लाल में उन्हीं का (राधिका का) प्रतिबिम्ब दिखाई दिया। उस समय, उन्हीं सीताजी की अग्नि-परीक्षा

की याद आ गई । लाल में अपनी परछाईं देखकर राधिका को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सबस्त्रा सीता अपने पति के आदेश से अग्नि-परीक्षा के समय अग्नि में आसन जमाए बैठी हैं ।

कविरत्न सत्यनारायणजी का निम्नलिखित पद्य भी स्मृति का बड़ा सुन्दर उदाहरण है—

वह दीखत चीकनी चोखी सिला कदली टुम सों चहुँ ओरन छाई ।
सिय संग जहाँ तुम सेवत है बतरात बिनोद भरे सुख पाई ।
अरु बैठि तिन्हें तृन नूतन दै तुम प्यारी चरावति घासु सुहाई ।
अब लों मृग वे चहुँ घेरे रहे कहुँ अन्त न बैठत ताहि बिहाई ॥

×

×

×

इस सम्बन्ध में 'शम्भु' नामक कवि का निम्नलिखित सवैया भी कैसा अच्छा है—

बालम के बिल्लुरे बढी बाल के ब्याकुलता बिरहा दुख दान ते ।
चौपरि आनि रची नृपशभु सहेलिनी साहबिनी सुख दान ते ।
तू जुग फूटै न मेरी भद्र यह काहू कही सखियों सखियों ते ।
कञ्ज से पानि तँ पासे गिरे अँसुआ गिरे खञ्जन सी अँखियान ते ॥

चौपड़ खेलते-खेलते किसी सखी के संकेत से विरहिणी को अपने पति का स्मरण हो आया । फिर क्या था, हाथ से पासे छूट पड़े, आँखों से आँसुओं की झड़ी लग गई और सारा खेल खतम हो गया ।

स्मृति सञ्चारी के उदाहरण में नीचे लिखे दोहे भी बड़े मार्के के हैं—

सघन कुंज छाया सुखद सीतल मन्द समीर ।
मन हूँ जात अजौ बहै वा जमुना के तीर ॥

×

×

×

निकसत ही पट नील ते तेरे तन की जोति ।
चपला अरु घनस्थास की हिये आनि मुधि होति ॥

नाट्यशास्त्रकार ने विज्ञान शास्त्र, विभव, पवित्रता, आचार, गुरु-भक्ति, अर्थ-लाभ क्रीड़ा आदि विभावों से धृति की उत्पत्ति मानी है।

धृति संचारी के उदाहरण में ठाकुर कवि का नीचे लिखा सवैया दिया जाता है।

जबते दरसे मनमोहनजू तब तेँ आँखियाँ ये लगीं सो लगीं ।
कुल कानि गई सखि वाही घड़ी जब प्रेम के फन्द पगीं सो पगीं ।
कवि 'ठाकुर' नैन के नेजन की उर में अनि अनि खगीं सो खगीं ।
तुम गोवरे नाँवरे कोऊ घोरो, हम साँवरे रंग रँगीं सो रँगीं ॥

मनमोहन के दर्शन से हम पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा है। अब तो हम हर समय उन्हीं के प्रेम-पाश में फँसी रहती हैं। उन्हीं के नयनों के नेत्रों की अनी हमारे हृदयों में चुभी हुई है। कोई हमारे कैसे ही नाम रखे, कितनी ही निन्दा क्यों न करे, पर हम तो साँवरे-सलौने कन्हैयाजी के रंग में रँग गईं सो रँग गईं, अब क्या कोई दूसरी बात हो सकती है।

यहाँ साँवरे के रंग में रँगी रहने की अविचल बुद्धि ही धृति संचारी है।

इसी सम्बन्ध में पद्माकरजी का सवैया भी सुनिए—

रे मन साहसी साहस राखु सु साहस ते सब जेर फिरेंगे ।
ज्यों 'पदमाकर' या सुख में दुख त्यों दुख में सुख सेर फिरेंगे ।
वैसे ही बेगु बजावत स्याम सुनाय हमारहु टेर फिरेंगे ।
एक दिना नहिँ एक दिना कब हूँ फिर वे दिन फेर फिरेंगे ॥

उपर्युक्त पद्य में भी बड़ी समझदारी और साहस के साथ विना किसी घबराहट या विचलित भावना के अच्छे दिन फिर फिरने की आशा प्रकट की गई है।

धृति के उदाहरण में महाकवि देव का निम्नलिखित सवैया कैसा सुन्दर है।

रावरो रूप रख्यो भरि नैननि बैनन के रस सों श्रुति सानों ।
गात मे देखत गात तुम्हारेई बात तुम्हारी ये बात बखानों ।
ऊधौ हहा हरि सों कहियो तुम हौ न यहाँ यह हौ नहिं मानों ।
या तन ते बिछुरे तो कहा मनते अनतै जु बसो तब जानों ॥

देवजी का भाव स्पष्ट है । वे कहते हैं कि ऊधौजी श्री कृष्णजी से कह देना कि तुम यहाँ नहीं हो, यह बात हम नहीं मानते । शरीर से हमें छोड़कर चले गए हो तो क्या है, हमारे मन मन्दिर से कहीं चले जाओ तब जाने ।

युद्ध में धृति का उदाहरण देखिये—

चले चन्द्रवान घनवान औ कुहुकवान,
चलत कमाने आसमाने भूमि छवै रख्यौ ।
चली जम दाढे तरवारे चलीं बाढे चलीं,
ग्रीसम के तरनि तमामे आनि वै रख्यौ ।
ऐसे राव युद्ध के मुकन्द ने चलाए हाथ,
अरिन के चले पाय भारत बितै रख्यौ ।
हय चले हाथी चले संग छोड साथी चले,
ऐसी चलाचली में अचल हाड़ा है रख्यौ ॥

युद्ध में हय हाथी और साथी सब के पैर उखड़ गए, सब साथ छोड़-छोड़कर चल दिये, परन्तु ऐसी चलाचली की हालत में भी साहसी हाड़ा बराबर अचल रूप से अड़ा रहा । ऐसी अवस्था में यह अचलता ही धृति संचारी है ।

अब इस सम्बन्ध में संस्कृत का उदाहरण भी देख लीजिए—

कृत्वा दीन निपीडना निजजने बद्ध्वा वचो विग्रह,
नैवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकीर्यातना ।
द्रव्यौघाः परि सञ्चिता. खलु मया यस्याः कृते साम्प्रतं,
नीवाराह्मलिनाऽपि केवलमहो ! ज्ञेयं कृतार्था तनुः ॥

संसार से विरक्त हुआ कोई व्यक्ति अपने पिछले कर्मों की आलोचना करता हुआ कहता है, जिस पापी पेट के लिए मैंने गुरीबों का गला काटा, मित्र-मिलापियों से भ्रगड़े टटे किये, पाप की कमाई करने में कड़ी से कड़ी यम-यातना का भी भय नहीं किया, आज उसकी तृप्ति सुट्टी-भर समा के चावलों से हो रही है ।

ब्रीडा

निकृष्ट आचार-व्यवहार स्तुति, प्रतिज्ञा भंग, पराभव, गुरुजनों की मान-मर्यादा अथवा कामादि से हृदय में जो संकोच होता है, उसे ब्रीडा कहते हैं ।

भ्रंपना, सिर नीचा कर लेना, भूमि पर लकीरें काटना, कपड़े का कोना पकड़ कर उसे घेठना आदि इसके लक्षण हैं ।

गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने परम प्रसिद्ध ग्रन्थ रामचरित-मानस में ब्रीडा का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है । देखिये—

गुरु जन लाज समाज बड़ि देखि सीय सकुचानि ।
लगी विलोकन सखिन तन रघुवीरहि उर आनि ॥

गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी ।

प्रकट न लाज निशा अवलोकी ॥

× × ×

कोटि मनोज लजावन हारे ।

सुमुखि कहहु के आहि तुम्हारे ।

सुनि सनेहमय मंजुल वानी ।

सकुचि सीय मन महुँ सुसकानी ॥

तिनहि विलोकि विलोकति धरनी ।

दुहुँ सकोच सकुचति वर वरनी ॥

सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी ।
बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥
सहज सुभाय सहज तन गोरे ।
नाम लषन लघु देवर मोरे ॥
बहुरि बदन विधु अंचल ढाँकी ।
पिय तन चितै भोह करि बाँकी ॥
खंजन मजु तिरिछे नैनन ।
निज पति कहेउ तिन्हें सिय सैनन ॥

× × ×

सीताजी ने लक्ष्मणजी के सम्बन्ध में तो साफ-साफ़ बता दिया कि ये मेरे छोटे देवर हैं । परन्तु जब रामचन्द्रजी के बताने का अवसर आया तो उन्होंने लज्जावश अँचल से मुँह ढाँक लिया, और वह तिरछी चितवन करके उनकी ओर ताकने लगीं । इस प्रकार आँखों की इस मूक भाषा ने पूछने वालों को साफ-साफ़ बता दिया, कि रामचन्द्रजी सीताजी के पतिदेव हैं ।

ब्रीडा के उदाहरण में एक सवैया और भी देखिये—

मोहन आपुनो राधिका को विपरीत को चित्र विचित्र बनाइ कै ।
दीठि बचाय सलौनी की आरसी पै चिपकाय गयो बहराइ कै ।
धूमि घरीक मे आइ कह्यो कहा वैठी कपोल में बिन्दु लगाइ कै ।
दर्पन त्यों तिय चाह्यो नहीं मुसकाइ रही मुख मोरि लजाइ कै ॥
अर्थ स्पष्ट ही है ।

ब्रीडा विषयक कविवर मतिराम तथा महाकवि बिहारी के निम्नलिखित दोहे भी पठनीय हैं ।

ज्यों-ज्यों परमे लाल तन त्यों त्यों राखे गोय ।
नवल बधू ही लाज तें इन्द्रबधूटी होय ॥

× × . . ×

लाज लगाम न मानही नैना मो बस नाहिं ।
ए मुँह जोर तुरंग लों ऐचत हू चलि जाहि ॥

(बिहारी)

उपर्युक्त दोनों दोहे ब्रीड़ा संचारी के सजीव उदाहरण हैं ।

ब्रीड़ा के उदाहरण में संस्कृत का निम्नाङ्कित श्लोक कितना सुन्दर है ।

कुच कलश युगान्तर्भासकीन नखाङ्क ,

सपुलक तनु मंद मन्दमालोकमाना ।

विनिहित वदनं मा वीक्ष्य बाला गवाक्षे,

चकित नत नताङ्गी सद्य सद्यो विवेश ॥

सखे, प्रिया के स्तनों पर जो मेरा नखनूत बन गया था, उसे वह एकान्त स्थान में खड़ी बड़ी पुलकित होकर छिपे-छिपे देख रही थी । परन्तु ज्यों ही उसने झरोखे में होकर मुझे अपनी ओर भ्रूँकते देखा, त्यों ही आश्चर्यचकित और लज्जित हो सिमट कर भीतर घर में जा घुसी ।

ब्रीड़ा का कितना सुन्दर और स्वाभाविक उदाहरण है । यहाँ नायिका को एकान्त में नख-चिन्हित स्तनों को निहारते समय अचानक नायक का दृष्टि पड़ जाना विभाव, तथा उसका सिमट सिकुड़कर घर के भीतर घुस जाना अनुभाव एवं ब्रीड़ा संचारी भाव है ।

चपलता

ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता एवं अत्यन्त अनुराग के कारण उत्पन्न हुई अस्थिरता या अव्यवस्थापूर्वक कार्य करने को चपलता कहते हैं । किसी किमी ने शीघ्रतापूर्वक एक के बाद एक क्रिया करने को चपलता कहा है ।

दूसरों को घमकाना, कठोर शब्द कहना उच्छृंखल आचरण आदि इसके लक्षण हैं ।

पद्माकरजी का आगे लिखा सवैया चपलता का अच्छा उदाहरण है—

कौतुक एक लख्यौ हरि ह्याँ पदमाकर' यों तुम्हें जाहिर की मैं ।
कोऊ बड़े घर की ठकुराइनि ठाड़ी निघाति रहै छिन की मैं ।
भाँकति है कबहुँ भ्रूभरीन भ्रूखनि त्यों सिर की सिर की मैं ।
भाँकति ही खिरकी मे फिरै थिरकी थिरकी खिरकी खिरकी मैं ॥

अत्यन्त अनुराग के कारण ठकुराइनि का भ्रूभरी-भ्रूखों मे भाँकना
और 'खिरकी खिरकी मे थिरकी फिरना' चपलता संचारी है ।

चपलता संचारी के सम्बन्ध में वैनी कवि का नीचे लिखा कवित्त भी
देखिये—

कहुँ दौरि पौरि कहुँ खोरि में अटा मे कहुँ,
बीजुरी छटाकी अदभुत गति काढी है ।

कहुँ लीन्है दधि म'घ गोकुल बिलोकियत,
कहुँ मधुवन में फिरत मानों डाढी है ।

स्याम के बिलोकिवे को व्याकुल 'प्रवीन वैनी'

थिर न रहति गेह यों सनेह बाढी है ।

जमुना के तट बसी बट के निकट कहुँ,

भ्रूटपट लीन्हें घट पनघट ठाढी है ॥

उपर्युक्त छन्द मे भी किसी ब्रजाङ्गना की प्रेमातिरेकजन्य अस्थिरता का
वर्णन है, अतएव वह चपलता संचारी है ।

निम्नलिखित दोहे भी चपलता के बड़े सुन्दर उदाहरण हैं—

छिन बैठे छिन उठि चलै छिन छिन ठाड़ी होय ।

घायल सी घूमति फिरै मरम न जानै कोय ॥

× × ×
उतते इत इतते उतहि छिनक न कहुँ ठहराति ।

जकन परति चकरी भई फिरि आवति फिरि जाति ॥

× × ×
चकरी लौँ सकरी गलिनु छिन आवति छिन जाति ।

परी प्रेम के फन्द में बधू • बितावति राति ॥

परम प्रेम मन पुलक सरीरा ।
चाहत उठन करत मर्त धीरा ॥
जाकर नाम सुनत सुभ होई ।
मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥
परमानन्द पूर मन राजा ।
कहा बुलाइ बजावहु बाजा ॥

उपर्युक्त चौपाइयों में राम-जन्मोत्सव का वर्णन है, अतः वह हर्ष संचारी है ।

भक्त शिरोमणि मीराबाई हर्षातिरेक से आनन्द-विह्वल हो गा उठती हैं—

पायो जी मैंने नाम रत्न धन पायो ।
बस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु किरपा करि अपनायो ।
जनम जनम की पूँजी पाई जग में सभी खोवायो ।
खरचै नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो ।
सत की नाव खेवरिया सतगुरु भवसागर तर आयो ।
'मीरा' के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो ॥

मैंने तो राम रत्न धन पालिया, मेरे सतगुरु ने कृपाकर मुझे अमूल्य बस्तु प्रदान कर दी। मुझे तो अब ऐसी पूँजी मिल गई, जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। मैं इससे कुतार्थ हो गई, कृतकृत्य हो गई ।

महाकवि देव की भी हर्ष सम्बन्धी उक्त सुनिये—

बैठी ही सुन्दरी मन्दिर मे पति को पथ पेखि पतिव्रत पोखे ।
तौ लागि 'आयेरी' आय कछौ दुरि द्वार ते देवर दौरे अनोखे ।
आनन्द में गुरु की गुस्ताउ गनी गुन गौरि न काहु के ओखे ।
नूपुर पाई उठे भ्रनकाइ सुजाइ लगी धन धाम भरोखे ॥

नायिका परदेश से अपने पति के आने का समाचार सुनकर आनन्द से उछल पड़ती है। उस समय उसे बड़े बूढ़ों का भी कुछ ख्याल नहीं

रहता । वह नायक को देखने के लिए बिल्लुत्रो को भनकाती हुई, झरोखों में झँकती फिरती है ।

× × ×
निम्नलिखित दोहे भी हर्ष के उत्कृष्ट उदाहरण हैं ।

मृगनयनी दृग की फरक उर उछाह तन फूल ।

बिन ही पिय आगम उमगि पलटन लगी दुकूल ॥

× × ×
तुमहि बिलोकि बिलोकि ये हुत्तसि रछौ यों गात ।

आगी में न समात उर उरमें मुद न समात ॥

× × ×
उदित उदयगिरि मच्च पर रघुवर बाल पतग ।

बिकसे सन्त सरोज उर हरषे लोचन भृङ्ग ॥

अब इस विषय में संस्कृत कवि की सूक्त देखिए, वह क्या कहता है—

समीक्ष्य पुत्रस्य चिरात् पिता मुख,

निघान कुम्भस्य यथैव दुर्गतः ।

मुदा शरीरे प्रबभूव नात्मनः,

पथोधिरिन्दूदय मूर्च्छतो यथा ॥

जिस प्रकार कोई कंगाल पुरखाओं की गड़ी हुई घरोहर पाकर खुशी से फूल उठता है, उसी प्रकार राजा दिलीप को बुढापे में पुत्र रत्न लाभ कर प्रसन्नता हुई । जिस तरह शान्त समुद्र चन्द्रोदय देखकर आपे मे नहीं रहता, उसी तरह राजा दिलीप के हर्ष का पारावार न रहा ।

आवेग

सहसा इष्ट वा अनिष्ट की प्राप्ति अथवा अत्यन्त हर्ष, विषाद, भय, स्नेह या उत्थान के कारण आतुर या व्याकुल होने को आवेग कहते हैं ।

शारीरिक शिथिलता, व्याकुलता, विस्मय कम्प, स्तम्भ, शोक आदि इसके लक्षण हैं । इष्टजन्य आवेग में हर्ष और अनिष्टजन्य में विषाद होता है ।

नाट्यशास्त्रकार ने उत्पात, पवन, वृष्टि अग्नि, हाथी के छूट भागने, प्रिय अप्रिय श्रवण और व्यसन आदि विभावों से उत्पन्न होने के कारण आवेग आठ प्रकार का माना है । साहित्यदर्पणकार ने भी इसके कई भेद किये हैं ।

आवेग के उदाहरण में पद्माकरजी का निम्नलिखित कवित्त देखिये ।

आई सग आलिन के ननद पठाई नीठि,
सोहति सुहाई सीस ईडुरी सु पट की ।
कहै 'पदमाकर' गंभीर जमुना के तीर,
लागी घट भरन नवेली नेह अटकी ।
ताही समै मोहन सु बाँसुरी बजाई ताते,
मधुर मलार गाई ओर बसीवट की ।
तान लगे लटकी रही न सुधि घूँघट की,
घाट की न औषट की बाट की न घट की ॥

यमुना पर पानी भरती हुई गोपिका को, मोहन की बाँसुरी की सुरीली तान या मधुर मलार की मोहक ध्वनि ने मुग्ध कर दिया । वह आनन्दातिरेक के कारण सब सुध-बुध भूल गई । उसे घाट, औषट, बाट, घट, घूँघट किसी की कुछ खबर न रही । यहाँ अत्यन्त प्रसन्नता के कारण व्याकुल हो जाना ही आवेग संचारी है ।

देव ने भी निम्नलिखित सवैया में आवेग का चित्र बड़े कौशल के साथ अंकित किया है । देखिए—

देखन दौरी सबै ब्रज बाल सु आए गुपाल सुने ब्रज भूपर ।
टूटत हार हिये न सम्हारती छूटत बार न किंकिणि नूपुर ।
भार उरोज नितम्बन को न सहै कटि औलटिवो दग दूपर ।
'देव' सु दै पथ आई मनो चाडि धाई मनोरथ के रथ ऊपर ॥

आवेग के उदाहरण में पद्माकरजी का नीचे लिखा कवित्त भी बड़ा सुन्दर है । इसमें माता यशोदा गोवर्द्धन-धारण के समय अपने पुत्र श्रीकृष्ण की अनिष्ट आशंका से व्याकुल होकर कहती हैं—

× × ×
कहत सप्रेम नाइ महि माथा ।
भरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा ।
कहुँ पट कहुँ निषंग धनु-तीरा ॥

यहाँ प्रेम से अधीर होकर धनुषवाण आदि की मुध-बुध भूल जाना
आवेग सञ्चारी है । और भी देखिये—

सुनत श्रवण वारिधि बन्धाना ।
दशमुख बोलि उठा अकुलाना ॥

बाँधेउ जल निधि नीर निधि जलधि सिन्धु वारीश ।
सत्य तोयनिधि कपती उदधि पयोधि नदीश ॥

उपर्युक्त पंक्तियों में सेतु बन्ध का समाचार सुनकर रावण के हृदय में
सहसा व्याकुलता उत्पन्न हो जाना आवेग सञ्चारी है ।

× × × ×
अब इस विषय में किमी संस्कृत कवि की भी विचार-बानगी देखिए—

अर्धमर्धमति वादिन नृपं,
सोऽनवेद्य भरताग्रजो यतः ।
क्षत्र केप दहनाक्षिष ततः,
सन्दधे दृशमुदग्रतारकाम् ॥

परशुरामजी के आने पर राजा दशरथ ने उनके स्वागतार्थ शीघ्रता-
पूर्वक अर्घ्य लाने को कहा, परन्तु परशुराम ने उधर तनक भी ध्यान न
देकर समीप बैठे श्री रामचन्द्रजी पर क्षत्रिय-विध्वंसकारिणी केपाग्नि से
प्रज्वलित अपनी अत्यन्त उग्र दृष्टि डाली, जिसे देख राजा दशरथ को
घोर व्याकुलता हुई ।

जड़ता

इष्ट तथा अनिष्ट के दर्शन और श्रवण से सहसा उत्पन्न चेष्टा और
शून्य चित्तवृत्ति को जड़ता कहते हैं । • •

टकटकी लगा कर देखते रहना, चुप हो जाना, शिथिल हो जाना आदि इसके लक्षण हैं ।

रसतरंगिणीकार के मत में सब व्यवहारों में असमर्थता बोध का नाम जड़ता है ।

जड़ता के उदाहरण में पद्माकरजी का कवित्त पढिये—

आजु बरसाने की नबेली अलबेली बधु,
मोहन बिलोकिवे के लाज काज लै रही ।
छुज्जा छुज्जा भ्रोकती भरोखनि भरोखनि है,
चित्रमारी चित्रसारी चन्द्र सम च्वै रही ।
कहै 'पदमाकर' त्यों निकस्यौ गोविन्द ताहि,
जहाँ तहाँ इक टक ताकि घरी द्वै रही ।
छुजावारी छुकी सी भरोखावारी उभकी सी,
चित्र कैसी लिखी चित्रसारी वारी है रही ॥

यहाँ गोविन्द के दर्शन से नबेली अलबेली बधुओं का शिथिल होकर चित्रलिखित-सा हो जाना, जड़ता सचारी है ।

कविवर द्विजदेवजी का निम्नलिखित पद्य भी जड़ता के उदाहरण में बिलकुल 'फ्रिट' बैठता है । देखिये—

परम परब पाय न्हाय जमुना के तीर,
पूरि कै प्रवाह अग राग कै अग रतैं ।
'द्विज देव' की सों द्विजराज अजली के काज,
जौ लो चहे पानिप उठाये कक्ष कर तैं ।
तौ लो बन जाय मनमोहन मिलापी कहूँ,
फूँक सी चलाई फूँके बॉसुरी अधर तैं ।
स्वासा कठी ना सा तैं न बासा तैं भुजाएँ कहीं,
अञ्जलीन अञ्जली ते आखरौ न गर तैं ॥

उपर्युक्त पद्य मे बोंसुरी की आवाज़ के कारण ब्रजाङ्गना का शिथिल हो जाना जड़ता सञ्चारी है ।

गोस्वामी तुलसीदासजी ने जड़ता का कैसा सुन्दर वर्णन किया है, इमे भी पढ़ लीजिए—

जाइ समीप राम छवि देखी ।
रहि जनि कुँवरि चित्र अवरेशी ॥
चतुर सखी लखि कहा बुझाई ।
पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥
सुनत जुगल कर माल उठाई ।
प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥

उपर्युक्त चौगाइयो मे प्रेमातिरेक से शिथिल होकर माला का न पहना सकना जड़ता संचारी है ।

देव कवि ने भी निम्नलिखित सवैया मे जड़ता का बड़ा सुन्दर चित्र अंकित किया है—

कालिन्दी तट काल्हि भट्ट कहँु है गई दोउन भेटें भली सी ।
ठौर ही ठाढ़े चितौत इतौत न नैकऊ एक टकी टहली सी ।
'देव' को देखती देवता सी वृषभान लली न हली न चली सी ।
नन्द के छोहरा की छवि सों छिनु एक रही छवि छैल छली सी ॥

उपर्युक्त सवैया में नन्द के 'छोहरा' की छवि की ओर वृषभानु लली का अविचलित भाव से टकटकी लगाकर देखते रहना जड़ता संचारी है ।

इस विषय के निम्नलिखित दोहे भी बहुत सुन्दर हैं—

बाट चलत ननदी कह्यौ कहाँ गिरी तुब माल ।
दिये ओर तकि चकित है थकित है रही बाल ॥

× × × ×
हले दुहँ न चलें दुहँ दुहन विसरिगे गोह ।
इक टक दुहन दुहँ लखें अटक अट पटे नेह ॥

नीचे लिखे श्लोक का भी मुलाहिजा फरमाइये कैसा अच्छा है—

केवलं तद्युव युगलमन्योऽन्य निहित सजल मन्थर दृष्टि,
आलेख्यापितमिव क्षण मात्र तत्र सस्थितं मुक्त सङ्गम् ।

उस समय प्रेमियो की वह युगल जोड़ी एक दूसरे की ओर सजल नेत्रों ५ टकटकी लगा कर देखती रही ।

गर्व

विद्या, रूप, धन बल, यौवन, ऐश्वर्य आदि गुणों के सम्बन्ध में अपने आपको औरों की अपेक्षा बड़ा समझने का नाम गर्व है ।

विभ्रम सहित ओठ-अँगूठा दिखाना, अविनय ईर्ष्या, अवज्ञा, अपने शौर्य की प्रशंसा, मिथ्या हँसना, कठोर वाणी बोलना, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन या तिरस्कार करना, दूसरों को तुच्छ समझना आदि इसके लक्षण हैं ।

ग^१ संचारी के सम्बन्ध में महाकवि केशवदास का उदाहरण देखिये—

भौर ज्यौ भ्रमत भूत, वासुकी गनेस जूथ,
मानो मकरन्द बुन्द माल गगाजल की ।
उडत पराग पट नाल सी विसाल बाहु,
कहा कहौ 'केसोदास' सोभा पल-पल की ।
आयुध सघन सर्वमगला समेत सर्व,
पर्वत उठाय गति कीन्ही है कमल की ।
जानत सकल लोक लोकपाल दिक्पाल,
जानत न बान बात मेरे बाहुबल की ॥

उपर्युक्त कवित्त में रावण का कैलास-पर्वत कमल की तरह उठा कर अपने बाहुबल की प्रशंसा करना गर्व संचारी है । इस छन्द में महाकवि केशव ने सुन्दर रूपक द्वारा कैलास पर्वत को कमल बना दिया है । इस कैलास रूपी कमल में शंकर के गण भूत आदिक भौरों के समान, और

पुण्य सलिला जन्हवी का प्रवाह ही मकरन्द-धारा है । नीचे रावण के विशाल बाहु ही मानो कैलास-कमल की डडी (नाल) है ।

शङ्करजी की भी गर्व विषयक उक्ति बड़ी सुन्दर है, देखिए—

सास ने बुलाई घर बाहर की आईं सु-
 लुगाइन की भीर मेरो घूँघट उघारै लगी ।
 एक तिन मे की तिन तोरि तोरि डारै लगी,
 दूसरी सराई राई नौन की उतारै लगी ।
 'शंकर' जिठानी बार-बार कछु बारै लगी,
 मोद मढी ननदी अटोक टौना टारै लगी ।
 आली पर साँपिनि सी सौति फुसकारै लगी,
 हेरि मुख हाकर निसाकर निहारै लगी ॥

नैनदी, जिठानी आदि ने तो मेरा मुँह देखकर प्रसन्नता प्रकट की और नज़र लग जाने के डर में उन्होंने टौना-टनमन के उपचार आरम्भ कर दिये, परन्तु सौत ढंडो साँस लेती हुई, चन्द्रमा की ओर देखने लगी । अर्थात् जैसा चन्द्रमा था, वैसा ही नायिका का मुखमण्डल था । यह बात सौत को इतनी बुरी लगी कि वह उस पर साँपिन की तरह फुसकारने लगी । यह रूग्णविता नायिका की उक्ति है । इसमें उसने व्यञ्जना से अपने सौन्दर्य का प्रशंसा की है, अतएव यहाँ गर्व संञ्चारी है ।

रामचरित-मानस का निम्नलिखित पक्तियों भी देखिए, गर्व के उदाहरण में कैसी फिट बैठती हैं ।

जनि जल्पसि जइ जन्तु कपि शठ बिलोकु मम बाहु ।
 लोकपाल बल विपुल शशि असन हेतु सब राहु ॥
 × × ×
 कुम्भकरन से बन्धु मम सुत प्रसिद्ध सकारि ।
 मोर पराक्रम सुनेसि नहि जितेउ चराचर भारि ॥
 × × • ×

भुज बल भूमि भूय त्रिन कीन्ही ।

विपुल बार महिदेवन दीन्ही ॥

सहसबाहु भुज छेदन हारा ।

परसु बिलोकि महीप कुमारा ॥

मातु पितहि जनि सोच बस करसि महीपकिसोर ।

गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर ॥

उपर्युक्त पंक्तियों में रावण और परशुराम ने अपने-अपने बल-विक्रम की बड़ाई की है ।

नीचे देव कवि का उदाहरण देखिये—

देव सुरासुर सिद्ध बधून कौ एतो न गर्व जितो इहि ती को ।

आपने जोवन के गुन के अभिमान सबै जग जानत फीको ।

काम की ओर सकोरति नाक न लागत नाक को नायक नीको ।

गोरी गुमाननि ग्वारि गँवारि गिने नहिं रूप रती को रती को ॥

ग्वालबधू भी खूब है, अपने रूप यौवन के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं । उसे सारा संसार फीका दिखाई देता है । वह तो अपने सौन्दर्य के अभिमान में स्वर्गपति इन्द्र और कामदेव को भी धिक्कारने लगती है । रति के रूप को तो वह अपने आगे रती भर भी नहीं समझती, उसकी बिलकुल प्रशंसा नहीं करती । ऐसी गँवारिन ग्वालिन से क्या कहा जाय ।

इसी आशय का पद्माकरजी का निम्नलिखित कवित्त भी देखने योग्य है—

बानी के गुमान कल कोकिल कहानी कहा,

बानी की सुबानी जाहि आवत भनै नहीं ।

कहै 'पदमाकर' गोरई के गुमान कुच—

कुम्भन पै केसरि की कंचुकी उनै नहीं ।

रूप के गुमान तिल-उत्तमान अनै उर,

आनन निकाई पाई चन्द्र कीरनै नहीं ।

मृदुता गुमान मखतल हू न मान कछु,
गुनके गुमान गुन गौरि कौ गनै नहीं ॥

× × ×
इम विषय में संस्कृत का यह श्लोक भी बड़ा उत्कृष्ट है, देखिए—

धृतायुधो यावदहं तावदन्यै किमायुधैः ।

यद्वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत् केन साध्यताम् ॥

कर्ण क्रुद्ध होकर बड़े गर्व भरे वचनों में कहता है—अरे अश्वत्थामा, जब तक मैंने अपने हाथों में हथियार ले रखे हैं, तब तक और किसी को शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे पराक्रम से ही इष्ट-सिद्धि न हुई, तो फिर किसकी ताकत है, जो कामयाबी करके दिखा दे।

विषाद

अभिलषित कार्य की सिद्धि में निरुपाय होकर, अथवा इष्ट हानि या अनिष्ट प्राप्ति के कारण जब मनुष्य पुरुषार्थहीन हो पश्चात्ताप करता या दुखी होने लगता है, तब उस अवस्था की विषाद सज्ञा होती है।

निश्वास, मानसिक ताप, उत्साह-भंग, ध्यान मग्न बैठे रहना आदि इसके लक्षण होते हैं।

विषाद के उदाहरण में पद्माकरजी का नीचे लिखा कवित्त कितना सुन्दर है—

एकै संग धाये नन्दलाल औ गुलाल दोऊ,
दगनि गए जु भर आनन्द मठै नहीं ।
धोय धोय हारी 'पदमाकर' तिहारी सोह
अब तो उपाव कोऊ नित्त पै चढ़ै नहीं ।
कैसी करौं कहाँ जाऊ कामौं कहाँ कौन सुनै,
कोऊ तो निकासो जासो दरद बड़े नहीं ।
एरी मेरी वीर जैमे तैसे इन आखिन तैं,
कड़िगो अबीर पै अह्वीर को कठै नहीं ॥

नन्दलाल और गुलाल दोनों ने एक साथ नायिका के नयनों में प्रवेश किया, गुलाल तो धोने-धाने से ज्यों त्यों कर निकल गया, परन्तु नन्दलाल उनमें अडिग आसन जमा गए । नन्दलाल को बहुतेरा निकालना चाहा, परन्तु वह कब निकलते हैं । नायिका निरुपाय होकर बड़ी व्याकुलता से कहती है, “कैसी करों कहाँ जाऊँ कासों कहाँ कौन सुनै, कोऊ तो निकासो जासों दरद बढै नहीं” परन्तु नयनों के रास्ते घुस कर हृदय में जा बिराजने वाले नन्दलाल कहीं निकलते हैं । यहाँ नायिका का निरुपाय होकर दुखी होना विषाद सचारी है ।

अब विषाद के उदाहरण में मतिरामजी का भी एक सवैया पद लोजिए ।

ठाढ़े भए कर जोरि कै आगे अधीन है पायन सीस नवायो ।
केती करी विनती 'मतिराम' पै मै न कियो हठि तैं मन भायो ।
देखति हौ सिगरी सजनी तुम मेरो तो मान महामद छायो ।
रूठि गयो उठि प्रान पियारो कहा कहिये तुमहू न मनायो ॥

उपर्युक्त सवैया में निरुपाय जन्य दुःख या पश्चात्ताप का वर्णन होने के कारण वह विषाद सचारी है ।

गोस्वामी तुलसीदास की भी इस सम्बन्ध में कैसी सुन्दर उक्ति है, जरा मुलाहिजा फरमाइए—

सती हृदय अनुमान किय सब जानेउ सर्वज्ञ ।
कीन कपट मै शम्भु सन नारि सहज जड़ अज्ञ ॥
हृदय सोच समुझत निज करनी ।
चिन्ता अमित जाइ नहिं बरनी ॥
कृपासिन्धु शिव परम अगाधा ।
प्रकट न कहेउ मोर अपराधा ॥
शकर रुख अवलोकि भवानी ।
प्रभु मोहितजेउ हृदय अकुलानी ॥

निज अघ समुक्ति न कछु कहि जाई ।
तपै अवा इव उर अधिकारि ॥

सती ने सीता का रूप धारण कर श्रीरामचन्द्रजी को घोखा देना चाहा, परन्तु वे असली बात ताड़ गए इससे सती को बड़ी खिन्नाहट हुई । महादेव को भी सती का यह कपट व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सीता का रूप बनाने के कारण उन्हें त्याग दिया । फिर क्या था, सती न इधर की रही न उधर की, केवल पश्चात्ताप-जनित दुःख शोष रह गया । यहाँ अपना अपराध जान कर सती का मौनपूर्वक भीतर ही भीतर अवे की भाँति तपते रहना विषाद संचारी है ।

कविवर बैनी प्रवीन ने विषाद का वर्णन कैसी सुन्दर व्यञ्जना में किया है, देखिए—

बहु द्यौम त्वदेस बिताय पिया घर आवन की घरियाली भई ।
वह देस कलेस बियोग कथा सब भाखी यथा बनमाली भई ।
हंसिकै निसि 'बैनीप्रवीन' कहै जब केलि कला की उताली भई ।
तब या दिसि पूरब पूरब की लखि बैरनि सोति सी लाली भई ॥

विदेश से आए हुए प्रियतम ने सारी रात अपने यात्रा-वर्णन में ही बिता दी और जब केलि का समय आया तो उष काल होने लगा— पौ फटने लगी । उस समय पूर्व दिशा की लाली नायिका को वैरिन से भी बढ़ कर प्रतीत हुई ।

विषाद संचारी के उदाहरण में पद्माकरजी का यह दोहा कैसा सुन्दर है, देखिए—

अब न धीर धारत बनत सुरत बिसारी कन्त ।
पिक पापो कूकन लग्यो बगरथौ बधिक बमन्त ॥

दशों दिशाओं में वसन्त की वमुधा दिखाई देने लगी है । कोयल की कूक से आनन्द की मन्दाकिनी फूट निकली है, परन्तु प्राणनाथ ने ज़रा

भी सुख नहीं ली, न जाने वे क्यों भूल गए। वियोग-जनित इस दुःखद अवस्था में अब मुझ से धैर्य धारण नहीं होता।

अब संस्कृत कवि-कल्पना की ऊँची उड़ान देखिए—

एषा कुटिल धनेन सुचिकुर कलापेन तव निबद्धा वेणी ।

मम सखि ! दारयति दशत्यायस यष्टिरिव यमोरगीव हृदयम् ॥

अरी सखी, तैने आज गुजब का शृङ्गार किया है। तू तो अपने सघन एवं कुंचित केश कलाप की ऐसी कडी चोटी बंध आई है, कि वह मेरे हृदय में लोह दण्ड की तरह लगती और काली नागिन के समान डसने को जीभ लपलपाती है।

औत्सुक्य

इष्ट प्राप्ति में विलम्ब सहन न करना उत्सुकता कहाती है।

मानसिक सन्ताप, जल्दबाजी, पसीना, दीर्घ निःश्वास, नीचे मुँह करके विचार करना, चिन्ता, निद्रा, तन्द्रा, शरीर का भारीपन आदि इसके लक्षण होते हैं।

देवजी के निम्नलिखित सवैया में उत्सुकता का उदाहरण देखिए—

कैधौ हमारी ही बार बडो भयो, कै रवि को रथ ठौर ठयो है।

भोर ते भानु की ओर चितौति घरी पल ते गनते ही गयो है।

आवत छोर नहीं छिन को दिन को नहीं तीसरो जाम छयो है।

पाइये कैमे कै साँझ तुरन्त हि देखुरी द्यौम दुरन्त भयो है ॥

रात्रि आगमन की उत्सुकता में उत्कण्ठता नायिका दिन की घड़ियाँ गिन रही है। परन्तु दिन काटे नहीं कटता, उमने द्रौपदी के चीर का रूप धारण कर लिया है।

इस सम्बन्ध में पद्माकरजी का भी निम्नलिखित उदाहरण देखने लायक है—

ताकिये तितै तितै कुसुम्भ सो चुबोई परै,

प्यारी पश्वीन पाउँ धरति जितै जितै ।

कहे ' पदमाकर ' सु पौन ते उताली बन—

माली पै चली यों बाल बासर बितै बितै ।
 बारही के भारन उतारि देति आभरन,
 हीरन के हार देति हिलि न हितै हितै ।
 चाँदनी के चौसर चहुँधा चौक चाँदनी में
 चाँदनी सी आई चन्द चाँदनी चितै चितै ॥

×

×

×

उत्सुकता के उदाहरण में महाकवि हरिऔधजी की उक्ति भी बड़ी सुन्दर है ।

रस सरसाइ बरसाइ बर सुधा कव,
 मानस गगन में मयंक सम खिलि हौ ।
 कब उर माहिं जमी मादकता मैल काहिं,
 निज अनुकूलता सु छुरिका ते छिलि हौ ।
 ' हरिऔध ' कव बैनतेयता बनक लैके,
 मेरे पाप-पुंज पन्नगाधिप को गिलि हौ ।
 पलक पलक पर लालमा सतावति है,
 सौगुनी ललक भई लाल कब मिलि हौ ॥

इस पद्य में पल-पल पर लाल में मिलने की लालसा का सताना और ललक (चाह) का 'सौगुनी' हो जाना ही उत्सुकता संचारी है ।

इस प्रसंग में निम्नलिखित दोहे भी बड़े अच्छे हैं—

रहति रैन-दिन अति दुखित चित नहि पावत चैन ।
 कब मुख कमल दिखाई हौ, अमल कमल दल नैन ॥

×

×

×

काहे नाहिं कृपायतन करत कृपा की कोर ।
 लाखन अँखियाँ हैं लगीं तब अँखियन की ओर ॥

×

×

×

रामचरित मानस में, सीताजी के विरह-जन्य औत्सुक्य के उदाहरण में नीचे लिखी पंक्तियाँ कैसी रुचिर रचना हैं—

त्रिजटा सन बोली कर जोरी ।
मातु बिगति सगिनि त मोरी ॥
तजौँ देह कर बेगि उपाई ।
दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई ॥

अरी त्रिजटा, भगवान् के चरणारविन्द के दर्शनो का शीघ्र उपाय कर, नहीं तो यह शरीर छूटे विना न रहेगा ; क्योंकि अब उनकी जुदाई बिल्कुल नहीं सही जाती ।

औत्सुक्य विषयक निम्नलिखित संस्कृत का उदाहरण भी देखने योग्य है ।

निपतद्वाष्प संरोधं मुक्त चाञ्चल्य तारकम् ।
कदा नयन नीलाब्जमालोक्य मृगीदृशः ॥

मेरे घर से चलते समय प्यारी के नील कमल जैसे सुन्दर लोचनों ने, अपशकुन के भय से अश्रुपात रोकने के लिए अपनी लोल तारिकाओं को स्थिर कर लिया था, उन्हें अब मैं किस घड़ी घर पहुँच कर निहारूँ ।

उक्त पद्य में नायिका के नील कमल जैसे नयन निहारने के लिए नायक की उत्कट उत्सुकता स्पष्ट हो रही है ।

निद्रा

परिश्रम, ग्लानि, श्रान्ति, मादक द्रव्य सेवन, दुर्बलता, चिन्ता, अति आहार आदि के कारण चित्त की बाह्य विषयों से निवृत्ति की अवस्था का नाम निद्रा है ।

जम्हाई या अँगड़ाई लेना, आँखें मीचना, श्वासेच्छ्वास आदि इसके लक्षण हैं ।

रसतरंगिणीकार के मत में जब मन अन्य सब इन्द्रियों से हटकर केवल त्वगिन्द्रिय में रहता है, तब उस अवस्था की निद्रा सज्ञा होती है ।

नीचे रामचरित-मानस मे निद्रा का उदाहरण दिया जाता है :—

विविध बसन उपधान तुराई ।
 क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई ॥
 तहँ सिय राम शयन निशि करहीं ।
 निज छुबे रति मनोज मृदु हरहीं ।
 तेइ सिय राम साथरी सोये ।
 श्रमित बसन बिन जाय न जोये ॥
 मात पिता परिजन पुरवासी ।
 सखा सुशील दास अरु दासी ।
 जुगवहिं जिनहिं प्राण की नाई ।
 महि सोवत मोह राम गुसाई ॥

उपर्युक्त चौपाइयो में श्रीरामचन्द्रजी के अवध स्थित शयनागार और वस्त्राच्छादनो का उल्लेख करने हुए, वन मे विना किसी वस्त्र के 'साथरी' विछाकर भूमि पर सो रहने का वर्णन है; यही निद्रा सचारी है ।

पद्माकरजी ने पलग पर सोती हुई नायिका का कैसे सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है, देखिए—

चहचहीं चुभकें चुभी हैं चौक चुम्बन की,
 लहलही लाँबी लटै लपटी सुलंक पर ।
 कहै 'पदमाकर' मज्जानि मरगजी मंजु,
 मसकी सु आँगी है उरोजन के अंक पर ।
 सोई सरसार यो सुगन्धिनि समोई त्वेद—
 सीतल सलौने लौने बदन मयंक पर ।
 किन्नरी नरी है कै छुरी है छुविदार परी,
 दूटि सी परी है कै परी है परियक पर ॥

रति-जनित श्रम से थककर सोई हुई, नायिका का कैसा विचित्र वर्णन है । पद्माकरजी पूछते हैं कि पर्यक पर 'परी' हुई नायिका किन्नरी, नरी,

छुरी है या आसमान से परी टूट परी है। आखिर कौन बला है, जो इतनी अच्छी मालूम देती है।

कविवर पोद्दारजी ने निद्रा के उदाहरण में जो सवैया लिखा है, वह भी खूब है। उमे भी पढ लीजिए—

आयो बिदेस तें प्रान पिया अभिलाष समात नहीं तिय गात में ।
 बीति गई रतियो जगि कै रस की बतियाँ न बितीं बतरात में ।
 आनन कञ्ज पै गन्ध प्रलुब्ध लगे करिवे अलि गुंज प्रभात में ।
 ताहू पै कञ्जमुखी न जगी वह सीतल मन्द सुगन्धित बात में ॥

×

×

×

अब संस्कृत काव्य का उदाहरण मुलाहिजा हो।

सार्थकानर्थक पदं ब्रुवती मन्थराक्षरम्।

निद्रार्द्धं मीलिताक्षी सा लिखितेवास्ति मे हृदि ॥

कोई नायक अपने सखा से कहता है—निद्रा के वेग के कारण कभी वह बाला सार्थक बात कहती, कभी निरर्थक; कभी आँख मींचती, कभी खोलती। आह! उस उनीदी ललना का वह रम्य रूप अब तक मेरे हृदय-पटल पर अंकित हो रहा है।

अपस्मार

भय, दुःख, मोह, शोक आदि की अत्यधिकता के कारण उत्पन्न चित्त के विक्षेप को अपस्मार (मृगी) कहते हैं।

भूमि-पतन, प्रस्वेद, मुख से फसूकर यानी भाग डालना, काँपना, आदि इसके लक्षण हैं।

अपस्मार के उदाहरण में निम्नलिखित सवैया देखिये—

बोले बिलोकै न पीरी गईं परि आईं भले ही ये कुज मभारन ।
 ऐसी अनैसी बिलोकनि रावरी होत अचेत लगी कछू बार न ।
 फेन तजै मुखते पटकै कर जौ न कियौ जू बिथा निरवारन ।
 याहि उठाइ सबै सखियाँ ह्म जाति चलीं जसुदा पहुँ डारन ॥

बेचारी सखी भली कुजों में आई और अच्छे यशोदा-नन्दन मिले,
जिनकी एक हा नज़र से उसकी ऐसी दशा होगई। मुँह से भाग निकल
रहे हैं और बुरी तरह हाथ-पाँव पटक रही है। यशोदानन्दन, हम साफ़-
साफ़ कहे देती हैं; या तो इसकी व्यथा दूर करो, नहीं तो हम अभी इसे
इसी हालत में उठाकर तुम्हारी माँ के पास लिए जाती हैं। यहाँ मोहा-
तिरेक से सखी का अचानक मूर्च्छित हो जाना अपस्मार सचारी है।

इसी आशय का पद्माकरजी का भी सबैया बड़ा सुन्दर है।
देखिये—

जा छिन तें छिन सोंवरे रावरे लागे कटाच्छ कछू अनियारे।
त्यौं पदमाकर' ता छिन तें तिय सों अँग अग न जात सँभारे।
है हिय हायल घायल सी घन घूमि गिरी परे प्रेम तिहारे।
नैन गये फिरि फैन बहै मुख चैन रह्यौ नहिं मैन के मारे ॥

सोंवरे-सलौने श्यामसुन्दर के कटाच्छ के मारे, नायिका घायल सी
हो चकरा कर भूमि पर गिर पड़ी। आँखे फिर गईं और मुँह से भाग
गिरने लगे। भला मार की मार का कुछ ठकाना है।

अपस्मार के उदाहरण में हरिऔघजी का निम्नलिखित छन्द बड़ा
सुन्दर है।

बिधि बामता है, कै करालता कपाल की है,
किधौं पाय दव है प्रपंच पूरि दहतो।
किधौं फल अहे रुज विविध असयम को,
कै है यामे नियत रहस्य कोळ रहतो।
'हरिऔघ' कछु भेद हो तो ना तो कैसे जीव,
कर पग पटकि दुसह दुःख सहतो।
धूल में लुठत कैसे कमल मृदुल तन,
फूल जैसे आनन ते फेन कैसे बहतो ॥

इस प्रसंग में पद्माकरजी का निम्नलिखित दोहा भी पढ़ने लायक है ।

लखि बिहाल एकै कहत भइ कहूँ भय भीत ।

इकै कहत मिरगी लगी, लगी न जानत प्रीत ॥

इसी विषय में किसी संस्कृत-कवि की कल्पना का भी रसास्वादन कीजिए—

आश्लिष्ट भूमि रसितारमुञ्चै-

लोलद्भुजाकार बृहत्तरङ्गम् ।

फेनायमान पतिमापगाना

मसावपस्मारिण्यमाशशङ्के ॥

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, श्रीकृष्ण द्वारका से इन्द्रप्रस्थ चले । उस समय उन्होंने पृथिवी से अश्लिष्ट घोर शब्द करते हुए चञ्चल एव उत्ताल तरंगों से युक्त फेनायित समुद्र को देखकर कहा—ओ हो ! आज ऐसा प्रतीत होता है, मानो विशाल वारिधि मृगी रोग से मूर्च्छित हो रहा है ।

स्वप्न या सुप्ति

निद्रावस्था में किसी वस्तु का अनुभव या ज्ञान होने को स्वप्न अथवा सुप्ति कहते हैं ।

क्रोध, आवेग, भय, ग्लानि, सुख, दुःख, श्वासोच्छ्वास, प्रलय, आखे भीचना आदि इसके लक्षण हैं ।

रसतरंगिणीकार के मत में जिस अवस्था में मन त्वाग्निन्द्रिय को भी छोड़ कर 'पुरीतत' नामक नाड़ी में अवस्थान करता है, उस अवस्था की स्वप्न सज्ञा है ।

स्वप्न के उदाहरण में नीचे लिखा सवैया कैसा उत्कृष्ट है—

पौढी हुती पलिका पर मैं निति ज्ञानरुध्यान पिया मन लाए ।

लागि गई पलके पलसों पल लागत ही पल में पिय आए ।

ज्यों ही उठी उनके मिलिबे कहँ जागि परी पिय पास न पाए ।
'मीरन' और तो सोइ कै खोवत मैं सखि पीतम जागि गँवाए ॥

कवि की कैसी अद्भुत कल्पना है, कितनी विचित्र सूझ है । और नायिकाएँ तो पति को सोकर खोती हैं, परन्तु "मीरन" कवि की नायिका ने जागकर भी प्रीतम को गँवा दिया ।

'सोवे सो खोवे, जागे सो पावे' ऐसा सर्वत्र सुना जाता है, परन्तु यहाँ उलटी ही बात देखने में आई ।

इसी आशय का द्विजराजजी का सवैया भी सुनिए—

सोवत आज सखी सपने द्विजदेव जू आनि मिले बनमाली ।
जौ लौं उठी मिलिबे कहँ धाय सुहाय भुजान भुजान पै घाली ।
बोल उठे ये पपीगन तौ लागि 'पीव कहाँ' कहि कूर कुचाली ।
सम्पति सी सपने की भई मिलिबौ ब्रजराज कौ आजु कौ आली ॥

यहाँ कम्बख्त पपीहा ने 'पीउ-पीउ' का शोर मचाकर स्वप्न निम्गना नायिका को जगा दिया । फिर क्या था, आँखें खुल गईं और सपना 'सपना' होकर रह गया । 'खुल गईं आँख मेरी होगया सपना-सपना ।'

रामचरित-मानस में एक स्थान पर स्वप्न का इस प्रकार उल्लेख किया गया है ।

उहाँ राम रजनी अवशेषा ।
जागे सीय सपन अस देखा ॥
सहित समाज भरत जनु आए ।
नाथ वियोग ताप तनु ताए ॥
सकल मलिन मन दीन दुखारी ।
देखीं सास आन अनुहारी ॥
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन ।
भये सोच बस सोच विस्मेचन ॥

लखन सपन यह नीक न होई ।
कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥

× × × ×

कुन्दन कवि का भी स्वप्न-वर्णन पढ़ने योग्य है, देखिए—

सपनेहु सोवन न दई निरदई दई,
विलपत रहै जैसे जल विन भँखियाँ ।
'कुन्दन' सँदेसो आये लाल मधुसूदन के,
सबै मिलि दौरी लेन आँगन बिलखियाँ ।
बूझै समाचार ना मुखागर सँदेसो कळू,
कागद लै कोरो हाथ दीनी लैके सखियाँ ।
छतियाँ से पतियाँ लगाइ बैठी बाँचिवे को,
जौ लौ खोलो खाम तौलौ खुलि गई अँखियाँ ॥

यहाँ नायिका ने लिफाफा खोलना चाहा और अँखे खुल गई ।
पाती की पाती मे रह गई और मन की मन मे । सपने की सम्पत्ति ही
जो ठहरी ।

× × ×

स्वप्न के उदाहरण में किसी संस्कृत कवि की निम्नलिखित उक्ति
पढ़िए—

मामाकाशप्रणिहित भुजं निर्दयाश्लेष हेतो-
र्लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेन ।
पश्यन्तीना न खलु बहुशो न स्थली देवताना,
मुक्ता स्थूलास्तरु किललयेष्वश्रु लेशाः पतन्ति ॥

विरह-व्याकुल यत्न अलकापुरी जाते हुए मेघ को सन्देश देता है—
भाई मेघ, तुम उधर जा तौ रहे ही हो, मेरी प्रिया से यह कह देना कि

तेरे वियोग मे यक्ष को जागन जागते राते बीत जाती हैं । कभी-कभी कुछ नींद आ जाती है तो स्वप्न म तृही नू दिखाई देती हैं । उस समय वह (यक्ष) यदि तेरा गाढ आलिङ्गन करने के लिए बाहु-पाश पसारता है, तो वह शून्य आकाश मे फैला रह जाता है । यक्ष की तत्कालीन दयनीय दशा देखकर बन के देवी-देवता फूट फूटकर रोने लगते हैं और अपने नेत्रों से निकले हुए मोती-से आँसू तरु पल्लवों पर गिराते हैं ।

विवोध

निद्रा या अविद्या दूर करने वाले कारणों से उत्पन्न चैतन्य को विबोध कहते हैं ।

जम्हाई, अँगड़ाई, आँखे खोलना या मीड़ना, अंगों का अवलोकन, यथार्थ ज्ञान आदि इसके लक्षण हैं ।

विवोध सचारी के उदाहरण मे महाकवि हरिश्चन्द्रजी ने नीचे लिखे पद्य दिये हैं ।

भाग भाग कहि सो बनेगो कैसे भाग वारो,
भभरि भभरि जो अभागते है भागतो ।
जो है लोक-सेवा की लगन नाहिं साँची लगी,
कैसे लाभ वारो हूँ है, लोगन की लागतो ।
'हरिश्चन्द्र' नाना अनुराग को कहा है फल,
देस-राग मै है जो न मन अनुरागतो ।
कहा जागि कियो कहा लाभ है जगाये भयो,
जागे हू जो जी म जाति-हित है न जागतो ॥

×

×

×

वीर जन वीरता वसुन्धरा विबोधिनी है,
साहसी ही साहस दिखाइ होत आगे हैं ।

सबल के सामने सरोवर पयोनिधि है,
सावधान सामने धरनि धुरे धागे हैं ।
'हरिऔध सारी सिद्धि तिनकी सहोदरा हैं,
सिद्धि पाग मे जो सच्ची साधना के पागे हैं ।
भाग जागे भूमें कौन भोग भोग पाये नहीं,
जाग गये जग में न काके भाग जागे हैं ॥

उपर्युक्त छन्दों में कवि ने जीवन-जागृति का उपदेश देते हुए मानव-समाज को कव्यनिष्ठा की ओर प्रेरित किया है। देश और जाति का जगाना ही सच्चा जागरण है। वह जागते हुए भी नहीं जागता, जिसके हृदय में जाति-हित नहीं जाग रहा।

राम-चरित-मानस का भी विबोध सम्बन्धी उदाहरण देखिये—
उठे लखन निसि बिगत सुनि अरुणसिखा धुनि कान ।
गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान ॥

उक्त दोहे में प्रातः समय मुर्गे की 'कुकड़ूँ कूँ' सुनकर राम और लक्ष्मण का जागना स्पष्ट वर्णित है।

अब जरा पद्माकरजी का भी एक उदाहरण देख लीजिए—
अधखुली कञ्चुकी उरोज अध आधे खुले,
अधखुले बैस नख रेखन की भलकैँ ।
कहैं 'पदमाकर' नवीन अध नीवी खुली,
अधखुले छहरि छराके छोर छलकैँ ।
भोर जगि प्यारी अध ऊरध इतै की ओर,
भाँखी भिखि भिरकि उघारि अध पलकैँ ।
आँखें अधखुली अधखुली खिरकी हैं खुली,
अधखुले आनन पै अधखुली अलकैँ ॥

उक्त पद्य में पद्माकरजी ने प्रातःकाल जागते समय नायिका के अस्त-व्यस्त वस्त्राभूषणों और जम्हाई-अगड़ाई आदि लेने का कैसा सुन्दर और सजीव चित्र चित्रित किया है ।

विशेष के उदाहरण में नीचे लिखा श्लोक कैसा सुन्दर है—

चिर रति परिखेद-प्राप्त-निद्रा मुखाना,
चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः ।
अपरिचलित-गात्राः कुर्वतेन प्रियाया-
मशियिल भुज चक्रा श्लेष भेदं तरुण्यः ।

रात को रति-खेद से थके पतिदेव पत्नी को बाहु-पाश में आवद्ध कर, निद्रा-देवी की गोद में चले गए, फिर पत्नी भी सो गई । प्रातःकाल पहले पत्नी की आँख खुली, उसने उठना चाहा, परन्तु बाहु-पाश के हटाने से पति जाग जाते, अतः वह पति-परायणा नायिका पति की निद्रा भंग होने की आशंका से ज्यों की त्यों पड़ी रही ।

अमर्ष

निन्दा, आक्षेप, अपमानादि के कारण उत्पन्न हुए चित्त के विकल्प का नाम अमर्ष है । इसमें दूसरे के अहंकार को न सहकर उसे नष्ट करने की कामना प्रधान होती है ।

अँखों की लालिमा, शिर कम्प, त्योंरी चढ़ाना, स्वेद, तर्जन आदि इसके लक्षण हैं ।

अमर्ष के उदाहरण में पद्माकरजी का निम्नलिखित छन्द बड़ा उत्कृष्ट है ।

जैसों तैं न मो सों कहूँ नैंकहूँ डरातु हुतो,
ऐसो अब हौ हूँ तोसों नैंकहूँ न डरि हौं ।
कहै 'पदमाकर' प्रचड जो परैगो तो,
उमण्ड करि तो सों भुजदण्ड ठोकि लरि हौं ॥

चलौ चलु चलौ चलु विचलु न बीच ही ते,
कीच बीच नोच तो कुटम्ब को कचरि हौ ।
एरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि
गगा के कछार मे पछारि छार करि हौ ॥

भक्त ने पाप को खुला चेलेज्ज देदिया है कि अब तक जिस प्रकार
तू मुझसे ज़रा भी नहीं डरता था, उसी प्रकार अब मैं भी तुझसे बिलकुल
नहीं डरूँगा । अगर तैने ज़रा भी चीं-चपड को, तो मारते-मारते तेरी सारी
अकड़ भुजा दी जायगी । बस चुपक से चले चलो, बहुत तीन पोंच मत
करो । अब नो तुझे गगा के कछार मे पछार कर ही दम लूँगा । ओ हो,
अब तक तैने बड़ी दगा दी, तू बड़ा पातकी है ।

रामचरित-मानस मे सीता-स्वयवर के समय वीरवर लक्ष्मण की वीरो
क्रियाँ अमर्ष के उदाहरण मे पढने लायक हैं ।

माखे लखन कुटिल भई भौहैं
रदपुट फरकत नयन रिसौहैं ॥
रघुबसिन महेँ जहेँ कोउ होई ।
तेई समाज अस कहाह न कोई ॥
कही जनक जस अनुचित बानी ।
विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥
सुनहु भानुकुल पकज भानू ।
कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥
जौ तुम्हार अनुसासन पावौ ।
कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठावौ ॥
काचे घट जिमि डारों फोरी ।
सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी ॥
तव प्रताप महिमा भगवाना ।
का बापुरो पिनाक पुराना ॥

कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौ ।

जांजन सत प्रमान लौ धावौ ॥

तौरौ छत्रक दण्ड जिमि, तव प्रताप बल नाथ ।

जौ न करौ प्रभु पद मपथ कर न धगै धनुभाथ ॥

उपर्युक्त चौपाइयाँ अमर्ष मा उन्कृष्ट उदाहरण हैं । लक्ष्मणजी कहते हैं, कि यह बेचारा पुराना/धनुष तो क्या चीज़ है; हे रामचन्द्रजी, यदि आप आज्ञा दे तो ब्रह्माण्ड को गेद की तरह उठा सकता हूँ, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह ताड़-मरोड़ कर फेंक सकता हूँ । अगर ऐसा न कर दिखाऊँ, तो आपके चरणों की शपथ ग्राह्य कर कहता हूँ फिर कभी धनुष हाथ में न लूँगा ।

×

<

×

इसी सम्बन्ध में यह श्लोक भी पढ़ लीजिए कैसा सुन्दर है—

प्रायश्चित्त चरिष्यामि, पृज्यानां वो व्यतिक्रमात् ।

नवेवं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रह महाव्रतम् ॥

भृगुनन्दन परशुरामजी की कोपाग्नि प्रचण्ड होने पर विश्वामित्रादि ऋषियों ने उन्हें शान्त रहने को कहा, इस पर परशुरामजी बोले—निस्सन्देह आप सदृश पूज्यों की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है. इसका उल्लंघन करना पाप है, परन्तु मैं क्षत्रियों को निर्बीज करने के लिए, आरम्भ किये इस शस्त्र ग्रहण रूप महाव्रत को त्याग नहीं सकता । निश्चय ही इससे गुरुजनों के आज्ञोत्लघन का पाप मुझे लगेगा, जिसका प्रायश्चित्त करने के लिए मैं तैयार हूँ ।

अवहित्या

भय, लज्जा, गौरव आदि के कारण हर्ष आदि मनोभावों को चतुराई से छिपाने का नाम अवहित्या है ।

अनभीष्ट काम की ओर प्रवृत्ति, बात सुनी-अन सुनी करना, दूसरी ओर देखना आदि इसके लक्षण हैं ।

पद्माकरजी ने अवहित्या का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है, देखिये—
भोर जगी जमुना जल धार मे धाय घँसी जल केलि की माती ।
त्यौ 'पदमाकर' पैंग चलै उछलै जब तुंग तरंग बिघाती ।
टूटे हरा छुरा छूटे सबै सरबोर भई अँगिया रंग राती ।
को कहतो यह मेरी दसा गहतो न गुविन्द तो मै बहि जाती ॥

नायिका ने गोविन्द के साथ जल-केलि करने की बात कैसी चालाकी से छिपाई है । वह यह नहीं कहती कि यमुनाजी में कृष्ण के साथ क्रीड़ा की, बल्कि यह बताती है कि मैं तो न्हाते-न्हाते यमुना-प्रवाह में बह चली थी । वह तो दैवयोग से गोविन्द वहाँ आ निकले, जिन्होंने मुझे बचा लिया—

अब देवजी का उदाहरण भी देखिये—

देखन कौ बन कौ निकसी बनिता बहु बानि बनाय कै बागे ।
'देव' कहै दुरि दौरि के मोहन आय गए उतते अनुरागे ।
बाल की छाती छुई छल सों घन कुंजन में रसपुंजन लागे ।
पीछे निहारि निहारत नारिन हार हिये के सँवारन लागे ॥

लता-कुञ्जों में गोपियों के साथ विहार करते हुए मोहन ने किसी बाला का अंग-स्पर्श किया । परन्तु ज्यों ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पीछे से दूसरी गोपिकाएँ देख रही हैं, तो चट से उसके वह गले का हार सँवारने लगे । यहाँ कृष्ण के हार सँवारने के बहाने अंग-स्पर्श करने की बात को छिपा लेना अवहित्या सचारी है ।

कविवर विहारी का नीचे लिखा दोहा भी अवहित्या सचारी का बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है, देखिये—

चढ़त घाट बिचल्यौ सुपग भरी आय इन अङ्क ।
ताहि कहा तुम तकि रहीं यामें कौन कलङ्क ॥

कहीं घाट पर एकान्त पा मोहन किसी गोपिका का आलिगन करने लगे । इसी बीच में कुछ और स्त्रियाँ वहाँ आ पहुँचीं और मोहन की

उस चेष्टा को देख आश्चर्य से उसकी ओर ताकने लगीं। सखियों को सन्देहपूर्ण दृष्टि से मोहन की ओर ताकते देख गोपी ने कैमी चतुराई से उनकी वकालत करके असली घटना को छिपाया है। यही अवहित्था संचारी है।

इस विषय में नीचे लिखा दोहा भी बड़ा मार्के का है।

कोऊ कछु अब काहु पै मत लगाइयो दोस।

होन लग्यौ ब्रज गलिन में हुरिहारेन कौ घोस।

अभिप्राय यह कि हुरिहारों के घोस में अब गोपिकाओं को किसी प्रकार का दोष देने की ज़रूरत नहीं है। होली के हुरदंग में भी कभी किसी को कलक लगा है।

इस विषय में पद्माकरजी का भी एक दोहा देखने योग्य है—

निरखत ही हरि हरषि कै रहे सु आँसू छाय।

बूझत अलि केवल कछौ लाग्यौ धूमहि धाय ॥

हरि को देखते ही नायिका की आँखों में हर्ष के आँसू आ गए। सखी के कारण पूछने पर उसने असली बात छिपा कर आँखों में धुआँ लगाना आँसू आ जाने का कारण बताया। यही अवहित्था है।

रामचरितमानस से भी नीचे लिखी पक्तियाँ अवहित्था के उदाहरण में पेश की जाती हैं—

× × ×

तन सकोच मन परम उछाहू।

गूढ प्रेम लखि परे न काहू ॥

ऐसी पीर बिहँसि उर गोई।

चोर नारि जनु प्रगट न रोई ॥

रचि रचि कोटिक कुटिल पन कीन्हिसि कपट प्रबोध।

कहेसि कथा सत सौति कर जाते बढै विरोध ॥

× × ×

अब अवहित्या के उदाहरण में संस्कृत कविता का चमत्कार देखिए --

एव वादेनि देवर्षौ पार्ष्वे पितुरधोमुखी ।
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥

समझाने-बुझाने से जब शिवजी पार्वती के साथ विवाह करने के लिए प्रस्तुत होगए, तो देवर्षि नारद ने हिमांचल से कहा— नगाधिराज, शिवजी आपकी कन्या पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए हैं। अब आप इस मंगलोत्सव की तैयारी कीजिये। उस समय पिता के पास बैठी हुई पार्वती अपने विवाह का सवाद सुनकर (इष्ट सिद्धि के हर्ष को छिपाकर) सकेचवश, सामने पड़े कमल-पुष्प की पखड़ियाँ गिनने लगीं।

उग्रता

अपने दोष सुनने, स्वार्थ-हानि होने, अन्य द्वारा अपकार किये जाने और शूरता एव रोष के कारण उत्पन्न हुई निर्दयता अथवा चण्डता को उग्रता कहते हैं।

शिर घूमना, पसीना आना, कम्प, तर्जन, ताड़न आदि इसके लक्षण हैं।

उग्रता के उदाहरण में कविवर हरिऔधजी का निम्नलिखित छन्द पढने योग्य है—

भारत को जन भरि भरि भारतीयता में,
जा दिन उभरि जाति भीरुता भगाइ है ।
भूरि भाग बनि भूतिमान है हैं भूतल में,
सकल भुवन कौंहि भवन बनाइ है ।
हरिऔध' साहस दिखाइ है तो सारो लोक,
सहमि सहमि सारी सूरता गँवाइ है ।
डोलि जै है आसन महेस कमलासन को,
सासन विलोकि पाकसासन सँकाइ है ॥

हरिऔधजी कहते हैं कि जिस दिन भारत निवासी भारतीयता के रग में रग कर जाति की कायरता दूर कर देगे, उसी दिन सारा उद्धार हो जायगा । उस समय हमारा शासन देखकर सब लोग सहम जायेंगे, यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इन्द्र को भी भय होने लगेगा । कैसा सुन्दर भाव है ।

उग्रता के उदाहरण में पद्माकरजी का दोहा देखिये—

कहा कहौ मखि काम को हिय निरद्वैपन आज ।

तन जारत पारत विपति अघत उजारत लाज ॥

मखी मैं इस निष्ठुर कामदेव की निर्दयता का वर्णन कहाँ तक करूँ । बिरहानल द्वारा अबलाओं के शरीर जलाने, उन पर विपत्ति वज्र गिराने एवं उनकी लाज का सुरभ्य वाटिका को उजाड़ने में इस निर्लज्ज को जग भी लज्जा नहीं आती । यहाँ कामदेव की दुर्नीति देखकर नायिका उसके प्रति कितनी उग्र हो उठी है, इसका आभास उसके कथन के ढग से स्पष्ट मिलता है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय यदि अतनु गतनु होकर नायिका के सामने आ जाय तो वह उसे कच्चा ही खा जायगी ।

इस प्रसंग में लगे हाथों पद्माकरजी का एक पद्य और भी पढ़ लीजिए ।

सिंधु के सपूत सुत, सिन्धु-तनया के बन्धु

मन्दिर अभन्द सुभ सुन्दर सुघाई के ।

कहैं पदमाकर' गिरास के बने हो संभ,

तारन के ईस कुल कागन कन्हाई के ।

लाल ही के बिरह विचारी ब्रजबाल ही पै

ज्वाल से जगावन जुआल मी लुनाई के ।

एरे मतिमन्द चन्द आवति न तो'ह लाज,

हैं कै द्विजराज काम करत कसाई के ॥

अरे चन्द्र तुम तो सिन्धु के सुपात्र बेटे और लक्ष्मीजी के सहोदर भाई हो । लोग तुम्हें सौन्दर्य और सीधेपन का भण्डार बताते हैं । बहुत काल

तक तुमने मदनान्तक महादेवजी के शिर पर भी निवास किया है। कृष्ण-चन्द्र के तो तुम आदि पुरुष हो, उनका वश तुमसे ही प्रारम्भ हुआ है। फिर भी तुम्हारा यह अन्धेर, ऐसा निर्दयता-पूर्ण व्यवहार कि कृष्ण ही के प्रेम में आसक्त हुई बेचारी ब्रजबालाओं को विरह-ज्वाला में जलाते हो। भले मानस कुछ अपने कुल का तो ध्यान रक्खा होता, कामारि कैलासपति के सत्संग की कुछ तो लाज राखी होती। तुमने तो बारह बरस दिल्ली में रह कर भाड भोंकने की कहावत ही चरितार्थ की। इतने दिन महादेवजी के साथ रहकर उनसे कुछ भी न सीखा। उलटे उनके स्वभाव के प्रतिकूल आचरण किया। अधम ! द्विजराज होकर भी निर्दय कसाइयों का सा काम करते हुए तुम्हें लज्जा भी नहीं आती।

सस्कृत का उदाहरण भी देखिए—

प्रणयि सखी सलील परिहास रसाधिगतै-

ललित शिरीषपुष्प हननैरिव ताम्यति यत्।

वपुषि बधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः,

पततु शिरस्यकाण्ड यमदण्डइवैष भुजः ॥

अघोर घट नामक कापालिक द्वारा अपनी प्रेयसी मालती का बघ होता देख, माधव कहता है—अरे क्रूर कापालिक, जो मृदुल मालती हँसी में भी अपनी किसी सखी के शिरीष प्रसून प्रहारों से व्याकुल हो जाती है, उसको मारने के लिए तू शस्त्र चलाना चाहता है। हत्यारे निश्चय ही तेरे सिर पर काल मँडरा रहा है, ठहर-ठहर, बज्र बन कर गिरता हुआ मेरा प्रचण्ड भुजदण्ड इसी समय तेरा ध्वस किये देता है।

मति

प्रतिकूल परिस्थित, भ्रान्ति या विवाद उपस्थित होने पर भी नीति मार्ग का अनुसरण करते हुए यथार्थता का निर्याय कर लेने का नाम मति है।

निर्णीत वस्तु का स्वय आचरण या उपदेश, मुस्कराहट, धैर्य, मन्तोष, स्वावलम्बन आदि इसके अनुभाव हैं ।

राम-चरित-मानस मे मति का कैसा सुन्दर उदाहरण मिलता है —

जासु बिलोकि अलौकिक शोभा ।
सहज पुनीत मोर मन क्षोभा ॥
सो सब कारण जान विधाता ।
परकहि सुभग अग सुनि भ्राता ॥
रघुबसिन कर सहज सुभाऊ ।
मन कुपन्थ पग धरे न काऊ ॥
मोहि अतिसय प्रतीत जिय केरी ।
जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥
× × ×

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं, कि सीताजी का अलौकिक रूप सौन्दर्य देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरे मन में क्षोभ पैदा हो गया है । भगवान् ही जाने ऐसा क्यों हुआ । मैंने तो कभी भूलकर भी कुपन्थ मे पग नहीं दिया, और न सपने में भी पराई स्त्री को देखा है ।

यहाँ सीता-दर्शन से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्म-मर्यादा का विचार रखना 'मति' सचारी है ।

कविवर देव का निम्नलिखित मवैया भी मति का सुन्दर उदाहरण है—
श्याम के सग सदा विलसी सिसुता मे सिता मे कछू नहिं जानों ।
भूले गुपाल सों गर्व कियो गुन जोवन रूप वृथा अरिमानो ।
जौ न निगोड़ो तवै समझो कवि 'देव' कहा अब जो पछितानो ।
धन्य जिये जग में जन ते जिनको मनमोहन ते मन मानो ॥

बाल्यकाल मे तो श्याम के साथ खूब हास-विलास किया, परन्तु तदर्थ होने पर रूप-यौवन जनित गर्व के कारण मैं उनसे मान कर बैठी । उस समय कम्बख्त मन ने जरा भी समझ से कर्म नहीं लिया । अब पछिताने से

प्रहृह नाप रघुनाथ मम कृपासिन्धु को श्रान ।

सुनि दुर्लभ ज्ञो पम गति तुमहिं दीन भगवान् ॥

गम ने विरुद्ध होने के कारण ही तुम्हारा ऐसा हाल हुआ, कि आज कुल में कोई गने वाला भी शेष नहीं है । ..फिर भी तुम बड़ भागी रह जो कृपासिन्धु भगवान् राम के हाथों से तुम्हें वह परमगति प्राप्त हुई जो मुनियों को भी दुर्लभ है ।

यहाँ घोर सकट-काल में भी विवेक-बुद्धि का बना रहना वर्णित है, अतः यह मति सचारी हुआ ।

मति के सम्बन्ध में निम्नलिखित उत्कृष्ट कवित्त भी पढ़ने लायक है--

गोरो क्षीरसिन्धु गोरो देखिये सुधा को सिन्धु

गोरो चन्द्रवस गोरो जदु वस ही को है ।

गोरे बलदेव गोरे बसुदेव देवकी हू,

गोरी-गोरी जसुमति गोरो नन्द नीको है ॥

ब्रज सब गोप गोरे; गोपिका हू गोरी सबै,

कान्ह भयो कारो याते जानो चोरी जी को है ।

स्याम पूतरी के बीच स्याम पूतरी में राखि,

नन्द पूतरी को लायो रग पूतरी को है ॥

वासुदेव, बलदेव, यशोदा, देवकी गोपी गोपिकाएँ सब गोरे ही गोरे, परन्तु कृष्ण कैसे काले हो गए ? ओहो ! समझ में आगया, नन्द की काली पुतलियों के पोतरों में रहने के कारण कृष्ण का रग काला होगया है ।

यहाँ कृष्ण काले क्यों हैं यह विभ्रम उपस्थित होने पर उनकी श्यामता के कारण का यथार्थ निर्याय कर लेना ही मति सचारी है ।

अन्त में संस्कृत, काव्य-साहित्य का निम्नलिखित उदाहरण पढ़ अद्भुत रमानन्द लुटिए—

असशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा,

यदार्यमस्त्रमभिलाषि मे मनः ।

सता हि सन्देह पदेषु वस्तुषु,

प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः ॥

वन में तर्पस्व कन्या शकुन्तला को देखकर राजा दुष्यन्त के मुँह से अनायास ही निकल पडता है कि निस्सन्देह यह कन्या क्षत्रिय के साथ व्याही जाने योग्य है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा मन आर्योचित उदात्त गुणों से भरा हुआ है। एक क्षत्रिय के शुद्ध अन्तःकरण की ऐसी सदभिलाषा निश्चय ही इस बात की द्योतक है, कि यह कन्या किसी क्षत्रिय वर द्वारा ही बरी जानी चाहिये।

महाकवि देव ने मति संचारी के अन्तर्गत उपालम्भ, अनुनय, विनय एव उपदेश का भी वर्णन किया है। फिर उपालम्भ के दो भेद किये हैं— अर्थात् एक कोपजनित उपालम्भ और दूसरा प्रणयजनित उपालम्भ। उन्होंने दोनों प्रकार के उपालम्भों तथा अनुनय-विनय आदि के जो उदाहरण दिये हैं, वे क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं।

कोप जनित उपालम्भ

बोलत हो कत बैन बड़े अरु नैन बड़े बड़रान अड़े हो।
जानति हौ छल छैल बड़े जु बड़े खन के इहि गैल गड़े हो।
'देव' कहै हरि रूप बड़े ब्रज भूप बड़े हम पै उमड़े हो।
जाउ जी जाउ अनीठ बड़े अरु ईठ बड़े पर ढीठ बड़े हो ॥

प्रणय जनित उपालम्भ

लाल भले हौ कहा कहिये कहिये तौ कहा कहूँ कोऊ कहैये।
काहू कहूँ न कही न सुनी सु हमै कहिवे कहँ काहि सुनैये।
नैन परै न परै कर मैन न चैन परै जु पै बैन बरैये।
'देव' कहै नित को मिलि खेलि इतै हित कै चित को न चुरैये ॥

अनुनय विनय

वे बड़ भाग बड़े अनुराग इतै अति भाग सुहाग भरी हौ।
देखो बिचारि समौ सुख को नन जोवन जोतिन सौं उजरी हौ।

बालम सों उठि बोलो बलाय लैं यों कहि 'देव' सयानी खरी हो ।
हेरत बाट कपाट लगे हरि बाट खरे तुम खाट परी हो ॥

उपदेश

कोप सों बीच परै पिय सों उपजावत रग मै भग सु भारी ।
क्रोध बिधान बिनोद निधान सु मान महा सुख में दुखकारी ।
ताते न मान समान अकारज जाकौ अपानु बडो अधिकारी ।
'देव' कहैं कहि हौं हित की हरि जू सो हित न कहैं हितकारी ।

और भी अनेक कवियों ने उपालम्भ सम्बन्धी कविताएँ लिखी हैं । महा-
कवि सूरदासजी ने तो प्रेम और भक्ति के आवेगों में आनन्द कन्द श्रीकृष्ण-
चन्द्र को खूब ही खरी-खोटी सुनाई है, बड़े-बड़े उलाहने दिये हैं । इन
सब उपालम्भों में कवि-प्रतिभा-प्रसूत कल्पना की बड़ी सुन्दर छटा दिखाई
देती है । कविरत्न सत्यनारायण ने श्रीकृष्ण को जो उपालम्भ दिया है,
वह भी बड़ा ही उत्कृष्ट है । देखिये—

माधव आप सदा के कोरे ।

दीन दुखी जो तुमकों जाँचत सो दानिन के भोरे ॥

किन्तु बात यह तुव सुभाव वे नैंकहु जानत नाही ।

सुनि सुनि सुयस रावरो तुव ढिंग आवन को ललचाहीं ॥

नाम धरै तुमकों जग मोहन मोह न तुमकों आवै ।

करुनानिधि तुव हृदय न एकहु करुनावुन्द समावै ॥

श्लैत एक कौ देत दूसरेहिं दानी बनि जग माहीं ।

ऐसो हेर फेर नित नूतन लाग्यौ रहत सदाहीं ॥

भाँति भाँति के गोपिन के जो तुम प्रभु चीर चुराये ।

अति उदारता सों लै वे ही द्रौपदि को पकराये ॥

रतनाकर कों मथत सुधा कौ कलस आपु जो पाये ।

मन्द मन्द मुसकात मनोहर सो देवन कों प्याये ॥

अन्त गयन्द कुवलय के जो खेल प्रान हरि लीन्हे ।
 बड़ी दया दरसाइ दयानिधि सो गजेन्द्र कौ दीन्हे ॥
 करि कै निधन बालि रावन को राजपाट जो पाये ।
 तहँ सुग्रीव विभीषन कौ करि अति अहसान बिठाये ॥
 पौण्डरीक कौ सर्वनास करि मालमता जो लीये ।
 ताकौ विप्र सुदामा के सिर करि सनेह मठि दीये ॥
 ऐसी तूमा पलटी के गुन नेति नेति स्तुति गावे ।
 सेस, महेस, सुरेस गनेसहु सहसा पार न पावे ॥
 इत माया अगाध सागर तुम डोबहु भारत नैया ।
 रचि महाभारत कहूं लरावत आपुस भैया भैया ॥
 या कारन जग मे प्रसेद्ध अति निबटी रकम कहाओ ।
 बड़े बड़े तुम मठा उँवारे चौँ साँची खुलवाओ ॥

व्याधि

बात, पित्त, कफ आदि की विषमावस्था से उत्पन्न शारीरिक रोगों को व्याधि कहते हैं । किसी-किसी ने वियोग जन्य मनस्ताप अर्थात् आधि को भी व्याधि माना है ।

कर्म, पृथिवी पर लोटने की इच्छा, आकुलता, सुख सूखना, वैवर्य, ताप, मूर्च्छा आदि इसके लक्षण हैं ।

व्याधि-विषयक पद्माकरजी का उदाहरण देखिये—

दूरि ही ते देखत बिथा में वा बियोगिनी की,
 आई भले भाजि ह्यौ इलाज मढ़ि आवेगी ;
 कहै पदमाकर' सुनो हो घनस्याम जाहि—
 चेतत कहुँ जो एक आइ कठि आवेगी ।
 सर सरितान कौ न सुखत लगैगी देर,
 एती कछु जुलमिनि ज्वाल बढि आवेगी ।

ताके तन ताप, की कहौ मै कहा बात, मेरे—

गात ही छुए ते तुम्हैं ताप चढि आवेगी ॥

अजी उस वियोगिनी को मै तो दूर से ही देख कर भाग आई हूँ । वह तो विकराल वियोग-बन्धि मे बुरी तरह भुन रही है । सच समझना, अगर कहीं उसकी आह निकल गई, तो मारे ताप के सारे नदी-नालों का पानी सूख जायगा । नायिका के शरीर की उग्र ऊष्मा की तो बात ही क्या, उसको देखने मात्र से स्वयं मेरा शरीर इतना उत्तप्त होगया है कि उसे छूकर तुम्हें ज्वर चढ आवेगा ।

× × ×
'शङ्कर' जी ने तो वियोगिनी की आह कढने के कारण और भी अधिक अनर्थ होजाने की आशका प्रकट की है, देखिये—

'शंकर' नदी नद नदीसन के नीरन की,
भाप बनि अम्बर ते ऊँची चढ़ि जायगी ।

दोनो ध्रुव छोरन लो पल में पिघल कर,
घूम घूम धरनी धुरी सी बढ जायगी ।

भारेगे अँगारे ये तरनि तारे तारापति
जारेंगे खमण्डल मे आग मढ़ि जायगी ।

काहू बिधि बिधि की बनावट बचेगी नाहिं,
जो पै वा बियोगिनी की आह कढ़ि जायगी ॥

शंकरजी की वियोगिनी पद्माकरजी की वियोगिनी की अपेक्षा बहुत मयकर है । अगर उसकी 'आह कढ़ गई' तब तो आकाश-पाताल, नदी, नाले, समुद्र कुछ भी नहीं बचेगे । विधाता की सारी सृष्टि ही नष्ट हो जायगी, प्रलय का दुर्दृश्य दिखाई देने लगेगा ।

अब इसी विषय का महाकवि देव का उदाहरण देखिये—
ता दिन तें अति व्याकुल है तिय जा दिन तें पिय पंथ सिधारे ।
भूख न प्यास बिना ब्रजभूषन भाभिनि भूषन भेस बिसारे ।

पावत पीर नहीं कवि 'देव' करोरिक मूरि सबै करि हारे ।
नारी निहारि निहारि चले तजि बैद बिचारि बिचारि बिचारे ॥

दबजी कां वियोगिनी के मुख से विध्वंसकारिणी आह कढ़ने का भय तो नहीं है, परन्तु हाँ, वह स्वयं बहुत बामार होगई है । न कुछ खाती है, न पीती है, वेश-भूषा की तो बात ही क्या ! करोड़ो दवाएँ कर डाली पर कोई कारगर न हुई । हो कैसे, रोग समझ में आवे तब न ? बड़े-बड़े वैद्य आते हैं, किन्तु नाड़ी देखकर चलते बनते हैं । किसी की समझ में कुछ नहीं आता ।

व्याधि के उदाहरण में निम्नलिखित दोहे भी बहुत सुन्दर हैं ।

कव की अजब अजार मे परी बाम तन छाम ।

तित कोऊ मति लीजियो चन्द्रोदय को नाम ॥

× × × (पच्चाकर)

पलन प्रकट बरुनीन बढि नहि कपोल ठहरायँ ।

ते अँसुआ छतियो परे छन छनाय छिपि जायँ ॥

× × ×

यह बिनसत नग राखि कै जगत बडौ जस लेहु ।

जरी बिसम जु र जाइ ये आप सुदर्सन देहु ॥

× × × (बिहारी)

वियोगिनी कैसे अजीब रोग में फँसी है । उमका शरीर सूखकर काँटा होगया है । देखो, उधर जाते तो हो परन्तु चन्द्रोदय का जिक्र मत का देना । क्योंकि उसे चन्द्रोदय से किसी ओषधि विशेष का बोध तो होगा नहीं. वह तो उसे विरहिणी-विदाहक रजनीश का उदय होना ही समझेगी जिसमे उसका रोग और बढ जायगा ।

× × ×

पलकों से निकल बरुनियों में बहते और कपोलों पर रपटते हुए आँसू वियोगिनी के वक्षस्थल पर आ पड़े। परन्तु वहाँ के प्रचण्ड-ताप का क्या ठिकाना ! जिस प्रकार तपते हुए तवे पर पड़ कर पानी की बूँदे छुन्न-छुन्न कर आसमान की ओर उड़ जाती हैं, उसी प्रकार वियोगिनी की छाती पर पड़े आँसू छुन्नछुना कर छिप गए !

×

×

×

इस वियोगिनी के प्राण बचा कर आप बड़ा यश लेंगे। यह बेचारी विषमज्वर में जल रही है, सुदर्शनजी, आप इसे अपने सु-दर्शन दीजिये जिससे वह अच्छी हो जाय। अथवा सुदर्शन चूर्ण खिलाइये, जो विषमज्वर के लिए बहुत उपयोगी होता है। या कोई ऐसी और (जरी) जड़ी दीजिये, जिससे इसका ज्वर (जाय) जाता रहे। जो उचित समझें वह कीजिये। हम तो इसे नीरोग देखना चाहते हैं।

×

×

×

जब किसी विरहिणी के रोग का निदान नहीं हुआ तब विहारीजी को एक बात सूझी—

मैं लखि नारी ज्ञान करि राख्यो निरधारि यह।

वहै जु रोग निदान वहै वैद औषधि वहै ॥

उन्होंने नारी ज्ञान (स्त्री विज्ञान) देख कर निश्चयपूर्वक बताया, कि घबराने की कोई बात नहीं है। मरज़ समझ में आ गया है। विरहिणी के रोग का जो निदान (आदि कारण) है, वही इसके लिए वैद्य है और वही अमोघ औषधि। अर्थात् यह प्रियतम की वियोगाग्नि में जल रही है, उसके संयोग से ही इसका सारा रोग दूर हो जायगा।

उद्दू कवियों ने भी व्याधि के सम्बन्ध में बड़ी सुन्दर कल्पनाएँ की हैं। कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं, देखिए—

नातवानी ने बचाई जान मेरी हिज्र में।

कोने कोने ढूँढती फिरती कज़ा थी मैं न था ॥

वियोग जन्य कृशता के कारण मौत से बचने का मौका खूब मिल गया । कज़ा आई और चारों तरफ मुझे आखे फाड़-फाड़ कर ढूँढती फिरी, परन्तु मेरी कृशता इतनी बढ़ गई थी कि मैं उसे दिखाई ही न दिया । आखिर भख मार कर वह चली गई और मेरी जान बच गई । इसी भाव को नासिख साहब ने इस प्रकार प्रकट किया है—

इन्तहाए लागरी के जब नज़र आया न मै ।

हँस के वह कहने लगे विस्तर को भाड़ा चाहिए ॥

लागरी की इन्तहा हो जाने के कारण जब मैं उन्हें विस्तर पर दिखाई न पड़ा, तब वह हँस कर कहने लगे—भाई, ज़रा विस्तर को भाड़ा कर तो देखो ।

सस्कृत वालों ने व्याधि का उदाहरण इस प्रकार दिया है ।

हृदये कृत शैवलानुषङ्गा—

मुहुरङ्गानि इतस्तत क्षिपन्ती ।

तदुदन्त परे मुखे सखीनाम्—

अति दीनामियमादधाति दृष्टिम् ॥

सिवार, घनसार आदि शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थों को हृदय पर धारण किये हुए और विकलता के कारण अंगों को इधर-उधर पटकती हुई वह नायिका, नायक के सम्बन्ध की चर्चा करती हुई सखियों के मुख की ओर कातरतापूर्वक दृष्टि डाल रही है । विरह-व्याधि-पीड़िता नायिका का कैसा स्वाभाविक वर्णन है—व्याधि का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है ।

उन्माद

काम, शोक, भय आदि की अधिकता, अभिधात, और वातादि दोषों के प्रकोप से चित्त में जो व्यामोह और विज्ञोभ होता है, उसे उन्माद कहते हैं ।

असमय और अकारण हँसना, रोना, गाना, बकना, धूल, ईंट, पत्थर इकट्ठे करना या फेंकना आदि अव्यवस्थित क्रियाएँ करना इसके लक्षण हैं ।

रसतरंगिणीकार ने विना विचारे आचरण करने को उन्माद संज्ञा दी है । रामचरितमानस से उन्माद का उत्कृष्ट उदाहरण नीचे दिया जाता है—

हा गुण खानि जानकी सीता ।
रूप शील व्रत नेम पुनीता ॥

×

×

×

लक्ष्मण समभाये बहु भौंती ।
पूछत चले लता तरु पौंती ॥
हे खग मृग हे मधुकर सैनी ।
तुम देखी सीता मृगनैनी ॥
खञ्जन शुक कपोत मृग मीना ।
मधुपनिकर कोकिला प्रवीना ॥
कुन्द कली हे दाडिम दामिनि ।
हे हे कमल शरद शशि भामिनि ॥
यहि विधि विलपत खोजत स्वामी ।
मनो महा विरही अति कामी ॥

सीता के वियोग में व्याकुल राम की ऐसी दशा हो गई है कि वे जंगल के जीव-जन्तुओं, पशु-पक्षियों और तरु-वल्ली-लताओं से पागल की तरह पूछते फिरते हैं, कि बताओ, तुमने कहीं मेरी मृगनयनी सीता तो नहीं देखी । वे उस निविड़ वन में जनकनन्दिनी को खोजते हैं, और विलखते हैं । इससे बढ़ कर उन्माद और क्या होगा ।

इस विषय में पद्माकरजी का भी निम्नलिखित उदाहरण देखिये -
आपु ही आपु पै रूसि रहै, कबहूँ पुनि आपुही आपु मनावै ।
त्यों 'पदमाकर' ताकि तमालनि भेँछवे को कबहूँ उठि धावै ।

जो हरि रावरो चित्र लखे तो कहूँ कबहूँ हँसि हेरि बुलावै ।

व्याकुल बाल सुआलिन सों कछौ चाहे कछू तो कछू कहि जावै ॥

उपर्युक्त सवैया में पद्माकरजी ने उन्माद का कैसा सुन्दर शब्द-चित्र खींचा है । नायिका खुद ही रूठ जाती है, और खुद ही अपने आपको मनाती है । कभी वृत्तों को आलिंगन करने के लिए दौड़ती है । और यदि कहीं नायक का चित्र देख पाती है, तो उसे हँस-हँस कर बुलाने लगती है । सखियों से कहना कुछ चाहती है और मुँह से निकल कुछ जाता है । मन की इस विकृतावस्था का भी कुछ ठकाना है !

उन्माद सचरी के उदाहरण में नीचे लिखा देवजी का सवैया भी बड़ा सुन्दर है ।

नाहिन नन्द को मन्दिर ये ब्रुषभान को भौन कहा जकती हौ ।

हौ ही अकेली तुही कवि देवजू घूँघट कै किहिकों तकती हौ ।

भेंटती मोहि भद्र किहि कारन कौन सी धौँ छवि सौँ छकती हौ ।

काह भयो है, कहा कहो, कैसी हो कान्ह कहाँ है, कहा बकती हो ॥

देवजी के इस सवैये में राधिका की अस्तव्यस्त मानसिक दशा का वर्णन ही उन्माद सञ्चारी है ।

नीचे लिखे कवित्त में किसी गोपी की उन्मादावस्था का कैसा सुन्दर वर्णन किया गया है ।

जबते कुँवर कान्ह रावरी कला निधान,

कान परी बाके कहूँ सुजस कहानी सी ।

तबहीते देखी 'देव' देवता सी हँसति सी,

खीभति-सी रीभति-सी रुसति रिसानी सी ।

छोई सी छली सी छी ने लीनी सी छरी सी छीन,

जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी ।

बिधी-सी बँधी सी बिस-बूड़ी-सी बिमोहित सी,

बैठी बाल बद्धि बिलोकति बिकानी-सी ॥

उन्माद का कितना स्वाभाविक वर्णन है ।

और देखिए निम्नलिखित दोहा भी उन्माद का कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है ।

अकरुन हिय पिय ! तोहि हौं ना छोरोँ अब पाई ।

यो बोलति गहि कर-कमल आलिनि को अकुलाई ॥

“निष्ठुर हृदय प्रियतम, मैंने बड़ी कठिनाई से तुम्हें पकड़ पाया है । अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूँगी ।” प्रिय-विरह विधुरा नायिका अपनी सखी का कर-कमल पकड़ कर इस प्रकार बड़बड़ा रही है । उन्माद का इससे भी अधिक जीता जागता उदाहरण और क्या हो सकता है । नायिका को यह भी होश नहीं कि वह किसका हाथ पकड़े क्या कह रही है ।

संस्कृत साहित्य में उन्माद का उदाहरण इस प्रकार दिया है ।

भ्रातर्द्वरेफ ! भवता भ्रमता समन्तात् ।

प्राणाधिका प्रियतमा मम वीक्षिता किम् ?

ब्रूषे किमोमिति सखे ! कथयाशु तन्मे,

कि किं व्यवस्यति ? कुतोऽस्ति च की हृदशीयम् ?

भाई भौरे तुम चारों ओर मँडराते फिरते हो, भला तुमने कहीं मेरी प्राणप्रिया भी देखी है । तुम गूँज-गूँज कर क्या 'हूँ-हूँ' कह रहे हो ? तब तो बड़ी खुशी की बात है । बताओ न वह कहाँ है, कैसे है, और क्या कर रही है ।

मरण

किसी बाहरी आघात, विषपान अथवा रोगादि के कारण शरीर से प्राण निकल जाने का नाम मरण है ।

शरीर का पतन, श्वासोच्छ्वास का बन्द हो जाना आदि इसके लक्षण हैं ।

रस गगाधरकार ने वास्तविक मरण से पहले की विप्रलम्भ (वियोग) शृंगार जनित मूर्च्छावस्था को ही मरण माना है। उनका मत में रस-हानि के भय से प्राण वियोग रूपी वास्तविक मरण का काव्य-शास्त्र में वर्णन करना उचित नहीं है। इसी लिए अधिकांश कवियों ने मरण के वर्णन में शूरो के वीर-गति प्राप्त करने या स्त्रियों के सती होने का ही उल्लेख किया है।

प्रदीपकार भी शरीर से जीव के निकलने की पूर्वावस्था—मूर्च्छा को ही मरण मानते हैं।

मरण के उदाहरण में देव जी का निम्नलिखित सवैया देखिये—
राधिकै बाढ़ी वियोग की बाधा, सु देव अडोल अबोल डरी रही।
लोगनि की वृषभान के भौन में भोरते भारी ये भीर भरी रही।
वाके निदान कै प्रान रहे कडि औषधि भूरि करोरि करी रही।
चेति मरू करि के चितथी जब चारि घरी लों मरी सी परी रही ॥

उपर्युक्त सवैया में वृषभानुजा की वियोग-बाधा जनित मूर्च्छा का वर्णन है। वह कुछ काल तक तो इस प्रकार अचेत पड़ी रही कि लोगो ने उसे मरी हुई समझ लिया।

इस सम्बन्ध में महाकवि तुलसीदास की भी पंक्तियाँ पढ़ लीजिए—

रचि दृढ़ दारुण चिता बनाई।
जनु सुर लोक नसैनी लाई ॥
करि प्रणाम सब जन परितोषी।
धीरज घरसि तासु मति पोषी ॥
शिर भुज धरि बैठी करि आसन।
भई जनु सिद्ध योग परकासन ॥

देत अनल ज्वाला बढ़ी, लपट गगन लागि जाय।
लखी न काहू जास्त तिहि, सुरपुर पहुँची धाय ॥

उपर्युक्त पक्तियों में, सुलोचना का अपने पति के साथ सती होना बर्णित है ।

मरण संचारी के उदाहरण में बैनीजी का नीचे लिखा सवैया भी बड़ा सुन्दर है ।

धीर धुरीन धरा के पुरन्दर कौसलराय सौ दूसरो को कहि ।
राज समाज तज्यौ तिन तूल अतूल जो सत्य के मूल रह्यौ गहि ।
मानत 'बैनी' है राम सौ पूत पठाय दयौ बन कीरति को चहि ।
आप सिधाय गयौ सुरधाम को एक घरी न वियोग सक्थौ सहि ।

बैनी कवि ने उपर्युक्त सवैया में असली मृत्यु का वर्णन किया है, जैसा कि प्रायः कवि लोग बहुत कम करते हैं ।

मरण के सम्बन्ध में शकरजी का भी एक उदाहरण देखिये—
आह ! दई गति कैसी भई निशि आधी गई हनुमान न आयौ ।
खातु रह्यौ फल-फूल कहुँ सुधि भूलि गयो कपि मूरि न लायौ ।
जानि परै अनुमान सौ आजु बिरचि ने बन्धु के संग छुड़ायौ ।
'शङ्कर' कष्ट न नष्ट भयौ, बिधि ने दुख भाजन मोहि बनायौ ।

उपर्युक्त सवैया में शक्तिवाण लगने के कारण लक्ष्मण के मूर्च्छित हो मृतवत् हो जाने पर रामचन्द्रजी विलाप कर रहे हैं । उस समय उनकी आँखें सजीवनी बूटी की ओर लगी हुई हैं । हनुमान आवें और बूटी लावें तो मूर्च्छा दूर हो ।

अब मरण सम्बन्धी संस्कृत का उदाहरण भी देख लीजिए—

राम मन्मथ-शरेण ताडिता,
दु सहेन हृदये निशाचरी ।
गन्धवट्टधिर चन्दनोक्षिता,
जीवितैश वसति जगाम सा ॥

राम के तीव्र तीर द्वारा प्रताड़ित ताड़का रूधिर से स्नान करती हुई यमराज के घर सिधार गई। अथवा कमनीय कामवाण-विद्ध वह राज्ञी गन्ध युक्त रक्त चन्दन से उपलिप्त होकर प्राणपति के पास पहुँच गई।

त्रास

बादल गरजने, बिजली कड़कने, तारा टूटने, भयकर प्राणी या हिंस्र जन्तु के शब्द करने, बलवान् का अपराध करने, भय अथवा किसी अन्य अहित भावना में चित्त में जो अविचारित और अचानक व्यग्रता उत्पन्न होती है, उसे त्रास कहते हैं। भय पूर्वापर के विचार से उत्पन्न होता है और त्रास अचानक, यही दोनों में भेद है।

कम्प, व्याकुलता, भय, स्तम्भ, रोमाञ्च, गद्गद् वाणी, नेत्रों का निर्निमेष हो जाना आदि इसके लक्षण हैं।

रस तरंगिणीकार ने मन के विक्षोभ को त्रास माना है। उसमें विचार से उत्पन्न हुए क्षोभ को 'भय', और घोर शब्द सुनने या भयंकर प्राणी का दर्शन करने आदि से अकस्मात् उत्पन्न हुए क्षोभ को 'त्रास' संज्ञा दी है।

त्रास के उदाहरण में देव कवि का निम्नलिखित सवैया पढ़िये—
श्री वृषभानु लली मिलिकै जमुनाजल केलि के हेलिनि आनी ।
रोमवली नवली कहि 'देव' सु सोने से गात अन्हात सुहानी ।
कान्ह अचानक बोलि उठे उर बाल के व्यालबधू लपटानी ।
धाय के धाय गही सँसवाय दुहू कर भारत अग अयानी ॥

उपर्युक्त सवैये में यमुना में न्हाती हुई वृषभानु लली के सुन्दर शरीर पर रोम राजी देख कर श्रीकृष्णजी कौतुक वश कह उठे—'अरे तुम्हारे वल्गु स्थल पर तो नागिन लिपटी हुई है।' यह सुन राधिकाजी एक दम भयभीत हो दोनों हाथों से अपना शरीर भाङ्गने लगीं और दौड़ कर धाय से जा चिपटीं।

इस प्रसंग में पद्माकरजी का सवैया भी पठ लीजिये—

ए ब्रजचन्द गोविन्द गोपाल सुन्यौ न क्यों एते कलाम किये मै ।
 त्यों 'पदमाकर' अनेद के नद हौ नैदनन्दन जानि लिये मै ।
 माखन चोरि कै खोरिन हूँ चले भाजि कछू भय मानि जिये मे ।
 दूर हू दौरि दुर्यौजु चहौ तो दुरौ किन मेरे अँधेरे हिये में ॥

हे गोविन्द गोपाल मै बार-बार कहती हूँ परन्तु तुम मेरी विनती सुनते ही नहीं । मै जानती हूँ, कि तुम बड़े विनोदी और मौजी हो, मखन चुरा कर मारे डर के इधर उधर गलियों में भाग निकलते हो । अगर तुम्हें छिपना ही है तो दूर भागने की क्या जरूरत है । मेरे 'अँधेरे' हृदय में आकर छिप जाओ । (जिस से तुम्हें कोई देख न सके और मेरे अज्ञानान्धकार-पूर्ण हृदय में प्रकाश हो जाय) ।

त्रास के उदाहरण में ग्वाल कवि का नीचे लिखा सवैया भी बड़ा सुन्दर है, देखिये—

चहुँओर मरोर सों मेह परै घनघोर घटा घनी छाया गई सी ।
 अरराय परी बिजुरी कित हूँ दस हूँ दिसि मानहु ज्वाल बड़े सी ।
 कवि 'ग्वाल' चमक अचानक की लखिके ललना मुरभाइ गई सी ।
 यहराइ गई हहराइ गई पुलकाइ गई पल न्हाइ गई सी ॥

कहीं बड़े जोर में बिजली तड़क कर गिरने से दशों दिशाओं में आग सी लग गई । उस चमक को देखकर नायिका के भय का ठिकाना न रहा । वह एक दम मुरभा गई, काँपने लगी, और व्याकुल हो गई । उसके शरीर पर रोमाञ्च हो आए, यहाँ तक कि वह पसीने से तरबतर हो गई ।

त्रास के सम्बन्ध में हरिऔधजी का भी निम्नलिखित कवित्त पढ़ने लायक है—

बनि कै अमर करि समर बचैहो मान,
 कसि कै कमरि • काम करिहो अगेजो मै ।

यम दण्ड केरी दण्डनीयता निवारि दैहो,
करि दैहो खण्ड-खण्ड कालहू को नेजो मै ।
'हरि औध' कैसो त्रास त्रास मानि हों न कवौ,
रहन न दै हों पास भीति भरौ भेजो मै ।
खरे हूँ हैं रोम रोम रोम तो उखारि दैहो,
कॉपि है तो रेजो रेजो करिहौ करेजो मै ॥

युद्ध में अमर होकर मैं मान की रक्षा करूँगा । यमदण्ड और विकराल काल के भाले को भी तोड़ मरोड़ कर फेंक दूँगा । भय को तो भाल में से खुरच-खुरच कर निकाल दूँगा । अगर रोमाञ्च हुआ, तो रोमों की खैर नहीं, उनकी जड़ बुनियाद भी बाकी न रहेगी । कलेजा काँपा, तो उसके किरचे किरचे कर डालूँगा; ऐसी दशा में त्रास की तो बात ही क्या वह बेचारा तो पास भी न फटकने पावेगा ।

इस प्रसंग में साहित्यदर्पण का उदाहरण भी देख लीजिए—

परिस्फुरन्मीन विघटितो रवः

सुराङ्गना त्रास विलोल दृष्टयः ।

उपाययुः कम्पित पाण पल्लवाः

सखी जनस्यापि विलोकनीयताम् ॥

जलविहार करते समय जब मृगनयनी अप्सराओं की जघाओं से मछलियों आ आकर टकराती हैं, तब वे (अप्सराएँ) भय के कारण पाणि-पल्लव कपाती हुई बड़ी भली मालूम देती हैं ।

वितर्क

मन में किसी विचार या सन्देह के उठने पर उसकी छानबीन में लग जाने का नाम वितर्क है ।

भूकुटी भंग, शिर हिलाना, उँगली उठाना, आदि इसके लक्षण हैं ।

रस तरंगिणीकार विचार को ही वितर्क मानते हैं । नाट्यशास्त्रकार ने चार प्रकार का वितर्क माना है—अर्थात् विचारात्मा सशयात्मा, अनध्यवसायात्मा और विप्रतिपत्यात्मा ।

वितर्क के उदाहरण में महाकवि केशव का निम्नलिखित कवित्त देखिए ।

जो हौं कही रहिये तो प्रभुता प्रगट होत
चलन कही तो हित हानि नहीं सहने ।
भावै सो करहु तो उदास भाव प्राणनाथ,
सग लै लचौ तो कैसे लोक लाज बहने ।
कैसे 'कैसौराय' की सों सुनहु छुबीले लाल,
चले ही बनत जो पै नाही राजि रहने ।
तुमहीं सिखाऔ सिख सुनहु सुजान प्रिय
तुमहि चलत मोहि जैसी कछू कहने ॥

श्री राम के वन जाते समय सीता जी के मनमें कैमे वितर्क उठ रहे हैं । न हाँ किये बनता है, न नाँ किये न ठहराने की हिम्मत होती है, न विदा देने को जी चाहता है । 'भावै सो करहु' तो स्पष्ट उदासीनता का सूचक है । ऐसी अवस्था में सीता जी स्वयं राम जी से ही पूछती हैं—बताइये प्राणनाथ, आपके प्रस्थान करते समय मुझे क्या कहना चाहिये ।

इसी विषय में आलम कवि का उदाहरण भी देखिये—

कैधो मोर सोर तजि गए री अनत भाजि
कैधो उत दादुर न बोलत हैं ए दई ।
कैधाँ पिक चातक महीप काहू मारि डारे,
कैधाँ बग पाँति उत अन्त गति है गई ।
'आलम' कहे हो 'यारी अजहूँ न आए प्यारे,
कैधो उत रीति बिपरीतै विधि ने ठई ।

मदन महीप की दुहाई फिरिबे ते रही,
जूझि गये मेघ कै घों बीजुरी सती भई ॥

पावस आने पर प्रोषितपतिका नायिका की कैसी सुन्दर उक्ति है—
मालूम होता है कि जहाँ प्राणनाथ हैं, वहाँ से मोर और दादुर कहीं भाग
गए हैं। पिक, चातक और बगुला किसी राजा ने मरवा डाले हैं। बादल
भी परस्पर युद्ध करते हुए काम आ गए प्रतीत होते हैं, जो उनकी गड़गड़ाहट
वहाँ नहीं सुनाई पड़ती। बादलों की चिंता में बिजली तो अवश्य ही सती
हो गई होगी। नहीं तो यह कैसे हो सकता है, कि वर्षा ऋतु आज्ञाय और
प्राणनाथ उसे देख मेरा स्मरण करके घर की ओर प्रस्थान न करे।

वितर्क के उदाहरण में नीचे लिखा कवित्त कितना सुन्दर है, ध्यान
दीजिये—

कैधों रह्यौ राहु ते मयक प्रतिबिम्बित है,
कैधों रति राजी सग मनमथ सेजे मे ।
कैधों अलि मालती सुमन पै सुमन दैकै,
रीभि रह्यौ थकित सुगन्धनि अमेजे मे ।
दामिनी कदम्बने मिली हैं चञ्चलाई तजि,
कैधों रजनी को अन्त दिनकर तजे में ।
सोई संग मोहन के महिनी रसीली कैधों,
छुवि अरसीली फँसी मरकत रेजे में ॥

मोहन और मोहिनी (राधिका) को एक आसन पर सोए देख कवि
के हृदय में कैने-कैसे विचित्र वितर्क उठ रहे हैं—वह उस श्याम गौर
छुवि को एकत्र देख कभी उसे राहु के बिम्ब से चन्द्रमण्डल को प्रति-
बिम्बित हुआ समझता है, कभी सोचता है, कामदेव के साथ रति शयन
कर रही है। कभी मालती-सुमन पर भौरा बैठा है—ऐसी कल्पना करता है
और कभी विचारता है, हो न हो यह मेघमाला में चञ्चला अचञ्चल
होकर बैठ गई है। कभी वह रात और दिन के एकत्र हो जाने की कल्पना

करता है । निदान उसके मनमानस में तरह-तरह के तर्क-वितर्क उठ रहे हैं, और नई नई कल्पनाएँ जन्म ले रही हैं ।

इसी प्रकार का नीचे लिखा शंकर जी का पद्य भी पढ़ने योग्य है, देखिये—

कञ्जल के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि,
 श्याम घन-मण्डल में दामिनी की धारा है ।
 यामिनी के अङ्ग में कलाधर की कोर है कि,
 राहु के कबन्ध पै कराल वेतु तारा है ।
 'शंकर' कसौटी पर कञ्चन की लीक है कि,
 तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है ।
 काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि,
 ढाल पर खाँड़ा कामदेव का दुधारा है ॥

इस छन्द में भी माँग के सम्बन्ध में भाँति-भाँत की उत्प्रेक्षाएँ की हैं, तरह-तरह के वितर्क और विकल्प उठाए गये हैं ।

निम्नलिखित दोहे भी वितर्क के सुन्दर उदाहरण हैं—

बोलत है इत काग अरु फरकत नयन बनाय ।
 यहि ते यहि जान्यौ परत पीतम मिलिहै आय ॥
 × × ×
 कै सुषमा को सदन यह किधौ मदन छुविधाम ।
 किधौ नदन सखि नन्द को अग अंग अभिराम ॥

अन्त में इस विषय की संस्कृत के किन्हीं कवि महोदय की सुन्दर उक्ति सुनकर उसका भी रसास्वादन कीजिए -

किं रुद्धः प्रियथा ! कथाचिदथवा सख्या ममोद्वेजितः,
 किं वा कारणं गौरवम् किमपि यन्नाद्यागतो वल्लभः ।
 इत्यालोच्य मृगीदृशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुजम्,
 दीर्घं निश्वसितं चिरञ्च रुदितं क्षिप्सौश्च पुष्पसृजः ॥

संकेत स्थान पर प्रिय के न पहुँचने के कारण, नायिका के मन-मानस में तरह-तरह के वितर्क-तरंग उठने लगे। कहीं उन्हें उनकी किसी अन्य प्रियतमा ने तो नहीं रोक लिया ! मेरी सखी की किसी बात से तो वे अप्रसन्न नहीं हो गए ! सम्भव है, कोई विशेष कार्य लग गया हो। इसी सोच-विचार में वह मृगनयनी अपना मुखारविन्द, हथेली पर रख हिलकियाँ बाँध कर बहुत देर तक रोती रही और अन्त में उसने फूल-मालाएँ तोड़-मरोड़ कर फेंक दीं।

छल

साहित्यदर्पण तथा अन्य रीति-ग्रन्थों में उपर्युक्त तेतीस संचारी भावों का वर्णन है। परन्तु महाकवि देव आदि ने छल को भी संचारी भाव माना है। नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख किया गया है, अतएव हम छल के सम्बन्ध में भी कुछ पक्तियाँ सोदाहरण लिख देना आवश्यक समझते हैं।

गुप्त रीति से क्रिया सम्पादन करना छल कहाता है। इसकी उत्पत्ति अपमान, कुचेष्टा, प्रतीप आदि से होती है।

वक्रोक्ति, एकटक देखते रहना, वास्तविक स्थिति को छिपाना आदि इसके लक्षण हैं।

देव जी ने छल का निम्नलिखित उदाहरण दिया है।

स्याम सयाने कहावत हैं कहो, आजु को काहि सयान है दीन्हों।

‘देव’ कहै दुरि टेरि कुटीर में आपुनो बैर बधू उहि लीन्हों।

चूमि गई मुख औचकही पटु लै गई पै इन वाहि न चीन्हों।

छैल भले छिन ही में छले दिन ही मे छुबीली भलो छल कीन्हों ॥

स्थायी भाव

साहित्यदर्पण में स्थायी भाव का लक्षण इस प्रकार किया गया है—

अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः।

आस्वादाङ्कुर फन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः।

अर्थात् अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव जिसे छिपा न सकें, वह आस्वाद का मूलभूत भाव स्थायी कहाता है ।

स्थायी भाव के लिये चार बातें अनिवार्य बताई गई हैं, अर्थात् वासनात्मकता, सजातीय वा विजातीय भावों के योग से नष्ट न होना, अन्य भावों को अपने में लीन कर लेना और विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से परिपुष्ट होकर, रस-रूप हो जाना । जो भाव उपर्युक्त कसौटियों पर खरे उतरें, वही स्थायी कहाते हैं । साहित्य-ग्रन्थों में रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद इन नौ को स्थायी भाव माना है, क्योंकि इनमें उपर्युक्त चारों ही धर्म पाये जाते हैं ।

साहित्यदर्पणकार ने वात्सल्य रस भी माना है, जिसका स्थायी भाव स्नेह है । कोई-कोई 'भक्ति' आदि को भी रस मानते हैं । इनके अतिरिक्त रीति ग्रन्थों में और भी अनेक रसों का उल्लेख मिलता है ।

वास्तव में स्थायी भाव वासनारूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं, और जब विभावादि द्वारा उनको उद्बुद्ध होने का अवसर मिलता है, तभी वे जाग्रत होकर, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से रस-रूप में दिखाई देते हैं । कोई अविरुद्ध या विरुद्ध भाव स्थायीभाव को तिरोहित नहीं कर सकता । उदाहरणार्थ मान लीजिए कि कोई विरह विधुर व्यक्ति अपनी स्त्री के वियोग में व्याकुल होकर उसे खोजने के लिये, इधर-उधर मारा-मारा फिरता है । स्मशान में भी जाता है, वहाँ उसके हृदय में जुगुप्सा या भय के भाव उत्पन्न होते हैं, परन्तु उस पर इन विजातीय भावों का कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि वह शीघ्रातिशीघ्र अपनी प्रिया से मिलने की चेष्टा में निमग्न है । उस समय उसके हृदय में जो रतिभाव उत्पन्न हो रहा है, उसे कोई भी भाव नष्ट नहीं कर सकता । इसी प्रकार अन्य स्थायी भावों की भी कल्पना की जा सकती है ।

जब जो स्थायी भाव जाग्रत होता है, तब उसी की प्रधानता रहती है । विरोधी भाव तो उस समय हृदय में उठते ही नहीं । और अविरोधी भाव

उद्बुद्ध स्थायी भाव में लीन होकर, उलटे उसके पोषक तथा सहायक बन जाते हैं ।

वास्तव में वासना-रूप बीज, आलम्बन रूप हृदय-क्षेत्र में पड़कर, स्थायी भाव की शक्ति में अङ्कुरित होता है, और उद्दीपन भाव-रूप जल-वायु एवं गर्मी से बढ़ता है । पीछे यही अङ्कुर अनुभाव-रूप वृक्ष दिखाई देता है, और फिर उस पर सचारी भाव-रूप अनेक फूल खिलते हैं, जिनसे मकरन्द-रूप रस पैदा होता है ।

स्थायी भाव क्या है ? दो शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना तो कह सकते हैं कि हृदय में जो रसानुकूल विकार उत्पन्न होता है, और रस में जिसकी सदा स्थिति रहती है, वह स्थायी भाव है ।

विभावादि का प्रभाव सब हृदयों पर समान नहीं पड़ता यह बात विभावों की तीव्रता और मन्दता पर निर्भर है अर्थात् यदि विभावादि मन्द होंगे तो प्रभाव भी मन्द डालेंगे और तीव्र होंगे तो तीव्र । विभावों के लिए अनुकूल प्रकृतियाँ प्राप्त न होने पर भी उनका ठीक ठीक प्रभाव नहीं पड़ता । किसी युवती सुन्दरी को देखकर रसिक और उग्र प्रकृति वाले नवयुवक के हृदय पर जितना प्रभाव पड़ता है उतना गम्भीर और सरल स्वभाव वाले युवक पर नहीं, और बुद्ध पर तो कदाचित् कुछ असर होगा ही नहीं । इसी प्रकार जो लोग रात-दिन मरघट में रहते या धिनौने पेशे करते हैं, उन पर ग्लानि-उत्पादक वस्तुओं एवम् व्यापारों का बहुत ही कम असर होता है । इससे सिद्ध होता है कि स्थायी भावों के जाग्रत होने के लिए अनुकूल प्रकृति की भी आवश्यकता है ।

जब स्थायी और सञ्चारी भावों का रस-परिपाक से सम्बन्ध नहीं रहता, और वे पृथक्-पृथक् होते हैं, तो वे केवल 'भाव' कहाते हैं । स्थायी और 'सञ्चारी' विशेषण उनसे पूर्व नहीं लगाये जाते । जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्थायी भाव, विभावादि के कारण ही रसत्व को प्राप्त होते हैं, अगर आलम्बन भाव न हों तो उद्दीपन कुछ भी नहीं कर सकते । मानसिक क्षेत्र

की दशा ही कुछ ऐसी है कि, उसमें उत्पन्न भाव, एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से सम्बन्धित रहते हैं, जिससे भावों की एक शृङ्खला-सी बन जाती है।

स्थायी भाव के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि वे (स्थायीभाव) कभी कभी सञ्चारी भी बन जाते हैं, यथा-शृङ्गार और वीर में हास, वीर में क्रोध और शान्त रस में जुगुप्सा सञ्चारी भाव होते हैं। इस प्रसंग में रस गगाधरकार कहते हैं कि जब रति आदि स्थायी भाव, अधिक विभावादिकों से उत्पन्न होते हैं तब वे स्थायी कहाते हैं, और थोड़े विभादिकों से प्रसून होने पर उन्हीं की संचारी या व्यभिचारी संज्ञा होती है। उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो गया कि जब-जब रत्यादि संचारी भाव बनकर हृदय में उद्बुद्ध होते हैं, तब वे रसत्व को प्राप्त नहीं होते। नाटक देखने या काव्य पढ़ने-सुनने से जिन व्यक्तियों के हृदयों में जो भाव स्थायी रूप से जाग्रत होता है, वही विभावादिकों से पुष्ट होकर रस रूप में परिष्कृत हो जाता है। एक ही दृश्य देख या काव्य सुन कर सभी दर्शकों या श्रोताओं को समान आनन्द की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि उन पर उनका एक-सा प्रभाव नहीं पड़ता। जिन व्यक्तियों के हृदयों में अधिक विभावादिकों से रत्यादि उत्पन्न होते हैं, वहाँ तो वे स्थायी होने के कारण रसत्व को प्राप्त हो जाते हैं, और असीम आनन्द के हेतु होते हैं; परन्तु जिन लोगों के हृदयों में अल्प विभावादि से रत्यादि स्थायी भावों की उत्पत्ति होती है, वहाँ वे संचारी बन जाते हैं जिससे रसोत्पत्ति नहीं हो पाती। ऐसी दशा में आनन्द की अनुभूति करना तो बिलकुल व्यर्थ ही है।

स्थायी भाव के भेद

रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा (ग्लानि), आश्चर्य (विस्मय), और निर्वेद (शम) स्थायी भाव के ये नौ भेद हैं। वास्तव्य को दसवाँ रस मानने वाले उसके लिए 'स्नेह' को दसवाँ स्थायी भाव मानते हैं।

रति

प्रिय वस्तु में मन की प्रेम पूर्ण संलग्नता का नाम रति है। कुछ आचार्यों ने प्रिया और प्रियतम के मिलने की इच्छा से उत्पन्न हुई गुप्त और अपूर्व प्रीति को रति कहा है। रति, प्रेम, प्रीति, प्यार, अनुराग, स्नेह आदि पर्यायवाची हैं। कामवासना, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, स्त्री-पुरुष का परस्पर प्रेमाकर्षण, प्रजनन भाव आदि सब रति के ही अन्तर्गत हैं। गुह, शिष्य, देवता, पुत्र राजा आदि सम्बन्धी रति 'भाव' रूप में शृंगार रस का स्थायी-भाव मानी गई है। ऋतु, पुष्प, चन्दन, अंगराग, आभरण, भोजन, वरदान आदि विभावों एवं अनुकूलता आदि भावों से रति की उत्पत्ति होती है, और वह स्मिति, मधुर वचन, भ्रूक्षेप, कटाक्ष आदि अनुभावों द्वारा व्यक्त की जाती है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति द्वारा उत्पन्न रति, सौम्य गुण युक्त होती है, इसी लिए उसे मधुर वाणी और सुन्दर अंग-वेषाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है।

रति का निरूपण विविध आचार्यों ने विविध प्रकार किया है। कुछ विद्वान् कहते हैं कि मन के अनुकूल अर्थों में सुख-प्रसूत ज्ञान का नाम रति है। कुछ कहते हैं कि स्त्री-पुरुष के काम-वासनामय हृदय की परस्पर रमणेच्छा का नाम रति है। 'साहित्य दर्पणकार' की सम्मति में, प्रिय वस्तु में मन का प्रेमपूर्ण उन्मुख होना ही रति है। कुछ लोगों की राय में प्रेम और जीवन एक ही वस्तु हैं। महात्मा कवीर ने प्रेम का ढाई अक्षर पढने वाला ही पण्डित माना है—अर्थात् कोई कितने ही बड़े बड़े पोथे क्यों न पढ़ ले, परन्तु यदि वह प्रेम की वास्तविकता नहीं समझता तो सब व्यर्थ है।

प्रेम-वृत्ति के कारण मानव-हृदय से, दुरभिमान, कठोरता, क्रूरता आदि दूर होकर उसमें नम्रता, कोमलता और दयालुता का समावेश होता है, स्त्री जाति के प्रति विनम्रता के भाव बढ़ते हैं। पुरुषों में स्त्री जाति के प्रति उदारता, सम्यता और नम्रता के जो भाव दिखाई देते हैं, उनका

मूल कारण प्रेमवृत्ति ही है। एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ जब मैत्री द्वारा प्रेमबन्धन में बँधता है, तो यह प्रेम स्त्री विषयक प्रेम से भिन्न होता है। विवाह, सहवास, गर्भाधान, गर्भोत्पत्ति, पोषण, रक्षण, शिक्षण, गृह-व्यवस्था, गृह-कर्तव्य, दाम्पत्य धर्म इत्यादि कार्यों एवम सम्बन्धों की जड़ में प्रेम ही है प्रजा को उत्पादन कर, उसकी परिपुष्टि और अभिवृद्धि करना प्रेमवृत्ति का ही कार्य है। प्रजा की उत्पत्ति से पूर्व, इस वृत्ति के अस्तित्व और उसके उचित उपयोग की आवश्यकता होती है। भावी सन्तान की उत्पत्ति इस वृत्ति के उचित उपयोग पर ही अवलम्बित है।

मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र, यहाँ तक कि वनस्पतियों तक का स्त्रीत्व और पुरुषत्व की दृष्टि से वर्गीकरण किया गया है। इनमें भी नर-मादा, वृक्ष वल्लरी और तरु-लताएँ होते हैं। जब स्त्री-पुरुष एक दूसरे को अपने स्नेह, हावभाव तथा वेश द्वारा आकर्षित करते हैं तो ये प्रेम-प्रदर्शक क्रियाएँ ही स्वाभाविक भाषा का रूप धारण कर लेती हैं और काम वासना इत्यादि द्वारा इस भाषा का प्रकटीकरण होता है। प्रेम के इस प्रबल पाश में पड़कर ही मनुष्य ने सामाजिक संघटन, सुख सम्बन्ध, सभा-समाज आनन्द-उत्सव आदि की कल्पना की है। आत्म सन्तोषका कारण भी प्रेम है। माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पुर-परिवार आदि सब प्रेम-बन्धन से बँधे हुए हैं। प्रेम सब जीवों का जीवन है और प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम का मुख्य काम पारस्परिक स्नेह, मान, प्रशंसा, सभ्यता, नम्रता आदि भावों की प्रेरणा करना है। स्त्रियों में मनोमोहकता, स्नेहाद्रता, प्रेम-पिपासा, वशीकरणत्व आदि प्रेम के कारण ही हैं। पुरुषों में उदारता, वीरता, सहनशीलता, क्षमा, उन्नति की आकांक्षा, विशुद्धता, नम्रता, सत्यता, मिलनसारता, स्नेहस्निग्धता, मोहकता, आदि की प्रेरणा करने वाली प्रेमवृत्ति ही है। दो शब्दों में कहें तो स्त्रियों में स्त्रीत्व और पुरुषों में पुरुषत्व की प्रेरणा प्रेम द्वारा ही होती है।

जिन स्त्रियों और पुरुषों में प्रेमवृत्ति, पूर्ण रूप में विद्यमान रहती है,

उनका जीवन माधुर्य-पूर्ण, रसीला और स्वाभाविक रीति से आकर्षक हो जाता है। वे अपने सगे-सम्बन्धियों से तो प्रेम करते ही हैं, साथ ही मित्रादि से भी उनका स्नेह बड़ा गाढा होता है। इनके आचार-व्यवहार और बर्ताव में भी प्रेम की एक अद्भुत झलक दिखाई देती है। वात्सल्य और दयालुता की मात्रा बढ़ जाती है। कौटुम्बिक जीवन बड़ा आनन्द-पूर्ण बन जाता है। ऐसे लोगों में जन्मभूमि के प्रति भी बहुत प्रेम होता है। वे अपने इष्ट पदार्थों की प्रयत्नतः रक्षा करते हैं। सम्बन्धियों तथा प्रेमियों को खिलाने-पिलाने में उन्हें बड़ा आनन्द आता है। अर्थ-हानि सह कर भी ऐसे लोग प्रेम की रक्षा करते हैं, परन्तु प्रेम में निराशा होने से, उनकी व्याकुलता का ठिकाना नहीं रहता। जिन लोगों में प्रेमवृत्ति साधारण मात्रा में होती है, वे लालन-पालन में विशेष रुचि नहीं दरसाते और उनके स्वभाव में चिड़-चिड़ापन आ जाता है। ऐसे लोगों से प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने में बड़ा सावधानी से काम लेना पड़ता है। जिन लोगों में प्रेमवृत्ति की न्यूनता होती है वे भिन्न वृत्ति के व्यक्तियों को पसन्द नहीं करते, उन्हें उनका विश्वास कम होता है और साथ साथ रहना भी नहीं भाता। ऐसे लोगों में विवाहामिलाषा भी बहुत कम होती है। स्नेहशून्य स्त्रियाँ पुरुषों से और पुरुष स्त्रियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते। उन्हें शरमाने और चुप रहने की आदत पड़ जाती है। उनकी दृष्टि में सौन्दर्य का कोई मूल्य ही नहीं होता।

प्रेम त्यागमय है, इसमें स्त्री-पुरुष एक दूसरे के लिए, अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। परस्पर हृदय के आदान-प्रदान से ही प्रेम की स्थिति होती है। देश-प्रेम, धर्म-प्रेम, समाज-प्रेम, साहित्य-प्रेम, आदि से प्रेरित होकर, लोग कैसे बड़े-बड़े कार्य कर गये हैं। कहते हैं कि हरिण और सर्प तक प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम की मात्रा कम हो जाने अर्थात् वैराग्य के भाव जाग उठने से संसार विषवत् लगने लगता है।

प्रेमवृत्ति का अतियोग अथवा मिथ्या योग बड़ा दुखदाई होता है।

विषयान्धता, व्यभिचार, दुराचार, आदि की उत्पत्ति इसीसे होती है। इन्द्रियलोलुपता और निर्बलता प्रेमवृत्ति के दुरुपयोग के ही दुष्परिणाम हैं। प्रेम-सम्बन्ध में निग्रह की बड़ी आवश्यकता है।

रति का उदाहरण देखिए—

सजन लगी है, कहुँ कबहुँ सिगारन को,
तजन लगी है, कहुँ ऐसे बैसवारी की।
चखन लगी है, कछू चाह 'पदमाकर' त्यों,
लखन लगी है, मंजु मूरति मुरारी की।
सुन्दर गोविन्द गुन गुनन लगी है कछू,
सुनन लगी है, बात बाँकुरे विहारी की।
पगन लगी है, लगि लगन हिये सों नेकु,
लगन लगी है कछू पी की प्रान प्यारी की ॥

उपर्युक्त कवित्त में नायिका के हृदय में नायक के प्रति अनुराग उद्बुद्ध होने का वर्णन है। यहाँ प्राण प्यारी के हृदय में प्रेम की लगन अक्रुरित होना ही 'रति' है।

रति के भेद

रति के तीन भेद माने गये हैं। १—उत्तम रति, २—मध्यम रति, और ३—अधम रति।

उत्तम रति

सदा एक रस रहने वाली स्वार्थ शून्य प्रीति को उत्तम रति कहते हैं। इसमें सेव्यमेवक भाव की ही प्रधानता होती है।

उदाहरण देखिए—

अंग को पतंग दहै दीप के समीप जाय,
वारिज बँधाय भृगु • दरद न मानई।

सुनि कै विपञ्ची धुनि विशिख कुरंग सहै,
सती पति संग दहै दुख को न आनई ।
मनि हीन छीन फनि वारि सों विहीन मीन,
होइ कै मलीन मति दीनता वितानई ।
चातक मयूर मन मेह के सनेह ऊषो,
जाहि लगै नेह सोई देह भलै जानई ॥

इसमें दीपक पर पतंग के जलने और कमल-पुष्प में भ्रमर के मुँद जाने आदि का उदाहरण देकर निःस्वार्थ प्रीति का उल्लेख किया गया है ।

दूसरा उदाहरण—

राम के प्रेम को रूप मनो सिय सीय के प्रेम को रूप सु-राम है ।
राम की आनंद मूरति जानकी, जानकी आनंद मूरति राम है ।
राम के नैननि सीय बसै सिय के दृग राम करै विसराम है ।
रामहि है सत के सिय के जिय राम को जीय सिया अमिराम है ॥

यहाँ जनक नन्दिनी सीताजी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उत्तम प्रीति का वर्णन है । जानकी के राम सर्वस्व हैं और राम की जानकी ही सब कुछ हैं । सीता राम के लिये प्रेम रूप हैं, और राम सीता के लिए । दोनों एक दूसरे के लिए विशुद्ध प्रेम रूप में विद्यमान हैं ।

×

×

×

मध्यम रति

विना किसी कारण के अनायास ही परस्पर प्रीति हो जाने को मध्यम रति कहते हैं । इसमें मैत्री भाव की प्रधानता होती है ।

इसके उदाहरण में पदमाकरजी का निम्नलिखित सवैया कैसा सुन्दर है—

सावनी तीज सुहावनी को सजि सहे दुकूल सवै सुख साधा ।
त्यो 'पदमाकर' देखे बनै न बनै कहते अनुराग अवाधा ।
प्रेम के हेम हिडोरन में सरसै बरसै रस रग अगाधा ।
राधिका के हिय भूलत साँवरो, साँवरे के हिय भूलति राधा ॥

यहाँ श्रावण में भूला भूलते-भूलते प्रेमातिरेक से राधिका के हृदय मे
कृष्ण जी भूलने लगे, और कृष्ण जी के हृदय में राधिका भोटे लेने लगीं ।
दोनों के दिलों में प्रेम की नदी उमड़ने लगी । वे एक दूसरे के रूप-सौन्दर्य
पर मुग्ध हो गये ।

×

×

×

अधम रति

स्वार्थ प्रधान प्रीति को अधम रति कहते हैं । इसमें स्वार्थ-भाव की
प्रधानता होती है । उदाहरण देखिए, कविवर नन्दराम और महाकवि देव
क्या कहते हैं—

पावा करैँ जब लौँ घन घाम ते आवा करैँ तब लौँ गनिये ते ।
केते गरीब भए परि फन्द मे दीन हँ सोचत हाल ।हिये ते ।
होत नहीं अपनी कबहूँ तन हूँ, मन हूँ घन हूँ के दिये ते ।
त्यौँ 'नंदराम' रिभावा करैँ अरु गावा करैँ मुसक्यानि किये ते ॥

×

×

×

आजु मिले बहुते दिन भावते ! भेंटत भेट कछू मुख भाखौ ।
ये भुज भूषन मो भुज बाँधि भुजा भरि कै अघरा रस चाखौ ।
दीजिये मोहिं उठाय जरी पट कीजिये जू जिय जो अभिलाखौ ।
देव हमैँ तुम्हैँ अन्त पारत हार उतारि इतै घरि राखौ ॥

×

×

×

इन सवैयों मे स्वार्थ युक्त अधम प्रीति का वर्णन है । स्वार्थ की समाप्ति
के साथ ही यह प्रीति भी समाप्त हो जाती है । इस प्रीति में घन की ही

प्रधानता होती है। “जब तक पैसा गाँठ में तब लग ताको यार” वाली लोकोक्ति इस प्रीति के सम्बन्ध में अक्षरशः चरितार्थ होती है। स्वार्थ युक्त प्रीति के सम्बन्ध में नाचे लिखी कुण्डलिया बहुत प्रसिद्ध है—

साईं या संसार में मतलब को व्यवहार,
जब लग पैसा गाँठ में तब लग ताको यार ।
तब लग ताको यार यार सँगही सँग डोले,
पैसा रहा न पास यार मुख ते नहीं बोले ।
कह ‘गिरधर कविराय’ जगत यह लेखा भाई,
करत बेगरजी प्रीति यार विरला कोई साईं ।

वास्तव में जो प्रीति स्वार्थ के कारण होती है, उसमें वास्तविकता खोजना व्यर्थ है उसके टूटने में देर ही क्या लगती है। स्वार्थ न रहा तो प्रीति की भी समाप्ति हुई। फिर क्या है—“यूयम् यूयम् वयम् वयम्।”

रति स्त्री-पुरुष सम्बन्धी प्रसंगों से ही सम्बन्ध नहीं रखती, वह प्रभु-भक्ति में भी होती है—परन्तु वहाँ उसकी सज्ञा प्रीति, प्रेम और अनुराग भी हो जाती है। देखिये—

अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चहों निर्वान ।
जन्म जन्म ‘रति’ रामपद, यह बरदान न आन ॥

× × ×

और देखिये—

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पड़ित भया न कोय ।
ढाई अक्षर ‘प्रेम’ का पढ़ै सो पण्डित होय ॥

यहाँ प्रेम ही रति रूप में वर्णित है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं—

गुण स्वरूप बल द्रव्य को प्रीति करै सब कोय ।
तुलसी प्रीति सराहिये, जु इनते बाहर होय ॥

हास

कौतुकार्थ की गई वाणी स्वरूप आदि की विकृतावस्था देखकर उत्पन्न होने वाले हर्षयुक्त मनोविकार को, अथवा विचित्र वाणी और विचित्र वेश के कारण मन में उत्पन्न प्रसन्नता को हास कहते हैं ।

दूसरों की क्रिया, चेष्टा, वाणी आदि के अनुकरण तथा असम्बद्ध प्रलाप आदि विभावों से हास (हसन क्रिया) की उत्पत्ति होती है और स्मित हसित आदि अनुभावों द्वारा वह प्रकट किया जाता है ।

उदाहरण देखिए—

आरसी देखि जसोमति जू सों कहै तुतरात यों बात कन्हैया ।
बैठे ते बैठे उठे ते उठै, अरु कूदैं तैं कूदैं चले तैं चलैया ॥
बोले ते बोलै हँसे ते हँसै मुख जैसे करों त्यों ही आपु करैया ।
दूसरो को तू दुलारो कियो यह को है जो मोहि खिजावत मैया ॥

आरसी में अपनी सूरत और चेष्टाओं का प्रतिबिम्ब देखकर भोले भाले बाल कृष्ण यशोदा जी से पूछते हैं—मैया, मेरी ही सूरत का और मेरी सी ही सब चेष्टाएँ करने वाला यह दूसरा बालक तैने कहाँ से बुला लिया है, जो मुझे खिन्ना रहा है । इसमें बाल स्वभाव-जनित स्वाभाविक हास वर्णित है ।

और देखिये --

कबहूँ नहि कान सुने हमने यह कौतुक मन्त्र विचार केहैं ।
कहि कैसे भये करि कौन दिये सिखये कोइ साधु अपार केहैं ।
कवि ' ग्वाल ' कपोल तिहारे अली दुहूँ और में बाग बहार केहैं ।
चमके ये चुनी-सी चुनी इतमे उतमें, पके दाने अनार के हैं ॥

उपर्युक्त सवैया में सखी ने नायिका से मज़ाक किया है। उसके कपोलों की व्यंजना से हँसी उड़ाई है।

हास का एक उदाहरण और देखिए—

अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की वामा ।
खीर खाय पैदा सुत करतीं पतिकर कछु नहीं कामा ॥
सखी वचन सुनते रघुनन्दन बोले मृदु मुसकाते ।
आपन चलन छिपावहु प्यारी कहहु आन की वार्ते ॥
कोउ नहिं जन्मै मात-पिता बिन बैधी वेदकी नीती ।
तुम्हरे तौ महिते सब उपजै अस हमरे नहि रीती ॥

यहाँ श्री रामचन्द्रजी के साथ जनकपुर में सखियों का विनोद वर्णित है। एक सखी राम से पूछती है—आपके यहाँ तो खीर खाकर पुत्र पैदा किये जाते हैं, क्यों है कि नहीं? राम कहते हैं—नहीं नहीं हमारे यहाँ तो वेद मर्यादानुसार ही सन्तान पैदा होती है, अर्थात् विना माता-पिता के कोई भी जन्म नहीं ले सकता, परन्तु तुम अपनी कहो—जो पृथ्वी के पेट से सब पैदा होते हैं। छिपाती क्यों हो। है न यही बात। ठीक ठीक बताओ। कैसा मीठा मज़ाक और कितनी सुन्दर चुटकी है।

हास के भेद

हास के तीन भेद हैं—१—उत्तम, २—मध्यम और ३—अधम। इन तीनों में से प्रत्येक के दो-दो भेद और होते हैं, अर्थात् उत्तम के स्मित और हसित, मध्यम के विहसित और उपहसित या अवहसित और अधम के अपहसित और अतिहसित। इस प्रकार कुल मिलाकर हास छह प्रकार का माना गया है। कुछ लोगों ने इन छहो भेदों के स्वनिष्ठ (आत्मस्थ) और परनिष्ठ (परस्थ) दो-दो भेद और करके, हास बारह प्रकार का माना है। स्वनिष्ठ हास उसे कहते हैं, जो विभाव के देखने मात्र से उत्पन्न

हो जाता है, और जो दूसरे को हँसते देखकर उत्पन्न होता है, एवं जिसका विभाव भी हास ही होता है, उसे परनिष्ठ कहते हैं ।

× × × ×

स्मित

जिसमे नेत्रों तथा कपोलों में थोड़ा विकास हो, परन्तु न तो दाँत दिखाई पड़े, और न शब्द ही सुनाई दे, ऐसे मन्द मुस्कराने को स्मित कहते हैं ।

उदाहरण देखिए, पदमाकरजी का सवैया कैसा सुन्दर है—

चन्द्रकला चुनि चूनरी चाफ दई पहिराय सुनाय सु होरी ।
बेंदी विशाखा रची 'पदमाकर' अजन आजि समाजि कै रोरी ।
लागी जबै ललिता पहिरावन कान्ह को कञ्चुकी केसर बोरी ।
हेरि हरै मुसुकाइ रही अँचरा मुख दै वृषभानु किशोरी ॥

चन्द्रकला ने कृष्ण को 'चूनरी' उड़ा दी; बिसाखा ने माथे पर बिन्दी लगाकर उनकी आँखों में अंजन अँज दिया, परन्तु जब ललिता ने उन्हें कंचुकी पहनाने को हाथ बढ़ाया तो वह मुँह में आँचल देकर मुस्कराने लगी । यह मन्द मुस्कान ही स्मित है ।

बिहारी का यह दोहा भी बड़ा सुन्दर है—

सतर भौह रूखे बचन करति कठिन मन नीठि ।
कहा करों है जाति हरि हेरि हँसोंही दीठि ॥

मै क्या करूँ तुम्हारी ऐसी चेष्टाएँ देखकर मेरी हँसोंही दीठि हो जाती है अर्थात् मुँह से नहीं मेरी आँखों से हँसी निकलने लगती है यह अभिप्राय ।

× × . ×

हसित

जिसमें आंखे और कपोल पूर्णतया प्रफुल्ल हो जायें तथा कुछ कुछ दाँतों की कोर भी दिखाई देने लगे उसे हसित कहते हैं ।

केशवदासजी का उदाहरण देखिए—

जानै को पान खवावत क्यों हू गई लागि आँगुली ओठ नवीने ।
तैं चितयौ तबही तिहिं भाँति जु लाल के लोचन लीलि से लीने ।
बात कही हर ये हसि कैँ सुनि मै समुझी वे महा रस भीने ।
जानति हौ पिय के जियके अभिलाष सबै परिपूरण कीने ॥

यहाँ हरि का हँस कर बात कहना ही हसित है । हँसने में आँखों और कपोलों का पूर्णतः विकसित होना और कुछ दाँत दीखना-दोनों ही क्रियाएँ स्वाभाविक रूप से हो रही हैं ।

×

×

×

विहसित

जिसमें नेत्रों व कपोलों के विकास और दाँत दीखने के साथ साथ थोड़ा मनोहर शब्द भी सुन पड़े उसे विहसित कहते हैं । यथा—

काछे सितासित काछनी ' केशव ' पातुर ज्यों पुतरीन विचारो ।
कोटि कटाक्ष नचै गति भेद नचावत नायक नेह निहारो ।
बाजत है मृदुहास मृदंग सौ दीपति दीपन को उजियरो ।
देखत हौ हरि देखि तुम्हें यह होतु है आँखिन बीच अखारो ॥

यहाँ 'मृदुहास रूपी मृदंग' का बजना हँसी के साथ शब्द होने का चोतक है अतः विहसित है ।

सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ।

विहसे करुणा ऐन चितै जानकी लखन तन ॥

×

,

×

×

उपहसित या अवहसित

जिस हास्य में विहसित के सब लक्षणों के साथ-साथ नाक के नथने भी फूलने लगे, भौंह मटकने, नेत्र नाचने और कधा तथा सिर हिलने लगे उसे उपहसित या अवहसित कहते हैं। यथा—

प्रेम घने रस बैन सने गाति नैनन की रस मे न भई है ।
बाल वयक्रम दीपति देह त्रिविक्रम की गति लीलि लई है ।
भौंह चढाय सखीन दुराय इतै मुसुकाय उतै चितई है ।
'केशव' पाइहौं आज भले चितचोर जुकालि गुवारि गई है ॥

उपर्युक्त सबैया मे भौहें मटका कर इधर मुसकाना और उधर देखना आदि क्रियाओं का वर्णन होने से उपहसित है ।

+ + +
ज्यों-ज्यों पट भूटकति हँसति हटात नचावति नैन ।
त्यो त्यो परम उदार हू फगुवा देत बनै न ॥
इस दोहे मे भी हँसी के साथ ' नैन नचाने ' का वर्णन है ।

अपहसित

जिस हास्य में उपहसित के सब चिन्हों के साथ-साथ आँखों में आँसू भी आ जायँ उसे अपहसित कहते हैं । जैसे—

तैसी ये जगत ज्योति शीश शीशफूलन की,
चिलकत तिलक तरुणि तेरे भाल को ।
तैसी ये दशन पाँति दमकति 'केशौदास',
तैसो ये लसत लाल कण्ठ कण्ठमाल को ।
तैसी ये चमक चारु चिबुक कपोलनि की,
तैसो चमकत नाक मोती चल चाल को ।
हरे हरे हँसि नेक चतुर चपलनैनी,
चित चकचौंधे मेरे मुदनगुपाल को ॥

नायिका के जोर-जोर से हँसने के कारण उसकी दाँतावली दिखायी दे रही हैं, दाँतो की द्युति अर्थात् दमक से मदनगोपाल को चकाचौंध लगती है, इसीसे यशोदाजी कहती हैं—अरी हँसने वाली जरा धीरे धीरे हँस, जोर से हँसने में तेरे दमकते दाँत दीखते हैं, जिनके कारण मेरे मदनगोपाल को चकाचौंध लगती है ।

अतिहसित

जिस हास्य में पिछले सब हास्यों के लक्षणों के साथ-साथ खूब जोर से ठहाका मारा जाय और हाथ-पाँव इधर-उधर पटकें जायें तथा ताली पीटी जाय उसे अतिहसित कहते हैं । यथा—

गिरि गिरि उठि उठि रीझि रीझि लागै कण्ठ,
बीच बीच न्यारे होत छवि न्यारी न्यारी सों ।
आपुस में अकुलाइ आधे-आधे आखरनि,
आछी आछी बाते कहैं आछी एक ह्यारी सो ।
सुनत सुहाइ सब समुझि परै न कछू,
'केशौराइ' की सों दुरे देखे मै हुस्यारी सों ।
तरणि तनूजा तीर तरु पर चढ़ि ठाढे,
तारी दै दै हँसत कुमार कान्ह प्यारी सों ॥
यहाँ ताली दे-दे कर हँसना ही अतिहसित है ।

×

×

×

आचार्य केशवदास ने हास के केवल चार भेद किये हैं, अर्थात्—मन्दहास, कलहास, अतिहास और परिहास । इन भेदों के लक्षण भी हास के उपर्युक्त भेदों के लक्षणों से मिलते जुलते ही हैं ।

शोक

प्रिय वस्तु-वियोग, इष्ट-नाश और अनिष्ट की प्राप्ति के कारण मन में जो विकलता उत्पन्न होती है, उसे शोक कहते हैं ।

इष्ट जन-वियोग, विभव-नाश, बन्धनादि-जन्य दुःखानुभव आदि विभावों द्वारा शोक की उत्पत्ति होती है, और अश्रुपात, विलाप, वैवर्ण्य, स्वर-भंग अंग शैथिल्य, भूमिपतन, दीर्घनिःश्वास, रोदन आदि द्वारा वह व्यक्त किया जाता है।

रोदन शोक के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होता है। आचार्यों ने उसके तीन भेद किये हैं अर्थात्—आनन्दज, आर्तिज और ईर्ष्याकृत। आनन्दज में मारे खुशी के गाल फूल कर कुप्पा बन जाते हैं। आँखों से आँसू निकलने लगते हैं, और रोमांच भी हो आता है। आर्तिज में आँसुओं की झड़ी लग जाती है, शारीरिक गति और चेष्टाओं में शैथिल्य आ जाता है, ज़मीन पर गिर पड़ना, कराहना, विलाप करना आदि होते हैं। ईर्ष्या से उत्पन्न रोदन में ओठ और गालों का फड़कना, शिरः कम्पन, भौंहे चढ़ना, दीर्घ श्वासेच्छ्वास आदि क्रियाएँ होती हैं।

मूर्ख स्त्री-पुरुषों और नीच स्वभाव वालों में दुःखजन्य शोक होता है, वे दुःख के कारण ढाड़ मार-मार कर बुरी तरह रोते हैं, परन्तु उत्तम और मध्यम प्रकृति वाले लोग शोक जनित दुःख को धैर्य और साहस के साथ सह लेते हैं।

शोक के उदाहरण में पद्माकरजी का सवैया पढिये—

मोहिं न सोच इतो तन प्रान को जायँ रहँ कै लहँ लघुताई ।
एहु न सोच घनो 'पदमाकर' साहिबी जो पै सुकएठ ही पाई ।
सोच यहै इक बालि बधे पर देहिगो अगद को युवराई ।
यो बच बालि-वधू के सुने करुनाकर कों करुना कछु आई ॥

यहाँ बालि-वधू का विलाप सुनकर श्रीरामचन्द्रजी के हृदय में करुणा उत्पन्न होना ही शोक है।

×

×

×

दीन मलीन है अग बिहंग पर्यो छिति मे छत खिन्न दुखारी ।
राघव दीनदयालु कृपालु कों देखि दुखी करुना भई भारी ।

गीघ कों गोद में राखि दयानिधि नैन सरोजन में भरि बारी ।
बारहि बार सुघारेउ पंख जटायु की धूरि जटान सों भारी ॥
यहों जटायु की करुण दशा देखकर भगवान् राम के हृदय मे करुणा
का समुद्र उमड़ना ही शोक है ।

इस प्रसंग में रामचरितमानस का उदाहरण देखिए—

× × ×
सुनहु प्राणपति भावति जीका ।
देहु एक बर भरतहि टीका ॥
दूसर बर माँगौ कर जोरे ।
नाथ ! मनोरथ पुरवहु मोरे ॥
तापस वेश विशेष उदासी ।
चौदह बरस राम बनबासी ॥
सुनि तिय वचन भूप उर शोक ।
शशि कर छुवत विकल जिमि कोक ॥

यहों 'राम-वनवास' की बात सुन कर दशरथजी का दुखित होना
वर्णित है, यही शोक है ।

क्रोध

शत्रुओं द्वारा किये गए अपमानादि के कारण हृदय मे चोट लगने
से जो उद्वेग या मनोविकार उत्पन्न होता है, उसे क्रोध कहते हैं ।

वाद-विवाद, भगड़े-भभट, प्रतिकूलता आदि विभावों से क्रोध
उत्पन्न होता और नाक के नथुने फुलाने, आँखें चढ़ाने, आँठ चबाने
एवं गाल फड़काने आदि अनुभावों द्वारा वह व्यक्त किया जाता है ।

रामचरित मानस का उदाहरण देखिए—

रे नृप बालक कालवश, बोलत तोहि न सँभार ।
धनुही सम धिपुरारि धनु विदित सकल संसार ॥

बोले चितय परशु की ओरा ।
रे शठ सुनेसि प्रभाव न मोरा ॥
भुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही ।
विपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही ॥
सहसबाहु भुज छेदन हारा ।
परशु विलोकि महीप कुमारा ॥
× × ×
जब तेहि कीन्ह राम की निन्दा ।
क्रोधवन्त तब भयेउ कपिन्दा ॥
कटकटाइ कपिकुंजर भारी ।
दौऊ भुजदड तमकि महि मारो ॥

उपर्युक्त पक्तियों में शिवजी के धनुष टूटने पर परशुराम का कोप और राम की निन्दा सुनने के कारण महावीर हनुमान का रोष वर्णित है, यही क्रोध है—

और देखिए —

गौर शरीर भूति भलि भ्राजा ।
भाल विशाल त्रिपुंड विराजा ॥
सीस जटा शशिवदन सुहावा ।
रिस बस कछुक अरुन है आवा ॥
× × ×

उत्साह

दान, दया, शूरतादि के कारण उत्तरोत्तर बढ़ी हुई इच्छा शक्ति तथा कार्य करने में तत्परता, दृढता और प्रसन्नता को उत्साह कहते हैं ।

खेदहीनता, सामर्थ्य, धैर्य, पराक्रम आदि विभावों से उत्साह उत्पन्न होता है । इसका आश्रय स्थान उत्तम प्रकृति के पात्र हैं । धैर्य न त्यागना, काम में लगे रहना आदि अनुभावों से उत्साह की अभिव्यक्ति होती है ।

रसतरंगिणीकार ने शौर्य, दान अथवा दया द्वारा उत्पन्न परिमित मनोविकार को उत्साह कहा है ।

उत्साह तीन प्रकार का होता है । १— बल विद्या प्रताप आदि से पैदा हुआ । २—आर्द्रता आदि से पैदा हुआ और ३—दान सामर्थ्यादि-जनित ।

उत्साह के उदाहरण में ललित कवि का निम्नलिखित छन्द कैसा अच्छा है—

अब तो न सही जात पीर रघुवीर घीर,
तीर से लगे हैं बैन आयसु जो पाऊँ मै ।
'ललित' मरोरि महि वारिधि मे डारों बोरि,
तोरि दिगदन्तिन के दन्तन दिखाऊँ मै ।
रावरे प्रताप बल साँची कहौ रघुवीर,
मेरु लै उखारि छिति छोर लागि धाऊँ मै ।
अटक रहे हौ कहा मुखते निकारिए तो,
भटक शरासन को चटक चढ़ाऊँ मै ॥

यहाँ 'मही' को मरोड़ कर समुद्र में डुबो देने, सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेकने और शरासन को चटाक से चढ़ा देने का वर्णन ही उत्साह है ।

पद्माकरजी का उदाहरण भी पढ़ लीजिए—

इत कपि रीछ उत राछसन ही की चमू
डंका देत बंका गढ लंका ते कढै लगी ।
कहै 'पदमाकर' उमड जगही के हित
चित्त में कछूक चोप चाव की चढै लगी ।
बातरिन के बाहिय को कर मे कमान कसि.
बोई धूर धान आसमान मे मढै लगी ।
देखतै बनी है दुहूँ दल्ल की चढ़ा चढ़ी मे,
राम दग हूँ पै नेक लाली जो चढै लगी ॥

यहाँ युद्ध की साज सज्जा देखकर वीरों के हृदयों में चाव की चमक पैदा होना वर्णित है, यही उत्साह है ।

भय

भयानक रूप-दर्शन, भयकर शब्द श्रवण, अथवा अपराधादि के कारण किसी भयानक शक्ति द्वारा उत्पन्न चित्त को विकल कर देने वाला विकार भय कहलाता है ।

गुरुजनों अथवा राजा का अपराध, जन-शून्य घर या स्थान, भाड़ी, पर्वत, दुर्दिन, अन्धकार, रात्रि में फिरने वाले उल्लू आदि पक्षियों अथवा हिंस जन्तुओं के शब्द आदि विभावों द्वारा भय उत्पन्न होता है । स्त्री और नीच प्रकृति पात्र इसके आश्रय स्थान हैं । हाथ पैरों का काँपना, हृदय का धड़कना, मुख का सूखना, पसीना आना (स्वेद), शरीर का शिथिल हो जाना, एकाएक चीख पड़ना आदि अनुभावों द्वारा भय व्यक्त किया जाता है ।

रसतरंगिणीकार ने भय का लक्षण इस प्रकार किया है—

“छेड़ने या ललकारने के कारण क्रुद्ध हुए सिंहादि प्राणियों द्वारा उत्पन्न अपरिपूर्ण मनोविकार भय कहाता है ।”

भय का उदाहरण देखिए—

चित्तै चित्तै चारों ओर चोंकि चोंकि परै त्योही,
जहाँ तहाँ जब तब खटकत पात हैं ।
भाजन सो चाहत गँवार ग्वालिनी के कछू,
डरत डराने से उठाने रोम गात हैं ।
कहै 'पदमाकर' सुदेखि दशा मोहन की,
शेषहु महेशहु सुरेशहु सिहात हैं ।
एक पायँ भीत एक पायँ भीत काँधे घरे,
एक हाथ छींको एक हाथ दधि खात हैं ॥

यहाँ इधर-उधर सशक दृष्टि से देखने, पत्ते खटकने के कारण डर से रोमाञ्च खड़े होने आदि का वर्णन ही भय है ।

इस सम्बन्ध में दास जी की उक्ति भी पढ़ने लायक है, देखिए—

आयो सुनि कान्ह भूल्यो सकल हुस्यारपन,
स्यारपन कंस को न कहत सिरातु है ।
ब्याल बर पून और चून नर छार खेत,
भभरि भगाय भये भीत रहि जातु है ।
'दास' ऐसी डर डरी मति हेतु हाउ ताकी,
भर भरी लागु मन थरथरो गातु है ।
खर हू के खरकत धकधकी घरकत,
भौन कौन सिकुरतु सरकतु जातु है ॥

यहाँ कृष्ण के डर के कारण कंस का गीदडपन वर्णित है । इस समय कंस की ऐसी हालत हो रही है कि तिनका के खड़कने में भी उसकी चिन्धी बँध जाती है ।

राम चरित मानस का उदाहरण देखिये, इसमें शूर्पणखा की भयङ्करता का कैसा भयावह वर्णन है—

तब खिसियान राम पहुँ गई ।
रूप भयकर प्रगटत भई ॥
बिथुरे केश रदन विकराला ।
भृकुटी कुटिल करण लागि गाला ॥
सीतहि सभय देखि रघुराई ।
कहा अनुज सन सैन बुभाई ॥

जुगुप्सा (ग्लानि)

किसी के दोषों का ज्ञान होने पर मन में उसके प्रति जो घृणा उत्पन्न होती है उसे जुगुप्सा या ग्लानि कहते हैं ।

हृदयोद्वेजक अर्थात् हृदय को अप्रिय लगने वाले दृश्य देखने या ऐसे ही शब्द सुनने आदि विभावों द्वारा जुगुप्सा की उत्पत्ति होती है। स्त्री और अधम प्रकृति पात्र इसके आश्रय स्थान हैं। थूकने मुँह सिकोड़ने नाक मूँदने आँख मीचने आदि अनुभावों द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है।

रस तरंगिणीकार के मत से अप्रिय वस्तु के देखने, छूने या स्मरण करने से उत्पन्न हुई अपरिपूर्ण मनोविकृति का नाम जुगुप्सा है।

जुगुप्सा के उदाहरण में कविवर पद्माकर की उक्ति सुनिए—

आवत गलानि जो बखान करौं ज्यादा यह,

मादा मल मूत और मज्जा की सलीती है।

कहे 'पदमाकर' जरा तो जागि भीजी तब,

छीजी दिन रैनि जैमे रेनु ही की भीती है।

सीतापति राम के सनेह बस बीती जो पै,

तो तो दिव्य देह यमयातना ते जीती है।

रीती राम नाम तैं रही जो बिना काम तो या,

खारिज खराब हाल खाल की खलीती है ॥

यहाँ पद्माकरजी ससार के क्षणिक भोग विलासो को त्याज्य एवम् घृणास्पद समझ रामभक्ति करने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि रामभक्ति के बिना यह शरीर हाड़-मांस और मल-मूत्र के पुतले से अधिक और कुछ नहीं है।

इस प्रसंग में नीचे लिखा सवैया भी बड़ा सुन्दर है—

पालि लिये दधि दूध मही जिन ऊधम ही तिनहू सों तिनाने।

साथी महा हय हाथी भुजग बछा वृष मातुल मारि बिनाने।

कूबरी दूबरी जाति न ऊबरी डूबरी बात सु साँची किनाने।

ज्ञान गहीरिन सों रुचि मानी अहीरिन सों घनस्याम घिनाने ॥

कृष्ण जी गोपियों (अहीरिनो) से तो प्रेम रखते हैं, परन्तु अहीरों से घिनाते हैं। क्या खूब !

और देखिए—

सूपनखा को रूप लखि, सवत रुधिर विकराल,
तिय सुभाव सिय हठि कछुक, मुख फेर्यो तिहि काल ।

×

×

×

जु गुप्सा के उदाहरण में सेनापतिजी का नीचे लिखा कवित्त कितना उत्कृष्ट है—

महा मोह कंदनि में जगत निकंदिन मे,
दिन दुख ददिन में जात है बिहाय कै ।
सुख को न लेस है, कलेस सब भाँतिन को,
‘सेनापति’ याही ते कहत अकुलाय कै ।
आवे मन ऐसी घरबार परिवार तजौ,
डारौ लोक लाज के समाज बिसराय कै ।
हरिजन पुंजनि मे वृन्दावन कुंजनि में,
रहौ बैठि छाँह कहूँ वृच्छन की जाय कै ॥

यहाँ ससार के दुःखों से विदग्ध और त्रस्त होने के कारण किसी एकान्त स्थान में बैठकर भगवद्भक्ति करने की इच्छा प्रकट की गई है । यह सासारिक व्यापारों से घृणा अथवा विरति होना ही जुगुप्सा है ।

विस्मय (आश्चर्य)

किसी लोकोत्तर वस्तु के दर्शन, स्पर्शन, श्रवण आदि से उत्पन्न हुए चित्तविकार को विस्मय (आश्चर्य) कहते हैं—

जो समझ में न आवे ऐसी वस्तु देखने, सुनने या स्मरण करने आदि विभावों से विस्मय उत्पन्न होता है । अर्थात् फाड़ने, मुँह फैलाने, स्तब्ध हो जाने आदि अनुभावों द्वारा विस्मय की अभिव्यक्ति होती है ।

रसतरंगिणीकार ने चमत्कार के दर्शन, स्मरण अथवा श्रवण से उत्पन्न हुए अपरिपूर्ण मनोविकार को विस्मय कहा है ।

सेस महेस दिनेस गनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावै ।
जाहि अनादि अनन्त अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावै ।
नारद से सुक ब्यास रहे पचि हारे तऊ पुनि पार न पावै ।
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचावै ।

जिन कृष्णजी की महिमा को शेष-महेश भी नहीं गा सकते हैं उनको ये अहीर की छोकरियाँ 'छछियाभर' छाछ के लिए नाच नचाती हैं, यह कितने ताज्जुब की बात है ।

दूसरा उदाहरण देखिए—

शख रचे हरिनान के सींग के चीन्ह कियो तिहि मे बहुधा को ।
काहू को काहू न ले तिहिते रच्यौ बबा को ददा को घघा को ।
काहू के हाथ दियो है तता लिखयो काहू के हाथ दियो है जसा को ।
'दत्त' तहाँ ही सिपाहिन में लखयो बाल के हाथ मे सींग ससा को ॥

इसमे हिरनों के सींगों से हथियार बनाकर उन पर 'बबा' 'ददा' और 'घघा' के चिह्न अङ्कित करने का वर्णन है, यह एक प्रकार की नई सेना है । इसी सेना में एक 'बाल' के हाथ में शशक शृंग भी दिखाई दे रहा है । है न विस्मय की बात !

आश्चर्य का नीचे लिखा उदाहरण भी कैसा सुन्दर है—

देखत क्यों न अपूरव इन्दु मे द्वै अरविन्द रहे गहि लाली ।
त्यो 'पदमाकर' कीरवधू इक मोती चुगै मनो है मतवाली ।
ऊपर ते तम छाया रख्यो रवि की दब ते न दबै खुल ख्याली ।
यो सुनि बैन सखी के विचित्र भये चित चकित से बनमाली ॥

उपर्युक्त सवैया में एक रूपक द्वारा नायिका के मुखमंडल, नेत्र, नासिका और केशों का वर्णन किया गया है, जो विचित्र होने के कारण आश्चर्य जनक है । यहाँ पद्माकरजी ने इन्दु, अरविन्द, कीरवधू और तम की क्रमशः मुखमंडल, नेत्र, नासिका और केशों से समता की है ।

फिर ऐसी कीरवधू जो मोती चुगती है, और ऐसे अरविन्द जो इन्दु-द्युति में विकसित हैं, और ऐसा अंधेरा जो रवि के प्रबलता की आगे भी ठहरा हुआ है !

निर्वेद या शम

विशेष ज्ञान होने के कारण सासारिक इच्छाओं के न रहने या उनमें निन्दा-बुद्धि पैदा होने अथवा परिश्रम विफल होने आदि की अवस्था में जो पश्चात्ताप पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होता है, उसे निर्वेद (शम) कहते हैं ।

उदाहरण के लिए नीचे लिखा सवैया पढ़िए—

है थिर मन्दिर में न रह्यो, गिरि कन्दर में न तप्यो तप जाई ।
राज रिभाये न कै कविता रघुराज कथा न यथामति गाई ।
यो पछितात कछू ' पदमाकर ' कासों कहों निज मूरखताई ।
स्वारथ हूँ न कियो परमारथ यों ही अकारथ वैस बिताई ॥

न परमार्थ-साधन हुआ न स्वार्थ सिद्धि हुई सारा जीवन यों ही व्यतीत होगया, इस मूर्खता के लिए पश्चात्ताप करना ही निर्वेद है ।

×

×

×

सूरदासजी ने निम्नलिखित पद में निर्वेद का कैसा स्वाभाविक वर्णन किया है, देखिए—

अब मैं जानी, देह बुढ़ानी ।

शीश पाँव घर कह्यो न मानत तनकी दशा सिरानी ॥

आन कहत आनै कहि आवत नाक नैन बहै पानी ।

मिटि गई चमक दमक अँग अँग की अधरन की सुसकानी ॥

नारी गारी बिन नहीं बोलै भूत करत नहीं कानी ।

घर में आदर कादर को सों खीभत रैनि बिहानी ॥

नाहिं रही कछु सुधि तन मन की भई है बात पुरानी ।

' सूरदास ' भगवन्त भजन बिन कैसे तरे ये प्रानी ॥

बुढापा आगया, गर्दन डगमगाने लगी, सुनने और देखने की शक्तियाँ मन्द पड़ गईं, न स्त्री ठीक ढंग से बात करती है, न पुत्र आदर-भाव दिखाते हैं। सारी आयु यों ही बीत गई भगवद्भक्ति की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, न जाने अब यह जीवन-नैया कैसे पार लगेगी।

शङ्करजी का निर्वेद विषयक निम्नलिखित पद कैसा सुन्दर है—

खेलत खेल घने दिन बीते ।

हँस-हँस दाव अनेक लगाये एकहु बार न जीते ।

जुरि-मिल लूटि लै गए ज्वारी करि करि मन के चीते ॥

अब लौं निपट नाश की मदिरा रहे मोह वश पीते ।

‘ शङ्कर ’ सर्वस हारि चले हम हाथ पसारे रीते ॥

जीवन भर तो मोह-माया मे फँसे नाश की मदिरा मुँह में उँडेलते रहे; काम-क्रोध, मोह, लोभ, मद आदि को मौक़ा मिल गया, उन्होंने दिन दहाड़े लूट मचानी शुरू की; बल-वैभव, चारित्र्य जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। पहले से कुछ चेत होता तो इस विनाश की क्यों नौबत आती। अन्त समय में क्या रक्खा है, अब तो रीते हाथों ही दुनिया से कूच करना पड़ेगा।

रस

स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार नाना भाँति के शाकों में तरह-तरह के मसालों के संयोग से रसोत्पत्ति होती है, जिस प्रकार शकर, अनार, सुगन्धित द्रव, गुलाब तथा नारंगी के संयोग से रस या शर्बत वगैरह की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना भाँति के भाव-विभावों के मेल से स्थायी भाव में रसत्व का प्रादुर्भाव होता है। रस का आस्वादन किया जाता है, इसीसे इसका नाम रस पड़ा। माधुर्य आदि रसों की शृंगारादि रसों के आस्वादन से तुलना किस प्रकार की जा सकती है? जिस प्रकार विविध मसालों के संयोग से बनाए भोजन का आस्वादन कर, मनुष्य रस का आनन्द प्राप्त करता है, उसी प्रकार भाव, विभावों में संयुक्त स्थायी भावों में शृङ्गारादि रसों के रसत्व का आस्वादन सहृदयजन करते हैं। जिस प्रकार स्वाद युक्त भोज्य पदार्थ का रसना द्वारा प्रीतिपूर्वक आस्वादन किया जाता है, उसी प्रकार मन द्वारा काव्य-रसों का आस्वादन किया जाता है। जिस प्रकार कोई रस भाव विना नहीं होता, उसी प्रकार कोई भाव रस विना नहीं होता। जैसे शाक और मसाले मिलकर ही स्वाद की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार भाव और रस एक दूसरे के सहायक हैं। जिस प्रकार बीज में से वृक्ष और वृक्ष से पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार रसों से भावों की उत्पत्ति होती है।

साधारणतः नौ रस माने गये हैं, अर्थात् शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त। साहित्यदर्पणकार ने दशवाँ वात्सल्य रस भी माना है, कुछ आचार्यों ने भक्ति रस का भी उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त और भी कई रस माने गए हैं। परन्तु नाट्य-

शास्त्रकार भरत मुनि ने आठ ही प्रकार के रस माने हैं। उनका मत है कि शृङ्गार, रौद्र, वीर और बीभत्स ये चार मूल रस हैं। इन मूल रसों से हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक ये चार रस और उत्पन्न होते हैं, यथा शृंगार के अनुकरण से हास्य रस, रौद्र के कर्म से करुण, वीर के कर्म से अद्भुत और बीभत्स के दर्शन से भयानक रस उत्पन्न होते हैं। अस्तु,

शृङ्गार रस

जब रति (स्थायी) भाव पूर्णतया पुष्ट और चमत्कृत होता है, तब उसको 'शृंगार रस' कहते हैं।

कामदेव के अंकुरित होने का नाम शृङ्ग है। शृंग की उत्पत्ति का कारण—अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त रस—शृङ्गार रस कहाता है। साधारण लोग भी मनुष्य के शरीर में कामदेव के अंकुरित होने को 'सीग निकलने के नाम से पुकारते हैं। जब कोई व्यक्ति कुमारवस्था को पार कर यौवन में प्रवेश करने लगता है, तो प्रायः कहा जाता है—'अब उसके सीग निकलने लगे हैं।' इस सीग निकलने से अभिप्राय उसके शरीर में यौवन-चिन्हों और हृदय में शृङ्गारी भावों के उत्पन्न होने से ही है।

शृङ्गार रस का स्थायी भाव 'रति,' देवता विष्णु भगवान अथवा श्री कृष्ण, और वर्ण श्याम होता है।

नायक और नायिका इसके आलम्बन होते हैं। साहित्यदर्पणकार ने केवल दक्षिणादि नायकों और परस्त्री एव अनुराग शून्य वेश्याओं को छोड़ कर शेष नायिकाओं को शृंगार रस का आलम्बन माना है।

सखा, सखी, वन, उपवन, बाग, तड़ाग, चन्द्र, चोंदनी, चन्दन, भ्रमर-गुञ्जन, कोकिल-कूजित, ऋतु-विकास आदि शृङ्गार रस के उद्दीपन विभाव हैं।

भ्रूभग, अपाग वीक्षण, मृदु मुसकान, हाव, भाव आदि शृंगार रस के अनुभाव होते हैं।

उग्रता, मरण, आलस्य, और जुगुप्सा को छोड़ कर शेष निर्वेदादि सम्पूर्ण भाव इसमें संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं ।

शृङ्गार रस के भेद

शृंगार रस के संयोग या सभोग शृंगार और वियोग या विप्रलम्भ शृङ्गार ये दो भेद माने गए हैं ।

संयोग या सभोग शृङ्गार वर्णन

एक दूसरे के प्रेम में पगे नायक-नायिका जहाँ परस्पर दर्शन, स्पर्शन, संलापादि करते हैं, वहाँ संयोग या सभोग शृंगार होता है ।

कविवर रसखान ने आगे लिखे कवित्त में संयोग शृङ्गार का कैसा सुन्दर वर्णन किया है, देखिए --

छूट्यौ गेह काज लोक लाज मनमोहिनी को,
भूल्यौ मनमोहन को मुरली बजाइबो ।
देखो दिन द्वै मे रसखान' बात फैलि जैहै,
सजनी कहाँ लौं चन्द हाथन दुराइबो ।
कालि हू कलिन्दी तीर चितयो अचानक ही,
दोउन को दोऊ मुर मृदु मुसिकाइबो ।
दोऊ परें पैर्यो दोऊ लेत हैं बलैर्यौं, उन्हें—
भूलि गई गैर्यौं इन्हें गागरि उठाइबो ॥

परस्पर प्रेमानुरक्त मनमोहन और मनमोहिनी की कैसी विचित्र अवस्था होगई है । उन्होंने मुरली तक का बजाना छोड़ दिया और इन्होंने घर के काम काज तथा लोक-लाज को भी तिलाञ्जलि दे दी । सखी, मैंने तो कल भी कालिन्दी-कूल में दोनों को बारबार परस्पर अवलोकन कर मन्द-मन्द मुस्कराते तथा एक दूसरे की बलैर्यौं लेते देखा है । दोनों प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि न उन्हें गायों की सुध थी और न इन्हें गागर भरने का होश था ।

यहाँ रति स्थायी मनमोहन और मनमोहिनी दोनो का आलम्बन विभाव हैं। मुस्कराना नायक-नायिका का चेष्टा और कालिन्दी का कलित कूल दोनों उनके भाव हैं। परस्पर पैयाँ पड़ना और बलैयों लेना ये दोनों अनुभव करते हैं। तन-मन की सुध बिसरा कर गाय चराना और गागर उठाना भूल जाना, मोह संचारी हैं। इसमें नायक और नायिका दोनो बलैयों लेने और पैयाँ पड़ने के रूप में परस्पर दर्शन, स्पर्शन, संलाप आदि कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सयोग शृंगार हुआ।

ऐसे ही भाव को कविवर चिन्तामणि ने भी एक कवित्त में व्यक्त किया है, उसे भी देख लीजिए—

दोऊ जन दोऊ को अनूप रूप निरखत,
पावत कहुँना छवि सागर को छोर हे ।
'चिन्तामनि' केलि के कलानि के बिलासन सो,
दोऊ जन दोउन के चित्तनि के चोर हैं ।
दोऊ जने मन्द मुसकनि सुधा बरसत,
दोऊ जने छुके मोद मद दुहुँ और हैं ।
सीता जू के नैन रामचन्द्र के चकोर भए,
राम नैन सीता मुख चन्द्र के चकोर हैं ॥

उपर्युक्त पद्य में भी, राम-सीता दोनो के हृदयों में उद्बुद्ध पारस्परिक प्रेमानुरागरूप रति स्थायी है, जिसके आलम्बन राम-सीता दोनो हैं। दोनों की मुस्कराना आदि चेष्टाएँ रति के उद्दीपन हैं। एक दूसरे के मुखचन्द्र को चकोर की भाँति निरखना आदि अनुभाव हैं।

कविवर देवजीका नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने लायक है।

आपुस में रस में रहसै बहसै बान राधिका कुजबिहारी ।
श्यामा सराहत श्याम की पागहिं श्याम सराहत श्यामा की सारी ।
एकहि दर्पन देखि कहे तिय नीक लगो पिय प्यो कहे प्यारी ।
'देव' सुवालम बाल को बाद बिलोकि भुईं बाल में बलिहारी ॥

कृष्ण राधिका परस्पर रस-रहस्य की बातें और एक दूसरे के वेश-भूषा की प्रशंसा करते नहीं अघाते । कभी वे दोनों एक ही दर्पण में एक साथ देखते तथा अन्योन्य के रूप-लावण्य को सराहते हैं । यही सयोग शृंगार है ।

सयोग शृंगार के चुम्बन, आलिङ्गन आदि अनेक भेद हैं । इसमें षड्भूत, सूर्य, चन्द्र, वन, उपवन, प्रभात, सन्ध्या, रात्रिक्रीड़ा आदि सब का वर्णन होता है । विना वियोग के संयोग शृंगार की पुष्टि नहीं मानी गई ।

वियोग या विप्रलम्भ-शृंगार

जब अनुराग के उत्कट होने पर भी प्रिय-सयोग का अभाव रहता है, तब वह वियोग या विप्रलम्भ शृंगार कहाता है । इसमें नायक-नायिका के परस्पर वियोग का वर्णन होता है । देखिए कविवर देव अपने एक सवैया में वियोग शृंगार का वर्णन किस प्रकार करते हैं—

या बतियाँ छुतियाँ लहकै दहकै बिरहागिनी की उर आँचे ।
वा बँसुरी को परो रसुरी इन कानन मोहनी मन्त्र सी माँचे ।
कौ लागि ध्यान धरै मुनि लौ रहियो कहुिये गुन वेद सौ बाँचे ।
सूक्त नाहिं न आन कछू निसि द्यौस वेई अखियान में नाचै ॥

कृष्ण के वियोग में किसी ब्रजवाला की उक्ति है । वह कहती है—
मोहन की वशी की मधुर ध्वनि कानों में मोहन मन्त्र-सा पड़ गई है,
जिससे कान बार-बार उसे ही सुनने के लिए आकुल रहते हैं । भला मुनियों की भाँति यों कब तक उनका ध्यान करती रहूँ, उनके गुणानुवाद का वेद-मन्त्रों की तरह कब तक गान किया जाय । अब तो मुझे कृष्ण के सिवा और कुछ सूक्तता ही नहीं । दिन-रात उन्हीं की मोहिनी मूर्ति आँखों में नाचती रहती है ।

वियोग शृंगार के वर्णन में कविवर पद्माकर का नीचे लिखा सवैया भी देखने लायक है, उनकी वियोगिन किस साहस के साथ कहती है—

धीर समीर सुतीर ते तीछन ईछन कैसेहु ना सहती में ।
 त्यौ पदमाकर' चाँदनी, चन्द, चितै चहुँ और न चौकती जी में ।
 छाय बिछाय पुरैन के पातन लेटती चन्दन की चबकी में ।
 नीच कहा बिरहा करतो सखि होती कहूँ जु पै मीच मुठी में ॥

हे सखि, यदि मृत्यु मेरे हाथ में होती, तो इस नीच विरह को तो मैं अच्छी तरह देख लेती । यह जो शीतल, मन्द, सुगन्ध मलय-समीर मुझे तीर से भी तीखा लग रहा है, चाँदनी और चन्द्र जो मुझे अँगारे जैसे जान पड़ते हैं, इन सब का तो इलाज सहज ही हो सकता था । बस चन्दन-पंक से पुते पुरैन के पत्ते बिछाकर पड़ रहती, विरह-जनित विदाहक दाह दूर हो जाता । परन्तु खेद तो यह है कि कम्बख्त काल अपने हाथ में नहीं है ।

वियोग शृङ्गार के भेद

वियोग शृङ्गार के तीन भेद हैं—१—पूर्वानुराग, २—मान और ३—प्रवास । किसी किसी ने इसका एक भेद करुण भी माना है, जो नायक-नायिका में से किसी एक के मर जाने पर दूसरे के दुखी होने से होता है ।

पूर्वानुराग

प्रथम दर्शन द्वारा नायक-नायिका के परस्पर अनुरक्त होने पर भी किसी कारण मिलन न हो सकने से उनके हृदय में जो प्रेम पूर्ण अधीरता उत्पन्न होती है, उसे पूर्वानुराग कहते हैं ।

कविवर पद्माकर ने पूर्वानुराग का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

मधुर मधुर मुख मुरली बजाय धुनि,

धमक धमारन की धाम धाम कै गयो ।

कहै 'पदमाकर' त्यौ अगर अबीरन की,

करि कै घला घली छला छली चितै गयो ।

कोहै वह ग्वालनी ! गुवालन के संगु माहिं,

छैल छवि वारो रस रंग में भिजै गयो ।

वै गयो सनेह फिर छवै गयो छरा को छोर,
फगुआ नै दै गयो हमारो मन लै गयो ॥

सखी, वह ग्वालों के साथ मे सौवला सलौना छबीला छैल कौन था,
जो मधुर-मधुर मुरली बजाकर तथा धाम-धाम (घर-घर) धमार गान की
धूम मचा गया और रसरंग बग्सा गया । इतना ही क्यों वह तो अपनी
तिरछी चितवन से मेरे हृदय मे प्रेम का बीज भी बो गया है । इन सबसे
भी बढकर बात यह हुई कि उमे मेरे साथ होली खेलने के कारण जो
मुझे फगुआ देना चाहिये था, सो तो वह दे नहीं गया, उलटा मेरे मन
को ले गया ।

यहाँ कृष्ण के प्रथम दर्शन से ब्रजवाला के हृदय मे प्रेमंकर
उत्पन्न हो गया और उसके कारण अब वह मोहन के सम्बन्ध मे जानना
चाहती है कि वह कौन था । यह उंसुकता या अधीरता ही पूर्वानुराग
है । और भी देखिये—

मोहि तजि मोहनै मिल्यौ है मन मेरो दौरि,
नैन हू मिले हैं देखि देखि सौवरो सरीर ।
कहै 'पदमाकर' त्यों तान मय कान भए,
हौ तो रही जकी थकी भूली-गी भ्रमी सी वीर ।
ये तो निरदई दई इनकों दया न दई,
ऐसी दसा भई मेरी कैस धरो मन धीर ।
हो तो मन हू के मन, नैनन के नैन जो पै,
कानन के कान तो ये जानते पराई पीर ॥

सखी, उस सौवरे को देखते ही आँखे उसी से जा मिलीं और मन भी
दौड़ कर उसी के पास चला गया । और तो और उसके मृदु भाषण
और मुरली की मधुर तान सुन कान भी तो काबू से बाहर हो गइ है ।
अब मेरी जो दशा हो रही है, उसे मैं ही जानती हूँ । ये तीनों के तीनों
तो अब्बल दर्जे के निर्दय हैं, देव ने इन्हें दारा भी तो दया नहीं दी । अला

ये मेरे कण्ठ को कैसे जान सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है—‘जा के पाँव न फटी बिन्वाई, सो का जानै पीर पराई।’ अगर मन के मन होता, कानों के भी कान होते और आँखे भी आँखे रखती होतीं तो इनको ‘पराई पीर’ का अनुभव होता।

यहाँ कृष्ण के दर्शन से हृदय में प्रेम-भाव उत्पन्न हो जाने पर गोरिका उनमें मिल न सकने के कारण जो अधीर और दुखी हो रही है, वही पूर्वानुराग है।

इस प्रसंग में नीचे लिखा पद्य भी कितना उत्कृष्ट है—

चहत दुरायो तो सो कौ लागि दुराऊँ दैया,
 साँची हौ कहौ री बीर सब सुख कान दै।
 साँवरों सो ढोठा एक ठाँवौ तीर जमुना के,
 मो तन निहार्यौ नीर भरि अखियान दै।
 वा दिन ते मेरी ही दसा कौ कल्लु बूमै मनि,
 चाहै जो जिवायो मोहि वाही रूप दान दै।
 हा हा करि पाँय परौ रह्यौ नाहिं जाय घर,
 पनघट जान दै री पन घट जान दै ॥

लोक लाज भले ही जाती रहै, पर अब मैं उस ‘साँवरे ढोठा’ के दर्शन किये बिना नहीं रह सकती। बस अब तू मुझे पनघट पर जाने दे। मिलने के लिए अनुराग-जनित उत्सुकता अथवा प्रेम-पूर्ण अधीरता का कैसा सुन्दर वर्णन है।

दर्शन के भेद

प्रत्यक्ष देखकर, चित्र देखकर, स्वप्न में देखकर अथवा तत्सम्बन्धी चर्चा सुनकर—चार प्रकार से दर्शन होता है, अतः इन कारणों के अनुसार दर्शन के चार भेद माने गए हैं। अर्थात् प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र-दर्शन, स्वप्न दर्शन और श्रवण दर्शन।

प्रत्यक्ष दर्शन

जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को आँखों से देखकर उसके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। उदाहरण देखिए—

जादूगर साँवरो न जानी कस जादू करत्यू,

‘परिडत प्रवीन’ हौँ बिकानी प्रान प्यारे पै ।

आँगन सौं जात अटा नटकी बटा सी गैल—

छैल की छुटा सी छुवि देखति हौ द्दारे पै ।

धूँघट के ओट चोट लागी इन नैनन मे,

ऐसी लोट पोट भई पीत पट बारे पै ।

आई पनघट पै न घर की न घाट की हों,

नौखोरी नवल नट अटक्यौ हमारे पै ॥

द्वार पर होकर जाते हुए, छैल की छुटा क्या देखी, उसने तो मेरे ऊपर जादू-सा कर दिया। मैं उसके हाथ बिक-सी गई, और दिन-भर नट की तरह आँगन से अटा पर और अटा से आँगन में चढ़ती-उतरती रहती हूँ कि शायद कहीं वह दिखाई पड़ जाय। सखी धूँघट की ओट रहने पर भी इन नैनों में उसकी तिरछी चितवन की ऐसी चोट लगी है, कि मैं लोट पौट हों गई हूँ। मैं यहाँ पनघट पर इस आशा से आई थी कि शायद कहीं दर्शन हो जाय, लेकिन अब न घर की रही न घाट की, (दर्शनों की आशा से घाट पर ही बैठी रहना चाहती है, परन्तु बिलम्ब हो जाने के भय से, घर चले जाने को भी जी चाहता है, द्विविधा में पड़ गई है) क्या बताऊँ, यह अनौखा नटनागर तो बुरी तरह मुझसे अटका है।

देखिये पद्माकरजी दर्शन के सम्बन्ध में क्या लिखते हैं—

आई भली हौ चली सखियान में, पाई गोविन्द के रूप की भाँकी ।

त्यू ‘पदमाकर’ हारि दियो ‘हिय काज कहाँ अरु लाज कहाँ की ।

है नखते सिख लौ मृदु माधुरी बाँकी ये भौहैं बिलोकनि बाँकी ।
आजुकी या छ्वाबि देखि भद्र अब देखिबे को न रह्यौ कल्लु बाकी ।।
यह अच्छा ही हुआ जो आज मैं सखियों के साथ इधर चली आई,
गोविन्द के दर्शन हो गए । बस मैंने तो अपना हृदय उन पर निछावर
कर दिया है । अब मुझे गृह-काज की चिन्ता है, न लोक-लाज का
भय । बहन, क्या बताऊँ, नख से शिख तक कैसी मनोहर मूर्ति है, और
चितवन भी कैसी बाँकी है ? सच तो यह है कि आज की उस मनमोहिनी
छाबि की भाँकी करके मुझे अब और कुछ देखने के लिए बाकी नहीं
रह गया ।

इसमें स्पष्ट ही दर्शन का वर्णन है ।

चित्र दर्शन

जहाँ किसी का मनोरम चित्र देखकर हृदय में उसके प्रति अनुराग
पैदा होता है, उसे चित्र दर्शन कहते हैं । यथा—

दखे चितरे मे ठाढ़े हैं कान्हर टेढे भये मुँह नारि मुराये ।
कैसे बजावत हैं मुरली तिरछे तकि भौह सो भौह जुराये ।
चोरी की टेव यहाँ लौ परी यह देखिये बात कहाँ लो दुराये ।
मोहनी मूरति सोहनी सुरति चित्रहु मे चित लेति चुराये ॥

मोहन की चोरी की टेव यहाँ तक बढ़ गई है कि चित्र में बनी हुई
उनकी मनोहर मूर्ति भी चित्त चुराए लेती है ।

कविवर बैनी प्रवीण ने नीचे लिखे सवैया में चित्रदर्शन का कैसा
विचित्र चित्र चित्रित किया है—

मूरति मोहिनी मोहनी की लिखि धारी जहाँ सखियान की भीरैं ।
‘बैनी प्रवीण’ बिलोकति राधिका चित्र लिखी सी भई तेहि तीरैं ।
जोरी किसोरी किसोर की रोमि सराहि रही हैं गुवालि गभीरैं ।
चित्त चितेरी रही चकि सी जकि एकते हूँ गई द्वै तमवीरैं ॥

मन मोहन की मनोहर मूर्ति (तसवीर) देखकर राधिकाजी चित्र

लिखी-सी रह गई । साथ की सखियाँ तो राधिका मोहन की सुन्दर जोड़ी पर रीझ कर बार-बार उनकी सराइना कर रही है, परन्तु चित्तैरी राधिका को भी चित्र लिखा-मी खड़ा देखकर चकित हो रही है । वह सोचती है—
मैंने तो एक तसवीर बनाई थी, परन्तु यहाँ एक से दो तसवीरें हो गई ।
खूब ! बैनी जी ने अपने काव्य कौशल से एक की दो तसवीरें कर दी ।

स्वप्न-दर्शन

क्रिसी का स्वप्न ग देखकर उसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होने को स्वप्न-दर्शन कहते हैं ।

कविवर द्विजदेव ने स्वप्न-दर्शन का नीचे लिखा उदाहरण दिया है—

काहू काहू भाँति राति लगी नो पलक तराँ,
सपने मे आनि केलरीति उन टानी री ।
आप दुरे जाय मेरे नयन मुँदाय कहु,
हौहू बजमारी दाढवे नो अकुलानी री ।
एरी मेरी आला या निराली करता की गति,
'द्विज देव' नेकऊ न पति पिछानी री ।
जो लोँ उठि आपनो पथिक पिय दूँ टोँ तौलौ,
हाय इन आँखिन सों नोद ही हिरानी री ॥

विह-विधुरा नायिका को जैसे-तैसे ज़रा नींद आई थी, कि स्वप्न में चट नायक आगया और उसने आँखें मिचौनीं शुरू कर दी । नायिका की आँखें मुदवाकर हजरत कधी जा छिपे । नायिका ज्योही आँखें खोल प्रिय को ढूँढने चली त्याहाँ उसकी आँखें खुल गईं । उस समय प्रियतम से तो बेचारी की भेट हुई नहीं उलटी आई हुई नींद भी हराम हो गई ।

नीचे लिखा कवित्त भी पढ़ने लायक है ।

सपने हू सोवन न दई निरदई दई,
तरपत रही जैसे जल बिन भखियाँ ।

'कुन्दन' सँदेसों आयो लाल मधुसूदन को
सत्रै मिलि दौरी तौन सपत बिलखियाँ ।
बूके समाचार ना मुखागर सँदेसो कछू—
कागद लै कोरो हाथ दान्यो लैके सखियाँ ।
छुतियाँ से पतियाँ लगाय बैठी बाँचिवे को,
जौ लौ खोलों खाम तौलो खुलि गई अँखियाँ ॥

यहाँ बेचारी बियोगिनी को प्रियतम तो नहीं मिले, केवल उन का पत्र मिला । उसे भी वह पढने नहीं पाई । जैसे ही चाहा कि लिफाफा खोलकर पत्र पढ़े, तैये ही आँखे खुल गईं । निर्दय दैव ने बेचारी का स्वप्न-सुख भी नष्ट कर दिया ।

श्रवण-दर्शन

जब किसी के द्वारा किमी के रूप गुण आदि की प्रशंसा सुन कर चित्त में उसके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, तब उसे श्रवण दर्शन कहते हैं । यथा—

आनन पूरन चन्द लसै अरविन्द बिलास बिलोचन पेखे ।
अम्बर पीत हँसै चपला छुवि अम्बुद मेचक अग उरेखे ।
कामहुते अभिराम महा 'मतिराम' हिये निहचै करि लेखे ।
तै बरन्यौ निज बैनन सौ सखि, मै निज नैनन सों मनो देखे ॥

सखी, तैने तो कृष्ण के रूप का वर्णन 'बैनो' द्वारा ही किया है उसे सुन कर ही मुझे ऐसा अनुभव होने लगा है मानो मैंने 'नेनों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लिये हों । दूसरा उदाहरण देखिये—

राधिका सों कहि आई जु तू सखि, साँवरे की मृदु मूर्ति जैसी ।
ता जिन ते 'पदमाकर' ताहि सुहात कछून बिसूरति वैसी ।
मानहु नीर भरी घन की घटा आँखिन मे रही आनि उनैसी ।
ऐसी भई सुनि कान्ह कथा जु बिलोकहिगी तब होइगी कैसी ॥

जिस समय से राधिकाजी ने कृष्ण के मनोमोहक रूप-लावण्य की

प्रशंसा सुनी है, उसी समय से उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती है, जब कहीं वह उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेगी, तब तो न जाने क्या होगा।

साहित्यदर्पण के मतानुसार भेद

साहित्य दर्पणकार ने पूर्वानुराग के निम्नलिखित तीन भेद किये हैं।

१—नीली राग, २—मञ्जिष्ठा राग और ३—कुसुम्भ राग।

नीली राग

जो बाहरी चमक-दमक तो अधिक न दिखावे परन्तु हृदय से कभी दूर न हो, उसे नीली राग कहते हैं।

कुसुम्भ राग

जिसमें चमक-दमक भी कम दीख पड़े और जो शीघ्र ही दूर हो जाय, उसे कुसुम्भ राग कहते हैं।

मञ्जिष्ठा राग

जिसमें चमक-दमक भी खूब दीख पड़े और जो कभी नष्ट न हो, उसे मञ्जिष्ठा राग कहते हैं।

मान

प्रिय अपराध-जनित प्रेमयुक्त क्रोध को मान कहते हैं। इसमें अत्यन्त अल्प समय के लिए प्रेम-सम्बन्ध स्थगित कर दिया जाता है। यह मान दो प्रकार का होता है— १—प्रणय मान * २—ईर्ष्या मान।

प्रणय मान

नायक नायिका में भरपूर प्रेम होने पर भी प्रणय-भग के कारण जो क्रोध होता है, उसे प्रणय मान कहते हैं। इसमें प्रेम की वृद्धि करना ही इष्ट होता है, इस लिये कभी-कभी यह अकारण भी पैदा कर लिया जाता है। जिस प्रकार दावती में कुछ लोग मिठाई खाते-खाते मुँह विध

* प्रेमाधिक्य के कारण नायक नायिका के परस्पर वशवर्ती होने का नाम प्रणय है।

जाने पर पुनः मिठाई में रुचि उत्पन्न करने के लिए बीच में पिसे हुए नमक-मिर्च की फर्की लगा लेते हैं उसी प्रकार संयोग-काल में प्रेम-भाव को उद्दीप्त करने के लिए प्रणय मान का आश्रय लिया जाता है। जब लगातार के संयोग से “अग्नि परन्वयादवज्ञा” के अनुसार परस्पर प्रेम-भाव में कुछ शिथिलता आ जाती है, तब उसे दूर करने के लिए यह उपाय काम में लाया जाता है। देखिये नीचे लिखे पद्य में नायिका की सखी उसे मान करने का उपदेश दे रही है—

मान बिन पैये सनमान ना अयानी सखि,
मानि उर मेरी सीख अजहू सयान की।
नित ही के सेवत ज्यौ भावै ना मिठाई, पर—
भावै है मिठाई पै लुनाई सर साज की।
रूठिवे की उठनि रिसाय के सिखावै तऊ,
छोड़े ना पियारी रीति जन्तु जल पान की।
एते ही मे जावक लगाए आए लाल तहाँ,
देखत ही औरै गति भई अखयान की ॥

सखी कहती है—बावली, बिना मान के आदर नहीं मिलता, मीठा ही मीठा खाते रहने से, उससे अरुचि हो जाती है, इसलिये बीच में नमकीन ज़रूर खाना चाहिए। नायिका को सखी यह उपदेश दे ही रही थी, इतने ही में नायक भाल में जावक लगाए वहाँ आ पहुँचा। बस फिर क्या था नायिका को मान के लिए बहाना मिल गया और उसने तुरन्त आँखें बदल ली।

ईर्ष्या मान

नायक को परस्त्री पर प्रेम करते देख, सुन या उसका अनुमान करके ईर्ष्या से जो कोप किया जाता है उसे ईर्ष्या मान कहते हैं। ईर्ष्या-मान प्रायः स्त्रियों में ही होता है, पुरुषों में नहीं। पुरुषों को तो ऐसे अवसर पर क्रोध आता है।

पर-स्त्री के साथ प्रेम-सम्बन्ध का अनुमान तीन प्रकार से किया जाता है । १—पर-स्त्री के प्रेम-सम्बन्ध में स्वप्न में नायक के कुछ बड़बड़ाने से । २—नायक के शरीर में रति-चिन्ह देखकर । अथवा ३—नायक के मुँह से अचानक पर-स्त्री का नाम निकल जाने से ।

ईर्ष्या मान के उदाहरण में नीचे लिखा सबैया देखिये—

ठाढ़े हुते कहूँ मोहन मोहिनी आइ तितै ललिता दरसानी ।

हेरि तिरीछे तिया तन माधव, माधवै हेरे तिया मुसकानी ।

यो 'नंदराम जू' भामिनि के उर आइगो मान लगालगी जानी ।

रुठि रही इमि देखि कै नैन कछू कहि बैन वहु सतरानी ॥

यहाँ मोहिनी मोहन को ललिता से आँखे लडाते देखकर मान करती है, इसलिए 'इसे प्रत्यक्ष दर्शन प्रभव ईर्ष्या मान' कहेंगे ।

ईर्ष्यामान के भेद

ईर्ष्या मान तीन प्रकार का होता है । १—लघुमान, २—मध्यम मान और ३—गुरुमान ।

लघु मान

नायक को पर-स्त्री पर दृष्टि-पात करते देख नायिका जो मान करती है, उसे लघु मान कहते हैं । यह मान केवल मृदु भाषण अथवा हास्यादि से दूर हो जाता है ।

उदाहरण देखिए—

देखत और तिया ही छुवीले को मान छुवीली के नैनन छायो ।

प्रीतम यो चतुराई करा 'मतिराम' कछू परिहास बढ़ायो ।

रीति रची जो विचित्र विधोन सो ताको कविच बनाय सुनायो ।

भूलि गई रिस लाजनि ते मुसकाय तिया मुख नीचे को नायो ॥

छुवीले छैल की आँखे किसी 'और तिया' पर पड़ने देख छुवीली नायिका की भौँहें चढ़ गईं । यह देख चतुर नायक ने नायिका से परिहास

प्रारम्भ कर दिया और विनोद-जनक एक पद्य रच कर सुनाया, जिसे सुनते ही नायिका मान भूल गई और उसने मुस्करा कर मुँह नीचे कर लिया।

इसी आशय का देवजी का सबैया भी पढ़ लीजिये—

बैठे हुत रँग रावटी में जिनके अनुराग रँग्यौ ब्रज भूम्यौ ।

किंकिनी काहू कहुँ भनकाई सुभाँकन कान भरोखा है भूम्यौ ।

'देव' पर त्रियै देखत देखिके भामिनि को मन मान सौँ घूम्यौ ।

बाते बनाय मनाय कै लाल हँसाय कै बाह्न हरै मुख चूम्यौ ॥

किसी स्त्री की किंकिणी की भनकार सुन, नायक को भरोखे में हो कर उसकी ओर भाँकते देख नायिका का मन मान से भर गया। परन्तु नायक ने तुरन्त ही मीठी मीठी बातें बना नायिका को हँसा दिया जिससे उसका मान भग्न हो गया।

ऊपर के दोनों उदाहरणों में प्रिय के पर-स्त्री की ओर देखने मात्र से, नायिका ने मान किया, जो प्रिय के मधुर भाषण तथा हँसी-मज़ाक द्वारा दूर हो गया, अतः यह लघु मान हुआ।

कभी-कभी नायकनायिका का मान करना देखने के लिए जान-बूझ कर ऐसी चेष्टाएँ करता है, जिनसे नायिका रुष्ट हो जाय। पीछे वह उसे मना कर प्रसन्न कर लेता है। कविवर पद्माकर ने अपने नीचे लिखे कवित्त में यही भाव अंकित किया है। देखिए—

वाही के रँगी है रग वाही के पागी है प्रेम,

वाही के लगी है सग आनद अगाधा को।

कहै 'पदमाकर' न चाहे तजै नैकु दग—

तारनि ते न्यारो कियो एक पल आधा को।

ताहू पै गोपाल कछू ऐसे ख्याल खेलत हैं,

मान मोरिवे की देखिवे की करि साधा को।

काहू पै चलाइ चख प्रथम खिभावे फेरि,

बाँसुरी बजाइ कै रिभाइ लेत राधा को ॥

पहले तो किमी अन्य स्त्री की ओर आंखें मटका कर कृष्ण जी राधा को खिभाते (चिढाते) हैं, परन्तु पीछे बाँसुरी बजा कर उन्हें मना लेते हैं । प्रेम-पथ में यह नकली तड़क-भडक प्रायः होती ही रहती है ।

मध्यम मान

नायक को पर-स्त्री की प्रशंसा करते अथवा प्रेम पूर्वक उसका नाम लेते देख कर नायिका जो कोप करती है, उसे मध्यम मान कहते हैं । यह मान विनय अथवा शपथ आदि में दूर हो जाता है ।

पद्माकरजी ने मध्यममान का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है, देखिए—

वैस ही की थोरी पै न भोरी है किसोरी यह,
याको चित चाहि राह और की मभैयो जनि ।
कहै 'पदमाकर' सुजान रूप खानि आगे,
आन बान आन की सु आनि कै चलैयो जनि ।
जैसे तैसे करि सत सोइनि मनाइ ल्याई
तुम एक मेरी बात एती विमरैयो जनि ।
आजु की घरी ते लै सु भूलिहूँ भले हो स्याम,
ललिता को लैके नाम बाँसुरी बजैयो जनि ॥

देखो मोहन, आजतो मैं इन्हें सेकड़ों सौगन्द खाकर जैसे तैसे मना लाई हूँ, पर आगे के लिए तुम मेरी यह बात गाँठ बाँध लो कि एक तो इनके (नायिका राधिका के) आगे किमी अन्य स्त्री के रूप-यौवन की प्रशंसा करना तो क्या, चर्चा भी मत करना, और दूसरे कभी ललिता का नाम ले-लेकर वशी मत बजाना । यह न समझना तुम्हारी इन बातों को वह समझती नहीं है । अजी यह 'वैस की थोरी' हैं पर 'भोरी' नहीं है ।

यहाँ ललिता का प्रेमपूर्वक नाम लेने और उसके रूप-यौवन की प्रशंसा करने के कारण, राधिका ने मान किया जो सखी के सौगन्द खाने और विश्वास दिलाने पर दूर हो गया, अतः यह मध्यम मान हुआ ।

इस प्रसंग में नीचे लिखा 'शिवैया भी पढ़ने लायक है—

आनंद सों दोऊ आँगन माँझ बिराजैँ अषाढ़ की साँझ सुहाई ।
प्यारी के पूछत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई ।
आयो बनैँ मुँह मे हँसि कोउ तिया शर चाप सौँ भौँदे चढ़ाई ।
आँखिन ते गिरे आँसू के बूँद सुहास गयो उड़ि हस की नाई ॥

पति के मुख से अचानक अन्य स्त्री का नाम निकलते ही रंग मे भग हो गया—रस में विष मिल गया । विकसित कमल के समान नायिका का प्रसन्न मुख-चन्द्र राहु रूपी क्रोध से आक्रान्त हो मलिन पड़ गया । नायिका की भौँहें कमान की तरह तन गईं जिन्हें देख नायक का हास्य हस भीत होकर उड़ गया ।

गुरु मान

नायक के पर-स्त्री के साथ रमण करने का पूर्ण विश्वास हो जाने पर नायिका जो मान करती है, उसे गुरु मान कहते हैं । यह मान नम्रता प्रदर्शन अथवा भूषण प्रदान द्वारा दूर होता है ।

कवि रघुनाथजी ने गुरु मान का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है, देखिए—

दूसरे पल्लंग बैठी रूसि के गुमान ऐठी,
महा रोस भरी प्यारी पी को दोस पाइ कै ।
मानै न मनायो एहो कवि 'रघुनाथ' सखी,
हारी सँगवारी बाते बहुत बनाइ कै ।
इतने में गहि कै चरन प्रान प्यारे कह्यो,
आज या महावरी लगोगी भाल आइ कै ।
मान को न रह्यौ ज्ञान एतिक सकानी, मुस-
कानी अक प्यारे के निसक बैठी जाइ कै ॥

जब किसी के भी समझाने-बुझाने से नायिका नहीं मनी, तो अन्त मे नायक ने उसके पैर पकड़ लिये और कहा—आज यह महावर मेरे माथे पर लगैगी—अर्थात् मैं अपना सिर इन पैरों मे रख दूँगा । इतना सुनना

था कि नायिका सकपका गई और उसका मान छू-मन्तर हो गया । फिर तो वह मुस्कराती हुई नायक की गोद में जा बैठी ।

महाकवि देव का नीचे लिखा सर्वथा भी गुरु मान का उत्कृष्ट उदाहरण है ।

सौति की माल गुपाल गरे लखि बाल कियो मुखरो सु उज्यारो ।
भौहे भ्रमे फरके अधरा निकस्यौ रग नैननि के मग न्यारो ।
त्यौ कवि ' देव ' निहारि निहोर दोऊ कर जोरि परत्यौ पग प्यारो ।
पोकी उठाइ कै प्यारी कह्यो तुमसे कपटीन को काह पत्यारो ॥

सौति की माला प्रिय के गले में पड़ी देख कर नायिका का मुँह क्रोध से तमतमा उठा । भौहे चढ गई, अधर फड़कने लगे और आँखें रक्त वर्ण होगई । बहुत कुछ निहारे करने पर भी जब वह न मानी, तो अन्त में नायक हाथ जोड़ उसके पैरों में पड़ गया । यह देख नायिका ने उसे उठाने हुए कहा—तुम जैसे कपटी का क्या विश्वास किया जाय ।

मान भंग करने के उपाय

साहित्यदर्पणकार ने मानवती नायिका वा मान भंग करने के नीचे लिखे छह उपाय बताए हैं—१—साम, २—भेद, ३—दान, ४—नति, ५—उपेक्षा और ६—रसान्तर ।

मानिनी का मान भंग करने के लिए मीठी-मीठी बातें बनाना 'साम' कहाता है । यथा—

साम

नैनन की पुतरी तुही राधिके कौन सी और लखी हम बाला ।
तूही बसै निसि-बासर मो उर अन्तर-वाहर रूप रसाला ।
दीन्ही बनाय हमै चतुरानन भागते ' बैनी प्रवीन ' बिसाला ।
गेह की सोभा सनेह की सीम सँजीवनी जीव की कण्ठ की माला ॥
भाव स्पष्ट ही है ।

भेद

नायिका की सखी या उसके प्रेमी को बहका-फुसला कर अपनी ओर भिला लेने अथवा उसका उच्चाटन कर देने को 'भेद' कहते हैं ।

भेद का उदाहरण देखिए—

भानु सो मैं तपैगो भद्र तब होइगो मान समूल पटापर ।
मालती फूलन को मधु पान कै होइगो मत्त मलिनद भटा पर ।
भूलि ही जाइगौ बैनीप्रवीन' कहे बतियो जे सदा की नटा पर ।
आपुही जाय मिलौगी तबै जब चन्द छुटा छिटकैगी अटा पर ॥

उपर्युक्त सवैया में सखी नायक का पक्ष लेकर मानिनी नायिका को नायक से मिलने के लिए समझा रही है ।

दान

रूठी नायिका को सन्तुष्ट करने के लिए, किसी बहाने से उसे भूषणादि देने का नाम 'दान' है ।

दान के उदाहरण में महाकवि केशवजी का सवैया पढ़िये—

मत्त गयन्दन साथ सदा इहि थावर जंगम जन्तु बिदारथौ ।
ता दिन ते कहि 'केशव' बेधन बन्धन कै बहुधा बिधि मारथौ ।
सो अपराध सुधार न सोधि इहै इति साधन साधु विचारथौ ।
पावन पुंज तिहारे हिये यह चाहत है अब हार बिहारथौ ॥

नति

मानवती नायिका के मानापनोदार्थ उसके पैरों पड़ना 'नति' कहाता है । जहाँ साम, भेद और दान तीनों उपाय निष्फल हो जाते हैं, वहाँ नति रूपी अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया जाता है ।

कविवर वैनी प्रवीण जी ने नति का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

आपनी सी करि हारी सखी सब कोकिला केतिकौ कूक मचाई ।
गुञ्जत भौरन के रहे पुंज मनोजहु अज कमान चढाई ।
मान्यो न 'बैनीप्रवीन' भनै यह प्रीति की* रीति अलौकिक माई ।
आपनी प्रान पियारी पिया परि पायन प्यारे ने कण्ठ लगाई ॥

जब सखियों अपनी-सी कोशिश करके हार गई, कोकिलाओं के कल-कूजन और मधुकरो के मधुर गुंजन का भी उस पर कुछ अमर न हुआ, कामदेव के कुसुम शायक भां उसका कुछ न कर सके, तब प्रियतम ने पैरों में पड़ के प्राण-प्यारी का प्रसन्न कर लिया। प्रीति की रीति भी कैसी विचित्र है।

उपेक्षा

नायिका की ओर में उदासीन होकर बैठ रहने को 'उपेक्षा' कहते हैं। जब समझाने, फुसलाने या अनुनय-वनय किसी भी युक्ति से काम नहीं चलता, उस अवस्था में उपेक्षा करने से ही कार्य-सिद्धि होती है।

कवि 'मुबारक' के नीचे लिखे सवैया में नायक की ओर से कैसी उपेक्षा ध्वनित की गई है।

गूजेगे और बिराग भरे बन बोलगे चातक औ पिक गाय कै ।
फूलगे टेसू कुसुम्भ तहाँ लागि दौरेंगे काम कमान चढाय कै ।
बायु बहैगी सुगन्ध 'मुबारक' लागि है नैन विसोक सौ आय कै ।
मेरे मनाए न मानी बवा की सों ऐहै बसन्त लैजैहै मनाय कै ॥

मेरे इतने मनाने पर भी अगर तू नहीं मानती, तो तेरी राज्ञी। अब मुझे भी कुछ नहीं कहना। जब वसन्त आवेगा, तब अपने आप भागी भागी आओगी।

रसान्तर

नायिका के हृदय में अचानक व्याकुलता, प्रसन्नता या भय उत्पन्न करके उसका मानमुद्रा तोड़ने को 'रसान्तर' कहते हैं। कुछ लोगों ने रसान्तर को 'प्रसंग विध्वंस' नाम से लिखा है। जब मान इतनी प्रवृद्ध अवस्था को पहुँच जाता है कि उपेक्षा करने पर भी उसका अपनयन नहीं होता, तब इस उपाय का अवलम्बन किया जाता है।

निम्नलिखित देवजी का सवैया रसान्तर का सुन्दर उदाहरण है—

श्री वृषभानु लली मिलि कैँ जमुना जल केलिकों हेतिन आनी ।
रोमवली नवली कहि 'देव' सु सोने से गात अन्हात सुहानी ।

कान्ह अचानक बोलि उठे उर बाल के ब्याल-बधू लपटानी ।
 धाय के धाय गही संसबाय दुहूँ कर भारत अंग अयानी ॥
 बहुत दिनों से रूठी नायिका को स्नान करते देख कृष्ण ने उसका
 मान भंग करने का अच्छा अवसर समझा, और रसान्तर उपाय में काम
 लिया । वे अचानक विह्ला पड़े—“देखो-देखो वाला के शरीर पर साँपिन
 लिपटी हुई है ।” यह सुन नायिका मारे डर के मान की बात भूल गई और
 दौड़कर कृष्ण से लिपट गई ।

नाट्य शास्त्रकार ने मानापनोदन के निम्नलिखित पाँच उपाय बताए
 हैं । यथा—माम, दान, भेद, उपेक्षा और दण्ड । इनमें से पूर्व-पूर्व कहे
 चार के लक्षण वही हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं । पाँचवें उपाय दण्ड
 का लक्षण नाट्यशास्त्र में इस प्रकार दिया है—

“बाँधने या मारने-पीटने का नाम दण्ड है ।”

परन्तु प्रणय-प्रसंग में दण्ड की यह परिभाषा कुछ उपयुक्त नहीं जान
 पड़ती । शास्त्रों में स्त्री के लिए सबसे बड़ा दण्ड ‘स्त्री दण्ड प्रथक् शैया’
 बताया है, यही दण्ड यहाँ पर भी अत्यन्त उचित जान पड़ता है ।

प्रवास

किसी कारणवश नायक के परदेश चले जाने को प्रवास कहते हैं ।
 लम्बे प्रवास के कारण नायक के वियोग में नायिका का उदास, मलिन
 और चिन्तित रहना स्वाभाविक है । प्रवास-जन्य वियोग मान-जनित
 वियोग से अधिक कठिन माना गया है । मान द्वारा उत्पन्न किया गया
 विछोड़ तो नायक-नायिका की इच्छा पर निर्भर होता है, वे जब चाहें
 उसका अन्त कर सकते हैं पर प्रवास-प्रभव वियोग बाहरी हेतुओं से
 उत्पन्न होता है, अतः उसका अन्त करना नायक-नायिका के वश में नहीं
 होता ।

कुछ लोगों ने प्रवास के तीन कारण माने हैं १—कार्य वश, २—
 शाप वश और ३—भय वश ।

कार्य वश प्रवास—जब नायक आजीविका अथवा किसी काम का
 के लिए परदेश जाता है, तो उसे कार्य वश प्रवास कहते हैं ।

शाप वश प्रवास—जिसमें देवादि के शाप के कारण नायक को परदेश में जाना पड़े वह शाप वश प्रवास कहाता है। इसके उदाहरण प्राचीन समय में ही मिलते हैं, यथा—मेघदूत में कुबेर के शाप से यक्ष का विदेश-वास वर्णित है। वर्तमान काल के जेल-यात्रियों की गणना शाप वश-प्रवासियों में की जा सकती है। पूर्व काल में शाप भी किसी अपराध के दण्डस्वरूप ही दिया जाता था।

भय वश प्रवास—जब कोई रोग-भय से, राज-भय से अथवा ऐसे ही किसी अन्य भय से विदेश में जा बसता है, तब उसे भयवश प्रवास कहते हैं। राज भय से फ़रार हुए अथवा युद्ध-विप्लव, ज़ेग-प्रकोप आदि के कारण देशान्तर को गए हुए व्यक्तियों की गणना भय वश प्रवासियों में ही की जायगी। सामान्य प्रवास का उदाहरण नीचे दिया जाता है—

साँझ ही समै ते दुरि बैठी परदानि दैके,
 सक मोहि एक या कलानिधि कसाई की।
 कन्त की कहानी सुनि सवन सुहानी रैन,
 रंचक बिहानी या बसन्त अन्त धाई की।
 कल कै न आली नैकु पलके लगन पाई,
 टरि कित गई नींद नैनन धौं आई की।
 कुहू कहै कोकिल कुमति मै उषारे नैन,
 जाल हूँ जु देखों ज्वाल ज्वलित जुन्हाई की॥

कन्त के वियोग-काल में कामिनी को कलानिधि कसाई-जैसा जान पड़ता है, उसके भय से वह सायंकाल से ही चारों ओर के परदे डलवा भीतर छिपकर बैठ जाती है। वह वसन्त ऋतु की सुहावनी रातें केवल कन्त की बातें (कहानी) सुन-सुन कर जैसे तैसे काटती है। कल (चैन) से तो उसके पल भर भी पलक नहीं लगते। योही आँखें बन्द किये पड़ी रहती है। कोयल के कुहू-कुहू कर कूक उठने पर, नायिका को भ्रम हुआ कि कोई कह रहा है—अरी आँखे खोल, देख, जिस चन्द्रमा के भय से तू छिपी पड़ी है वह तो लुप्त हो गया, आज तो 'कूहू' (अमावस) की अँधेरी रात है। यह सुन जैसे ही उसने आँखे खोल भरोखे में हो कर भाँका, तैसे ही उसे ज्वाला के समान जलाने वाली 'जुन्हाई' (चौदनी) दीख पड़ी।

कार्य वश प्रवास के भेद

यह प्रवास तीन प्रकार का माना गया है । १—भूत प्रवास, २—भविष्य प्रवास और ३—वर्तमान प्रवास ।

भूत प्रवास

जिस प्रवास का सम्बन्ध भूत काल से हो, उसे 'भूत प्रवास' कहते हैं । जैसे—

रैनि दिन नैनन ते बहतो न नीर कहा-
करतो अनग को उमंग शर चाँपतो ।
कहै 'पदमाकर' त्यों राग बाग बन कैसो,
तैसो तन ताय ताय तारापति तापतो ।
कीन्हों जो वियोग तो सयोग हू न देतो दई,
देतो जो संयोग तो वियोग नहिं थापतो ।
हो तो जौ न प्रथम संयोग सुख वैसो वह,
ऐसो अब यों न तो वियोग दुख व्यापतो ॥

भूत प्रवास के सम्बन्ध में नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने लायक है—
पर कारज देह को घारे फिरो परजन्य यथारथ है दरसो ।
निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही त्रिधि सज्जनता सरसो ।
'घन आनंद' जीवन दायक हो, कछू मेरियो पीर हिये परसो ।
कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन मो आँसुवान कों लै बरसो ॥

भविष्य प्रवास

जिस प्रवास का सम्बन्ध भविष्य काल से हो, उसे 'भविष्य प्रवास' कहते हैं । देखिये पद्माकरजी ने भविष्य प्रवास के कैसे सुन्दर उदाहरण दिये हैं ।

सौ दिन को मारग तहाँ की बेगि माँगी बिदा,
प्यारी 'पदमाकर' प्रभात राति बीते पर ।
सो सुनि पियारी पिय गमन बराइवे^१ को,
आँसुन अन्हाय बोली आँसन सुतीते^२ पर ।

१—टालने के लिये । २—शयन करने के आसन अर्थात् शैया पर ।

बालम बिदेसै तुम जात हौ तौ जाउ पर,
 साँचा कहि जाउ कब ऐहौ भौन रीते पर ।
 पहर के भीतर कै द्वै पहर भीतर ही,
 तीसरे पहर कैधौ साँझ ही बितेते पर ॥

उपर्युक्त पद्य में नायिका के भोलेपन का कैसा सुन्दर चित्रण किया गया है। वह पूछती है, आप जायेंगे तो सही, पर यह तो बता जाइये, किस रीते घर में लौट कर कब आओगे। पहर-दो-पहर में ही या साँझ बीतने पर। और सुनिये—

औसर और कहा समयो कहा काज बिवाद ये कौन सी पावन ।
 धौं “पदमाकर” धीर समीर उसीर भयो तपि कै तन तावन ।
 वैत की चाँदनी चारु लखे चरचा चलिबे की लगे जु चलावन ।
 कैसी भई तुम्हें गंग की गैल में गीत मदारन के लगे गावन ॥
 चैत की चारु चाँदनी देखते हुए भी चलने की चरचा चलाना, गंगा की गैल में मदार के गीत गाने के समान ही है। भला इस सुहावनी वसन्त ऋतु में परदेश जाना चाहिये ?

वर्तमान प्रवास

जिस प्रवास का सम्बन्ध वर्तमान काल से हो, उसे ‘वर्तमान प्रवास’ कहते हैं ।

उदाहरण देखिये—

धुरवानि की धावनि मानो अनङ्ग की तुग धुजा फहरान लगी ।
 ‘मतिराम’ समीर लगे लतिका बिरही बनिता थहरान लगी ।
 मन में अलि है छिति में अलछै, चपला की छटा छहरान लगी ।
 परदेस में पीउ संदेस न पायो पयोद घटा घहरान लगी ॥

प्रियतम परदेश में हैं, उनका कुछ सन्देश नहीं मिला, और इधर ये मतवाले काले बादल उमड़-धुमड़ कर घहराने लगे। शीतल समीर बढ़ने लगा, जिसके लगते ही शरीर थरथराने लगता है।

प्रोषितपतिका नायिका और प्रवास दोनों के उदाहरण एक ही हैं। प्रवासी की पत्नी को ही प्रोषितपतिका कहते हैं ।

करुणात्मक वियोग शृङ्गार

वहाँ नायक नायिका में से किसी एक के मर जाने अथवा अन्य किसी कारण से, जब दूसरे को उसके मिलने की आशा नहीं रहती, तब वियोग की उस चरमावस्था में करुणात्मक वियोग शृङ्गार की उत्पत्ति होती है। जहाँ वियोग की इस चरमावस्था में किसी प्रकार रति भाव विद्यमान रहता है, वहीं करुणात्मक वियोग शृङ्गार माना गया है। जहाँ इस वियोगावस्था में रति भाव का एकान्त अभाव होता है, वहाँ फिर करुणा शृङ्गार न रह कर वह शुद्ध करुणा रस बन जाता है।

करुणा विप्रलम्भ शृङ्गार का उदाहरण देव जी ने इस प्रकार दिया है--

कालिय काल महा विष ज्वाल जहाँ जल ज्वाल जरै रजनी दिन ।
ऊरध के अघ के उबरैँ नहि जाकी बयारि बरै तहँ ज्योतिन ।
ता फनि की फन-फॉसिन में फँदि जाय फँस्यो उकस्यो नअजौ छिन ।
हा ब्रजनाथ सनाथ करौ हम होती हैं नाथ अनाथ तुम्हें बिन ॥

रघुवंश महा काव्य में इन्दुमती के मरने पर अज-कर्तृक विलाप भी करुणा वियोग शृङ्गार का उत्कृष्ट उदाहरण है।

वियोग जनित दश दशाएँ

प्रियतम के वियोग-काल में वियोगिनी की जो दशाएँ होती हैं वे दश प्रकार की हैं, इस लिए उन्हें 'दश दशाएँ' कहते हैं। वे दशाएँ ये हैं—

१—अभिलाषा, २—चिन्ता ३—स्मरण, ४—गुणगान, ५—उद्वेग,
६—प्रलाप, ७—उन्माद, ८—व्याधि, ९—जड़ता और १०—मरण।

साहित्यदर्पणकार ने प्रिय-वियोगजानत एकादश दशाएँ मानी हैं, जिनके नाम ये हैं—

१—अगों में असौष्ठव, २—सन्ताप, ३—पाण्डुता, ४—दुर्बलता,
५—अरुचि, ६—अधीरता, ७—अस्थिरता, ८—तन्मयता, ९—उन्माद,
१०—मूर्च्छा और ११—मरण।

हिन्दी कवियों ने ऊपर वाली दश दशाओं का ही वर्णन किया है, अतः यहाँ भी उन्हीं के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। उपर्युक्त दश दशाओं में से चिन्ता, स्मरण, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्च्छा और मरण

का वर्णन सचारी भावों में हो चुका है, पर प्रसंग वश यहाँ भी उनका उल्लेख किया है।

अभिलाषा

वियोगावस्था में नायक-नायिका के परस्पर मिलने की उत्कट इच्छा को 'अभिलाषा' कहते हैं। यह अवस्था पूर्वानुराग में विशेष रूप से पाई जाती है। नीचे लिखे पद्य में अभिलाषा का कैसा सुन्दर वर्णन किया गया है, देखिए—

माथे पै मुकुट देखि चन्द्रिका चटक देखि,
छवि की लटक देखि रूप रस पीजिये ।
लोचन त्रिसाल देखि, गरे गुंजमाल देखि,
अधर को लाल देखि चित्त चोप कीजिये ।
कुरइल डुलनि देखि अलके हलनि देखि,
पलके चलनि देखि सरबस दीजिये ।
पीत पट छोर देखि मुरली की घोर देखि,
साँवरे की ओर देखि देखिबोई कीजिये ॥

उपर्युक्त पद्य में प्रतिक्षण साँवरे की ओर देखते ही रहने की अभिलाषा व्यक्त की गई है। आगे इसी विषय का देवजी का भी एक सबैया दिया जाता है, उसे भी पढ़ लीजिए—

चन्दन पंक गुलाब के नीर सरोज की सेज विछाय मरो री ।
तूल भयो तन जात जरो यह बैरी दुकूल उतार धरो री ।
'देव जू' भूठे सबै उपचार यही मे तुषार कां सार भरो री ।
लाज के ऊपर गाज परै ब्रजराज मिलै सोई काज करो री ॥

नायिका कहती है—'चन्दन पंक, गुलाब के नीर, सरोज की सेज' आदि अनेक उपाय कर हारी, पर वियोग की विष ज्वाल न बुझी और न बुझी। अरी! ये उपाय तो सब भूठे हैं, इनसे कुछ नहीं होना जाना। अब तो लोक-लाज को भाड़ में जाने दो और ऐसा उपाय करो जिससे ब्रजराज मिले। इस पद्य में भी ब्रजराज से मिलने की अभिलाषा का वर्णन है।

नीचे लिखे कवित्त में भी नायिका यही चाहती है कि सब कुछ छोड़कर बस एक नन्द-नन्दन में लगन लगी रहै। देखिए—

सुन्दर सुजान पर मन्द मुसकान पर,
बोंसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे ।
मूरति बिसाल पर कञ्चन से भाल पर,
हंसन सी चाल पर खोरन खगी रहे ।
भौंहे धनु मैन पर लौने जुग नैन पर
शुद्ध रस बैन पर बाहिद पगी रहे ।
चञ्चल से तन पर साँवरे बदन पर,
नन्द के नदन पर लगन लगी रहे ॥

इस प्रसंग में महोक्वि पद्माकर का निम्नलिखित कवित्त भी पढ़ने लायक है—

ऐसी मति होति अब ऐसी करों आली,
बनमाली के सिंगार वे सिंगारिवोई करिये ।
कहे 'पदमाकर' समाज तजि काज तजि,
लाज को जहाज तजि डारिवोई करिये ।
घरी-घरी पल-पल छिन-छिन रैन-दिन,
नैनन की आरती उतारिवोई करिये ।
इन्दु ते अधिक अरविन्द ते अधिक ऐसो,
आनन गोविन्द को निहारिवोई करिये ॥

चिन्ता

अहितकारी विचार या प्रिय पदार्थ के ध्यान को 'चिन्ता' कहते हैं । चिन्ता मे प्रिय मिलन की लालसा तथा वियोग-जनित दुःख दोनों की मात्रा अभिलाषा की अपेक्षा बढी हुई होती है ।

कविवर मतिराम ने चिन्ता का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

जैये अकेली महा बन बीच तहाँ 'मतिराम' अकेलोई आवै ।
आपने आनन चन्द की चोदनी सों पहले तन ताप बुझावै ।
कूल कलिन्दी के कुञ्जन मंजुल मीठे अमोल वै बोल सुनावै ।
ज्यों हँमि हेरि लियो हियरो हरित्यौ हँमि कै हियरे हरि लावै ॥

कलकल निनादिनी कलिन्दजा के कूलवतीं कलित कुञ्जों मे वह (प्रिय) अकेला ही आया करता है । बस वहीं चलना चाहिए । जैसे हँसकर वह

हृदय हर ले गया है, वैसे ही हमें कर्म वहाँ हृदय से लगावेगा । प्रिय के सम्बन्ध में उपर्युक्त ध्यान ही चिन्ता है ।

कविवर दासजी का भी आगे लिखा सबैसा चिन्ता का अच्छा उदाहरण है । देखिए—

ए विधि जो बिरहागि के बान सो मारत हौ तो यहै बर माँगों ।

जो पसु होउ तऊ मरि कैसेउ पाँवरी है प्रभु के पग लागों ।

‘दास’ पखेरुन में करो मोर जु नन्दकिसोर प्रभा अनुरागों ।

भूषन कीजिये तो बनमालहि जाते गोपालहि के हिये लागों ॥

उपर्युक्त पद्य में वियोगिनी का यह विचार करना कि “मर कर भी मैं किसी न किसी प्रकार मनमोहन के ही समीप रहूँ, उन्हीं के काम आऊँ” चिन्ता दशा कहाती है ।

इस विषय में रसखान का नीचे लिखा सबैसा बहुत प्रसिद्ध है—

मानुस हों तो वही ‘रसखानि’ बसों मिलि गोकुल गाँव के ग्वारन ।

जो पसु हों तो कहा बसु मेरो चरो नित नन्द की धेनु भभारन ।

पाहन हों तो वहाँ गिरि को जो कर्थौ कर छत्र पुरन्दर कारन ।

जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥

वियोगिनी नायिका मरने के पश्चात् अगले जन्म में भी, प्रिय के पास ही जन्म लेने की इच्छा रखती है ।

स्मरण (स्मृति)

वियोग-काल में प्रिय की पिछली बातों, चेष्टाओं और उसके समागम-मुखों को याद करने का नाम ‘स्मरण’ है । उदाहरण देखिए—

खोरि में खेलन आवतीयै न तौ आलिनि के मत मैं परती क्यों ।

‘देव’ गोपालहि देखती मैं न तौ या बिरहानल में जरती क्यों ।

बापुरी मंजु रसाल की बालि सुभाल सी हूँ उर में अरती क्यों ।

कोमल कूकि कै कौलिया क्रूर करेजन की किरचे करती क्यों ॥

वियोगिनी पिछली बातों को याद करके पश्चात्ताप कर रही है—यदि मैं सखियों के साथ गली में खेलने न आती तो इस विपद् में काहे को पड़ती । वहाँ न जाने से न तो गोपाल के दर्शन होते और न अब इस प्रकार वियोग

की विषम बह्नि में जलना पड़ता । यह तो अपने आप जो बोया उसका फल भोग रही हूँ । यदि ऐसा न होता तो क्या आम्रमजरी भीषण भाले के समान मेरे हृदय में चुभती और कायल की कुहू-कुहू हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर डालती ।

इस प्रसंग में नीचे लिखा सवैया भी कितना उत्कृष्ट है—

यौ दुख दै ब्रजवासिन कों ब्रज कों तजि कै मथुरा सुख पैहँ ।

वे रस केलि बिलासन की बन कुञ्जनि की बतियों बिसरैहँ ॥

जोग सिखावन कों हमको बहुर्यो तुमसे उठि धावन ऐहँ ।

ऊधौ नहीं हम जाति ही मनमोहन कूबरी हाथ बिकैहँ ॥

हमें ऐसा नहीं मालूम था कि ब्रजचन्द्र ब्रजवासियों को इस प्रकार वियोग-वारिधि में डुबाकर मथुरा जा बैठेगे । और इसका तो हम स्वप्न में भी ध्यान न करती थीं, कि मथुरा जाकर वे कुटिला कूबरी से नेह-नाता जोड़ लेंगे, तथा हमारे लिए ऊधौजी द्वारा भोग-त्याग और योग-साधन का उपदेश करायेगे । इस प्रकार पिछली बातों का याद करना ही स्मृति दशा कहलाती है ।

स्मृति के उदाहरण में नीचे लिखा दोहा भी पढ़ने योग्य है—

सधन कुंज छाया सुखद सीतल मन्द समीर ।

मन है जात अजौ वहै वा जमुना के तीर ॥

गुण-कथन

वियोग-काल में प्रिय के गुणों का वर्णन करना 'गुण-कथन' कहाता है । गुण-कथन से विरही व्यक्ति को बहुत कुछ सन्तोष मिलता है ।

गुण-कथन के उदाहरण में पद्माकरजी का नीचे लिखा सवैया कितना सुन्दर है—

चोरन गोरिन में मिलिकै इतै आई ही हाल गुवालि कहाँ की ।

को न बिलोकि रह्यौ 'पदमाकर' वा तिय की अवलोकनि बाँकी ।

धीर अवीर की धूँ धुरि में कछु फेर सी कै मुख फेरिकै भाँकी ।

कै गई काटि करेजनि के कतरे कतरे पतरे करिहॉ की ॥

उपर्युक्त पद्य में गोपियों के साथ आई हुई किसी नई नवेली के रूप-यौवन का वर्णन किया गया है । इसी को गुण-कथन कहते हैं । आगे मतिराम जी का उदाहरण भी देख लीजिये—

मोर पखा 'मतिराम' किरिट में कण्ठ बनी वनमाल सुहाई ।
मोहन की मुसक्यानि मनोहर कुण्डल लोलनि में छवि छाई ।
लोचन लोल बिसाल बिलोकनि को न बिलोकि भयो बस माई ।
बा मुख की मधुराई कहा कहाँ मीठी लगै अखियाँ न लुनाई ॥

मनमोहन की जो बात है सो अनौखी ही है । मुसक्यान क्या, चितवन क्या, सभी मे जादू भरा हुआ है । मुख की मधुरिमा का तो कहना ही क्या है, उनकी तो आँखों की 'लुनाई' भी मीठी मालूम देनी है । मतिराम जी ने अपने कवि-कौशल से लुनाई (नमकीनपन) को भी मीठा बना दिया, खूब !

उद्वेग

विरह-जनित व्याकुलता के कारण जब कोई बात नहीं सुहाती, विरही को उस अवस्था का नाम 'उद्वेग' है । यथा—

घर ना सुहात ना सुहात बन बाहिर हू,
बाग ना सुहात जे खुशाल खुशबोही सों ।
कहै 'पद्माकर' घनेरे घन घाम त्योही,
चन्द ना सुहात चाँदनी हू जोग जेही सों ।
सोँभ ना सुहात ना सुहात दिन माँभ कछू,
व्यापी यह बात सो बखानत हौ तोही सों ।
राति न सुहात ना सुहात परभात आली,
जब मन लागि जात काहू निरमोही सों ॥

जब मन किसी निर्मोही से लग जाता है, तब न तो घर अच्छा लगता है, न वन ही सुहाता है । न रात भली लगती है, न दिन ही भाता है । न खाना रुचता है, न पीने को जी चाहता है । अभिप्राय यह कि बाग-तड़ाग, चन्द्र-चाँदनी कहीं और किसी से भी जी नहीं बहलता । यहाँ जो वियोगिनी की व्याकुलता का वर्णन किया गया है, यही उद्वेग है ।

कविवर 'आलम' ने भी नीचे लिखे कवित्त में उद्वेग का कैसा सुन्दर वर्णन किया है । देखिए—

पकज पटीर देखे दूनी दुख पीर होति,
सीर हू उसीरन ते पीर चीर हार की ।

अँवा सो अवास भये तवा सो तपत तन,
अति ही तपन लागै भार घनसार की ।
'आलम' सुकवि छिन-छिन मुरभाति जाति,
सखिन बिचारि तजी रीति उपचार की ।
मन ही मरूरे मरि रही मन मारि मारि,
एक ही मुरारी बिन मारी मरै मार की ॥

एक मुरारि के बिना नायिका के लिए सारा आलम ही बदल गया है ।
जिन पकजों और पाटीरों को देखकर कुछ शान्ति मिलनी चाहिये, उन्हें देख
दूना दुःख होता है । उशीर और घनसार शीतलता पहुँचाने के बदले जला
रहे हैं । सखियों के उपचार का उल्टा ही फल होता है, इसलिये वे भी हैरान
व परेशान हैं । यहाँ भी वियोग-जनित विकलता का वर्णन है ।

नीचे लिखा सवैया भी उद्वेग का कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है, विरह-
विधुरा नायिका की उद्विग्नावस्था का कैसा सुन्दर चित्र खींचा गया है
देखिए—

बेस भये बिस भावे न भूषन, भूख न भोजन को कछु ईछी ।
मीच के साधन, सोधे की साध न, दूध सुरा, दधि माखन छी छी ।
चन्दन स्थो चितयौ नहिं जात चुभी चित माहि चितौनि तिरीछी ।
फूल ज्यौ शूल, सिला सम सेज, बिछोननि बीच बिछे मनु बीछी ॥

विरहिणी को वख्तालकार भार से जान पड़ते हैं । भोजन में बिलकुल
रुचि नहीं रही । वह दूध से सुरा के समान विदकती, और दही-मखन से
उसे घृणा हो गई है । चन्दन-पंक लेपन की तो बात ही क्या, उसकी ओर
तक तो उससे देखा नहीं जाता । फूल उसे शूल समान लगते हैं और शैया
शिला जैसी जान पड़ती है । विस्तर से तो वह दूर भागती है, मानो उसके
नीचे विषैले बिच्छू बिछे हों ।

प्रलाप

वियोग से अत्यधिक व्यथित होकर प्रिय कृी अनुपस्थिति में भी उसे
उपस्थित मानकर ऊट-पटांग बातें बकने या क्रिया करने को 'प्रलाप' कहते
हैं । प्रलाप के उदाहरण में पद्माकर जी लिखते हैं—

आम को कहति आमिली है आमिली को आम,
 आकही अनारन को आँकियो करति है ।
 कहै 'पदमाकर' तमालन को ताल कहै,
 तालन तमाल कहि ताकियो करति है ।
 कान्है कान्ह काहू कहि कदली कदम्बनि को,
 भेटि परी रम्मन मे छाकियो करति है ।
 साँवरे सों रावरे यो विरह बिकानी बाल
 बन बन बावरी लो भाँकियो करात है ॥

हे कृष्ण, तुम्हारे वियोग मे व्यथित हुई वह दाँला आम को इमली और
 इमली को आम बताने लगती है । इसी तरह आक को अनार और तमाल
 को ताल कहने लगती है । इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वह कदम्ब या
 कदली वृक्ष को 'कान्ह-कान्ह' कह कर उससे लिपट जाती है । जब देखो,
 तब बावली की तरह तरु पुंजों और लता-कुंजों में भाँकती फिरती है ।

यहाँ कदम्ब को कृष्ण समझ उससे लिपट जाना ही प्रलाप है ।

कविवर देवजी ने भी प्रलाप का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है ।

देखिए—

ना यह नन्द को मन्दिर है वृषभानु को भौन जहाँ जकती हौ ।

हौं ही इहाँ तुमही कवि 'देवजू' कौन को घूँघट कै तकती हौ ।

भेंटति मोहि भट्टु केहि कारन कौन की धौं छुबि सों छुकती हौ ।

ऐसी भई हौ कहो केहि कारन कान्ह कहाँ है ? कहा बकती हौ ?

सखी यह नन्द का मन्दिर नहीं, यह तो वृषभानुजी का भवन है । यहाँ
 तुम झिझकती क्यों हो ? मेरे और तुम्हारे सिवा यहाँ तीसरा कोई भी नहीं
 है, फिर यह घूँघट काढ़ के किसे ताकती हो । अरे ! तुम तो मुझसे लिपटने
 लगीं । यह तुम्हारी हालत क्या है । क्या कहा ! कृष्ण ! अरी पगली ! कृष्ण
 यहाँ कहाँ हैं ? कहीं पागल तो नहीं होगई ।

यहाँ भी सखी को कृष्ण समझ उसे आलिंगन करना आदि क्रियाएँ प्रलाप हैं ।

वसन्त ऋतु में कन्त हीन कामिनी की कैसी विपरीत अवस्था हो रही है, देखिये । वह कहती है—

भूरि से कौने लये बन बाग ये कौने लु आमन की हरियाई।
 कोइल काहे कराहति है बन कौने चहुँ दिसि धूरि उड़ाई।
 कैसी 'नरेश' बयारि बहै यह कौने धौँ कौन सी माहुर नाई।
 हाय न कोऊ तलास करै ये पलासन कौने दबारि लगाई ॥

यह वन-उपवनो को किसने भूर डाला ? आमो की हरियाली किसने हर ली ? यह कोयल क्यों कराहती फिरती है ? यह हवा भी ऐसी लगती है, मानो इसमें किसी ने विषैली गैस मिला दी हो। अरे ! वह उधर देखो, किसी ने पलाश-वन में आग लगा दी है ! लोग बड़े लापरवा हैं, कोई न तो उसे बुझाने का प्रयत्न करता है, और न आग लगाने वाले आततायी की तलाश ही की जा रही है।

यहाँ प्रलाप का कैसा सुन्दर चित्र अंकित किया गया है।

उन्माद

वियोग-जनित व्यथा के कारण बुद्धि विपर्यय हो जाने में विरही जब व्यर्थ रोने, हँसने या बकने लगता है, तो उस अवस्था का नाम 'उन्माद' है।

नीचे मतिरामजी का एक सवैया दिया जाता है, देखिए उन्माद का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

जा छिन ते 'मतिराम' कछू मुसिक्यात कहुँ निरख्यौ नन्दलालहि ।
 ता छिन ते छिनही छिन मे बहु बाढी बिथा सो बियोग का बालहि ।
 पौछति है किसलै कर सों गहि बूभति स्याम सरीर गोपालहि ।
 भोरी भई है मयकमुखी भरि भैटति है भुज अक तमालहि ॥

जिस समय में उस बाला ने मुस्कराते हुए नन्दलाल को देखा है, उन्माद से उसकी बड़ी अजीब हालत हो गई है। यदि कहीं किसी सौवले रंग वाले व्यक्ति को देखती है, तो उसे "गोपाल-गोपाल" कह कर पुकारने लगती है। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वह तमाल वृक्ष को भुजाओं में भर आलिंगन भी करने लग जाती है। भला उसके इस भोलेपन का कुछ ठिकाना है ?

इस प्रसंग में कविवर देव का भी एक उदाहरण देख लीजिए—

अरि कै वह आजु अकेली गई खरिकै हरि के गुन रूप लुही ।
 उनहु अपनो पहिराय हरा मुसकाइ कै गाइ कै गाइ दुही ।

कवि 'देव' कह्यौ किन काउ कछु जबते उनके अनुराग छुही ।
सबही सों यही कहै बाल बधू यह देखोरी माल गुपाल गुही ॥

कृष्ण ने अपने गले की माला उतार कर गोपी को क्या पहना दी, मानो उस पर जादू डाल दिया । अब वह जिसमे भी मिलती है, उसी से माला दिखा कर कहती है—'यह माला गोगल की स्वयं अपने हाथों से बनाई हुई है ।' प्रेमाधिक्य के कारण बुद्धि-विपर्यय हो जाने से वह यह भी नहीं सोचती कि मैं अपने प्रणय-प्रसंग का अपने आप ही दिढोरा पीटती फिरती हूँ । इसी का नाम उन्माद है ।

व्याधि

वियोग-व्यथा से उत्पन्न अत्यन्त सन्ताप के कारण शरीर के रोगी, पीले या कृश हो जाने को 'व्याधि' कहते हैं ।

उदाहरण देखिए—

बिरह सतापन ते तपनि हेरानो चेत,
ऊबि-ऊबि सासे लेत नैन नीर भरि भरि ।
करपूर धूरनि ते चन्दन के चूरन ते,
तामरस मूरनि उपाय थाकी करि करि ।
वेरि रहीं घरकी नगर की उगारि आईं,
देखि देखि भाखे सबै त्राहि त्राहि हरि हरि ।
अंग अग सूके बैन मूके से बधू के उर,
भभकि भभूके मैनजू के उठें बरि बरि ॥

बिरह-सन्ताप-तप्त नायिका आँखों से आँसू बहाती हुई लम्बी-लम्बी साँसे लेती है । उसकी विपन्नावस्था देख सब त्राहि-त्राहि कर रहे हैं ।

नीचे लिखा दोहा भी व्याधि का अच्छा उदाहरण है—

कब की अजब अजार मे परी वाम तन छाम ।
तित कोऊ मति लीजियो चन्द्रोदय को नाम ॥

इस वामा को तो अजीब रोग हुआ है । बस योही मूर्च्छित-सी पड़ी रहती है । कहते हैं, ऐसी हालत में चन्द्रोदय की मात्रा देने से, शरीर में चेतना और गर्मी आ जाती है, परन्तु यहाँ तो चन्द्रोदय (चन्द्र + उदय)

का नाम लेने मात्र से व्याधि बढ जाने की सम्भावना है। इससे तो यही ठीक है, कि उसके पास कोई 'चन्द्रोदय' की चर्चा ही न चलावे।

जड़ता

वियोग-जनित दुःखातिरेक से शरीर के स्तब्ध हो जाने का नाम जड़ता है। इसमें व्यक्ति सब सुध-बुध भूल कर निश्चल और निश्चेष्ट हो जाता है।

देखिए पद्माकर जी ने जड़ता के उदाहरण में कैसा सुन्दर कवित्त लिखा है—

आजु बरसाने की नवेली अलबेली बधू,
मोहन विलोकिबे को लाज काज लै रही।
छुज्जा-छुज्जा भाँकति भरोखनि भरोखनि हूँ,
चित्रसारी चित्रसारी चित्र सम ज्वै रही ॥
कहै 'पदमाकर' त्यों निकस्यौ गोविन्द ताहि,
जहाँ तहाँ इक टक ताकि घरी द्वै रही।
छुज्जा वारी छुकी सी भरोखावारी उभकी सी
चित्र कैसी लिखी चित्रसारी वारी हूँ रही ॥

बरसाने की नवेली अलबेलियाँ, गोविन्द को देखकर, उन्हे देखती की देखती रह गईं। जो छुज्जे पर से देख रही थीं, वे वहाँ की वहाँ छुकी-सी रह गईं। भरोखे में होकर भाँकने वाली, उभकती ही रहों और जो चित्रसारी में बैठी देख रही थीं, वे चित्र लिखी-सी देखती रहीं। यहाँ गोपियों का अंचल-निश्चल भाव से देखते रह जाना ही जड़ता है।

कविवर 'ममारख' जी का नीचे लिखा सवैया भी जड़ता का कैसा सजीव उदाहरण है—

कौल से पानि कपोल घरे, दृग द्वार लों नीर भरे हिय हारे।
चित्र चरित्र मई सी भई, गई लीन हूँ दीन टरै नहिं टारे।
रावरी लागी 'ममारख' दीठि न जाति कही हम जाति पुकारे।
जागि है जीहै तो जीहै सबै, न तो पीहै हलाहल नन्द के द्वारे ॥

हे मोहन, जिस घड़ी से उसने तुम्हें और तुमने उसे देखा है, उसी क्षण से वह कमल जैसे हाथों पर चन्द्रसदृश मुख रखे, दरवाजे की ओर टकटकी

लगाए आँसू बहा रही है । न हिलती-डुलती है और न बोलती-चालती है । निश्चय ही उसे तुम्हारी नज़र लग गई है । बस हम तुम्हें बताए जाती हैं— यदि वह जो-जाग गई, तब तो हम सब की जिन्दगी है, नहीं तो हम हलाहल पान कर तुम्हारे दरवाजे पर प्राण त्याग देगी ।

नीचे लिखा बिहारी जी का दोहा भी कितना सुन्दर है—

चकी जकी-सी हूँ रही बूझै बोलति नीठि ।
कहूँ दीठि लागी लगै कै काहूँ की दीठि ॥

मालूम होता है या तो इसकी कहीं आँखें लग गई हैं, या इसे किसी की नज़र लगी है, इसलिए यह चेष्टाहीन सी हो रही है—इसे बोले बोल नहीं आता ।

मरण

शरीर से प्राणों के अलग हो जाने का नाम मरण है, परन्तु साहित्य में वियोगावस्था जनित नैराश्य की पराकाष्ठा को भी मरण कहते हैं । इसीलिए कवि गण मरण का स्पष्ट वर्णन न कर उसके स्थान में मूर्च्छा अथवा मृत व्यक्ति के सुयश वीरता आदि गुणों का वर्णन करते हैं । उदाहरण देखिये—

इन दुखियान कौं न सुख सपने हूँ मिल्यौ,
ताते अति व्याकुल विकल अकुलायँगी ॥
प्यारे 'हरिचन्द' जू की बीती जानि औधि प्रान—
चाहत चल्थौ पै ए तो संग न समायँगी ॥
देख्यौ एक बार हू न नैन भरि तोहि या पै,
जौन जौन देश जैहैं तहाँ पछिताँगी ।
बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय,
देखि लीजो आँखे ये खुली ही रहि जायँगी ॥

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी कहते हैं—इन दुखिया आँखों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिला, इसलिये ये अन्त समय तक अकुलाती ही रहेंगी । इतना ही नहीं तुम्हारे दर्शन बिना हुए, देख लेना, ये अन्त काल में भी खुली ही रह जायँगी ।

कविवर देव का भी नीचे लिखा सवैया पढ़ने योग्य है—
 साँसन ही सों समीर गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयो ढरि ।
 तेज गयो गुन लै अपनो अरु भूमि गई तनु को तनुता करि ।
 'देव' जिये मिलवे ही की आसन आसहु पास अवास रह्यौ भरि ।
 जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जु लियो हरि जू हरि ॥

जिस समय से मन्द मुस्कराहट के साथ, मुँह फेर-फेर 'हेरि' कर हरिजू ने हृदय हर लिया है, उस समय से उसके शरीर से पाँचों तत्व धीरे धीरे कूच करते जा रहे हैं। दीर्घ निःश्वासों द्वारा वायु और आँसुओं के रूप में जल निकला जा रहा है। इस प्रकार भूतत्व भी शरीर को शनैः शनैः क्षीण करके विदा होता जाता है। तेज भी अपना गुण समेट कर निकल चुका है। अब उसके जीवित मिलने की आशा दुराशा मात्र ही है।

मूर्च्छा

वियोग व्यथा-जनित दुःख के कारण शरीर के सज्ञा शून्य हो जाने को मूर्च्छा कहते हैं। कवि पद्माकर जी ने मूर्च्छा का उदाहरण इस प्रकार दिया है—

ए हो नन्दलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल,
 हाल ही चलौ तो चलौ जोरी जुरि जायगी ।
 कहै 'पद्माकर' नहीं तो ये भुकोरे लगै,
 और लौँ अचाका बिन घोरें घुरि जायगी ॥
 सीरे उपचारन घनेरे घनसारन को,
 देखत ही देखो दामिनी लौ दुरि जायगी ।
 तौ ही लागि चैन जौ लौँ चेतौ है न चन्द मुखी,
 चेतैगी कहूँ तो चोँदनी में घुरि जायगी ॥

हास्य रस

“ जिनदगी जिनदादिली का नाम है ”

यदि किसी के कथन या लेख में शिष्ट हास्य का पुट रहता है, तो उससे एक अपूर्व आनन्द उपलब्ध होता है। जब एक हृदय में, वास्तविक प्रसन्नता नहीं होती, तब तक सच्ची हँसी नहीं आती। वैज्ञानिकों का मत है, कि संसार

में मनुष्य के सिवा और कोई प्राणी नहीं हँसता । हास्य मनुष्य के मन की सुरभायी हुई कली को एक दम विकसित कर देता है । उस समय हृदय उदासीनता और शिथिलता के प्रभाव से निकलकर प्रसन्नता के रंग में रँग जाता है । नाटकादि में, विदूषकों की सृष्टि हँसाने के लिए ही की गई है । जब किसी काम से लोगों की तबीयत ऊब जाती है, तो हास्य रस के छुँटे ही उसे तरोताजा करते हैं ।

रात दिन के जीवन में देखिये, एक वह सेठ जी हैं, जो कलपते-कराहते, गरजते-गुराँते, भीखते-भाँकते अपने फर्म का काम करते हैं और एक वह कैदी है जो आनन्द से गीत गाता हुआ, अपने हिस्सों का पन्द्रह-बीस सेर आटा पीस कर रख देता है । और फिर भी प्रसन्न होख पड़ता है । इसका कारण हास्य-प्रियता ही है । हास्य वह मिसरी है, जो उपदेश की कड़वी कुनैन को भी इतना मीठा बना देती है कि छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बड़े बुद्धे तक उसे बड़ी रुचि से चाट जाते हैं ।

आयुर्वेद की दृष्टि से भी हास्य का बड़ा महत्व है । हँसने के कारण मस्तिष्क से लेकर हृदय तक की, सब नस-नाड़ियाँ हिल जाती हैं, और उथल-पुथल होने के कारण फुफ्फुसों को बल मिलता है । एक प्रसिद्ध डाक्टर का कथन है कि हास्य पाचन शक्ति ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है । हास्य रूपी परमौषध के सेवन से हाज़मा ज़रूर दुरुस्त हो जाता है । एक और डाक्टर लिखता है कि जिस दिन हमको हँसी न आई हो, वह दिन बड़ा मनहूस समझना चाहिये । हँसोड़ व्यक्ति स्वयं ही हास्य रस का आनन्द नहीं उठाता, प्रत्युत दूसरों की प्रसन्नता का कारण भी बनता है । प्रसिद्ध विद्वान् 'सेन' का कथन है—A humourist's entrance into a room is as though another candle has been lighted. अर्थात् किसी स्थान में हँसोड़ या विनोदी व्यक्ति के आगमन से ऐसा प्रतीत होता है, मानो दूसरा दीपक प्रकाशित कर दिया गया है । यही विद्वान् आगे चल कर फिर कहता है—A good laughter is a sun-rise in a house. अर्थात् हार्दिक हँसना ऐसा है, मानो किसी मकान में सूर्य उदय हुआ हो । एलावीलर विल्किन्स का कहना है—Laugh and the world laughs at you, weep, and you weep alone.

अर्थात् हँसो तो देखोगे कि संसार तुम्हारे साथ हँसता है ; और रोओ तो अकेले बैठकर रोते रहो । एक अनुभवी डाक्टर का कथन है कि दिन में तीन बार खिल खिलाकर हँसने से चिकित्सक की आवश्यकता नहीं रहती । मिस्टर बी मेक्फाउन का कथन है ।

Crush sorrows, cultivate happiness.

अर्थात् चिन्ताओं का अन्त कर देने से ही वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होती है । श्रीयुत स्टीविसन् हास्य रस की विवेचना करते हुए लिखते हैं—

There is no duty we so much undertake as the duty of being happy. By being happy we sow anonymous benefits upon the world

अर्थात् प्रसन्न रहना हमारा कर्तव्य है । यदि हम प्रसन्न रहेंगे, तो अज्ञात रूप से संसार की बहुत बड़ी भलाई करेंगे । एक और विद्वान् का कहना है, कि जिस व्यक्ति को हास्य गुण प्राप्त है वह कारागार में भी सुखी रहता है । सेनुएल स्माइल्स का कहना है—Cheerfulness gives elasticity of the spirit यानी प्रसन्न रहने से आत्मा को बल प्राप्त होता है । सुप्रसिद्ध लेखक एडीसन ने एक स्थान पर लिखा है, कि सहृदयता और हास्य भाव से यदि हम किसी दोष पर हँसे और दोषी को भी हँसाएँ तो बिना मनोमालिन्य के बड़ी आसानी से सुधार हो सकता है ।

प्रसिद्ध तत्ववेत्ता स्वामी रामतीर्थ ने एक बार कहा था—

Make it your profession, your business, your trade, occupation, vocation, the aim and object of your life to keep ourself always peaceful and happy. The independent of all surrounds, circumstances, irrespective of gain and loss, your highest duty in the world laid upon your shoulders by God is to keep yourself joyful.

अर्थात् प्रत्येक मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य यह है कि वह सदैव शान्त और प्रसन्न रहे । प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने की आदत न छोड़नी चाहिये ।

कभी-कभी हास्य बड़ा काम कर जाता है। ऐसे अनेक अवसर आए जब हास्य ने क्रोधियों की उबलती हुई कोपाग्नि पर पानी डाल कर, उसे शान्त कर दिया और उस क्रोध के कारण होने वाला घोर अनर्थ न हो पाया। जैसा कि ऊपर कहा गया, हँसी मानसिक प्रसन्नता का उद्गार है। जब वह अन्दर रोकने पर भी नहीं रुकती, तभी बाहर निकल पड़ती है। हँसी आने पर न हँसने से तरह-तरह के रोग लग जाते हैं। धर्म की सीमा में प्रायः हास्य का वहिष्कार किया जाता है, परन्तु परमात्मा तो स्वयं आनन्द स्वरूप है। सारा संसार आनन्द चाहता है, फिर धर्म ही से हास्यमय आनन्द का क्यों वहिष्कार किया गया। संसार में जितने महान् पुरुष हुए हैं, वे प्रायः सभी विनोद-प्रिय थे। जो व्यक्ति अपने हास्य के प्रभाव से लोगों को असीम आनन्द प्रदान करता हो, निराश दुखियों और थके मादों के मुरभाए चेहरों को फूल की तरह खिलाने की क्षमता रखता हो, उसका उपकार कुछ कम न समझना चाहिए।

अभिप्राय यह कि जीवन के लिए हास्य बहुत ही उपयोगी है। उससे मन और शरीर दोनों को सुख पहुँचता है। फेफड़े बलिष्ठ होते हैं। तबीयत पर से चिन्ताओं का बोझ कम हो जाता है और मन में कुछ आमोद सा प्रतीत होने लगता है। जिन अभागों के शरीर में हास्य के परमाणु ही नहीं उनकी दशा दयनीय है वे सदैव मनहूस दिखाई देते हैं। त्रौहारों की सृष्टि हँसने-हँसाने के लिए ही हुई है। अस्तु;

हास्य में शिष्टता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। कट्टु हास्य हास्य नहीं कहा जा सकता। हास्य तो वही बढ़िया है, जो हास्य का पात्र बनने वाले व्यक्ति को भी हँसा दे। मनोविज्ञान वेत्ताओं ने कपाल के सबसे पिछले भाग में हास्य प्रवृत्ति का स्थान माना है। उनके मत में प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति की ओर, अप्रतिवाधित हास्य करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति में इस स्थान का विकास होता है। स्पर्जियम नामक मस्तिष्क शास्त्री का कहना है कि हास्य रस के लेखकों के कपल का उक्त स्थान स्पष्ट रूप से उभरा हुआ दिखाई देता है। स्वाभाविक शक्ति के दुरुपयोग, अतियोग, हीन योग अथवा मिथ्या योग से हास्य की पात्रता सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ जब एक

विवाहिता स्त्री, जिसके सन्तान भी हो गई हो, अपनी सन्तान के लालन-पालन का कार्य त्याग कर, कुत्ता-बिल्ली या तोता-मैना आदि से स्नेह करे, और उसी में तन्मय रहे तो उसका यह कार्य हास्यास्पद होगा। लोग उसे देख कर हँसेंगे। युद्ध, विवाह और विवाद समान गुण, कर्म—स्वभाव वालों के साथ ही ठीक रहते हैं। परन्तु जब एक वृद्ध पुरुष किसी तरुणी से विवाह करना चाहता है, जो उसे ज़रा भी नहीं चाहती, तो बड़ी हँसी आती है। क्योंकि वृद्ध को तरुणी का प्रेम प्राप्त करने के लिए ऐसी-ऐसी खातिर खुशामद करनी पड़ती है, कि जिन्हे देखकर लोगो को हँसी आए बिना नहीं रह सकती। इसी प्रकार त्रिचित्र वेश-भूषा, अद्भुत केश-रचना, अस्वाभाविक मनोभाव प्रदर्शन, अत्यन्त विनम्रता इत्यादि बातें हास्य की उत्पादिका हैं। विषमता, विपरीतता, कुरूपता, अतिशयता आदि से भी हास्य उत्पन्न होता है। तरह-तरह की चीज़ों में एक प्रकार की असम्बद्धता के कारण ही हास्य रस का प्रादुर्भाव माना गया है। संसार में इस प्रकार की विपरीतता या असम्बद्धता दिन रात दिखाई देती रहती है जिसके कारण हास्य रस का प्रादुर्भूत होना स्वाभाविक ही है। सामान्य दशा के प्रतिकूल घटी घटना ही विपरीतता कहाती है। अस्तु; हास्य रस ऐसी चीज़ है, जो बालक, वृद्ध युवा, स्त्री-पुरुष सभी को पसन्द है।

हास्य वही अच्छा होता है जिसके समझने में कठिनाई न हो। वह शिष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। विस्तृत हास्य से मज़ा बिगड़ जाता है। हास्य में दुष्ट हेतु होना तो किसी प्रकार भी ठीक नहीं। जैसा कि ऊपर कहा गया, समाज-सुधार के लिए हास्य अमोघ उपाय सिद्ध हुआ है। उचित स्थान पर हास्य का पुट अभीष्ट सिद्धि में सहायक होता है, परन्तु अनुचित स्थान पर उसका प्रयोग क्लेश और कटुता का कारण बन जाता है। हास्य वृत्ति के विकसित न होने से जीवन नीरस और शिथिल हो जाता है। मन और शरीर की स्वस्थता के लिए हास्य अत्यन्त आवश्यक है। बालकों में हास्य वृत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। उनमें उसका विकास पूरी तरह होने देना चाहिए। हास्य में सौन्दर्य, तर्क, प्रेम आदि का पुट आवश्यक है। कभी-कभी सौन्दर्य की कमी से हास्य हलका हो जाता है। तर्क शक्ति के अभाव से मूर्खतापूर्ण बन जाता है और प्रेम की न्यूनता से उसमें सरसता

नहीं आने पाती। कभी-कभी हास्य में शौर्य की अधिकता होती है, जिसे उसमें कटाक्ष और दूसरो को चिढाने के भाव आ जाते हैं। कटाक्ष युक्त हास्य में आनन्द तो आता है, परन्तु उसमें सुन्दरता या कोमलता के दर्शन नहीं हो पाते। हास्य के लिए देश, काल, पात्र आदि का देखना बहुत आवश्यक है। इन बातों को बिना सोचे-समझे हास्य कर बैठने से हानि होती है।

नाटक में जो कार्य चतुर चालाक विदूषक करता है, वही इस जीवन में हास्य वृत्ति को करना पड़ता है। मनुष्य का मस्तिष्क नाटक भवन है। उसमें विविध मानसिक शक्तियाँ अभिनेता के रूप में अपना अपना 'पाठ' अदा करती हैं। उनमें से हास्य वृत्ति को विदूषक का खेल खेल कर सब का मनोरञ्जन करना पड़ता है। जिस तरह बिना विदूषक के रंग-मञ्च फीका रहता है, उसी प्रकार हास्य वृत्ति के अभाव के कारण, जीवन-नाटक में, सरसता नहीं आने पाती। जैसा कि कहा गया हास्य वृत्ति मनुष्य में ही मानी गई है, परन्तु बहुधा देखा जाता है कि कभी न कभी कुत्तों और बिल्लियों के मुँह पर भी अजीब तरह की मुस्कराहट आ जाती है। जब हम किसी कुत्ते को रोटी डालते हैं तो वह प्रसन्नता से पूछूँ दिलाता और मुँह की ऐसी चेष्टा बनाता है, जिससे उसका हँसना सा प्रतीत होता है।

हँसी दो प्रकार की होती है, भौतिक और साहित्यिक। भौतिक हँसी, सम्बन्ध जनित हर्ष के कारण आती है, परन्तु साहित्यिक हँसी का विकास हास्योत्पादक परिस्थिति पर निर्भर है। मान लीजिये, किसी का पुत्र चिर कालीन प्रवास के बाद घर आया है। उस समय उसके माता-पिता अथवा अन्य सम्बन्धियों के मुख पर हर्ष या हास की जो रेखा है, वह भौतिक सम्बन्ध के कारण है, हास्योत्पादक परिस्थिति की वजह से नहीं अतएव वह साहित्यिक हास्य नहीं हो सकता। साहित्यिक हास्य में तो सभी लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए। साहित्य सम्बन्धी हास्य को सुन कर सब सहृदयों का हँस पड़ना स्वाभाविक है, चाहे उस हास्योत्पादक परिस्थिति से किसी का सम्बन्ध है या नहीं। साहित्य ग्रन्थों में साहित्यिक हास्य का ही वर्णन किया जाता है। साहित्यकारों ने हास्य के कई भेद किये हैं। उनमें स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित मुख्य हैं। इनमें हास्य की मात्रा

क्रमशः बढ़ती जाती है। गुदगुदी होने से भी बढ़ी हँसी आती है। परन्तु उसमें न भौतिक आनन्द है और न साहित्यिक। कुछ ग्रन्थियों या स्नायुओं के स्पर्श मात्र से शरीर में एक प्रकार की सनसनी-सी होती है, जिससे हँसी का फव्वारा फूट निकलता है। परन्तु वास्तव में उस हँसी का हृदय से कुछ सम्बन्ध नहीं है। ऐसी हँसी भी होती है, जिसमें घृणा मिश्रित सवेदना का पुट होता है। परन्तु वह भी भौतिक ही होती है, साहित्यिक नहीं।

हास्य के कुछ और भी भेद हैं, जो नीचे दिये जाते हैं। १—हाज़िर जवाबी (Wit), जैसे एक बार बड़ी कौसिल में किसी शेखीखोर अँगरेज़ मेम्बर ने कहा—“हिन्दुस्तानी बड़े झूठे हैं।” इस पर महामति गोखले बोल उठे—“और अँगरेज़ झूठों के बादशाह हैं।” गोखले के उत्तर से वह अँगरेज़ मद्दाशय तो लज्जित हो गए, परन्तु और सब हँसने लगे। हाज़िर जवाबी इसी को कहते हैं। २—वक्रोक्ति, (Satire) इसके दो भेद हैं—काकु (Hightened), और श्लेष (Fun)। काकु, जैसे—किसी ने अपने मित्र से कहा—‘मेरी सरलता को तो आप जानते ही हैं।’ उत्तर मिला—“जी हाँ, आप तो पूरे महात्मा है।” इससे पहला मित्र हँसने लगा। श्लेष; जैसे—“राम ने कृष्ण से कहा—‘भाई आज कल मैं बेकार हूँ।’ कृष्ण ने उत्तर दिया—‘तो एक कार क्यों नहीं खरीद लेते।’ इस वैचित्र्य से राम हँस पड़ा। ३—ऊट पटांग बातें (Nonsense)—जैसे—“दाढ़ी बढ़ाई योगी हो गैलन बकरा।” ४—वेढगी बातें, (Incongruous) जैसे—चलती को गाड़ी कहें बने माल को खोया।” “बरसे कम्मल भीजे पानी,” आदि ५—तकिया कलाम. (Mannerism) जैसे—आई समझ में, वह बरात बहुत बड़ी थी, आई समझ में, हाथी घोड़े और मोटरे भी थीं उसमें, आई समझ में। वह बीमार पड़ा है कुछ नहीं खाता पीता, आई समझ में कराहता रहता है, आई समझ में ? इत्यादि। नाटकदि में तो इस प्रकार के तकिया कलामों से बहुत ही हँसी आती है। ६—नक़ल (Caricature) किसी आदमी या जानवर की नक़ल करने से भी बहुत हँसी आती है। कुछ दिनों से परिहासरूप में कविताओं की भी नक़ल (Parody) होने लगी है। जैसे—

“एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ मैं आध।

तुलसी सेवन पार्क को हरै हज़ारन व्याधि ॥”

दोहे के दूसरे चरण का मूल पाठ है—

“तुलसी सगति साधु की हरै कोटि अपराध”

इसको उपर्युक्त प्रकार से बदल देने के कारण इसमें हास्य का समावेश हो गया। ७—विरोधाभास (Paradox) जैसे—“आँख के अन्धे नाम नैनसुख”, “पानी मे मीन प्यासी”, “कुमारी विधवा” पवित्र पापी” “शरीरु डाकू” इत्यादि प्रयोगों को सुन कर भी मन में एक गुदगुदी सी होती है। ८—वचन विदग्धता, वाक्छल और उक्ति वैचित्र्य (Verbal jugglery and wit), जैसे तुम्हारा कोई मित्र तुमसे कहता है—आज मुझे गाँव जाना था, पर सबेरे से ही पेट चल रहा है।” ऐसी स्थिति मे तुम उम्ने यह उत्तर दोगे तो बड़ा लुफ्त आएगा कि “हज क्या है, पैरों के बदले आपका पेट ही चल रहा है ?”

हास्य

जहाँ पर हास स्थायी भाव की पुष्टि होती है, उसे हास्य रस कहते हैं।

हास्य रस का स्थायी भाव—हास, देवता—प्रमथ अर्थात् शिवगण और वर्याश्वेत है।

आलम्बन—विकृत आकार प्रकार और विचित्र वेशभूषा एवं अद्भुत वाणी, चेष्टा आदि के नाट्य मे हास्य रस का आविर्भाव होता है। अर्थात् विकृत आकृति, वाणी, वेश, तथा चेष्टा इसके आलम्बन हैं।

उद्दीपन—ऊट-पटोग, वेश, टेढे-मेढे वचन, विचित्र अंग भंगी और हँसाने वाले भाव हास्य रस के उद्दीपन हैं।

अनुभाव—आँखों का मुकुलित और मुख का विकसित होना, मन्द-मन्द मुस्कराना या खिलखिलाकर हँसना आदि हास्य के अनुभाव हैं।

संचारी भाव—स्वप्न, ग्लानि, अवहित्या, चपलता, शोक, हर्ष, आलस्य आदि हास्य इसके संचारी भाव माने गए हैं।

हास्य के भेद

पात्र भेद से हास्य दो प्रकार का है—स्वनिष्ठ और परनिष्ठ।

स्वनिष्ठ—जिस हास्य में मनुष्य स्वयं हँसे, उसे स्वनिष्ठ या आत्मस्थ हास्य कहते हैं।

परनिष्ठ—जिसमें दूसरों को हँसाया जाय उसे परनिष्ठ या परस्थ हास्य कहते हैं ।

अन्य भेद

प्रकार भेद से हास्य या हसन क्रिया के छह भेद हैं—स्मित, हसित, विहसित, उपहसित या अवहसित, अपहसित और अतिहसित ।

उक्त छहो भेदों के लक्षण और उदाहरण स्थायी भावों के वर्णन में दिये गए हैं । इस छह प्रकार के हास्य में से स्मित और हसित उत्तम पात्र में, विहसित और अवहसित मध्यम पात्र में, तथा अपहसित और अतिहसित अधम पात्र में होते हैं ।

रस तरंगिणीकार ने हास्य के स्मित आदि छह भेदों को स्वनिष्ठ और परनिष्ठ के विचार से दो दो प्रकार का मानकर हास्य के कुल बारह भेद किये हैं । यथा—

(अ) उत्तम पात्र में (ब) मध्यम पात्र में (स) अधम पात्र में

- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| १—स्वनिष्ठ स्मित । | ५—स्वनिष्ठ विहसित । | ९—स्वनिष्ठ अपहसित । |
| २—स्वनिष्ठ हसित । | ६—स्वनिष्ठ अवहसित । | १०—स्वनिष्ठ अतिहसित । |
| ३—परनिष्ठ स्मित । | ७—परनिष्ठ विहसित । | ११—परनिष्ठ अपहसित । |
| ४—परनिष्ठ हसित । | ८—परनिष्ठ प्रवहसित । | १२—परनिष्ठ अतिहसित । |

हास्य रस के उदाहरण देखिए, महादेव बाबा की कैसी हँसी उड़ाई गई है—

लोचन असम अंग भसम चिता को लाइ,
तीनों लोक नायक सौ कैसे कै ठहरतो ।
कहैं 'पदमाकर' विलोकि इमि ढंग जाके,
वेद हू पुराण गान कैसे अनुसर तो ॥
बाँधे जटाजूट बैठे परबत कूट माहि,
महा कालकूट कहौ कैसे कै ठहरतो ।
पीवै नित भंगै रहै प्रेतन के संगै ऐसे—
पूछ तो को नंगै जो न गंगै सीस धर तो ॥

उक्त पद्य मे विषम (तीन) नेत्रों वाले, शरीर में चिताभस्म लपेटे, विकृत वेश-भूषा वाले महादेव जी हास्य के आलम्बन हैं । शिव जी के भग पीने और प्रेतों के साथ रहने आदि का वर्णन हास्य के उद्दीपन हैं, क्योंकि इनसे शिव जी के विकृत वेश-भूषादि विषयक धारणा और भी दृढ़ होती है । ऐसे नंगा को कौन पूछता, वेद-पुराणों में इनकी चर्चा कैसे होती, यदि इन्होंने गंगा को सिर पर धारण न किया होता इत्यादि अनुभाव हैं । क्योंकि इनसे हास्य का अनुभव होता है । चिता-भस्म लेपनादि से उत्पन्न ग्लानि तथा हर्ष इसमें सचारी भाव हैं । इसी प्रकार आगे के उदाहरणों में भी विभावानुभावादि की ऊहा कर लेनी चाहिये ।

वेनी कवि ने किसी कजूस-मक्खीचूस का तैला खाका खींचा है, देखिए—

आध पाव तेल में तयारी भई रोसनी की,

आध पाव रूई में पोपाक बनी वर की ।

आध पाव छोल्ले के गिनारे दिए भाइन कों,

मांगि मांगि लायो है पराई चीज घर की ॥

आधी आधी जोरि 'कवि वेनी' की बिदाई कीन्दी,

व्याहि आयो जब ते न बोलै बात थिर की ।

देखि देखि कागज तर्काअत सुमादी भई,

सादी कहा भई वरवादी भई घर की ॥

कंजूस की शादी का वर्णन है, जिसने खाक तो खर्च नहीं किया, परन्तु डींग मार कर लोगों से कहता यह है, कि इस शादी के कारण मैं बर्बाद होगया ! क्या करूँ !

किसी कवि ने अपनी कविता के बदले 'वाह-वाह' के सिवा एक कौड़ी भी न पाकर, कैसी चुभती फबती उड़ाई है, सुनिए—

उर्द के पचाइवे कों हींग और सोंठि जैसे,

केरा के पचाइवे कों घिव निरधार है ।

गोरस पचाइवे को सरसों प्रबल दण्ड,

आम के पचाइवे कों नीबू को अचार है ॥

'श्रीपति' कहत पर धन के पचाइवे कों—

कानन छुवाइ हाथ कहिबो नकार है ।

आज के जमाने बीच राजाराव जानें सबै,
रीभिके के पचाइबे को वाहवा डकार है ॥

कवि कहता है कि राजा-राव किसी कविता पर रीभते हैं, तो बस 'वाह-वाह' कर देते हैं। मानो इसके अतिरिक्त उनके पास और कुछ देने को है ही नहीं।

किसी सूम के सम्बन्ध में प्रधान कवि की उक्ति पढ लीजिए—

आज जो कहें तो आठ मास में न लागे ढीक,

काल्हि जो कहें तो मास सोरह चलावहीं।

पाँच दिन कहें पाँच बरस बिताइ देहि,

पाख जो कहें तो लै पचास पडुँचावहीं ॥

भाषत 'प्रधान' जो वै ताहू पै न त्यागे द्वार,

आप न लजात फिर वाहू को लजावहीं।

ऐसे सत्यभाषी सरदार हैं दिवैया जहाँ,

काहे को पवैया तहाँ जीवित लों पावहीं ॥

प्रधान जी ने झूठे सूम सरदारों का कैसा अच्छा झाका खींचा है। इनके वादे ही पूरे नहीं होते। अब दें, तब दें, कल दे, परसो दें कहते-कहते कभी न दे। ऐसे वादे खिलाफों के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहा भी बड़ा मज़ेदार है।

पल पखवारो, मिनट महीना, चौ घड़िया कौ साल।

जाको लाला काल कहेंगे ताको कौन हवाल ॥

और देखिए—किसी रईस के यहाँ से मिली हुई रजाई के सम्बन्ध में उसके पाने वाले राय जी क्या कहते हैं—

कारीगर कोऊ करामात कै बनाइ लायो,

लीनी दाम थोरे जानि नई सुघरई है।

रायजू को रायजू रजाई दीन्हीं राजी है कै,

सहर में ठौर-ठौर सुहरति भई है ॥

'बेनी कवि' पाय कै अवाय घरी ब्रैक रहे,

कहत बनै न कछू ऐसी गति ठई है।

साँस लेत उड़िगौ उपरला भितरलाहू,

दिन द्वै की बाती हेतु रुई रहि गई है ।

रायजी को अञ्छी रजाई मिली, जो साँस लेते ही उड़ गई । न 'उपरला' रहा न 'भितरला'; केवल दो दिन के लिए बत्ती बनाने लायक रुई रह गई । बेनी कवि ने रजाई देने वाले रायसाहब की कैसी मीठी चुटकियों ली हैं । हिन्दी कवियों ने सूम दानियों ही के सम्बन्ध में ऐसी कविताएँ लिखीं हों सो बात नहीं, उन्हें तो जहाँ भी मौका मिला है वहाँ किसी को बखशा नहीं है । देखिए—अनाड़ी वैद्यों के सम्बन्ध में प्रधान जी ने निम्नलिखित सवैया कैसा मजेदार लिखा है—

पेट पिराय तो पीठि टटोरत, पीठि पिराय तो पाँय निहारे ।

द्वै पुरिया पहले बिस की पुनि पीछे मरे पर रोग विचारे ।

बीस रुपैया करे कर फीस न देत जवाब न त्यागत द्वारें ।

भाखे 'प्रधान' ये वैद कसाई हैं, दैव न मारे तो आपही मारे ॥

इस सवैया में उन मूर्ख वैद्यों की हँसी उड़ाई है, जो चिकित्सा के विषय में कुछ भी न जानकर व्यर्थ ही अपने ढोंग का टिटोरा पीटा करते हैं । ऐसे लालची अताइयो के द्वारा मरीज़ मरे बिना नहीं रहते । प्रधान जी ने उन्हें कसाई कहा है, सो उचित ही है ।

दयाराम जी के हृदय में दया का दरिया उमड़ा तो उन्होंने बेनी कवि के घर कुछ आम भेजे । दानियों में अपनी गिनती कराने के लिए उन्होंने आमों का दान तो किया, पर उनकी जन्म सिद्ध सहचरी सूमता की छाप उन पर भी लग ही गई । बेनी कवि भला कब चूकने वाले थे ? आमों को देखते ही उन्होंने उनकी पहुँच लाने वाले के हाथों ही इस प्रकार लिख भेजा—

चींटी की चलावै को मसा के मुह आइ जाय,

स्वास की पवन लागे कोसन भगत है ।

ऐनक लगाय मरु मरु कै निहारे जात,

अनु अरमान की समानता खगत है ॥

'बेनी कवि' कहै और कहाँ लौं बखान करों,

मेरे जाने ब्रह्म को विचारिबो सुगत है ।

ऐसे आम दीने दयाराम मन मोद करि,
जाके आगे सरसों सुमेरु सी लगत है ॥

वाह ! दयाराम के भेट स्वरूप भेजे हुए आमों का कैसा विचित्र वर्णन है। जिन आमों के आगे सरसों का दाना भी सुमेरु पर्वत-सा लगता हो, उनकी सूक्ष्मता का कुछ ठिकाना है। वे तो खुर्दबीन द्वारा भी मुशकिल से दिखाई देते हैं। मनुष्य प्रयत्न करे तो कदाचित् ब्रह्म के दर्शन हो जायँ, पर दयाराम के आमों का दिखाई देना असम्भव है। जो चीज श्वास की हवा से ही उड़ जाय उसकी सूक्ष्मता का भी कुछ ठिकाना है।

अब जरा पेड़ों का वर्णन भी पढ़ लीजिए—

चींटी न चाटति मुँसे न सूँघत बास ते माछी न आवत नेरे।
आनि घरे जबते घर मे तब ते रहै हैजा परौसिन घेरे।
माटी हू मे कछू स्वाद मिलै, इन्हँ खाय सो ढूँढत हरँ बहेरे।
चौकि पर्यौ पितुलोक मे बाप सो आपु के देखि सराध के पेरे ॥

पेड़ों की प्रशंसा कहाँ तक की जाय ! जिनके घर में रखे रहने मात्र से जब पड़ोसियों को हैजा घेरे रहता है, उनके खाने से तो न जाने क्या हो। इसीलिए तो उन्हें चींटी भी नहीं चाटती, चूहे सूँघते तक नहीं और मक्खी तो मारे बास के उनके पास भी नहीं फटकती। यहाँ पेड़ों के पुराने पन का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन 'सा हास्योत्पादक है।

नीचे लिखे पद्य में कृपण दाऊ की दानवीरता का कैसा सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है—

पौरि के किवार देत घरै सबै गारि देत,
साधुन कोँ दोस देत, प्रीति न चहत हैं।
मंगन को ज्वाब देत, बात कहँ रोइ देत,
लेत देत भोज देत, ऐसे निबहत हैं ॥
बागे हू के बन्द देत, वारन को गाँठि देत,
पर्दानि की काँछि देत, देतई रहत हैं।
एतेऊपै सबै कहँ दाऊ कछू भेत नाहिं,
दाऊ जी तो आठौ याम देतई रहत हैं ॥

कवि ने मक्खीचूस दाऊ की दातृत्वशक्ति का कैसा झाका खींचा है। उपर्युक्त सब चीज़ें देते रहने पर भी दान के नाम पर दाऊ जी जवाब भी नहीं देते। घर के किवाड़ देकर सो रहते हैं। हाँ, गाली देने में आप बड़े उदार हैं, यदि कोई दूसरा देता-लेता हो, तो उसकी भाँजी मार देने में भी आप बड़े कुशल हैं, और दूसरों को दोष देने में तो दाऊ की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। लोग भी क्या अजीब हैं, ऐसे दानी को भी कहते हैं कि वह कुछ देते ही नहीं।

पद्माकर जी ने नीचे लिखे पद्य में दूल्हा रूप धारी 'हिँदेव' जी का कैसा अच्छा वर्णन किया है—

हँसि-हँसि भजे देखि दूल्हा दिग्म्बर को,
पाहुनी जे आवैं हिमाचल के उछाह में ।
कहै 'पद्माकर' सुकाहु सों कहै को कहा,
जोई जहाँ देखे सो हसेई तहाँ राह मे ॥
मगन भयेई हँसे नगन महेस ठाढ़े,
और हँसे एऊ हँस हँस के उमाह में ।
सीस पर गंगा हँसे, भुजनि भुजंगा हँसे,
हाँस ही को दगा भयो नंगा के विवाह मे ॥

इस छन्द में दिग्म्बर वेश धारी शिव जी के विवाह का हास्यमय वर्णन है। बेचारे को देख कर सब हँस रहे हैं। गंगा, 'भुजंगा' ये, वे, जिसे देखो वही हँस रहा है। हँसी का हुल्लाह मचा हुआ है।

आजकल के कुछ प्रसिद्धिलोलुप कवि कवि सम्मेलनों में अपनी कविता सुनाने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं, इसका झाका यज्ञदत्त जी ने अपने नीचे के सवैया में बड़ी सुन्दरता से खींचा है—

मूँढ खपाइ सुखाइ कै खून बड़े स्रम सों रचैं सोंची पतीजिए ।
ताहू पै चाहक ना हम दाम के भूखे हैं नाम के एतो तो कीजिए ॥
होय जो हिम्मत दैवे की—दीजिए दाद, न होय, यहू मत दीजिए ।
जोरि के हाथ निपोरि के दाँत करैं बिनती कविता सुन लीजिए ॥

ऐसे ही एक प्रशंसा के मूखे कवि जी की आत्मयोग्यता के सम्बन्ध में कवि यज्ञदत्त जी ने नीचे लिखा पद्य लिखा है—

पिङ्गल पढ़ा नहीं न छूप कभी छुन्द-ग्रन्थ,
 जानता न रीति, गुण, दोष का विचार मैं ।
 नाम पै रसों के जानता हूँ बस छै ही रस,
 खट्टा, मीठा, क.डुवा, कसैला, तीखा, खार मैं ॥
 जिनसे सजार्ती अङ्गनाएँ निज अङ्ग उन—
 हार नूपुरादि ही को जानूँ अलंकार मैं ।
 तो भी वाह-वाह लूटने को कवि मण्डल में,
 भाँग लाया करता हूँ कविता उधार मैं ॥

ग्वाल कवि ने कुबड़ी दासी से प्रेम करने के कारण कृष्ण जी की कैसी मीठी चुटकियाँ ली है, देखिए—

ऊधो तेरे यार ऐसे है हैं रिभवार जाय,
 जानती विचार तो पै सूधौ हों न जायबो ।
 करती विचार भाँति भाँति के सुभाय भाय,
 केती बड़ी बात हुती वाको अटक़ायबो ॥
 'ग्वाल कवि' पीठिन पै एक एक हाँड़ी बाँधि,
 नीके मन मोहन को करती रिभाइबो ।
 या तो कहूँ कोई बहूरूपिया तलास कर,
 सीख लेती हम सब कुबर बनायबो ।

गोपिकाएँ कहती हैं, अरी सखियो, यदि शरीर के कुबड़ेपन से ही श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो हमें भी वैसा ही बनना चाहिए । किसी बहूरूपिये को बुला कर सब जनी कुबड़ बनाना सीख लो । या फिर अपनी-अपनी पीठ पर एक-एक हाँड़ी बाँध कर चलो । ऊधो जी, आपके यार भी सब कुछ छोड़ कुबड़ पर रीके हैं । अच्छे रिभवार हैं ।

जनकपुरी में स्त्रियों रामचन्द्र जी से कैसा हँसी-मज़ाक करती हैं—

अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा ।
 खीर खाय पैदा सुत करती पति कर कछू न कामा ॥

अयोध्या की स्त्रियाँ बड़ी विचित्र हैं, जिनके खीर खाने से ही पुत्र पैदा हो जाते हैं । ऐसा कहके उन्होंने रामचन्द्र जी की माता का मज़ाक उड़ाया,
 हि० न० र०—३३

क्योंकि उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ में यज्ञशिष्ट खीर खाई थी। यह सुनकर राम-चन्द्र जी भला कब चुप रहने वाले थे, वे तुरन्त ही बोल उठे—

कोउ न जनमे मात पिता बिन बँधी वेद की नीती।

तुम्हारे तो महि ते सब उपजें अस हमरे नहिं रीती ॥

हमारे यहाँ तो वेद मर्यादानुसार ही सन्तान उत्पन्न होती है। तुम अपने यहाँ की कहो, जो तुम्हारे यहाँ ज़मीन फाड़ कर बच्चे पैदा हुए हैं। सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थीं, उसी और यह संकेत है।

हास्य रस के उदाहरणों में नीचे लिखा सबैया भी पढ़ने लायक है—

खाय कै पान विदोरत ओठ हैं, बैठि सभा में बने अलबेला।

घोती किनारी की सारी सी ओढ़त पेट, बड़ाइ कियो जस थैला ॥

'बंस गोपाल' बखानि कहै सुनो भूप कहाय बने फिरें छैला।

सान करे बड़ी साहिबी की अरु दान में देत न एक अघेला ॥

इस सबैया में किसी ऐसे ढोंगी का मज़ाक उड़ाया गया है, जो अपनी शान बनानी तो खूब जानता है, परन्तु देने के समय एक कौड़ी भी उसकी गाँठ से नहीं निकलती।

और भी देखिए, नीचे लिखा सबैया व्यंग्यात्मक हास्य का कैसा बढ़िया नमूना है—

बाल के आनन चन्द लग्यौ नख आली विलोकि अनूप प्रभासी।

आजु न द्वैज है चन्दमुखी मति मन्द कहा कहैं ए पुरबासी ॥

वापुरो जोति सी जानै कहा अरी, हौं कहों जो पढ़ि आई हौं कासी।

चन्द दुहूँ के दुहूँ इक ठौर है, आजु है द्वैज औ पूरन मासी ॥

नायिका के मुख पर नख-क्षत देखकर सखी ने पद्य के तीसरे और चौथे चरण में हास्य की कैसी सुन्दर व्यञ्जना की है।

नीचे लिखे पद्य में गंग कवि ने औरंगज़ेब द्वारा उपहार में दी गई हथिनी का कैसा मनोरञ्जक वर्णन किया है—

तिमिर लंग लई मोल चली बावर के हलके।

रही हुमायूँ साथ गई अकबर के दल के ॥

जहाँगीर जस लियो पीठि को भार छुड़ायो।

शाहजहाँ करि न्याय ताहि को मँड चढायो ॥

बल रहित भई पौरुष थक्यौ भगी फिरति बन स्यार डर ।
औरंगजेब करिनी सोई लै दीन्हीं कवि गंग घर ॥

यानी जो हथिनी तैमूरलंग, बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ आदि के ज़माने में रही, वही अब दान में दे दी गई। हथिनी के पुराने पन का ठिकाना है। इस पद्य में हास्य के मिस यह दिखाया गया है, कि जब कोई चीज़ निरर्थक हो जाती है, तब उसे दान के रूप में दूसरों को देकर बाहवाही लूटने की इच्छा होती है। मरी बछिया बाम्हन के सिर, इसे ही कहते हैं।

नीचे के पद्य में नकलची बालुओं का वर्णन किया गया है, मुलाहिजा फरमाहए—

बूट पतलून कोट पाकट में वाच पड़ी,
छुज्जेदार टोपी छड़ी छतरी बगल में ।
बोलें अँगरेजी खान-पान करें होटलों में,
साहिबी मुसाहिबी को लाते हैं अमल में ॥
बाईसिकलों पै चढ़ें चूरटें हैं उड़ते फिरे,
गोरे रंग ही की कमी पाओगे नकल में ।
'भट्ट' अब ऐसे ही स्वदेशी बन जाओ सब,
देख लो नमूने नई सभ्यता के दल में ॥

भारतीय सभ्यता को तिलाञ्जलि देकर विदेशी फ़ैशन में रँग जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में उपर्युक्त छन्द लिखा गया है। वस्तुतः ऐसे लोगों में स्वदेशीयता की शायद ही कोई भावना शेष रहती हो, और देखिये, भाषा के सम्बन्ध में भी भट्ट जी क्या कहते हैं—

देवनागरी की राम रें-रें को प्रणाम कर,
बूढ़ी बोलियों का मान माथे न मढ़ावेंगे ।
फारस लों फ़ारसी की छार सी उड़ाय चुके,
उरदू के दायरे का दौर न बढावेंगे ॥
बाप ने पढ़ी थी अब आपने पढ़ी है वही,
प्यारी राज भाषा बाल बच्चों को पढ़ावेंगे ।

ऐसे बड़भागी 'भट्ट' भारत की भारती को,

ऊल-ऊल उन्नति की चोटी पै चढ़ावेंगे ॥

मातृभाषा त्याग कर विदेशी भाषा को ही सब कुछ मान कर उसी को उन्नति का एक मात्र साधन समझने वाले देशभक्तों के सम्बन्ध में उपर्युक्त पंक्तियाँ लिखी गई हैं। इनमें व्यञ्जना द्वारा परभाषा प्रेमियों की फक्किका उड़ाई गई है। सच है, ऐसे ही लोगों द्वारा भारती की उन्नति होगी।

जैसा कि हास्य रस के प्रारम्भ में लिखा गया है, किसी के वेश, बोली या भाषा का अनुकरण ही हास्य रस का उत्पादक है, हाल ही में पुराने कवियों की कविताओं के कुछ अनुकरणात्मक परिहास (पैरोडी) भी प्रकाशित हुए हैं। उनमें हास्य की काफ़ी सामग्री है। महाकवि सूरदास की रचनाओं के अनुकरण में निम्नलिखित परिहास पद पढिए—

विपति बुढिया पै आइ परी।

कहाँ वह खाट कहाँ वे खटमल कयरी कहाँ डरी।

माछर भिन-भिन करत फिरत नित दुखते रैन भरी ॥

डगमग डील डुलावत डोलत जुरतें खूब जरी।

बैद हकीम पास नहिं फटकत खौं-खौं करत मरी ॥

देखत-देखत चीज चुरैया लै गयो छीनि दरी।

सटपटाति बौरी-सी बैठी अब का और घरी ॥

जुग जुग भीर परी भगतन पै घीरज धारि अरी।

सूरदास थिर मन सो अजहूँ भजि भगवान हरी ॥

गरीब बुढिया खाँसी से खौं-खौं करती हुई अपनी दरी चुराए जाने की शिकायत कर रही है। परन्तु सूरदास जी कहते हैं—अरी, सन्तों पै बड़ी-बड़ी भीड़ पड़ी है, तू ऐसे समय में भगवान् को याद कर। वही तेरा उद्धार करेंगे। इसमें दरी चुराए जाने की तुलना सन्तों पर पड़ी भीड़ के साथ किए जाने के कारण वह हास्योत्पादक हो गई है। किसी की शैली का अनुकरण तो हास्यप्रद है ही।

महाकवि तुलसीदास जी की चौपाइयों का भी परिहास-पद्य सुनिये—

सब यानन ते अँष्ट अति द्रुतगति गामिनिकार।

धनिक जनन के जिय बसी निस दिन करति विहार ॥

मञ्जुल मूर्ति सदा सुख दैनी, समुक्ति सिहावहिं स्वर्ग नसैनी ।
 उछरति, कूदति किलकति जाई, सब कहँ लागति परम सुहाई ।
 पौं-पौं करति सुहावति कैसे, मुनि मख शंख बजावहिं जैसे ।
 चारु चक्र धारिनि मन भावन, कलरव करति विमोद बढ़ावन ।
 छाँह करन हित छुएउ विताना, विचरति फिरति बरन धरि नाना ।
 पीवहिं तेल उड़ावहि धूरी, पद चारिन कहँ दुरगति पूरी ।
 विद्युत्-दीप करत उजियारी, जनु हरि-चन्द उगेउ तम टारी ।
 तेहि चढ़ि जेजे निज गर्व दिखावहिं, पद प्रभुता प्रमाद दरसावहिं ।
 मग बिच कीच उलीचति कैसे, फागुन फाग रचहिं जन जैसे ।
 बल विक्रम जब जात, नसाई, सरकति नैक न उठति उठाई ।

बाहन कुल की परम गुरु सब कहँ सुलभ न सोय ।

रघुबर की जिन पै कृपा ते नर पावहिं तोय ॥

उपर्युक्त परिहास में तुलसीदास जी की चौपाइयों का अनुकरण करते हुए, मोटरकार की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके पहिये कैसे सुन्दर होते हैं, वितान कितना भव्य बना होता है, 'पौं-पौं' करती कैसी सुहावनी मालूम होती है। उसके युग लेम्पों को 'हरि-चन्द' सूर्य और चन्द्रमा से तुलना की गई है। इस वर्णन के पढ़ने से खूब हँसी आती है।

अब भूषण जी का परिहास-पद्य पढ़िए—

तोड़ दिये तोमड़े तड़ाक तरबूजन के,

फोड़े खरबूजन के खोपड़े घड़ाम से ।

कासी फल कद्दू बली बेंगन बनार डारे,

जामुन पिचे न बचे आम कल्ले आम से ॥

गाजर गँडारी कद्-कद् काँकरी को काट,

मोर्यो मुँह मूरी कौ मरोरे सब चाम से ।

भूषन भनत चीमटा के चचा चाकूराम,

अन्न-शन्न काँपत तिहारी धूम धाम से ॥

भूषण की शैली में 'चीमटा के चचा चाकूराम' का कैसा हास्यमय सुन्दर वर्णन है। फलों की दुनिया में इस कुपिठत कृपाण ने गजब ढा दिया है। आहि-आहि मचवादी है !!

महाकवि रसखान का निम्नलिखित परिहास-पद्य भी देखने लायक है—

या खुरपी अरु फावरिया पर घास भरी गठरी तजि डारो ।

पैर चलाइबे खेत नराइबे को दुख भेंस चराइ बिसारो ।

रसखान कबौं इन हाथन सों पटवारी-दरोगा के पायँ पखारो ।

खौंसि कै छानि कौ फूस फटेरो महाजन की मुड़िया पहँ मारो ॥

उपर्युक्त पद्य 'या लकुटी अरु कामरिया' के ढंग पर लिखा गया है ।
उसमें एक गरीब किसान की दशा का हास्यमय वर्णन है ।

महाकवि रत्नाकर जी की शैली के अनुकरण में परिहास-पद्य देखिये—

रैंक-रैंक रोयो कौंजरी कौ कुल दीपक यों,

धारी गिरधारी निडुराई मारी मति है ।

लै लै कर टोकरी पुकारत बजार बीच,

पै न कोऊ बारी तरकारी बिकयति है ॥

तोरई करेला धीया भिण्डन की कहाँ कहा,

टण्डे औ टमाटर न कोऊ पूछियत है ।

कहै रतनाकर उबारौ-तारौ मारौ चाहे,

आलुन के साग ते भई ये दुरगति है ॥

यहाँ रत्नाकर जी की शैली पर अन्य शब्दों की अपेक्षा आलू की उत्कृष्टता दिखाई गई है । आलू ने सारी सब्जियों की बेकदरी करा दी । कुँजड़ों को सख्त शिकायत है कि कम्बख्त आलुओं के आगे और किसी शाक की बिक्री ही नहीं होती ।

स्वर्गीय कविरत्न सत्यनारायण का 'भयौ बयों अनचाहत को संग' वाला पद्य बहुत प्रसिद्ध है । उसी का अनुकरण करते हुए उन्हीं की शैली पर रचा गया निम्नलिखित परिहास-पद्य पढ़िये—

भयौ बयों अनचाहत कौ संग ।

खुफिया पुलिस परी है पीछे करि डारे हम तंग ॥

जहँ जहँ जात दिखात तहाँ ही खात न्हात बतरात ।

चौंकि परति चंचल तुरंग सी फरकि जात जो पात ॥

निरखत परखति रहति सदाही अन्तर नेक न लावति ।

हमरी करनी-घरनी को लिखि लेखौ तुरत पठावति ॥

उधरी देह-अँगौछा काछे जित जित प्रान बचाऊँ ।
तित-तित वा छरछन्दों की मैं छटा निरख तो जाऊँ ॥
दीनबन्धु मेरी करनी कौ कैसहु कुफल चखाऔ ।
सत्य कहूँ पर इन खुपियन ते मेरौ पियड छुड़ाऔ ॥

कविवर सत्यनारायण जी खुफिया पुलिस से तंग होकर उससे पियड छुड़ाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । इस पद में जहाँ उनकी शैली का अनुकरण है, वहाँ उनके व्यक्तित्व की ओर भी संकेत किया गया है । वे गर्मियों में प्रायः कंधे पर अँगोछा डाले नंगे ही घूमा करते थे ।

हिन्दी की हास्य सम्बन्धिनी कविताओं के नमूने ऊपर दिये गये हैं, अब उर्दू के कुछ नमूने देखिये । महाकवि अकबर उर्दू के बड़े प्रसिद्ध कवि हो गए हैं । उन्होंने हास्य रस की बड़ी सुन्दर और उच्चकोटि की कविताएँ लिखी हैं ।

परचा रक्खा जो उसने मैं ये समझा,
पाकिट में ये बीस रुपये का नोट गया ।
घर पर खोला तो बस यही लिखा था,
क्या शेर थे, वाह-वाह मैं लोट गया ॥

यहाँ भी शेर की क्रुद्रदानी में वाह-वाह के सिवा और कुछ न मिला ।
“कोरी वाह-वाह कोई कौड़ी भी न दान करै, सम खड़े कविता तरंगिणी के घाट पै ।”

छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्टरी को भूल जा,
शेख मस्जिद से तत्राल्लुक्र तर्क कर इस्कूल जा ।
चार दिन की ज़िन्दगी है कोफ़त से क्या फ़ायदा,
खा डबल रोटी, किलकीं कर, खुशी से फूल जा ॥

धर्म विहीन लोगों में ‘खाओ-पियो मौज उड़ाओ’ की जो भावना आ जाती है, उसी का वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में किया गया है ।

मगरबी ज़ौक है और वज़्र की पाबन्दी भी,
ऊँट पर चढ़के थियेटर को चले हैं हज़रत ।

एक ओर प्राचीन धर्म मर्यादा का ख़याल है, दूसरी ओर पश्चिमीय नाटक सिनेमाओं का शौक । फिर क्या था, ऊँट पर चढ़ कर थियेटर

देखने चल दिये । धर्म भी बचा रहा और शौक भी पूरा होगया । कैसी मीठी चुकटी है ।

महाकवि अकबर के नीचे लिखे शेरों का भी मुलहिजा कीजिये—

सिघारे शेर काबे को हम इंगलिस्तान देखेंगे ।
 वह देखें बर खुदा का हम खुदा की शान देखेंगे ॥
 + + +
 जब गुम हुआ चढ़ा लीं दो बोतले इन्दी,
 मुल्ला की दौड़ मस्जिद अकबर की दौड़ भट्टी ।
 + + +
 थी शबे तारीक़ चोर आए जो डुछ था ले गए ।
 कर ही क्या सकता था बन्दा खोस देने के सिवा ।

× × ×

मवक्कल छुटे उनके पंजे से जब,
 तो बस क़ौम-मरहूम के सर हुए ।

पपीहा पुकारा किये पी कहाँ,
 मगर वह पिलीडर से लीडर हुए ॥

उपर्युक्त पंक्तियों में अकबर साहब ने मीठी चुटकी लेते हुए कैसी गहरी बात कही है ।

अकबर साहब मूँछ मुँड़ाकर कर्ज़न फ़ैशन इख़्तियार करने वालों के सम्बन्ध में कहते हैं—

कर दिया कर्ज़नने ज़न मर्दों की सुरत देखिये ।
 आबरू चेहरे की सब फ़ैशन बनाकर पूँछ ली ।
 सच ये है इंसान को यूरुप ने हलका कर दिया ।
 इन्तदा डाढी से की और इन्तहा में मूँछ ली ॥

मर्दानगी का निशान मूँछों को मुड़ाकर ज़नाना चेहरा बना लेने पर कैसी मजेदार चुटकी ली है । अच्छा फ़ैशन अख़्तियार किया, जिसने चेहरे की सब आबरू ही पोँछ ली । अकबर साहब की और भी हास्यमयी उक्तियाँ सुनिये—

क्यों सिविल सर्जन का आना रोकता है हमनशीं ।
 इसमें है एक बात आनर की शफ़ा हो या न हो ॥
 + + +
 खींचो न कमानों को न तलवार निकालो ।
 जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो ॥

महाकवि अकबर की हास्यमय सूक्तियाँ बड़े ग़ज़ब की हैं। वे थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। उनके हास्य में मुँहफट्टपन नहीं है। वे जो कुछ कहते हैं वे खूबना द्वारा कहते हैं। उनके कलाम को पढ़कर हृदय में एक गुदगुदी-सी पैदा होकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। वे व्यग्यात्मक हास्य लिखने में बहुत कुछ ख्याति लाभ कर चुके हैं। उनकी कितनी ही सूक्तियाँ तो लोकोक्तियों का रूप धारण कर चुकी और करती जा रही हैं।

अब ज़रा कविवर मैथिलीशरण जी के शब्दों में गणेश जी और षडानन का मुकद्दमा भी सुन लीजिए—

जयति कुमार अभियोग गिरा गौरी प्रति,
 सगण गिरीश जिसे सुन मुसकाते हैं ।
 देखो अम्ब ये हेरम्ब मानस के तीर पर,
 तुन्दिल शरीर एक ऊधम मचाते हैं ॥
 गोद भरे मोदक घरे हैं सविनोद उन्हें,
 सँड से उठा के मुझे देने को दिवाते है ।
 देते नहीं कन्दुक-सा ऊपर उछालते हैं,
 ऊपर ही भेल कर खेल कर खाते हैं ॥

—साकेत

गणेश जी गोद में लड्डू भरे बैठे हैं। उनमें से एक लड्डू अपनी सँड से उठा पहले षडानन की ओर दिखा कर कहते हैं—‘लो’। और जब षडानन लेने को हाथ बढ़ाते हैं, तो तुरन्त उसे ऊपर उछाल कर ऊपर से ऊपर ही सँड द्वारा लपक कर आप ही खा जाते हैं। बाल-विनोद का कितना स्वाभाविक और हास्यमय वर्णन है। संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के मंगलात्मक या आशिषात्मक श्लोक बहुत मिलते हैं। नीचे गुप्त जी के उक्त पद्य से मिलता-जुलता एक संस्कृत का श्लोक दिया जाता है। देखिये—

हे हेरम्ब ! किमम्ब ! रोदिषि कथं ? कर्णौ लुठत्यानि भूः ।
 किं रे स्कन्द विचेष्टितम् ? ममपुरा संख्या कृता चक्षुषाम् ।
 नैनचे ह्युचितं गजास्यचरितं ! नासा प्रमीताच मे ।
 तावेवं सहसा विलोक्य हसित व्यग्रा शिवा पातुवः ॥

स्वामिकार्तिक और गणेश जी खेलते-खेलते आपस में झगड़ पड़े । गणेश जी रोने लगे । उनका रोना सुन पार्वती जी ने पूछा—अरे गणेश, रोता क्यों है ? उत्तर में गणेश जी ने बताया, कि अग्निभू (कार्तिकेय) मेरे कान खींचता है । यह सुन पार्वती ने स्कन्द का डाटते हुए कहा—
 ‘क्यों रे स्कन्द ! यह क्या कुचेष्टा करता है ?’ इस पर स्कन्द कहने लगे—
 ‘इसने भी तो पहले मेरी आँखें गिनी थीं ।’ (स्कन्द के पाँच मुख और दश आँखें हैं) । गौरी ने जब जाना कि गणेश का भी दोष है, तो वह उनसे बोली—‘गणेश, तेरी यह बात ठीक नहीं है ।’ इस पर गणेश तुरन्त बोल पड़े—‘नहीं माता जी, पहले तो इसने ही मेरी नाक (सँडू) नापी थी ।’ बालकों के इस प्रकार पारस्परिक अभाव अभियोग को सुन पार्वती सहसा हँस पड़ीं । वही प्रसन्न बदना पार्वती आपकी रक्षा करें ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी की भी हास्यात्मक रचनाओं में से चूरन के लटके नीचे दिये जाते हैं—

चूरन अमलवेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी ।
 मेरा पाचक है पच लौना, उसको खाता श्याम सलौना ।
 मेरा चूरन जो कोई खाय, उसको छोड़ कहीं नहीं जाय ।
 चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल बनाकर लाते ।
 चूरन सभी महाजन खाते, जिसमें जमा हजम कर जाते ।

× × ×

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

पण्डित प्रताप नारायण मिश्र की ‘हर गंगा’ भी हास्य का सुन्दर नमूना है । देखिये—

आठ मास बीते जिजमान, अब तो करो दण्डिना दान । हर गंगा
 आजु काल्हि जो रुपया देव, मानो कोटि जग्य करिलैव । हर गंगा

मोंगत हमको लागे लाज, पर रुपया बिन चलै न काज । हर गंगा
 हँसी खुसी से रुपया देउ, दूध-पूत सब हमसे लेउ । हर गंगा
 जो कहूँ दैहौ बहुत खिभाय, यह कौनै भलमंसी आय । हर गंगा

—प्रताप नारायण मिश्र

परिडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा का भी तुलसीदास के ढंग पर हास्यात्मक
 वर्षा वर्णन देखिये—

घन घमंड गरजत नभ घोरा । टका हीन कलपत मन मोरा ।
 दामिनि दमकि रही ध्वन माहीं । जिमि लीडर की मति थिर नाहीं ।
 वरषहिं जलद भूमि नियराये । लीडर जिमि चन्दा-धन पाये ।
 बूँद अघात सहै गिरि कैसे । लीडर वचन प्रजा सहै जैसे ।
 लुद्र नदी भरि चलि उतराई । जस कपटी नेता-मन भाई ।

—प० ईश्वरी प्रसाद शर्मा

कविवर तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस में अनेक स्थानों पर हास्य
 रस का पुट दिया है । उनमें से शिव जी के विवाह का प्रसंग नीचे उद्धृत
 किया जाता है—

× × ×

कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ि बाजहिं बाजा ।
 देखि शिवहिं सुरतिय मुसुकाहीं, वर लायक दुलहिनि जग नाहीं ।

× × ×

बर अनुहारि बरात न भाई, हँसी करैहहु पर पुर जाई ।
 विष्णु वचन सुनि सुर मुसकाने, निज निज सेन सहित विलगाने ।

× × ×

कोऊ मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोऊ बहु पद बाहू ।
 विपुल नयन कोऊ नयन विहीना, दृष्ट-पुष्ट कोऊ अति तनु खीना ।
 जस दूलह तस बनी बराता, कौतुक विविध होंहि मग जाता ।
 शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे ।
 घरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लै जीव पराने ।

× × ×

शिवहिं शम्भु गण्य करहिं सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सम्हारा ।
 कुण्डल कंकण पहिरे व्याला तन विभूति पट केहरि छाला ।
 शशि ललाट सुन्दर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा ।
 गरल कंठ उर नर शिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला ।

करुण रस

“मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगः शाश्वती समाः”
 यत्कौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ।”

महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटी में शिष्यों सहित नदी-स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में काम मोहित सारस के जोड़े में से एक को वधिका के बाण द्वारा विद्ध देखकर, उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उस समय उनके मुँह से सहसा उपर्युक्त पंक्तियाँ निकल पड़ीं, जिनका अर्थ यह है कि—‘अरे निर्दय निषाद (वधिका) तुम्हें संसार में कभी शाश्वत् प्रतिष्ठा (मुक्ति) प्राप्त न होगी; क्योंकि तैने काम मोहित सारस के जोड़े में से एक का वध कर डाला।’ महर्षि का हृदय इस क्रूर काण्ड के कारण करुणा से श्रोत प्रोत हो गया, और उनका यही भाव आदि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण का मूल कारण हुआ। यदि उस समय वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा का स्रोत न उमड़ता तो आज भगवान् रामचन्द्र का आदर्श चरित्र इस रूप में संसार के सामने न होता। अभिप्राय यह कि काव्य की सृष्टि कराने वाला करुण रस ही है। संस्कृत के अनेक काव्य इस रस से भरे हुए हैं। कितने ही आचार्यों ने तो करुण रस को इतना महत्व दिया है, कि वे उसे ही सब रसों का उत्पादक समझते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। महात्मा वाल्मीकि को कौञ्च वध से शोक हुआ और उनके हृदय में एकदम करुणा का समुद्र उमड़ने लगा। शोक की मात्रा के अनुसार ही, करुण रस के लघु करुण, अति-करुण महाकरुण आदि भेद किये गए हैं। शोक आशा पर निर्भर है। कितने ही शोक ऐसे होते हैं, जिनमें आशा बहुत ही कम रह जाती है, और कितने ही शोकों में आशा बलवती बनी रहती है।

करुणा का बड़ा महत्व है। परोपकार, अनुकम्पा सहानुभूति आदि करुणा के ही कुटुम्बी हैं। जिस व्यक्ति में करुणा पर्याप्त मात्रा में होती है;

उसमें सहृदयता होना स्वाभाविक है। सहृदय का हृदय दूसरे के दुःख को देखकर द्रवीभूत हो जाता है। संसार के सब लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इस सम्बन्ध के कारण दुखी मनुष्य के दुःख को देखकर करुणा के भाव जाग्रत होते ही रहते हैं। मनुष्य ही क्यों, पशु पक्षियों को भी दुखी देखकर सहृदयों को बड़ा कष्ट होता है। अगर संसार में करुणा न होती तो सहानुभूति और परोपकार के चिन्ह भी दिखाई न देते। संसार का स्रष्टा परमात्मा परम कारुणिक है, इसलिए उसने अपना यह गुण मनुष्य को भी प्रदान किया है, जिससे वह लोक-कल्याण के लिए उसका प्रयोग कर सके। अनाथालय, क्षेत्र, आश्रम, गोशाला, पाठशाला, प्रपा, धर्मशाला आदि करुणा के ही कारण दिखाई देते हैं। करुणा से प्रेरित होकर जब किसी कष्ट-पीड़ित की सेवा-सहायता की जाती है, तो उससे सेवक और सेव्य दोनों को ही बड़ा आनन्द पहुँचता है। अभिप्राय यह कि जिस प्रकार करुणा के कारण दूसरों को सुख होता है, उसी प्रकार अपने आत्मा को भी सन्तोष मिलता है। दान-पुण्य आदि परोपकार सम्बन्धी कार्य करने के पश्चात् हृदय में अद्भुत आनन्द की अनुभूति होती है।

करुणावृत्ति सब मनुष्यों में समान नहीं होती। किसी में कम और किसी में ज्यादा। जिन लोगों में करुणा का अंश न्यून और स्वार्थ का अधिक होता है, उनका हृदय कठोर बनकर खुदगर्जी से भर जाता है। परन्तु जिस हृदय में स्वार्थ की प्रबलता नहीं होती; उसमें करुणा देवी परोपकार रूप में परिवर्तित हो जाती है। मस्तिष्क शास्त्रियों के मतानुसार करुणा का स्थान मस्तिष्क के ऊपरी भाग की मध्य रेखा पर है। बाल्यावस्था से ही इसको विकसित करने का प्रयत्न होना चाहिये। कहते हैं कि जीवन के द्वितीय वर्ष से करुणा का स्थान बढ़ने लगता है। उस समय इस बात पर ध्यान देते रहना चाहिए कि बालकों में स्वार्थ की मात्रा न बढ़ने पावे। परोपकार-गाथाओं के सुनने, दीन-दुखियों की दशा देखने आदि से करुणा वृत्ति का विकास होता है। करुणा का जनक शोक है, चाहे यह शोक वियोग, चिर वियोग या मृत्यु से उत्पन्न हुआ हो, चाहे अर्थ हानि या इष्ट हानि से।

करुण दृश्यों को देखकर प्रायः लोग रो पड़ते हैं। ऐसी दशा में पूछा जा सकता है कि जब करुण में दुःख और रोदन है तो उसमें आनन्द कैसे

माना गया। इसका उत्तर स्पष्ट है। अगर इन दृश्यों में वास्तविक दुःख होता तो, उन्हें एक बार अवलोकन कर दूसरी बार देखना कोई पसन्द न करता, परन्तु ऐसा नहीं है। सत्यव्रती हरिश्चन्द्रादि कर्ण नाटकों को लोग बार-बार देखते हैं। इसका कारण यही है कि देखने वाले लोग हरिश्चन्द्र के कष्टों से तो दुखी होते हैं परन्तु उसे कठिन परीक्षा में पड़कर उत्तीर्ण होता देख उनका हृदय आनन्द से भर जाता है। जिस आदर्श के लिए हरिश्चन्द्र ने इतने कष्ट सहे, उसकी ऊँची भावना दर्शकों के हृदय को हर्षित कर देती है। यही बात रामायण तथा अन्य कर्ण काव्यों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। एक ओर राम को वन जाते देख लोग रोते हैं, दूसरी ओर उनका ऊँचा आदर्श हृदय में आनन्द का भाव पैदा कर देता है। जिस समय वीरवर लक्ष्मण शक्ति लगने से मूर्च्छित हो जाते हैं, उस समय सब दर्शक विलखने लगते हैं, साथ ही यह भी समझते हैं कि जिस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्मण जी के प्राण-पखेरू शरीर-पिञ्जर से प्रयाण करना चाहते हैं, वह महान् है, दिव्य है, अलौकिक है। इसी आश्रय से सामाजिकों के हृदय में आनन्द की अनुभूति होती रहती है। इसके विपरीत कर्तव्य-भ्रष्ट रावण को देखिए, उसके साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं होती। राक्षस लोग कट-कट कर धराशायी होते हैं, परन्तु दर्शक खुशी से तालियाँ पीटते और हर्ष-ध्वनि करते हैं। अभिप्राय यह कि आदर्श की उच्चता और उद्देश्य की पवित्रता के कारण महान् पुरुषों को अग्नि परीक्षा में पड़ते देख दर्शकों को दुःख तो होता है, परन्तु साथ ही उनकी सत्य प्रियता और न्याय-निष्ठा अन्य शुभ परिणाम की आशा से अलौकिक आनन्द की अनुभूति भी होती रहती है। यही लोकोत्तरानन्द बार-बार इस प्रकार के दृश्य देखने के लिए प्रेरित करता रहता है।

नाटकों को जाने दीजिये, नित्य प्रति के जीवन में देख लीजिये—देश सेवक देश-सेवा के अपराध में जेल जाते हैं, सगे-सम्बन्धियों और मित्र-मिलापियों को, उनके वियोग का दुःख होता है, परन्तु उद्देश्य की पवित्रता का विचार उस दुःख को आनन्द में बदल देता है। यदि इस प्रकार जेल-यात्रा में आनन्द न होता, तो जेल जाना कौन पसन्द करता और सगे-सम्बन्धी सजल नेत्र और गद्गद् स्वर से क्यों सदर्ष विदाई देते। इस उदाहरण से

भी स्पष्ट है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए कष्ट सहने में कितना ही दुःख क्यों न हो, परन्तु परिणाम में आनन्द ही आनन्द है। जिन हुतात्माओं ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राणों की बाज़ी लगा दी, उनके पवित्र चरित्रों को हम बार-बार पढ़ते, आँसू बहाते और साथ ही आनन्दानुभव भी करते हैं।

कुछ लोग अभुपात या गद्गद् कण्ठ हो जाने को करुण रस का ही सूचक समझते हैं। परन्तु ऐसा तो हर्ष में भी होता है। बहुत दिनों बाद दो विछुड़े मित्रों के मिलने पर भी दोनों की आँखों से आँसू बहने लगते हैं। कण्ठ रूँध जाता है और बात नहीं बन आती। आनन्द कन्द ब्रजचन्द्र की कृष्ण चन्द्र से जब उनका चिरवियुक्त सखा सुदामा मिलता है, तो वे बड़े विकल होते हैं। प्रेमवश ही उनकी ऐसी दशा हो जाती है। बहुत से लोग इस अवस्था को भी करुण रस में परिगणित करते हैं, जो ठीक नहीं प्रतीत होती।

शोकपूर्ण परिस्थिति पैदा होने पर, सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मनुष्य के हृदय में परमात्मा के प्रति अटल श्रद्धा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। उस समय वास्तविकता का ज्ञान होकर, कर्तव्य-बुद्धि का उदय होता है। और न जाने क्या क्या मंजूबे बाँधे जाते हैं। परन्तु पीछे वही ढाक के तीन पात। महा कवि रहीम ने क्या ही अच्छा कहा है—

दुख में सुमिरन सब करै, सुख में करै न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करै, दुःख काहे को होय ॥

इसी प्रसंग में उर्दू के मशहूर शायर फानी साहब की उक्ति भी सुन लीजिये—

ग़म के ठहोके कुछ हाँ बला से,

आके जगा तो जाते हैं।

नींद के हम मदमाते हैं,

जो जागते ही सो जाते हैं ॥

वास्तव में करुण रस मनुष्य की आँखें खोल देता है, उसे दुरभिमान-दुर्ग से निकल कर, सद्भावना और सहृदयता के सुरम्य सरोवर पर ला खड़ा करता है। उस समय उसे यही भासने लगता है, कि संसार अनित्य है,

परमात्मा की सर्व शक्तिमत्ता ही सब प्रकार सहायक हो सकती है। छल-प्रपञ्च और पर-पीड़न द्वारा स्वार्थसिद्धि करना पाप कर्म है, इत्यादि। परन्तु ज्योंही शोक का प्रभाव चित्त पर से हटा और करुण-दृश्य बदला त्यों ही मनुष्य के हृदय में अहंकार का सर्प फुंकारने लगा। फिर क्या है, वही राग-द्वेष और वही छल-कपट वही प्रतारणा और वही दम्भ। सच तो यह है कि करुण रस मानव-हृदय में एक दिव्य और भव्य भावना का उदय कर देता है। इसीलिए उसकी इतनी महत्ता मानी गई है। सुखान्त नाटकों की अपेक्षा दुःखान्त नाटक इसी लिए अधिक पसन्द किये जाते हैं। विप्रलम्भ या वियोग शृंगार पर तो करुण रस का अत्यधिक प्रभाव रहता है। महाकवि सुरदास ने गोपियों की वियोग-दशा का जो कुरुणाजनक चित्र अंकित किया है, वह देखने ही योग्य है।

करुण

शोक की परिपुष्टता का नाम करुण रस है। इष्ट के नाश या अनिष्ट की प्राप्ति से शोक की उत्पत्ति होती है।

करुण का स्थायी भाव शोक, देवता यमराज या वरुण और वर्ण कपोत जैसा होता है।

आलम्बन—प्रिय बन्धु, समाज या देश की अपार हानि, सगे-सम्बन्धी का मरण आदि इसके आलम्बन हैं।

उद्दीपन—दाह कर्म, प्राणियों की दुखित दशा, मृत प्रिय जनों की वस्तुओं का दर्शन, उनके गुण श्रवण आदि करुण रस के उद्दीपन हैं।

अनुभाव—रोना, पृथिवी पर गिरना, भाग्य को कोसना, मुख का विवर्ण हो जाना, गात्र शिथिल होना, उच्छ्वास, निःश्वास, प्रलाप आदि करुण रस के अनुभाव हैं।

संचारी भाव—वैराग्य, ग्लानि, चिन्ता, निर्वेद, मोह, व्याधि, स्मृति, स्वेद, विषाद, जड़ता, कम्प, अश्रु, आलस्य, मरण आदि इसके संचारी भाव हैं।

करुण रस के कुछ उदाहरण देखिए—

पुरते निकसीं रघुबीर वशू धरि धीर दये मग मे उग द्वै।

भलकी भरि भाल कनी जल की पट सुखि गए मधुरावर वै।

फिर ब्रूमति हैं चलनो व कितो पिय पर्यकुटी करिहौ कित ह ।
तिय की लखि आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चलीं जल च्वै ।

श्री सीताजी वन-गमन के समय अयोध्या से कुछ क्रदम चलकर ही पूछने लगीं—अभी कितना और चलना है ? यह सुनकर रामचन्द्र जी की आँखों से आँसुओं की धारा बह चली कि सीता जी अभी से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है ? और सुनिए—

यहाँ पर सुकुमारी जानकी जी का महारानी पद से च्युत हो पैदल वन को जाना प्रियजन की इष्ट हानि होने से करुणा का आलम्बन विभाव है । उनका भोलेपन से “अभी कितनी दूर और चलना है” यह पूछना उद्दीपन विभाव है । जानकी जी का मुग्ध सूख जाना, शरीर का शिथिल होना, साँस फूलना आदि अनुभाव तथा रामचन्द्र जी की आँखों से आँसू बह चलना आदि संचारी भाव हैं । इन्हीं सब से शोक स्थायी पुष्ट होकर करुण रस की सृष्टि करता है । इसी प्रकार आगे के उदाहरणों में भी विभाव अनुभावादि की उहा कर ले ।

×

×

×

जा थल कीन्हें विहार अनेकन ता थल कोंकरी बैठि चुन्यौ करे ।
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यौ करे ।
‘आलम’ ज्यौ निसि कुञ्जन मे करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यौ करे ।
नैनन मे जु सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यौ करें ।
यहाँ श्रीकृष्ण के स्मरण में गोपियों का आँसू बहाना वर्णित है ।

श्रीरामचन्द्रजी लमङ्घन के शक्ति लगने पर विलाप करते हुए कहते हैं—

सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बन्धु सदा तुव मृदुल सुभाऊ ।
मम हित लागि तजेउ पिनु माता, सहेउ बिपिन बन आतप बाता ।
सो अनुराग कहौ अब भाई, उठहु बिलोकि मोर विकलाई ।
जो जन तो बन बन्धु बिलोहू, पिता बचन नहि मनतेउ ओहू ।
सुत बित नारि भवन परिवारा, होहि जाहिं जग बारहिं बारा ।
अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलहि नै जगत सहोदर आता ।
यथा पख बिन खग पति दीना, मण्यि बिनु फण्यि करिवर कर हीना ।

अस मम जीवन बन्धु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावै मोहीं ।
जैहौ भवन कवन मुख लाई, नारि हेतु प्रियबन्धु गँवाई ।

संसार में सब कुछ मिल जाता है, परन्तु सहोदर भाई नहीं मिलता ।
यह कहते हुए, राम के शोक का पारावार नहीं है । जिस प्रकार बिना पख
के पक्षी, बिना मणि के फणीश और बिना सूँड़ के हाथी व्याकुल हो जाता
है उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम भी विकल हो रहे हैं ।

महाकवि हरिऔध जी ने भी निम्नलिखित पद्यों में यशोदा जी की विक-
लता का कैसा करुण चित्र खींचा है—

प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है,
दुख जलनिधि डूबी का सहायु कहाँ है ।
लखि मुख जिसका मैं आज लौं जी सकीहूँ,
वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है ॥

जिसका मुँह देखकर ही मैं आज तक जीवित रह सकी हूँ, आज वह मेरे
नयन का तारा कहाँ चला गया ।

पल पल जिसके मैं पन्थ को देखती थी,
निश दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती ।
उर पर जिसके है सोहती मुक्त माला,
वह नव नलिनी से नैन वाला कहाँ है ॥

कृष्ण की याद में यशोदा जी कैसा करुण विलाप कर रही हैं । सुनने
वालों का भी हृदय विदीर्ण हुआ जाता है ।

शंकर जी ने विद्वद्वर गणपति शर्मा के देहावसान पर नीचे लिखा करुण
रस पूर्ण कैसा अच्छा छन्द लिखा है—

आपदा की आग ने उबाले शोक-सागर मे,
हायरे अनभ्र वज्र पात का प्रमाण है ।
छेद रहा सैकड़ों वियोगियों की छातियों को,
एक ही वियोगजन्य वेदना का बाण है ॥
काल विकराल ने कुम्भाल की कृपाण गही,
क्यों न प्रेम कातर कटेंगे कहाँ त्राण है ।

‘शंकर’ मिलावेगा मिलेंगे परलोक ही मे,

प्राण हारी प्यारे गणपति का प्रयाण है ॥

कवि ने अपनी शोक पूर्ण अनुभूति को कैसे करण शब्दों में व्यक्त किया है। एक-एक शब्द से करुणा छलकी पड़ती है। कवि के हृदय में जो शोक की ज्वाला जल रही है, वही शब्दों के रूप में बाहर फूट पड़ी है। ‘वियोग जन्य वेदना’ के एक ही बाण से ‘सैकड़ों वियोगियों’ की छातियों का छिदना कैसी अनूठी और अछूती सूझ है।

कविवर शङ्कर जी ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के मुँह से कहलवाया है ..

आदि में औध वियोग भयो, बन योग दियो, सुख भोग नसायो ।
सोक भयो परलोक गयो • पितु सीय को लंकपती हरि लायो ।
आज महा रण रंक में घायल अंग उछंग में बन्धु दिखायो ।
‘शंकर’ कष्ट न नष्ट भयो विधि ने दुख भाजन मोहि बनायो ॥

+

+

+

जानि कै मोहि अनाथ हरो दुख ज्यौं शिशु कष्ट हरै पितु मैया ।
हाय सुखेन लगावहु पार बुड़ावो न सोक-समुद्र मे नैया ।
‘शंकर’ वेगि सहाय करो अब कोऊ न राम को धीर धरैया ।
रोवत हौ अबलोकि तुम्हैं दग खोलि कै काहे न बोलत मैया ॥

अरे भाई, तुम तो मुझे जरा भी उदास देखकर विकल हो उठते थे, पर अब मैं बिलख-बिलख कर रो रहा हूँ, और तुम आँखे भी नहीं खोलते। वैद्य राज सुषेण शोक-सागर में डूबती हुई, मेरी नाब को अब तुम ही पार लगाओगे। इस समय राम साक्षात् करुणा की मूर्ति बने हुए हैं।

दुर्मित्र के समय लुघातों की करुण दशा देखकर कवि का हृदय द्रवित हो जाता है। उसी भाव को वह निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त करते हैं—

रौंद रौंद मारे महामारी वार-कीवर ने,

मण्डली दुकाल की दरिद्रता ने घेरी ह।

ओढ़े गाँठि गूदड़े न रोटी भर पेट मिलै,

चैन का ठिकाना कहाँ चिन्ता बहुतेरी है ॥

दोर कटने से जो रहेंगे उन्हें पालने को,
भूसा घास करबी पुञ्जाल की न ढेरी है ।
'शकर' बचेंगे परिवार न अकिञ्चनों के,
भुक्खड़ो के अन्त ने वजाई जय भेरी है ।

हा भगवान् ! अब ऐसी विषम परिस्थिति में बेचारे अकिञ्चनों के प्राण कैसे बचेंगे । जहाँ खाने को टुकड़े और ओढ़ने को चिथड़े तक नहीं, वहाँ जीवन की रक्षा भगवान् ही करे तो हो ।

कवि रत्न सत्यनारायण के निम्नलिखित पद्य कण्ठ रस के कैसे सुन्दर उदाहरण हैं—

पियरी परी ओप कपोलन की तन में दुबराई बढी अति भारी ।
लटकाएँ लटे बिखरी मुख पै उर सोचति मोचति लोचन बारी ।
अति दीखति आकुल सोग सनी करुणा रस की जनु मूरति प्यारी ।
तन घारी वियोग विथा-सी किधौ बन आइ रही मिथिलेस दुलारी ॥

वन में जानकी जी—साक्षात् करुणा की प्रतिमा सी प्रतीत होती हैं । रग पीला पड़ गया और शरीर दुबला हो गया है । बेचारी रात-दिन आँखों से आँसू बहाती रहती हैं ।

नव दारुन वा अपमान सो तू निहचै दग नारहि ढारति होइगी ।
मिसु हो न समै पै सिया वन में कहुँ बेहद पीर सों आरत होइगी ।
धरि हाय अचानक सिहन सो किाम बेबस धीरज धारति होइगी ।
करि कै सुधि मेरी हिये में चहुँ तब तात ही तात पुकारति होइगी ।

रामचन्द्र जी वन में निर्वासित सीता जी की याद करके कह रहे हैं—
ओह ! गर्भिणी जानकी वन में अकेली कैसे रहेगी । प्रसव समय बेचारी की कौन सहायता करेगा । सिहादि हिंसक जन्तुओं के बीच धिर जाने पर वह क्या करती होगी ? इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में सिवा रोने-बिसूरने के वह अकेली अबला और कर ही क्या सकती है ।

राजा दशरथ के देहावसान पर महाकवि मैथिलीशरण जी के साकेत से कण्ठ रस की निम्नलिखित पंक्तियाँ दी जाती हैं—

+

+

+

कवि जगन्नाथदास रत्नाकर जी ने अपने एक सवैया में करुण का वर्णन इस प्रकार किया है—

लीन्यो रोकि जमुना-प्रवाह बॉसुरी के नाद जाको जसबाद लोक लोकन बखाँगे ।
कहै 'रत्नाकर' प्रलै की घन धार रोकि लीन्यो ब्रजराखि सहसाखि सखि मानेगे ।
उमगत सिन्धु रोकि द्वारिका बसाई दिव्य जुगजुग जाकी कवि कीरति बखानेगे ।
हमतो हमारी दसा दारुन विलोकि नेकु रोकि लै हौ करुना प्रवाह तब जानेंगे ।

वास्तव में हमारी दारुण दशा ऐसी ही दयनीय है, कि उसे देख दया-निधि का करुण-प्रवाह रुक ही नहीं सकता ।

तुलसीदास जी ने अपने रामचरित-मानस, में जयन्त की करुणा दशा का वर्णन इस प्रकार किया है—

आतुर सभय गहेसि पग जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई ।

अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मै मति मन्द जानि नहिं पाई ।

निज कृत कर्म जनित फल पायउँ, अब प्रभु पाहिं शरण तकि आयउँ ।

सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी ।

कान्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर वध उचित ।

प्रभु छुड़िउ करि छोह, को कृपालु रघुवीर सम ॥

कविवर प्रताप नारायण मिश्र के शब्दों में भव ताप-ग्रस्त प्राणी की करुण-पुकार भी सुन लीजिए—

शरणागत पाल कृपाल प्रभो हमको इक आस तुम्हारी है ।

तुम्हारे सम दूसर और कोऊ नहिं दीनन को हितकारी है ।

सुधि लेत सदा सब जीवन की अति ही करुणा बिसतारी है ।

प्रतिपाल करै बिन ही बदले अस कौन पिता महतारी है ।

जब नाथ दया करि देखत हो छुटि जात विथा संसारी है ।

बिसराय तुम्हें सुख चाहत जो अस कौन नदान अनारी है ॥

कविवर श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ने राजकुमार रोहित का देहावसान हो जाने पर महारानी शैव्या का करुण विलाप कैसे काव्यिक शब्दों में अंकित किया है—

उदासी घोर निशि में छा रही थी,

दवा भी काँपती थरी रही थी ।

विकल थी जान्हवी की बारि धारा,
 पटक कर सिर गिराती थी कगारा ।
 घटा घनघोर नभ पर घिर रही थी,
 विलखती चञ्चला भी फिर रही थी ।
 न थीं वह बूँद आँसू गिर रहे थे,
 कलेजे बादलों के चिर रहे थे ।
 खड़ी शैव्या वहीं पर रो रही थी,
 फटी दो टूक छाती हो रही थी ।
 कलेजा हाय मुँह को आ रहा था,
 भरा था दर्द वह तड़पा रहा था ।
 छुटा घर-बार, प्राणाधार छूटे,
 रहे तुम एक कुल-आधार छूटे ।
 तुम्हारा देख कर मुख जी रही थी,
 नहीं तो कौन था सुख जी रही थी ।
 छुटा सब कुछ छुटे हा लाल तुम भी,
 छुटा सब कुछ छुटे हा लाल तुम भी ।
 अरे वह है कहाँ पर सर्प बसता,
 मुझे भी क्यों नहीं है नीच डसता ।
 लगाये लाल को छाती चखूँ मैं,
 लिए यह साथ ही थाती चखूँ मैं ।
 जिसे मैं जान ही सा जानती थी,
 जिसे मैं देखकर सुख मानती थी ।
 कहाँ है हाय अब वह प्राण मेरा,
 निराशा में विपत में त्राण मेरा ।
 कहाँ हो चल दिये तुम हाय छौना,
 खिलाऊँगी किसे मेरे खिलौना ।

यहाँ कवि का हृदय शैव्या के दारुण दुःख से द्रवीभूत होकर स्वयं भी रो पड़ा है । उक्त पद्य की एक-एक पंक्ति से कश्यपा का स्रोत प्रवाहित हो रहा है । उसके शब्द-शब्द में कवि-हृदय की अन्तर्बेदना परिलक्षित हो रही है ।

गोकुल का दयनीय दशा देखकर कविवर प्रतापनारायण मिश्र ने कैसे करुण शब्दों में उसका चित्र अंकित किया है देखिए—

जिनके लरिका खेती करिकै पालैं मनहन के परिवार,
ऐसी गाइन की रञ्जया माँ जो कछु जतन करौ सो ध्वार ।
घास के बदले दूध पियावेँ मरि कै देयँ हाड़ औ चाम,
बनि वह तन मन धन जो आवै ऐसी जगदम्बा के काम ।
को अस हिन्दू ते पैदा है, जो अस हाल देखि इक साथ,
रक्त के आँसुन रोइ न उठि है, माये पटक दुहत्था हाथ ।
सब दुख सुख तो जैसे-तैसे गाइन की नहिँ सुनै गुहार,
जब सुधि आवै मोहि गैयन की नैनन बहै रक्त की धार ॥

वास्तव में गायों की दुर्दशा देख रोना आता है। जो घास के बदले में दूध नहीं-नहीं, अमृत देती है, जिसके हाड-चाम तक हमारे काम आते हैं, ऐसी गायों की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया जाय वह थोड़ा है।

भारत की दुर्दशा देखकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तो सचमुच रो पड़े हैं, आपकी कैसी करुणोत्पादक उक्ति है, सुनिए—

रोवहु सब मिलि कै आवहु भारत भाई,
हा ! हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई ।
सब ते पहिले जेहि ईश्वर धन-बल दीन्हो,
सबते पहिले जेहि सभ्य विघाता कीन्हो ।
सबके पहिले जो रूम-रंग रस भीनो,
सब ते पहले विद्या फल जिन गहि लीनो ।
अब सबके पीछे सोई परत लखाई,
हा ! हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥
जहाँ भये शाक्य हरिचन्द्र र नहुष ययाती,
जहाँ राम युधिष्ठिर बासुदेव सर्याती ।
जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती,
तहाँ रही मूढता कलह अविद्या राती ।
अब जहाँ देखहु तहाँ दुःख ही दुःख दिखाई,
हा ! हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥

लोकमान्य तिलक के देहावसान पर देश की तत्कालीन करुण दशा का चित्र शंकर जी ने इस प्रकार खींचा है -

शोक-महासागर में जीवन जहाज आज,
भारत का डूबेगा रही न बात बस की ।
घारती है भार तीस कोटि मन्द भागियों का,
मोद हीन मेदिनी तू नैक हू न घस की ॥
टूट गया ' शङ्कर ' अखड उपदेश दंड,
दिव्य देश भक्ति की पताका हाय खस की ।
तिलक वियोग विष बरस रहा है पर,
बरसी न बदली स्वराज्य सुधा रस की ॥

जहाँ स्वराज्य-सुधारस की वर्षा होनी चाहिए थी, वहाँ आज तिलक-वियोग-विष बरस रहा है । शोक ! महाशोक ॥

महाकवि हरिऔध ने विधवाओं की दयनीय दशा का कैसे करुण शब्दों में वर्णन किया है, देखिए—

कैसे भला चौगुनो न चित चैन चूर हो तो,
क्यों न चन्द वदन विपुल हो तो पियरो ।
कैसे रोम-रोम में समायो दुख उन हो तो,
कैसे हो तो कल्लुक दहत गात सियरो ॥
'हरिऔध' विधवा विलाप जो करत नाहिं,
कैसे भला बावरो बनत तो न जियरो ।
कैसे पिक कूक ते करेजौ ना मसकि जात,
हूक ते न कैसे टूक-टूक हो तो जियरो ॥

रौद्र रस

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है । क्रोध एक प्रकार की सहारक शक्ति है । जिसमे क्रोध अधिक होता है, वह बात-बात पर, बिगड़ बैठता है । कभी कभी तो क्रोधी आपे से बाहर होकर हाथा पाई और धींगा-मुश्ती तक को तैयार हो जाता है । उस समय उसमे विवेक नहीं रहता, उसके मुँह से गर्वोक्तियाँ निकलना एक साधारण सी बात हो जाती है । क्रोध में अनिष्टकारी

देखना, दुःख दायक रूढ़ियों के कारण समाज का अहित होना आदि भी क्रोध के उत्पादक हैं ।

जैसा कि ऊपर कहा गया, उचित अवसर पर उचित मात्रा में क्रोध आवश्यक है । इसके प्रभाव से संसार के कार्य नहीं सध सकते, परन्तु किसी कार्य की अति सर्वत्र वर्जित की गई है । क्रोध की अधिक उग्रता होने पर, उसके निग्रह की आवश्यकता होती है ।

रौद्र

जहाँ प्रबल एवं उद्दीप्त क्रोध की परिपुष्टि होती है, वहाँ रौद्र रस होता है । इसके आश्रय स्थान राक्षस, दानव तथा मनुष्य होते हैं ।

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, देवता रुद्र और वर्ण श्रृणु वा रुद्र है ।

आलम्बन—शत्रु अथवा कपटी दुराचारी आदि व्यक्ति इसके आलम्बन हैं ।

उद्दीपन—क्रोध, तिरस्कार और खोटे या कठोर वचन कहना, मारना आदि शत्रु की चेष्टाएँ इस रस के उद्दीपन हैं ।

अनुभाव—भ्रूभंग, ओठ चवाना, ताल ठोकना, डाटना, ललकारना, डोंग मारना, शस्त्र धुमाना, उग्रता, आवेग, स्वेद, रोमाञ्च, मद, वेपथु आदि इसके अनुभाव हैं ।

संचारी—गर्व, चपलता, मोह, आमर्ष, उग्रता, क्रूरता, आवेग आदि इसके सञ्चारी हैं ।

रौद्र रस में वाणी और शरीर की चेष्टाएँ रौद्र हो जाती हैं, अर्थात् आँखें लाल हो जाती हैं, चेहरा क्रोध के कारण तमतमा उठता है और ओठ फड़कने लगते हैं । वीर रस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति क्रोध से नहीं, प्रत्युत उत्साह के कारण होती है ।

कविवर पद्माकर ने नीचे लिखे पद्य में हनुमान जी के रौद्र रूप का कितना अच्छा वर्णन किया है—

वारि टारि डारों कुभ कर्णहि विदारि डारों,

मारों मेघनादै आजु यों बल अनन्त हों ।

कहै 'पदमारु' त्रिकूट ही कों ढाय डारों,
डरत करेई यातुधानन को अन्त हों ॥
अच्छहि निरच्छ कपि अछहि उचारों इमि,
तोत्र तिच्छ तुच्छन कछूवै ना गनत हों ।
जारि डारों लंकहिं उजारि डारों उपवन,
मारि डारों रावण कों तो मै हनुमन्त हों ॥

क्रोधावेश मे हनुमान जी अक्ष, मेघनाद कुम्भकर्ण और रावण को ही मार डालने की भीषण प्रतिज्ञा नहीं कर रहे, प्रत्युत राक्षसों का समूल विनाश कर लंका को जला खाक बना देने का भी प्रण कर रहे हैं ।

यहाँ पर, रावण, कुम्भकर्णादि शत्रु वर्ग आलम्बन, हनुमान जी को बाँध लेना, कट्टु वाक्य कहना आदि उनकी चेष्टाएँ उद्दीपन, ललकारना, अपने बल-विक्रम का बखान करना अनुभाव तथा गर्व, आमर्ष, क्रूरता आदि संचारी भाव हैं । इन सबके द्वारा क्रोध स्थायी की पुष्टि होने पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार आगे के उदाहरणों मे भी समझ लेना चाहिए ।

निम्नलिखित कवित्त मे कविवर रत्नाकर ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म-प्रतिज्ञा करते हुए भीष्म पितामह की गर्वोक्तियों का कैसा सुन्दर वर्णन किया है—

भीषम भयानक पुकार्यौ रन भूमि आनि,
छाई छिति क्षत्रिन की गीति उठि जायगी ।
कहै 'रत्नाकर' रुधिर सों रुंधैगी धरा,
लोथनि पै लोथनि की भीति उठि जायगी ।
जीति उठि जायगी अजीत पाण्डु पूतन की,
भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगी ।
कै तो प्रीति रीति की सुनीति उठि जायगी कै,
आज हरि प्रन की प्रतीति उठि जायगी ॥

आज या तो युद्ध में शस्त्र-ग्रहण न करने की कृष्ण की प्रतिज्ञा ही भंग हो जायगी, या फिर अजेय पांडु-पुत्रों की विजय-सम्भावना ही जाती रहेगी ।

देखना तो सही, यदि रण-भूमि में रुधिर की कीच न कर दूँ। और लोथो पर लोथे न बिछा दूँ तो मेरा नाम भीष्म नहीं। रत्नाकर जी के उपरुक्त पद्य मे रौद्र रस मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है।

नीचे रत्नाकर जी का ही उसी प्रमंग में से एक पद्य और दिया जाता है, देखिए सान्तनु के सुभट सपूत आदित्य ब्रह्मचारी भीष्म जी क्या कहते हैं—

पारथ विचारो पुरुषारथ करेगो कहा,
स्वारथ समेत परमारथ नसै हों मै।
कहै 'रत्नाकर' प्रचार्यौ रन भीष्म यों,
आज दुरजो धन को दुख दरि दै हों मै।
पचन के देखत प्रपञ्च करि दूरि सबै,
पञ्चन को सत्व पञ्च तत्व में मिलैहौ मै।
हरि प्रनहारी जस धारि कै धरा हूँ सान्त,
सान्तनु को सुभट सपूत कहवै मैं ॥

बेचारा पारथ मेरे आगे भला क्या 'पुरुषारथ' दिखावेगा। आज यदि मैंने पाँच पाडवो को पञ्च तत्व में मिलाकर दुर्योधन का दुख-दल न दिया, तो मुझे शान्तनु महाराज का पुत्र मत कहना। मैंने भी आज यदि 'हरि-प्रण-हारी की उपाधि प्राप्त न की तो मेरा नाम भीष्म ही नहीं। रत्नाकर जी के इस कवित्त में भाव की तो बात ही क्या, शब्दों से भी रौद्र रस टपका पड़ता है।

भीष्म जी के पश्चात् अब पवनावतार भीम का रौद्र रूप देखिए। चीर-हरण कालीन द्रौपदी के अपमान का स्मरण कर इस समय वह साक्षात् रुद्र मूर्ति बन गए हैं—

क्रोध कै कौरव नायक के सत बधुन कौ रन में न सँहारि हौ ?
सोनित पान के कारज लागि, कहा न दुसासन कौ हियौ फारि हौ ?
त्यौँ अपनो प्रन पालन कौ न कहा दुरयोधन जब विदारि हौ ।
सन्धि करै कछु गौवनि लै तुव भाइ भले पै न ताहि विचारि हौ ॥
'यदि धर्मराज जी पाँच गाँव लेकर कौरवों से सन्धि करे तो भले ही कर ले। मैं उसकी लेश भी परवा नहीं करता। मैं तो जब तक अपनी

प्रतिज्ञानुसार स्वयं रुधिर-पान करने के लिए दुष्ट दुःशासन का हृदय नहीं विदार लूँगा और कृष्ण के केश खींचने के बदले दुराचारी दुर्योधन की जाँघ न फाड़ लूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। कृष्ण एक सन्धि नहीं हज़ार सन्धि कर ले, परन्तु भीमसेन तो पापी कौरवों को संहार करेगा और अवश्य करेगा।

नीचे लिखे पद्य में कविराज शंकर ने शृङ्गार का रौद्र रस में वर्णन किया है—

ताकत ही तेज न रहेगो तेज धारिन में,
मंगल मयंक मन्द मन्द पड़ जायँगे ।
मीन बिन मोर मर जायँगें तड़ागन में,
डूब-डूब 'शकर' सरोज सड़ जायँगे ॥
खायगो कराल काल-केहरी कुरंगन को,
सारे खञ्जरीटन के पंख भड़ जायँगे ।
तेरी अँखियान सौ लड़ेगे अब और कौन,
केवल अड़ीले दृग मेरे अड़ जायँगे ॥

नायिका की आँखे विश्व विजय कर चुकी हैं, अब कोई भी उनके आगे मैदान में ठहर नहीं सकता। उनके ज़रा ताकते ही बड़े-बड़े तेजस्वियों का तेज नष्ट हो जाता है। चन्द्र, भौम और शनि तीनों ग्रह भी उनके तेज के आगे मन्द पड़ जाते हैं। अभिप्राय यह है कि आँखो की सफेदी, लाली और श्यामता के आगे श्वेतवर्ण चन्द्र, लालवर्ण मंगल और कृष्णवर्ण शनि तीनों ही निष्प्रभ हो जाते हैं। कमल भी उनके मुकाबले में नहीं ठहरते और वे तालाब में डूब-डूब कर सड़ जाते हैं। इसी प्रकार मृग खञ्जन आदि कोई भी इन अलबेली आँखो का मुकाबला नहीं कर सकता। केवल मेरे अड़ीले दृग ही उनका मुकाबला कर सकते हैं।

पद्माकर जी ने भी निम्नलिखित पद्य में अपने पातकों के प्रति कैसा रुद्र रूप धारण किया है, देखिए—

जैसा तैं न मोसों कहुँ नैक हू डरातु हुतो,
ऐसो अब हौ हू तो सों नैक हू न डरि हों ।

* आँखों को अनेक जगह 'श्वेत-श्याम रत्नार' कहा गया है।

कहै 'पदमाकर' प्रचण्ड जो परंगो तो,
 उमण्ड कर तो सौं भुज दण्ड ठोकि लरि हौं ।
 चलौ चलु चलौ चलु विचलु न बीच ही ते,
 कीच बीच नीच तो कुटुम्ब को कचरि हौं ।
 एरे दगादार मेरे पातक अपार तोहिं,
 गंगा के कछार में पछारि छार करि हौं ॥

पदमाकर जी अपने दगादार अपार पातकों को गंगा के कछार में पछारे बिना नहीं रह सकते । वे कहते हैं कि अगर रास्ते में पिशाच पातक ने जरा भी 'तीन-पाँच' की तो वह बुरी तरह दबोच दिया जायगा । उसका कोई नाम लेना भी शेष न रहेगा ।

और देखिए राजा जनक की धीर विहीन मही मै जानी की अनुचित वाणी सुनकर लक्ष्मण कैसे रोष में भर गए हैं—

अति अनखौदे हैं रिसोंहे सोहैं भोहैं तान,
 लखन बखान कह्यौ आयसु जो पाऊँ मै ।
 जन तो मुरारि तो मरोरि मोरि बारिधि में,
 डारों महि तोरि दन्त दिग्गज दिखाऊँ मै ॥
 रावरे प्रताप-बल साँची कहुँ राघव जू,
 मेरु को उखारि छिति छोर लागि धाऊँ मै ।
 अटक रहे हौ कहा मुख ते निकारियेजु,
 भटक सरासन को चटक चढ़ाऊँ मै ।

महाराज आप ज़रा मुँह से 'हाँ' कह दीजिए, फिर देखिए मैं इस पशु-पति के सड़े-गले पुराने पिनाक को क्षण-भर में चढ़ा कर खण्ड-खण्ड करता हूँ या नहीं ।

जानकी जी के हरे जाने पर भगवान् रामचन्द्र ने कैसा रुद्र रूप धारण किया है । रसिक विहारी जी के शब्दों में उसका दर्शन कर लीजिए—

लोक तिहूँ जारों सातों सागर सुखाय डारों,
 गिरिन ढहाय डारों भूमि उलटाऊँ मै ।
 रंच में विदारि डारों दसों दिग पाखन को,
 खगन समेत ससि सूरहि गिराऊँ मै ।

नभते पताल लैकै कितहूँ कहूँ जो नैक,
‘रमिक बिहारी’ प्राण प्यारी सुधि पाऊँ मै ।
जानकी न लाऊँ तो पै क्षत्री न कहाऊँ,
राम नाम पलटाऊँ धनुषवान न उठाऊँ मे ॥

जानकी को प्राम करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं सातों समुद्रों को सुखा कर पहाड़ों को ढहा दूँगा, और सूर्य-चन्द्रमा समेत समस्त नक्षत्र मण्डल को भूमि पर पटक दूँगा । मुझे तनक पता लग जाना चाहिए, फिर मैं जैसे भी बनेगा, उन्हे ले आऊँगा । यदि ऐसा न करूँ तो मेरा नाम राम नहीं ।

अब ज़रा कवि लछिराम जी का भी रौद्र रस सम्बन्धी पद्य देखिए—

लाल करि लोचन चढ़ाए बक 'भोहैं बैन—
बोलत लखन लाल देव दसरथ को ।
ललकारि डारि हौं मरदि महि रावण को,
मेघनाद मुखड भेजौ आसमान पथ को ॥
सारथी समेत सेना सागर मे बोरो छिन,
पूरौ करि 'लछिराम' देवन अरथ को ।
चूर करि खोपरी दशन दश मुख पूरि,
धूरि मे मिलाय दैहौं रावण के रथ को ॥

शत्रु रावण के प्रति लक्ष्मण के हृदय में जो क्रोधानल धधक रहा है, उपर्युक्त पद्य में उसी वीर रस का वर्णन किया गया है । कैसी भीषण प्रतिज्ञा है । रावण के मुँह मर्दन कर उसे धूल में मिला देने का काम कुछ साधारण नहीं । परन्तु महावीर लक्ष्मण के लिए सब सम्भव है ।

और भी देखिए—

फोरि डारो फलक जमीन जोरि डारो बल,
बारिधि में बैरिन के वृन्द बोरि डारो मै ।
रोरि डारो रन घन घोर डारो वज्री बज्र,
छोरि डारो बारिधि म्रयाद टोरि डारो मै ॥
अवध बिहारी रामचन्द्र को हुकुम पाऊँ,
चन्द्र को निचोरि मेरु को मरोरि डारो मै ।

मोरि डारों मान मानी मूढ महिपालन को,
नाक तोरि डारों औ पिनाक तोरि डारों मै ॥

उपर्युक्त पद्य मे कवि ने लक्ष्मणजी के क्रोध का कैसा उत्कृष्ट और जोरदार वर्णन किया है। अगर उन्हें रामचन्द्र जी ने हुक्म दिया तो वे सारे अभिमानी राजाओं का मान मर्दन कर देगे और उनके पिनाक तथा नाक दोनों को तोड़ डालेगे।

लोग स्त्रियों को अबला बताते हैं, परन्तु वह भी ज़रूरत पड़ने पर कभी-कभी सबला बन जाती हैं। ऐसी ही किसी प्रबला नायिका ने 'बजमारे' वसन्त का अन्त कर देने के लिए कैसा रौद्र रूप धारण किया है, यह नीचे लिखे पद्य में पढ़िए—

मञ्जुल रसाल-मञ्जरीन कों विथोरि दै हों,
रसना विहीन कै हों कोकिलन कारे को।
कुसुम समूह की कुसुमता निवारि दै हों,
मार दै हौ गुञ्जत मिलिन्द मतवारे को ॥
ए हो 'हरिऔध' जो सतैहँ दुख दैहँ मोहि,
बिरस बनै हों तो सरोज रसवारे को।
अन्तकलो सारे सुख तन्त कों निपात कैहों,
अन्त करि दै हों या वसन्त बजमारे को ॥

अब वह नायिका रसाल की मञ्जुल मञ्जरियों और मतवारे मिलिन्दों को नष्ट किए बिना नहीं मानेगी। इतना ही नहीं, अब तो वह कोकिल और सरोजो को भी मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। वसन्त बजमारे का अन्त ही न कर दिया तो बात ही क्या ?

कविवर तुलसीदास के रामचरित मानस मे प्रायः सभी रसों का वर्णन आया है, उनमे से रौद्र रस का एक स्थल नीचे उद्धृत किया जाता है—

रघुवंसिन मे जहँ कोई होई, तेहि समाज अस कहै न कोई।
कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणिए जानी।
सुनहु भानु-कुल-पंकज-भानू, कहौ सुभाबु न कळु अभिमानू।
जो राउर अनुसासन पाऊँ, कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ।

काँचे घट जिमि डारों फोरी, सकौ मेरु मूलक इव तोरी ।
 तव प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरो पिनाक पुराना ।
 नाथ जानि अस आयसु होऊ, कौतुक करों विलोकिय सोऊ ।
 कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों, जोजन सत प्रमान लै धावों ।
 तोरों छत्रक-दण्ड जिमि तव प्रताप बल नाथ,
 जौ न करौं प्रभु पद सपथ पुनि न धरों धनु भाथ ।

+ चितय धनुष की ओरा, रे शठ सुनेसि सुभाव न मोरा ।
 बालक बोलि बधों नहि तोही, केवल मुनि जड़ जानेसि मोही ॥
 बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रीकुल द्रोही ।
 भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, बिपुल वार महि देवन दीन्ही ।
 सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोकि महीप कुमारा ।
 मात-पितहिं जनि सोच बस करसि महीप किसोर ।
 गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति धोर ॥

कविवर मैथिली शरण जी रौद्र रस का वर्णन कैसे ज़ोरदार शब्दों में करते हैं, देखिए—

गई लग आग सी सौमित्रि भड़के, अधर फड़के प्रलय धन तुल्य तड़के ।
 अरे मातृत्व तू अब भी जताती, ठसक किसको भरत की है बताती ।
 भरत को मार डालूँ और तुम्हको, नरक में भी न रक्खूँ ठौर तुम्हको ।
 युधाजित आततायी को न छोड़ूँ, बहिन के साथ भाई को न छोड़ूँ ।
 बुलाले सब सहायक शीघ्र अपने, कि जिनके देखती है व्यर्थ सपने ।
 सभी सौमित्रि का बल आज देखे, कुचक्री चक्र का फल आज देखे ।

उपर्युक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी के क्रोध का वर्णन है, वे कैकेयी को बड़े ज़ोर से डाट रहे हैं कि तैने यह क्या अनर्थ कर डाला । देखना है भरत को, कैसे राज्य लेते हैं । है किसी की शक्ति जो मेरे मुकाबिले में आए । कैकेयी तू मा बनती है । भला मा का यह काम है, जो तैने किया । तू मुझे समझती क्या है, मैं चाहूँ तो पृथिवी को पलट दूँ और आसमान में आग लगा दूँ ।

महाकवि मैथिलीशरण जी की नीचे लिखी पंक्तियों भी कितनी ज़ोरदार हैं—

श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे ।
 सब शोक अपना भूल कर कर-तल युगल मलने लगे ।
 ससार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े ।
 करते हुए यह घोषणा वे होगये उठ कर खड़े ॥
 उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा ।
 मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा ।
 मुख बाल-रवि-सम लाल होकर ज्वाल-सा बोधित हुआ ।
 प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ ॥
 युग नेत्र उनके जो अभी थे, पूर्ण जल की धार से ।
 अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से ।

अर्जुन के क्रोध का कैसा सबल वर्णन उक्त पंक्तियों में किया गया है ।

महाकवि केशव की रामचन्द्रिका में परशुराम जी के रौद्र रूप का कितना सुन्दर वर्णन किया गया है, देखिए—

बोरों सवै रघुबस कुठार की धार मे बारन बाजि सरत्थहिं ।
 बान की बाय उड़ाय कै लच्छन लच्छ करों अरिहा समरत्थहिं ।
 रामहिं बाम समेत पठै बन कोप के भार में भूजों भरत्थहिं ।
 जो धनु हाथ धरें रघुनाथ तो आजु अनाथ करों दशरत्थहिं ।

केशव जी के शब्दों से ही रौद्ररस टपका पड़ता है, फिर भावों की तो बात ही क्या । अगर रामचन्द्र ने मेरे विरुद्ध धनुष बाण से हाथ भी लगाया तो खैर नहीं, राम तो राम मैं उसके बाप दशरथ को भी अनाथ कर दूँगा । देखें फिर रघुकुल में कौन शेष रहता है ।

नीचे लिखे सवैया में भी परशुराम जी के ही क्रोध का वर्णन है—

गर्भ के अर्भक काटन को पटु धार कुठार कराल है जाको ।
 सोई हौं ब्रह्मत राज समै धनु कै दलिहौ दलिहौ बलु ताको ।
 छोटे मुँह उत्तर देत बड़ो लरिहैं मरिहैं करिहैं कछु साको ।
 गोरौ गरूर गुमान भरौ कहु कौशिक छोटी सो टोटी है काको ।

परशुराम जी के कथन में कितना गर्व भरा हुआ है—अरे कौशिक, जिसका कराल कुठार गर्भ तक के बालकों को काटने में कुशल है, वही मैं

तुमसे पूछता हूँ, कि यह छोटा-सा 'ढोटा' किसका है, जो मेरे आगे भी ऐसी गर्व-गुमान भरी बातें कर रहा है।

वीर रस

वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। पराक्रम, शरीर-बल, आत्मरक्षा, साहस, हिम्मत, बहादुरी, दृढता पूर्वक कार्य करने की शक्ति, निर्भयता, युद्ध आदि करने की तत्परता आदि कार्यों से वीर रस का ग्रहण किया जाता है। इस वृत्ति के अति योग अथवा मिथ्या योग से भगड़े-टटे, दगे-फिसाद तथा युद्ध आदि हो जाते हैं। इस वृत्ति के तीन विभाग किये गये हैं, साहस, युयुत्सा और संरक्षण। जीवन भी एक प्रकार का युद्ध है। इसमें बराबर संघर्ष (Struggle) होता रहता है, अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इन तीनों संघर्षों में, किसी न किसी रूप से, सब ही प्राणधारियों को अपनी शक्ति-अनुसार भाग लेना पड़ता है। अवसर-विरुद्ध शान्ति या कायरता पूर्ण सहन-शीलता कदापि प्रशंसनीय नहीं कही जाती। डाक्टर थोमस ब्राउन कहते हैं—

“हमारे भीतर एक ऐसी गुप्त शक्ति विद्यमान है, जो सदैव हमारा संरक्षण करती रहती है। जब तक आवश्यकता न हो, तब तक यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है, परन्तु जिस समय इसको ख़ास ज़रूरत पड़ती है, उस समय वह पूर्ण रूप से जाग्रत हो जाती है.....” इसी सम्बन्ध में डाक्टर जार्ज कोम्ब कहते हैं—

शौर्य शक्ति का उपयोग प्रतियोगिनी शक्ति का प्रतिकार करने के लिए होता है, यह शक्ति अपनी मन्द-अवस्था में सामान्य विरोध दर्शाती है, परन्तु जब वह पूर्ण रूप से जाग्रत होती है तो आक्रमण आदि का प्रारम्भ हो जाता है। साहस के कारण यह वृत्ति और भी प्रदीप्त और उत्तेजित हो जाती है। जिनमें शौर्य, शक्ति, विशेष मात्रा में होती है, उनमें उसका उपयोग करने की क्षमता भी अति अधिक पाई जाती है। वे युद्ध या विग्रह के अतिरिक्त बीच की बात पसन्द ही नहीं करते। उत्साह या साहस का उचित उपयोग प्रत्येक दशा में सुसंगत और लाभदायक होता है। आपत्ति, दरिद्रता, रोग आदि में आत्मिक शौर्य ही सहायता देता है।

जिस व्यक्ति में शौर्य का वेग होता है, उसकी वाणी में कर्कशता, स्वभाव में कठोरता और व्यवहार में उग्रता आ जाती है। किसी ने इस शक्ति को आत्मरक्षा (Self defence), किसी ने प्रतिकार शक्ति (Resistance) और किसी ने युयुत्सा (Combativeness) नाम से पुकारा है। राबर्टकोक्स नामक मस्तिष्क शास्त्री ने इस शक्ति को प्रतिस्पर्धा शक्ति (Appositiveness) की संज्ञा दी है, मिस्टर ओ० एस० फाउलर उपर्युक्त सब नामों को अस्वीकार करने हुए इसे बल (Force) कहते हैं। हमारे साहित्य में तो इस शक्ति का 'शौर्य' या 'बल' के नाम से ही उल्लेख किया गया है, क्योंकि इसके समस्त कार्यों में किसी न किसी रूप में वीरता की प्रधानता होती है।

जिन व्यक्तियों में वीरता की प्रधानता होती है, वे सर्वत्र अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया करते हैं। ऐसे लोग तोप के गोलों के सामने और आकाश से बरसती हुई आग के नीचे भी बड़ी धीरता से डटे रहते हैं। उनको अपनी उद्देश्य पूर्ति के मार्ग में मृत्यु का भी भय नहीं होता। वे बड़ी-बड़ी विपत्तियों को भी बड़े साहस के साथ सह लेते हैं। उनमें सदैव अग्रगन्ता बनने की विचार-धारा काम करती रहती है, महाराणा प्रताप और शेर शिवराज ऐसे ही व्यक्तियों में से थे। इस वृत्ति के लोगों को कष्टमय जीवन और साहसिकता के विपणनक कार्य ही अधिक रुचते हैं। उनके हृदय में सदैव विजयी होने की सदभिलाषा विद्यमान रहती है। साहसी और वीर व्यक्ति अकेला ही सैकड़ों के आगे अड जाता है। अविवेक पूर्ण कार्य करने के कारण कभी कभी शौर्य-सम्पन्न व्यक्ति धिक्कार का भी पात्र बनता है। अपनी शक्तियों का उचित उपयोग न करने के कारण वह ऐसे घृणित कार्यों में फँस जाता है, जिन्हें समाज आदर की दृष्टि से नहीं देखता।

जिस व्यक्ति का शौर्य स्वदेशानुराग की तीव्र वृत्ति से प्रेरित और प्रभावित होता है, वह उसी में सर्वात्मना सलग्न हो जाता है। धर्म या दान में उत्साह होने से इसी ओर ढुल पड़ता है, शारीरिक शक्ति सम्पन्न होने के कारण पराक्रम सम्बन्धी कार्यों में जुट जाना तो उसके लिए एक साधारण सी बात है। कैसे ही कठिन से कठिन कार्य क्यों न हों, परन्तु वीर व्यक्ति के लिए सब सरल बन जाते हैं। आत्म-बल की अधिकता होने पर ऐसे व्यक्ति सत्य का पथ ग्रहण कर, उसे अन्त तक निबाहते और असत्य का प्रतिकार करते हैं।

वीर लोगों को सब से पूव अपने शरीर और मन की स्वस्थता का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे उनकी शक्ति का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न होने पावे। वीर व्यक्ति का उद्धत या उद्दण्ड हो जाना उसकी विवेक शक्ति की न्यूनता का सूचक है। ऐसी दशा में वह नाना प्रकार के अनर्थ कर डालता है।

शौर्य का पूर्ण विकास होने पर मनुष्य की वाणी में बड़ा बल आ जाता है। उसके कथन में आकर्षण प्रतीत होने लगता है। गगन वेधिनी गर्जना से श्रोताओं को अपनी ओर आकृष्ट कर लेना उसके लिए बहुत आसान होता है। वाणी में ही नहीं, लेखनी में भी शौर्य का प्रभाव दिखाई देता है। श्लोच पूर्ण भाषा लिखना निर्बलो या कायरों का काम नहीं है। साहस, दृढ़ता, अभ्याचार आदि के प्रतीकार से शौर्य की वृद्धि होती है। भय तो वीर व्यक्ति के पास फटकता ही नहीं। शौर्य शक्ति के विकास के लिए, सार्वजनिक सभाओं तथा वाद विवादों में भाग लेना भी आवश्यक है। हीनत्व भावना (Inferiority complex) आदमी को किसी काम का नहीं छोड़ती। “यह काम मैं न कर सकूँगा।” “वह बड़ा है।” “मैं छोटा और तुच्छ हूँ” इत्यादि विचार शौर्य की उन्नति में बाधक हैं। आशावादी बनना प्रत्येक अवस्था में सुखकर और वीरत्व को बढ़ाने वाला है। जो बात सत्य और न्याय युक्त हो, उसी का पक्ष लेना और दिल खोलकर उसका समर्थन करना चाहिए। सत्य का प्रतिपादन करने से आत्मा को बल मिलता और शौर्य की वृद्धि होती है।

बालकों में उत्साह शीलता के विकास की बड़ी आवश्यकता है। बिना मनोबल के शरीर बल कुछ भी अर्थ नहीं रखता। अतएव बाल्यकाल से ही उपर्युक्त दोनों शक्तियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन महौषध है। बिना उत्साह के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिन लोगों में शारीरिक बल की तो प्रधानता होती है, परन्तु मनोबल अति न्यून परिमाण में रहता है, वे बली होकर भी कायर बने रहते हैं। इसीलिए उत्साह को वीर का स्थायी भाव माना गया है।

वीर कितनी ही तरह के होते हैं—धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, रणवीर, वाग्वीर, कर्मवीर इत्यादि। किसी कार्य के तन्मयता पूर्वक सम्पन्न करने वाले सभी वीर कहे जा सकते हैं। अगर कोई लेखक परिश्रम पूर्वक किसी ग्रन्थ को

समाप्त करता है तो वह भी वीर है, अगर कोई व्यक्ति देश-भक्ति से प्रेरित होकर कष्ट सहता है तो वह भी (स्वदेश) वीर है। अगर कोई किसी को पानी में डूबने या रेल में कटने से बचाता है, तो वह भी वीर है। इसी प्रकार और भी कितनी ही तरह के वीर हो सकते हैं। जो वीर अपना अनिष्ट करने वाले को भी क्षमादान दे सकता है या शान्ति स्थापित करने में अग्रसर हो सकता है, वह सबसे बड़ा वीर है। अभिप्राय यह कि उत्साह की अधिकता से ही वीरता परिलक्षित होती है। यदि पतिप्राणा आदर्श देवियों में वीरता की भावना न होती तो वे शरीर-रक्षा के हेतु अपने प्राणों की आहुति देने और पातिव्रत धर्म के लिए भाँति-भाँति के सकट सहने को सहर्ष सन्नद्ध न हो पातीं। प्रत्येक देश और समाज में वीरत्व भावना का आदर हुआ है, और होता रहेगा। हमारे रामायण-महाभारत इतिहास ग्रन्थ तरह-तरह के वीर-विलास से भरे पड़े हैं। उनका प्रत्येक पात्र अपने वीरोचित कार्य-कलाप द्वारा किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देता और ऊँचे से ऊँचा आदर्श उपस्थित करता है।

साधारणतः युद्धादि में सैनिकों के कार्यों को ही वीर रस में परिगणित किया जाता है। काव्यों में भी मार काट में पृवृत्त होने वालों का ही वर्णन होता है। परन्तु उत्साह स्थायी भाव होने के कारण वीर रस में वे सब ही आ जाते हैं, जिनकी ओर ऊपर संकेत किया गया है। अभिप्राय यह कि वीर रस युद्धों तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत उसका बहुत व्यापक क्षेत्र है।

पूर्ण उत्साह की पुष्टता को वीर रस कहते हैं। इसका आश्रय स्थान उत्तम पात्र होता है।

वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, देवता महेन्द्र और वर्ण स्वर्ण के समान गौर है।

आलम्बन—शत्रु अथवा शत्रु के पराक्रम, ऐश्वर्य, शक्ति, प्रभाव आदि इसके आलम्बन हैं।

उद्दीपन—शत्रु की चेष्टा उसकी ललकार, मारुवाजे, शस्त्रास्त्रों का शब्द, रण, कोलाहल, कडखा गान आदि इसके उद्दीपन हैं।

अनुभाव—अगस्फुरण, नेत्रों की अरुणिमा, युद्ध के सहायक उपादान, शस्त्रास्त्रों की खोज, सैन्य संग्रह आदि वीर रस के अनुभाव हैं।

संचारी भाव—रोमाञ्च, गर्व, असूया, उग्रता, धैर्य, मति, स्मृति, तर्क
आदि इसके संचारी भाव हैं ।

भेद

वीर रस के चार भेद माने गए हैं—१—युद्धवीर, २—दानवीर,
३—दयावीर, और ४—धर्मवीर ।

युद्धवीर

जिसमें बल, विद्या, प्रताप आदि जनित उत्साह की पुष्टि हो, उसे युद्धवीर
कहते हैं ।

शत्रु का प्रताप, पौरुष, ऐश्वर्य, उमग आदि वीर रस के आलम्बन हैं ।
सेना का कोलाहल, युद्ध वाद्य आदि इसके उद्दीपन हैं ।
अंग स्फुरण, रोमाञ्च आदि इसके अनुभाव हैं ।
गर्व, उग्रता आदि वीर रस के संचारी भाव कहे गए हैं ।

दानवीर

जिसमें दान सामर्थ्य जनित उत्साह की पुष्टि होती है, उसे दानवीर
कहते हैं ।

याचक, तीर्थ यात्रा, दान पात्र आदि इसके आलम्बन हैं ।
दान के देश काल और पात्र का ज्ञान दानवीर के उद्दीपन हैं ।
त्याग, उदारता, सर्वस्व दान आदि इसके अनुभाव हैं ।
हर्ष, लज्जा आदि दानवीर के संचारी भाव कहाते हैं ।

दयावीर

चित्त की आर्द्रता जनित उत्साह की पुष्टि जिसमें हो उसे दयावीर
कहते हैं ।

दीन दुःखी, याचक आदि इसके आलम्बन हैं ।
दुःख वर्णन, हृदय द्रावक विनय, दैन्य आदि दयावीर के उद्दीपन हैं ।
मधुर भाषण, सान्त्वना प्रदान, दुःख दूर करने की चेष्टा इसके अनुभाव
माने गए हैं ।
वृत्ति, चञ्चलता, आदि दयावीर के सञ्चारी भाव होते हैं ।

धर्मवीर

जहाँ धर्म जनित उत्साह की पुष्टि हो, वहाँ धर्मवीर रस होता है ।

वेद शास्त्रों या पुराणों के वचनों और सिद्धान्तों में अटल श्रद्धा धर्मवीर का आलम्बन है ।

वेद शास्त्रों की शिक्षाओं का सुनना इसके उद्दीपन हैं ।

उपर्युक्त वेदमन्त्रों की शिक्षाओं के अनुसार आचरण और व्यवहार इसके अनुभाव हैं ।

स्मृति प्रतिपादित धृति क्षमा आदि धर्म के दश लक्षण इसके संचारी भाव हैं ।

नाट्य शास्त्रकार भारत मुनि ने युद्धवीर, दानवीर और दयावीर वीर रस के ये तीन ही भेद माने हैं ।

कुछ लोगों का मत है, कि वीर रस के कर्मवीर और वचनवीर दो भेद और भी होने चाहिए ।

अब जरा गग कवि का वीर रस वर्णन भी देख लीजिए—

भुक्त कृपान मयदान ज्यौ उदोत मान,
एकन ते एक मानो सुषमा जरद की ।
कहै कवि 'गग' तेरे बल की बयारि लागे,
फूटी गज घटा घन-घटा ज्यौ सरद की ॥
एते मान सेनित की नदियाँ उँमड़ि चली,
रही न निसानी कहूँ महि मे गरद की ।
गौरी गह्यौ गिरिपति गनपति गह्यौ गौरी,
गौरी पति गह्यौ पूछ लपकि वरद की ॥

युद्ध भूमि की भयंकरता देख गणेश जी को इतना भय लगा कि वे दौड़ कर पार्वती जी के अञ्जल में छिप गए । उधर पार्वती भी डरी हुई थीं, वह भी दौड़कर महादेव जी से लिपट गईं । ऐसी घबराहट पूर्ण अवस्था में महादेव जी भी स्थिर न रह सके और उन्होंने लपक कर बैल की पूँछ पकड़ ली । इस पद्य में वीर, भयानक और हास्य तीनों रसों का संकर है ।

शङ्कर जी के नीचे लिखे पद्य में, रण चण्डी की प्रार्थना कैसे वीरता पूर्ण भावों के साथ की गई है, देखिए—

अरी चण्डी, चेत चेत सारी शक्तियों समेत,
मद माते भूत प्रेत करे तेरे गुण गान ।
कर कोप किलकार आँख तीसरी उघार,
ताकते ही तलवार भीरु भागे भय मान ॥
गिरे त्रैरियों के झुण्ड फिरे रुण्ड बिन मुण्ड,
भरे शोणित से कुण्ड मचे घोर घमसान ।
मद पीले गटागट्ट गले काट कटाकट्ट,
मरे पापी पटापट्ट हँसे रुद्र भगवान् ॥

पद्य स्वयं ही मूर्तिमान वीर रस मालूम पड़ता है । रुद्र भगवान की प्रसन्नता के लिए, चण्डी की कैसे शब्दों में मिन्नत खुशामद की गई है, उसे सकोप किलकारने के लिए किस प्रकार उभाड़ा गया है ।

नीचे लिखे सवैया में राघव का चतुरगिनी सेना का कैसा कवित्वपूर्ण वर्णन किया गया है—

राघव की चतुरग चमू चलि धूरि उठी जल हू थल छाई ।
मानों प्रताप हुतामन धूम सो 'केशवदास' अकास अमाई ।
मैटि कै पच प्रभूत किधौ विधि रेणुमयी नव रीति चलाई ।
दुक्ख निवेदन कां भुवभार को भूम किधौं सुरलोक सिधायै ॥

चतुरंग चमू के चलने से इतनी धूल उड़ी है कि उसके कारण जल, थल आकाश सब भर गए हैं । उस समय धूल को देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो विधाता ने पञ्च तत्वों को मिटाकर सब की धूलि ही धूलि बना दी हो । अथवा पाप-भार से दबी हुई पृथ्वी, विष्णु भगवान् से अपना दुःख निवेदन करने के लिए स्वर्ग लोक को जा रही हो ।

महाकवि भूषण ने महाराज छत्रशाल की करवाल का कैमे जोशीले शब्दों में वर्णन किया है, देखिए—

निकसत म्यान ते मयूखें प्रलै भानु कैसी,
हारै तम तोम से गयन्दन के जाल को ।

लगति लपटि कंठ बैरिन के नागिन सी,
रुद्रहिं रिभावै दै दै मुण्डनि के माल को ॥
लाल छितिपाल छत्रसाल महा बाहु बली,
कहाँ लौ बखान करों तेरी करवाल को ।
प्रति भट कटक कटीले केते काटि काटि,
कालिका सी किलकि कलेज देति काल को ॥

उसके म्यान से निकलते ही प्रलय के सूर्य की-सी किरणों चारों ओर फैल जाती हैं और वह हाथियों के भुण्ड को इस प्रकार विदीर्ण कर डालती है, जैसे सूर्य-रश्मियों घने अन्धकार को छिन्न-भिन्न कर देती हैं ।

नीचे लिखे कवित्त में महाद्वाज छत्रशाल की वीरता का कैसा सुन्दर चित्र अंकित किया गया है—

भुज भुजगेश की है संगिनी भुजगिनी सी,
खेदि खेदि खाती दीह दारुन दलन के ।
बखतर पाखरन बीच धसि जाति मीन—
पैरि पार जाति परवाह ब्यौं जलन के ॥
रैया राय चम्पत को छत्रसाल महाराज,
'भूषण' सकत को बखानि यों बलन के ।
पन्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर,
तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के ॥

छत्रशाल की भुजगिनी-सी भुजाली ने शत्रुओं के दल को पख-कटे पन्धियों की भाँति भूमि पर मुला दिया है । छत्रशाल की तलवार क्या है, आफत है, जो शत्रुओं के अगत्राण-जिरह बखतर को काटती हुई ऐसे धँसी चली जाती है, जैसे मछली पानी में ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने नीचे लिखी पंक्तियों में वीर रस का कैसा अच्छा वर्णन किया है—

उठहु वीर तरवार खींच मारहु घन संगर ।
लौह लेखनी लिखहु आर्य बल शत्रु हृदय पर ।
मारू बाजे बजे कहुँ धौंसा घहराहीं,
उड़हि पताका शत्रु हृदय लखि-लखि थहराहीं ।

चारन बोलहिं आर्य सुजस बन्दी गुन गावैं,
 छुटहिं तोप घनघोर सबै बन्दूक चलावैं ।
 चमकहिं असि भाले दमकहिं टनकहिं तन बखतर,
 हौंसहिं हय भनकहिं रथ गज चिकरहिं समर थर ।
 छुन महुँ नासहिं आर्य नीच वैरिन कह करि क्षय,
 कहहु सबै भारत जय भारत जय भारत जय ।

चन्द्रहास की चमक, भालों की दमक और बन्दूकों तथा तोपों की धमक से शत्रुओं के होश उड़े जा रहे हैं। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिध्वाड़ और घोंसों की धम्म-धम्म से वैरियों के दिल दहल गए हैं। आर्य वीरों ने अपनी वीरता की धाक जमादी है।

महाकवि तुलसीदास के नीचे लिखे पद्य में हनुमान जी की वीरता का कैसा अच्छा वर्णन किया गया है—

हाथिन सों हाथी मारे घोड़े घांड़े सो सहारे,
 रथनि सों रथ विदरनि बलवान की ।
 चञ्चल चपेट चोट चरन चकोट चाहैं,
 हहरानी फौजे भहरानी यातुधान की ॥
 बार बार सेवक सराहना करत राम,
 'तुलसी' सराहैं गीति साहव सुजान की ।
 लाँबी लूम लसत लपेटि पटकत भट,
 देखो देखो लखन लरनि हनुमान की ॥

अगर हाथियों से मुक्काबला होता है, एक हाथी उठाकर दूसरे में मार देते हैं, इसी तरह घोड़ों में घोड़े और रथों में रथ मार कर उनका संहार करते हैं। कभी-कभी हाथों की चपेट और लूम' (पूछ) की लपेट से भी काम लेते हैं। उनके सब आयुध स्वाभाविक हैं। कृत्रिम शस्त्रास्त्र उनके पास एक भी नहीं है।

और देखिए—

प्रबल प्रचण्ड बली वैरम के खान खाना,
 तेरी धाक दीपन दिसान दह दहकी ।

कहै कवि 'गंग' तहाँ भारी सूर बीरन के,
 उमड़ि अखड दल प्रलै पौन लहकी ॥
 मन्थौ घमसान तहाँ तोप तीर बान चले,
 मडि बलवान किरपान कोपि गहकी ।
 तुण्ड काटि मुण्ड काटि जोसन जिरह काटि,
 नीमा जामा जान काटि जिमीआनि ठहकी ॥

बली बैरम की तलवार शत्रु के सिर पर ऐसी जमकर बैठी कि, सिर को काटती और बख्तर समेत रुण्ड को चीरती हुई जीन और जामा समेत घोड़े के भी दो टुकड़े करती हुई भूमि पर आ कर ही रुकी ।

नीचे लिखे सवैया मे भी तलवार का ही वर्णन है—

भोर ते साँभ लो सूर चलै अब शूर चलै है कबन्ध परे लौ ।
 ये सिरताज गनीमन को प्रण तो न टरै दुहुलोक टरे लौ ।
 ऐसी वही अरबी गरबी शिव शकर हू यम लोक डरे लौ ।
 सो सिर काटि गनीमन के तरवारि वही तरवा के तरे लौ ॥
 यह तलवार भी शत्रु के सिर मे घँस, शरीर को बीच से चीरती हुई पैरों के तलके पर जाकर ठहरी है ।

और देखिए, महाकवि पद्माकर ने लङ्का का सर्व संहार करते हुए वानर दल का कैसा वीरता पूर्ण वर्णन किया है—

सोहैं अस्त्र ओडे जे न छोडे सीस सङ्गर की,
 लङ्गर लंगूर उच्च ओज के अतङ्का मे ।
 कहै 'पदमाकर' त्यौं हुंकरत फुकरत,
 फैलत फलात फाल बाँधत फलङ्का मे ॥
 आगे रघुदीर के समीर के तनै के सग,
 तारी दै तडाक तडा तड़के तमङ्का में ।
 सङ्का दै दसानन को हङ्का दै सुवङ्कावीर,

डङ्का दै विजै को कपि कूद पर्यौ लङ्का में ॥

महावीर हनुमान विजय-दुन्दुभि बजाते हुए, निर्भयता पूर्वक लंका में कूद पड़े । अब लंका की कुशल नहीं, रावण की खैर नहीं । दशों दिशाओं में पवन पूत ने हुंकार और फुंकार मचा दी है ।

हरिऔध जी ने वीर रस के उदाहरण में नीचे लिखा सुन्दर छन्द दिया है—

उठो उठो वीरो चीरो अरिन करेजन कों,
 पीरो मुख परे बनी बात हू बिगिरि हू ।
 छटक छटक छाती छगुनी करैयन कों,
 कौन आज उछरि उछरि कै कवरि है ॥
 'हरिऔध' कहै वीरवृन्द ना अवेर करो,
 हॉकते तिहारी धीर हू ना धीर घरि है ।
 पारावार धार में उड़ैगी छार आँच लगे;
 ठोकर की मारते पहार गिरि परि है ॥

उत्साह और वीरता का कैसा मनोहर वर्णन है । वीरों की हुंकार से धीर का भी धीर भग जायगा, समुद्र में धूल उड़ने लगेगी और ठोकर की मार से पहाड़ चूर चूर हो जायँगे ।

वीर रस के उदाहरण में कविवर रत्नाकर के नीचे लिखे छन्द कितने उत्कृष्ट हैं—

धरम सपूत की रजाय चित्त चाही पाय,
 घायो धारि हुलसि हृथ्यार हरवर में ।
 घायो 'रतनाकर' सुभद्रा को लडैतो लाल,
 प्यारी उत्तरा हू की रक्यौ न सरवर में ॥
 सारदूल सावक वितुण्ड भुण्ड में ज्यौँ त्यौँ ही,
 पैठ्यौ चक्र व्यूह की अनूह अरवर में ।
 लाग्यौ हाथ करन हुलास पर बैरिन के,
 मुख मन्द हास चन्दहास तरवर में ॥
 × × ×

वीर अभिमन्यु की लपालप कृपान वक्र,
 सक्र असनी लौँ चक्रव्यूह माँहि चमकी ।
 कहै 'रतनाकर' न तालन पै खालन पै,
 भिलिम भूपालन पै क्यौँ हूँ कहुँ ठमकी !

आई कन्ध पै तो बाँटि बन्ध प्रतिबन्ध सबै,
कोटि कटि सन्धि लौं जनेवा ताकि तमकी ।
सीस पै परी तो कुण्ड काटि मुण्ड काटि फेरि,
रुण्ड के दुखण्ड कै धरा पै आनि धमकी ॥

वीर अभिमन्यु की कृपाया जहाँ पड़ती है, वहीं मैदान साफ कर देती है ।
महाराज जयसिंह की प्रशंसा में लिखा निम्नांकित पद्य भी दानवीर का
सुन्दर उदाहरण है—

बकसि बितुण्ड दये भुण्डन के भुंड रिपु—
मुण्डन की मालिका दई ज्यौं त्रिपुरारी को ।
कहै 'पदमाकर' करोरन को कोष दये,
षोडश हू दीन्हें महादान अधिकारी को ॥
ग्राम दये, धाम दये, अमित आराम दये,
अन्न जल दीने जगती के जीव धारी को ।
दाता जयसिंह दिय बातें तो न दीनी कहूँ,
शत्रुन को पीठि और दीठि पर नारी को ॥

ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो महाराज जयसिंह ने दान में न दी हों ।
हाँ, अगर उसने नहीं दी, तो केवल शत्रुओं को पीठ और पर स्त्रियों को
'दीठ' ।

और भी देखिए—

सम्पति सुमेर की कुबेर की लु पावै ताहि,
तुरत लुटावत विलम्ब उर धारै ना ।
कहै 'पदमाकर' सो हेम हय हाथिन के,
हलके हजारन के बितर बिचारै ना ॥
गज गज बकस महीप रघुनाथ राव,
पाइ गज घोखे कहूँ काहू देइ डारै ना ।
याही डर गिरजा गजानन को गोइ रही,
गिरि ते गरे तैं निज गोद तैं उतारै ना ॥

महाराज रघुनाथराव के जो कुछ हाथ पड़ जाता है, उसे ही वे दान कर
देते हैं । हाथियों के तो उन्होंने भुण्ड के भुण्ड दान कर दिए । पार्वती जी

ने गणेश को इसीलिए अपनी गोद में छिपा रक्खा है, कि कहीं रघुनाथराव इन्हें पाकर हाथी के धोखे में किसी को दे न डाले ।

दानवीर के उदाहरण में नीचे लिखा कवित्त भी कितना उत्कृष्ट है—

गाज उत दुन्दुभी अवाज इत होत सुर,
चाप उत इतै पचरंग परसतु हैं ।
पौन पुरवाई उत तरल तुरंग इत,
मोर उत इतै ये नकीव सरसतु हैं ॥
चपला चमक उत चन्द्र हास छवि इत,
उतै धन इतै ये गयंद दरसतु है ।
उत अरवनी पै इन्द्र नीर बरसत इत,
नृपति प्रताप हेम हीर बरसतु हैं ॥

यहाँ जल की वर्षा करने वाले इन्द्र और दान रूप में सोना, हीरा, मोती आदि की वर्षा करने वाले महाराणा प्रताप दोनों की तुलना की गई है ।

महा दानी छत्रशाल की दान वीरता का वर्णन कवि ने कितने विलक्षण और सुन्दर ढंग से किया है, देखिए—

अच्छत दरभ जुत तरल तरगन सौ,
कोहै तू कहौ सौ आई रची व्यौत सारी के ।
सरिता हौ सकलप सलिल बढत आवै,
महाराज छत्रशाल दान ब्रतधारी के ॥
एतो क्यों गुमान कीन्हो मोहिन प्रनाम कीन्हो,
लाल त्यों अनखि बोली बोल भेद भारी के ।
महादानि पानि ते उपज मेरी जानि गगे,-
पायन तैं भई है तू बावन भिखारी के ॥

महाराज छत्रशाल ने इतना दान दिया कि उसके संकल्प के जल से सरिता बन गई। उसे देख गंगा जी ने पूछा—अरी तू कौन है, कहौ से आई है ? और फिर कोई भी हो, तैने यह दिठाई क्यों की कि सुभे प्रणाम भी नहीं किया ? इस पर उपर्युक्त नदी बोलती—अरी गंगे, मै साधारण नदी नहीं हूँ जो बुभे प्रणाम करूँ । मेरा जन्म महादानी महाराज छत्रशाल के हाथों से

हुआ है, और तू भिखारी वामन का रूप धारण करने वाले विष्णु के पैरों से उत्पन्न हुई है ।

महाकवि केशव का दान वीरता के सम्बन्ध में कैसा अञ्छा उदाहरण है, देखिए—

‘केशवदास’ के भाल लिख्यौ विधि रक को अरु बनाइ सँवार्यौ ।
घोए धुआँ न छुड़ाए छुट्यौ बहु तीरथ के जल जाइ पखार्यौ ।
है गयो रक ते राव तवै, जब बीर बली नृप नाथ निहार्यौ ।
भूलि गयो जग की रचना चतुरानन बाइ रह्यौ मुख चार्यौ ॥

उपर्युक्त पद्य में भी केशवदास ने वीर-बली महाराज की प्रशंसा की है, जिसके कृपा पूर्वक देखने मात्र से केशव रंक से राजा हो गए । जो दरिद्रता विधाता ने उनके भाल में लिखी थी, उसे यों पल भर में दूर होते देख ब्रह्मा जी भी आश्चर्य सागर में गीते लगाने लगे ।

कैटभ सौं नरकासुर सौं पल में मधु सौं मुरसे जिन मार्यौ ।
लोक चतुर्दश रक्षक ‘केशव’ पूरन वेद पुरान विचार्यौ ।
भी कमला कुच कुंकुम मण्डित पण्डित देव अदेव निहार्यौ ।
सो कर माँगन को बलि पै करतारहु ने करतार पसार्यौ ॥

यहाँ महाराज बलि की दानवीरता का वर्णन किया गया है । जिन हाथों ने मधु, कैटभ, मुर प्रभृति अनेक राक्षसों का संहार किया और जो चौदहों लोक की रक्षा करने में समर्थ रहे, अपने वे ही हाथ करतार ने महाराज बलि के आगे फैलाए ।

भूषण जी का नीचे लिखा कवित्त दानवीरता का कैसा अञ्छा उदाहरण है—

राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो,
गाजत गयन्द दिग्गजन हियखाल को ।
जाहि के प्रताप सौं मलीन आफताव हीत,
ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याल को ॥
साजि-साजि गजतुरी पैदर कतार दीन्हें,
‘भूषन’ भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को ।

श्रीर राव राजा एक मन मे न ल्याऊँ अब,
साहु को सराहौँ कै सराहौँ छत्रसाल को ।

भूषण जी छत्रशाल और साहु जी के आगे किसी भी राव राजा को कुछ भी नहीं समझते । भला जिनके प्रताप-भानु के आगे सूर्य मलिन हो जाता और दुरात्मा वैरियों के हृदयों में चिन्ता-चिन्ता जलने लगती है ।

कविवर नरोत्तम दास ने नीचे लिखे सबैया में दानवीरता का कैसा सुन्दर वर्णन किया है—

हाथ गह्रौ प्रभु को कमला कहै नाथ कहा तुमने चित धारी ।
तण्डुल खाय मुठी दुइ दीन कियो तुमने दुइ लोक बिहारी ।
खाय मुठी तिसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिसारी ।
रंकहि आप समान कियो तुम चाहत आपहि होन भिखारी ।

कृष्णजी ने सुदामा के दो मुट्ठी चावल खाकर उनके बदले में दो लोक तो उन्हें दे डाले, जब वे तीसरी मुट्ठी और भरने लगे, तब लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ कर कहा—‘नाथ, अब क्या तीसरा लोक भी सुदामा को दे डालना चाहते हो ? कहीं अपने रहने के लिए भी जगह रहने दोगे या नहीं । या अब सुदामा को अपना जैसा बनाकर आप सुदामा का स्थान लेना चाहते हो ।’

दानवीरता के उदाहरण में नीचे लिखा दोहा भी पढने लायक है—

जो सम्पत्ति शिव रावनहिं दीन्ह दये दश माथ ।
सो सम्पदा विभीषणहिं सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥

जो सम्पत्ति (लंका का ऐश्वर्य) शिव जी ने रावण को अपने दशों शिर भेट करने पर दी थी, वही सम्पदा रामचन्द्र जी ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दी ।

आगे धर्मवीर का भी एक उदाहरण दिया जाता है—

तृण के समान धन-धाम राज त्याग करि,
पाल्यौ पितृ वचन जो जानत जनैया है ।

कहे ‘पदमाकर’ विवेक ही को बानो बीच,
साँचो सत्य वीर धीर धीरज धरैया है ॥

सुभृति पुराण वेद आगम कछौ जो पन्थ,
आचरत सोई शुद्ध करम करैया है ।
मोह मति मन्दर पुरन्दर मही को धनी,
घरम धुरन्धर हमारो रघुरैया है ॥

कवि पद्माकर कहते हैं, पितृ-आज्ञा-पालन के लिए जो इतने बड़े साम्राज्य को तिनके के समान त्याग कर वन चल दिए, उन रामचन्द्र से अधिक धर्म-वीर और कौन हो सकता है ।

कविवर मैथिलीशरण का नीचे लिखा पद्य भी धर्मवीर का उत्कृष्ट उदाहरण है—

सुन कर निज गुरु की प्रेम भरी यह वाणी ।
बोले उनसे प्रह्लाद जोड़ युग पाणी ।
गुरुदेव, पिता जब पूज्य कहे हैं ऐसे,
तब परम पिता पूजाई न होंगे कैसे ।
हे आर्य किसी का शत्रु न हरि को जानो,
अच्युत अनादि अखिलेश उन्हें तुम मानो ।
हरि भजन छोड़ मै करूँ स्वार्थ की घाते,
हा-हा खाता हूँ कहो न ऐसी बाते ।

उपर्युक्त पद्य में भक्त प्रह्लाद की धर्म में कैसी दृढ़ता दिखाई गई है । वह अपने अडिग विश्वास के आगे गुरु की बातों को भी नहीं मानते । नहीं मानते इतना ही नहीं, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा उनका खंडन भी करते हैं ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के निम्नलिखित दोहों में भी कैसी वीर घोषणा की गई है—

बेचि देह दारा सुअन होय दास हू मद ।
रखि हौ निज वच सत्य करि अभिमानी हरिचंद ॥

× × ×

चन्द्र टरै, सूरज टरै टरै जगत व्यवहार ।

पै दृढ़ श्रीहरिचन्द को टरै न सत्य विचार ॥

चाहे संसार उलट-पलट हो जाय, पर सत्यवर्त्तों हरिश्चन्द्र का सत्य विचार नहीं टल सकता ।

और भी लीलिए—

मुनि 'कमलापति' विनीत वैन भारी तामु,
 आसु चलिवे की लम्बी गति यो दराज की ।
 छोडि कमलासन पिछोडि गरुडाम्न हूँ
 कैसे कै बखानों दौग दौरे मृगराज की ॥
 जाय सरसी मे यो छुडाय गज ग्राह ही ते,
 ठाढे आय तीर इमि मोभा महाराज की ।
 पीत पट लै लै कै अँगौछत शरीर,
 कर कञ्जन ते पौँछत भुसुण्ड गजराज की ॥

यहाँ कमलापति की दयावीरता का कैसा सुन्दर वर्णन किया गया है ।
 अब दयावीर के उदाहरण भी देखिए—

पापी अजामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ही को नरायन ।
 त्यों 'पदमाकर' लात लगे पर विप्रहु के पग चौगुने चायन ।
 को अस दीन दयाल भयो दशरथ के लाल से सूधे सुभायन ।
 दौरे गयन्द उबारिवे को प्रभु बाहन छोडि उपाहने पायन ॥

भला भगवान रामचन्द्र के सिवा ऐसा दयालु कौन है, जो गजराज तक का उद्धार करने के लिए नगरे पैरो पैदल दौड़कर पहुँचे । अजामिल जैसे पापी का जिन्होंने निस्तार कर दिया । अजी और तो और भृगुजी के लात मारने पर भी आप उलटे उनके पैर सहलाने लगे । भला इससे भी अधिक दयालुता क्या हो सकती है ?

—कविकर हरिकेश का नीचे लिखा पद्य वीर रस का कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है—

उह उहे डकन के सबद निसङ्क होत,
 बहबही सत्रुन की सेना जोर सर की ।
 'हरिकेश' सुभट घटान की उमण्ड उत,
 चम्पति को नन्द कोप्यो उमँग समर की ।
 हाथिन की मण्डभारू राग की उमण्ड त्यों त्यों
 लाली भलकति मुख छत्रसाल वर की ।

फरकि फरकि उठै बाहैं अलख वाहिबे को,
करकि करकि उठै करी बखतर की ॥

यहाँ पर शत्रु आलम्बन, उसकी सेना का जोर शोर के साथ आगे आना तथा मारू बाजों का बजना आदि उद्दीपन, वीरवर छत्रसाल के मुख पर और नेत्रों में लालिमा का झलकना एवं शस्त्रास्त्र उठाने के लिए भुजाओं का फड़क उठना अनुभाव और रोमान्च, उग्रता आदि संचारी भाव हैं। इनसे पुष्ट हुआ उत्साह ही वीर रस का रूप धारण करता है।

भयानक रस

भयानक रस का स्थायी भाष भय है। भयङ्कर परिस्थिति के कारण लोग थर थर काँपने लगते हैं। मनुष्य ही नहीं, अन्य जीवों को भी भय लगता है। भेड़िया के आगे भेड़ या बकरी की कैसी बुरी दशा हो जाती है। भय में प्रायः जान जाने, कष्ट सहने या अन्य किसी प्रकार की हानि उद्योग का खतरा होता है, इसीलिये इसका प्रभाव मन पर सबसे अधिक पड़ता है। भय से बचने के लिए, प्रयत्न करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कुछ भय तो वास्तविक है, और कुछ कल्पित तथा भ्रम-जनित। कल्पित भय की यथार्थता ज्ञात होने पर उससे कोई नहीं डरता। जब यह ज्ञात हो जाता है कि मार्ग में सर्प नहीं है, बल्कि रस्सी ही सर्प के समान दिखायी देती है, तो वह कल्पित सर्प भय का कारण नहीं रहता। इसी प्रकार भूत-प्रेतादि के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। अज्ञान-अवस्था में लोग भूत-प्रेतादि से डरते हैं, परन्तु जब वे अच्छी तरह समझ लेते हैं, कि भूतों का कोई अस्तित्व ही नहीं; वे कल्पित और भ्रम जनित हैं, तो उनका डर भी जाता रहता है।

अभिप्राय यह कि कोई वस्तु एक समय में भयङ्कर सिद्ध होकर वास्तविकता ज्ञात होने पर दूसरे समय में वैसी नहीं रहती। जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, या कोई गवाह गवाही देने के लिए न्यायालय में प्रवेश करता है तो उसके हृदय में भय का कुछ अंश होता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और मुँह सूख जाता है, क्योंकि उस समय थूक की ग्रन्थियों से थूक आना बन्द हो जाता है। सब विद्यार्थियों और गवाहों के

सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती । दण्ड, लोकापवाद, आन्दोलन आदि का भी बड़ा भय होता है । दण्ड के डर से आदमी अपराध करने से बचे रहते हैं, कितने ही कार्य अनुनय-विनय से नहीं हो पाते, परन्तु दण्ड, लोकापवाद या आन्दोलन के डर से तुरन्त हो जाते हैं । जो लोग कुकर्म के क्रूर परिणाम से डरते रहते हैं, उनसे पाप कर्म नहीं बनते । राजा, समाज और परमात्मा की दण्ड-व्यवस्था से कदाचित् ही कोई बचता हो । बहुत-से निर्भीक लोग समाज अथवा राजा के दण्ड-विधान से बचने का तो-ज्यों त्यों प्रबन्ध कर लेते हैं, परन्तु न्यायकारी परमात्मा के कठोर शासन से अपने को नहीं बचा पाते । क्रोध की भाँति भय की भी उपयोगिता और अनुपयोगिता है । जहाँ मिथ्या भ्रम से सम्बन्ध है, वहाँ भय निरूपयोगी एवम् हानिकारक है, परन्तु जहाँ वास्तविक भय का प्रसंग है वहाँ असमर्थ होने के कारण उससे अपने को बचाना ही पड़ता है । कुछ लोग स्वार्थ-सकोचवश सत्य कहने या ठीक-ठीक मनोभाव प्रकट करने से डरते रहते हैं, यह डर ही हीनत्व भावना का द्योतक है । ऐसा करने से बड़ी हानि होती है । डर प्रायः उसी समय लगता है, जब शारीरिक अथवा आत्मिक बल में कमी आ जाती है और भय पूर्ण परिस्थिति मन पर पूरा क्राबू कर लेती है । एक वे लोग हैं जो शेर की शक्ति देखकर मूर्च्छित हो जाते हैं, और एक वे हैं जो बड़ी वीरता से उसका सामना करते तथा उसे मार कर दम लेते हैं ।

एक आदमी साहस पूर्वक विषैले साँप को अपनी चुटकी में दबाकर उसे बिल्कुल बेकाबू कर देता है ; परन्तु दूसरा उसे देखने मात्र से घबरा जाता है । ये सब बातें मन की शक्ति से सम्बन्ध रखती हैं । जिसमें जितना ही साहस और शौर्य होगा, उतना ही वह निर्भय और निडर सिद्ध होगा । जो मनुष्य असमर्थ होने के कारण प्राण-घातक परिस्थिति से डरता और परमात्मा या राज्य के कठोर दण्ड से भय खाकर पापों एवम् अपराधों से बचता है, वह भय की उपयोगिता सिद्ध करने में सहायता देता है । ईश्वर और राजा के दण्ड विधान से न डरने के कारण ही आज बड़े से बड़े पापों और भयङ्कर से भयङ्कर अपराधों की सृष्टि हो रही है । मतलब यह कि जहाँ भय हानिकारक है वहाँ वह लाभदायक भी है । मृत्यु के समय कुकर्मों का बारबार स्मरण आकर उनके दण्ड का भय मनुष्य को बुरी तरह

तंग करता रहता है । क्योंकि उस समय सारे जीवन के पापों का चित्र चित्त पर खिंच जाता है और यही भाव भयकर बनकर मरणासन्न को भयभीत करता है । उस समय परमात्मा की याद आकर उसी और लौ लग जाती है ।

भय के कारण रक्त और श्वास की गति में अन्तर पड़ने से शरीर में भी कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं । जिसके लक्षण मुँह पर अच्छी तरह दिखायी देने लगते हैं । भय से मस्तिष्क में ऐसी शिथिलता या निस्तब्धता हो जाती है कि फिर भयभीत व्यक्ति को आगा-पीछा कुछ नहीं सूझता । वह उस तावड़तोड़ दशा में अनेक ऊट-पटाँग काम कर डालता है । कभी-कभी तो ऐसी भाग दौड़ और छीन-भ्रष्ट के काम हो जाते हैं, जो शायद साधारण अवस्था में कदापि सम्भव न होते । एक बार एक व्यक्ति दूर से ही तेडुए की शकल देखकर घबरा गया और भय के आवेग में ऊँचे वृक्ष पर अनायास ही चढ़ गया । सामान्य अवस्था में शायद वह प्रयत्न करने पर भी उस पेड़ पर न चढ़ पाता । भय के समय धैर्य और साहस से काम लेने की बड़ी आवश्यकता है ।

भय के कारण आत्म-सरक्षण के भाव जाग्रत हो जाते हैं । पहले तो मनुष्य आशंकित अनिष्ट के भय से डरता है, परन्तु जब अनिष्ट हो जाता है, तब भय भय न रहकर शोक में परिणत हो, करुण रस का रूप धारण कर लेता है । जब कभी समान भय उत्पन्न होता है, तो उसके द्वारा संघटन-कार्य में अच्छी सहायता मिलती है । भय पूर्ण परिस्थिति का सामना करने के लिए सब लोग भेद भाव भूल कर मिल जाते हैं । यहाँ तक कि उस समय शत्रुओं में भी प्रतिकूल भावना नहीं रहती ।

इन्द्रिय विक्षोभ सहित भय की परिपुष्टि को भयानक रस कहते हैं ।

भयानक रस का स्थायी भाव भय, देवता काल और वर्ण कृष्ण होता है ।

भयानक दृश्य, भयङ्कर शब्द, निर्जन वन आदि स्थान, स्वजन वध अथवा बन्धन आदि इसके आलम्बन हैं ।

भयोत्पादक शब्द सुनना, भयङ्कर दृश्य या प्राणियों को देखना, निर्जन

वन, श्मशान आदि में जाना, गुरुजनों अथवा राजा का अपराध करना, हिंस्र जन्तुओं का कार्य कलाप आदि भयानक रस के उद्दीपन हैं ।

हाथ पैरों का काँपना, गद्गद् वाणी, प्रलय, मून्ड्याँ, स्वेद, रोमाञ्च, चेहरे का विवर्ण हो जाना, मुख सूखना, इधर उधर ताकना, छाती का घड़कना आदि इसके अनुभाव हैं ।

मोह, त्रास, ग्लानि, लज्जा, अपस्मार, सम्भ्रम, दैन्य, शंका, मृत्यु आदि भयानक रस के संचारी भाव हैं ।

भयानक रस के पात्र कायर, नीच पुरुष और स्त्री आदि होते हैं ।

अब भयानक रस के उदाहरण देखिए । सीता स्वयंवर के समय भगवान् रामचन्द्र जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने पर तीनों लोकों में कैसा भय छा गया, इसी का वर्णन नीचे लिखे कवित्त में किया गया है—

कोल कञ्छु देव फैत फैलत फनी के मुख,
धँसि गई धरा धराधर-उर धर के ।
हर के रहे न भानु भर के तुरग कहुँ,
भागि चले बाहन विरचि-हरि-हरके ॥
भ्रम्पित गगन भुकि काम्पत भुवन हल—
कम्पित डुवन गुन खँचे रघुवर के ।
दन्ती दवे आसन सकाने पाक सासन,
न कोऊ धिर आसन सरासन के करके ॥

शिव जी के धनुष टूटने का घोर शब्द होते ही तीनों लोकों में हलचल मच गई । धरा धसक गई, जिसके कारण शेषनाग के फनों से फेन बहने लगा । पर्वतों के उर विदीर्ण हो गए । ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब देवों के वाहन भीत हो भागने लगे । दिग्गज चलायमान हो उठे और इन्द्र भी डर गए । यहाँ पर भयङ्कर शब्द ही भय का आलम्बन है । धरा का धसकना पर्वतों का विदीर्ण होना आदि दृश्य उसके उद्दीपन हैं । इसी प्रकार भय अन्न इन्द्रादि का सकपकाना, दिग्गजों का काँप उठना आदि अनुभाव और त्रास, दैन्य, शंका आदि संचारी भाव हैं । इन्हीं सब के संयोग से भय पुष्ट

होकर भयानक रस रूप में परिवर्तित होता है । आगे के उदाहरणों में भी इसी प्रकार कल्पना कर लेनी चाहिए ।

नीचे लिखे छुप्य में भी सीता के स्वयंवर-समय धनुष-भंग के कारण उपस्थित भय का वर्णन है—

कहलि पोल अरु कमठ उठत दिग्गज दस दलि मलि ।
 धसकि धसकि महि मसकि जाति सह सप्रफणि फणि दलि ॥
 उथल पुथल जल थल ससक लंका दल गल बल ।
 नभ मण्डल हल हलत चलत भ्रुव अतल वितल तल ।
 टंकोर घोर घन प्रलय धुनि सुनि सुमेरु गिरि गिरि गयो ।
 रघुवस वीर जब तमकि पग धमकि-धमकि धरि धनु लयो ॥

रघुवीर रामचन्द्र के धनुष हाथ में लेते ही, संसार में प्रलय का सा दुर्दृश्य उपस्थित होगया । पृथिवी धसकने लगी और जल थल में उथल-पुथल मच गई, सर्वत्र भय और त्रास का आतंक स्थापित होगया ।

कविवर तुलसीदास ने धनुष-भंग का वर्णन इस प्रकार किया है—

भरि भुवन घोर कठोर रव रवि-वाजि तजि मारग चले ।
 चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले ।
 सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं ।
 को दण्ड खण्डेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥

धनुष-भंग की टंकार सुनते ही दिग्गज दहल गये और चिंघाड़ मारकर बुरी तरह काँपने लगे । सुर-असुरों ने कानों में उँगलियों दे लीं, उन्हें वह शब्द ऐसा भयङ्कर प्रतीत हुआ, कि उनके होश-हवास उड़ गए ।

पद्माकर जी का नीचे लिखा कवित्त भी भयानक रस का बड़ा अञ्छा उदाहरण है—

भलकत आवै भुण्ड भिलम भलान भक्यौ,
 तमकत आवै तेगवाही औ सिला ही हैं ।
 कहे 'पद्माकर' त्यों दुन्दुभी धुकार सुनि,
 अक बक बोले यों गनीम औ गुनाही हैं ॥
 माधव को लाल कालहूते विकराल दल—
 साजि धायो ए दई दई धों कहा चाही है ।

कौन को कलेऊ घों करैया भयो काल अरु,

कापै यों परैया भयो गजब इलाही है ॥

माधव के लाल का विकराल दल देख कर और उसके घोंसों की घम्म-
घम्म सुन कर अपराधी शत्रु भौचकके से रह गए और दैव को याद कर अपनी
कुशल मनाने लगे ।

महाकवि भूषण के नीचे लिखे पद्य में भी भयानक रस का सुन्दर
वर्णन है—

चक्रित चकस्ता चौक चौक उठै बार बार,

दिल्ली दहसत चितै चाह करषति है ।

बिलखि बदन बिलखात बिजैपूर पति

फिरत फिरंगिन की नारी फरकति ह ॥

थर थर कांपत कुतुबसाह गोलकुण्डा,

हहरि हवस भूप भीर भरकति है ।

राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि,

केते पाद साहन की छाती दरकति है ॥

शेर शिवराज के नगाड़ों की धाक सुन, कुतुबशाह थर-थर कांपने लगे
और शत्रुओं की छाती धड़कने लगी ।

और देखिए, यहाँ वियोगिनी की आह निकल जाने की आशका मात्र से
कितना भय छा गया है—

‘शकर’ नदी नद नदीसन के नीरन की,

भाप बन अम्बर ते ऊँची चढ़ जायगी ।

दोनों ध्रुव छोरन लो पल मे पिघलकर,

धूम धूम धरनी धुरी सी बढ़ जायगी ।

भारेंगे अँगारे ये तरनि तारे तारा पति,

जारेंगे खमंडल मे आग मढ जायगी ।

काहूँ विधि विधि की बनावट बचैगी नाहिं

जो पै वा वियोगिनी की आह कढ जायगी ॥

शंकर कविराज ने भय का कैसा अनूठा कारण खोज निकाला है । कहीं
शत्रु की सैन्य देख भय पैदा हुआ है, कहीं धनुष टूटने का भयङ्कर शब्द

सुनकर और कहीं आग लगने आदि के कारण । परन्तु यहाँ वियोगिनी की आह निकलते ही भयङ्कर प्रलय-क्राण्ड उपस्थित होने की आशंका से ही सब भीत हो रहे हैं ।

महाकवि हरिऔध का भी निम्नलिखित पद्य इस प्रसंग में पढ़ने लायक है—

शिव की समाधि भई भंग भीम नाद भयो,
कपे लोक पाल धीर ध्रुव ना धरे रहे ।
सहमे सुरासुर सशंकित दिगन्त भयो,
सारे पारावार न प्रपञ्च से परे रहे ॥
'हरिऔध' प्रलय विभूति कौ विकास देखि,
भुवन सु भूधर भयातुर अरे रहे ।
भीत भए भूत भारी भीरुता घरा में धँसी,
सित भानु डरे भानु भभरे खरे रहे ॥

यहाँ शकर जी की समाधि भग होने पर तीनों लोक में त्रास छा गया है, उसका वर्णन किया गया है ।

रत्नाकर जी के गगावतरण से भयानक रस के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं, देखिए—

उडत फुहारन को तारन प्रभाव पेखि,
जम हिय हारे मनो मारे करकनि के ।
चित्र से चकित चित्र गुप्त चपि चाहि रहे,
वेधे जात मण्डल अखण्ड अरकनि के ॥
गंग छोटि छटकि परै न कहूँ आनि इतै,
दूत इमि तानत बितान तरकनि के ।
भागे जित तित ते अभागे भीति पागे सबै,
लागे दौरि दौरि दैन द्वार नरकनि के ॥

यहाँ पर गगा जी की पतित-पावनी फुहारों का पवित्र प्रभाव देख कर यमदूत और चित्रगुप्त आदि भय के मारे ऋकों के फाटक बन्द कर रहे हैं ।

और देखिए—

बोधि बुधि विधि के कमण्डल उठावत ही,
धाक सुरधुनि की धसी यों घट घट में ।
कहे 'रतनाकर' सुरासुर ससक सवै,
विवस विलोकत लिखे से चित्रपट में ॥
लोक पाल दौरन दमो दिसि हहरि लागे,
हरि लागे हेरन सुपात वर वट में ।
खसन गिरीस लागे त्रमन नदीस लागे,
ईस लागे कसन फनीस कटि तट में ॥

अभी गंगा जी सुरधाम से नीचे आई भी नहीं हैं, केवल उन्हें मर्त्य लोक में उतारने को ब्रह्मा जी ने अपना कमण्डल ही उठाया है कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। उक्त पद्य में रतनाकर जी ने भयानक रस का कैसा सुन्दर चित्र अंकित किया है।

लंका में हनुमान जी द्वारा आग लगाए जाने पर वहाँ के निवासियों में कैसा त्रास छा गया है। नीचे लिखे पद्यों में उस अग्नि काण्ड का वर्णन पढ़िए—

जहाँ तहाँ बुबकी बिलोकी बुबकारी देत,
जरत निकेत धावो धावो लागी आगि रे ।
कहाँ तात मात भ्रात भगिनी भामिनी भाभी,
ढोटा छोटे छोहरा अभागो भागि-भागि रे ॥
हाथी छोरो घोरा छोरो महिष वृषभ छोरो,
छेरी छोरो सोवै सो जगाबो जागि जागि रे ।
'तुलसी' भिलोकी अकुलानी यातुधानी कहैं.
बार बार कह्यौ पिय कपि सों न लागि रे ॥

अरे भागो, सब छोड़कर भाग चलो। प्राण बच जायँ, वही क्या थोड़े हैं, सब सामान को आग लग जनि दो। हमने तो पहले ही कहा था कि इस बन्दर को मत छोड़ो।

और देखिए —

लागि लागि आगि भागि भागि चले जहाँ तहाँ,
धीय कों न माय बाप पूत न सम्हारहीं ।
छूटे बार बसन उधारे धूम धुन्ध अन्ध,
कहैं बारे बूढ़े बारि बारि बार बार हीं ॥
इय द्विहिनात भागे जात घहरात गज
भारी भीर ठेल पेल रौदि खोदि डारहीं ।
नाम लै चिल्लात बिललात अकुलात अति,
तात तात तौसियत भौंसियत भारहीं ॥

तुलसीदास जी कहते हैं—आग के लगते ही सब घर-बार छोड़ भाग चले । यहाँ तक बाल-बच्चों की भी सुध न रही । लोग जलते-भुलसते, रोते-चिल्लाते अन्धा धुन्ध भागे चले जा रहे हैं ।

भगवन्त कवि ने भी लंका-दहन का वर्णन बड़े भयानक शब्दों में किया है, देखिए—

पौन पूत आगि को लगाय 'भगवन्त' कवि,
लगत न घाव काहू तुपक न तीर को ।
रातो भयो असमान तातो भयो भासमान,
कारो पीरो नीर भयो नीरधि के तीर को ॥
लंका लागी जरन बरन रनवास लाग्यो,
व्याकुल है असुर धरै न रन धीर को ।
सुरन को जाप है कै सीता को सराप है कै,
रावन को पाप कै प्रताप रघुवीर को ॥

अरे यह आग नहीं है, बल्कि देवताओं का अभिशाप, सीता की बददुआ, रावण का पाप और रामचन्द्र जी का प्रताप, सब एक साथ इकट्ठे होकर राज्यों का संहार करने आ गए हैं ।

नीचे लिखे छुप्य में श्मशान का कैसा भयंकर चित्र खींचा गया है—

रुआ चहुँ दिसि ररत डरत सुनि कै नर नारी ।
फट फटाय दोज पंख उलूकहु रटत पुकारी ।

अघकार बस गिरत काक अरु चील करत रव ।
गिद्ध गरुड़ हड़गिल्ल भजत लखि निकट भयद रव ।
रोवत सियार गरजत नदी स्वान भौकि डरपावई ।
संग दादुर भींगुर रुदन धुनि मिलि स्वर तुमुल मचावहीं ॥

वर्षा ऋतु की भयावनी रात में नदी-तट वर्ती श्मशान का बड़ा भयंकर
दृश्य होता है, उसी का वर्णन ऊपर किया गया है ।

अब महाकवि रत्नाकर के श्मशान का वर्णन पढ लीजिए—

हर हरात इक दिमि पीपर को पेड़ पुरातन,
लटकत जामें घट घने माटी के बासन ।
वर्षा ऋतु के काज और हू लगत भयानक,
सरिता बहति सवेग करारे गिरत अचानक ।
ररत कहुँ मण्डक कहुँ भिल्ली भनकारे,
काक मण्डली कहुँ अमंगल मन्त्र उचारैं ।
भई आनि तब सौंभ घटा आई घिरि कारी,
सनै-सनै सब ओर लगी बाढन अधियारी ।
भए इकट्टे आनि तहाँ डाकिनि पिसाचगन,
कूदत करत कलोल किलकि दौरत तोरत तन ।
आकृति अति बिकराल घरे कुइला से कारे,
वक्र बदन लघु लाल नयन जुत जीभ निकारे ।

कैसा स्वाभाविक वर्णन है । पढ़ते समय आँखों के आगे भयानकता का
चित्र सा खिच जाता है ।

भुवन घुंघ रित धूलि धूलि घुघरित सु धूमहु,
'पद्माकर' परतच्छ, स्वच्छ लखि परति न भूमहु ।
भग्गत अरि परि पग्ग लगत अंग अंगन,
तहँ प्रताप पृथिपाल ख्याल खेलत खुलि खगन ।

तहँ तबहिं तोप तुगणि तड़पि तड़तड़ात तेगनि तडकि ।

धुपि घड़-घड़-घड़-घड़ घड़ा घड़-घड़-घड़ात् तद्धा घड़कि ॥

पद्माकर जी ने युद्ध क्षेत्र का कैसा स्वाभाविक वर्णन किया है । पद्य को
पढ़ते समय ऐसा जान पड़ता है, मानो हमारे सामने ही तोपें गरज रही हैं ।

पद्माकर जी का नीचे लिखा दोहा भी देखने लायक है—

एक ओर अजगरहिं लिखि एक ओर मृगराय ।

विकल बटोही बीच ही पर्यौ मूर्च्छा खाय ॥

वेचारा बटोही अजगर और सिंह के बीच में पड़ जाने से मूर्च्छित होकर गिर पड़ा ।

और देखिए—

लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानि महि दिग्गज डोले ।

सकल लोक सब भूप डराने, सिय हिय हरष जनक सकुचाने ।

यहाँ लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन सुनकर ही संसार भयभीत हो गया है ।

हरिऔध जी ने भयानक रस का बड़ा सजीव चित्र खींचा है, देखिए, यह कविता उक्त रस का कैसा अच्छा उदाहरण है—

धँस के धरातल में धँसि जै है नाना जीव,

ज्वाल माल जगे गेह धू धू धू धू जरिहैं ।

परि परि पावक में विपुल पहार पंक्ति,

प्रलय पटाका है प्रचण्ड रव करि हैं ॥

‘हरिऔध’ बार बार मू पै बज्रपात है है,

काल पेट दहत भुवन भूरि भरि हैं ।

काँचे घट तुल्य सारे लोक फूटि-फूटि जैहैं,

टकराए कोटि-कोटि तारे टूटि परि हैं ॥

अगर यह सब कुछ होगया तो प्रलय में शेष ही क्या रह जायगा । फिर तो पहाड़ों की पंक्तियों तक प्रचण्ड पावक में पड़कर प्रलय-पटाखों की तरह चटाक-चटाक छूटने लगेगी, बज्रपातों का तो ठिकाना ही न रहेगा । नक्षत्र भी आपस में टकराने लगेगे ।

वीभत्स रस

वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या ग्लानि है । जिन वस्तुओं, प्रसंगों स्थानों, कार्यों और दृश्यों से घृणा के भाव पैदा होते हैं, वे ही वीभत्स रस

के उत्पादक हैं। मरघट में चिताओं की चड़चड़ाहट, मांस-मेद की दुर्गन्धि, श्वान आदि का मांस-भक्षण, गिद्ध, कौओं द्वारा अंतड़ियाँ निकाला जाना, इत्यादि कार्य वीभत्स रस के द्योतक हैं। मल, मूत्र आदि देखकर तो सबको ही घृणा होती है। कुछ लोग तो इतने गन्दे रहते हैं, कि उनके फूहड़पन के कारण हृदय ग्लानि से भर जाता है। किसी को तो श्रश्लील और धिनौने शब्द निकालने की आदत-सी पड़ जाती है, इन सबसे ही ग्लानि या जुगुप्सा के भाव जाग्रत होने लगते हैं। कभी-कभी स्त्री, पुरुषों से ऐसे पाप-पूर्ण गन्दे काम बन जाते हैं, जिनके कारण उससे घोर घृणा होती है, और फिर उनसे मिलने को चित्त नहीं चाहता। ऐसा व्यापार भी वीभत्स रस का द्योतक होता है। आप किसी के घर जाइये, यदि वहाँ चीजें अस्त व्यस्त दशा में पड़ी हैं, खाट-खटोले ऊट-पटांग तरह से रक्खे हैं, चौके में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, दाल में मिट्टी पड़ रही है, शाक उधरा रखा है, पानी के घड़ों पर कौए चोचे मार रहे हैं, आटे को बिल्ली नोचे लिये जाती हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ कभी इस चीज पर फुदककर बैठती हैं, तो कभी उस पर, उनके गंदे पजों से सारे पदार्थ अपवित्र हो रहे हैं इत्यादि, इस प्रकार की अवस्था को भी वीभत्स की संज्ञा दी जाती है। उस समय यह खयाल नहीं किया जाता कि भोजन सामग्री को वीभत्स रस में क्यों सम्मिलित किया जाय। जैसा कि ऊपर कहा गया, जहाँ जहाँ ग्लानि और घृणा है, वहाँ वहाँ ही वीभत्स रस है।

अभिप्राय यह कि मांस, मेद, रुधिर, मज्जा, अस्थि अथवा ऐसी ही अन्य धिनौनी वस्तुओं का वर्णन ही वीभत्स नहीं है, प्रत्युत जिन कर्मों, दृश्यों, वर्णनों, प्रथाओं से घृणा होती है वे सब ही वीभत्स रस में गिने जाने योग्य हैं। जहाँ मलिन मनोवृत्ति, क्रूरता आदि हों वहाँ भी वीभत्स रस होता है।

वीभत्स दृश्य स्वास्थ्य विधातक माने गए हैं, उनके कारण कभी कभी कर्ण्डा की उत्पत्ति तथा सुकर्मों की शीघ्र प्रवृत्ति होती है। वीभत्स रस विषय विरक्ति में सहायता देता है और इसके कारण युद्ध की भयंकरता भी पुष्ट होती है।

कुछ लोग पूछ सकते हैं, भला धिनौनी बातों का वर्णन भी 'रस' हो सकता है। इसका उत्तर यही है कि अवश्य हो सकता है। जुगुप्सा पूर्ण बातों

काव्यमय वर्णन में पाठकों को खूब रुचि होती है। मान लीजिए, किसी कवि को किसी युद्ध का वर्णन करना है, उस युद्ध में शत्रु दल की हार पर हार हो रही है। सैनिकों के रुधिर से नदियाँ बह रही हैं, लाश पर लाश पड़ी है, गिद्धों और कौओं का व्यापार जारी है। ऐसी अवस्था में यदि कवि इन सब बातों का शब्द-चित्र नहीं खींचता तो वह अपने कर्तव्य-पालन में कमी करता है, इस वर्णन से पाठकों को शत्रु की दुर्दशा, तुच्छता और पराजय का भले प्रकार परिचय मिलता है और उसकी करारी हार तथा सैनिकों की इस प्रकार दुर्गति देखकर एक प्रकार की आनन्दमयी ग्लानि होती है, जो वीभत्स रस को सिद्ध करती है।

किसी फूहड़ स्त्री, गन्दे महल्लू, या घर का काव्यमय वर्णन पाठक के लिए आनन्द का ही कारण बनता है, देखिये नीचे लिखे छन्द में एक फूहड़ का कैसा विचित्र वर्णन किया गया है।

माता ही को मास तोहि लागतु है मीठी मुख
 पियत पिता को लोहू नेक न अघाति है।
 भैयन के कठन को काटत न कसकति,
 तेरो हियो कैसो है जु कहत सिहाति है।
 जब जब होति भेंट मेरी भद्र तब तब,
 ऐसी सौहें दिन उठि खाति न अघाति है।
 प्रेतनी पिशाचिनी निशाचरी की जाई है तू,
 कैसोराय की सौं कहु तेरी कौन जाति है।

इसके पढ़ने से जहाँ उस मैली-कुचैली गन्दी स्त्री के प्रति घोर घृणा होती है, वहाँ उसकी दशा का हूबहू काव्यमय शब्द-चित्र अंकित हुआ, देखकर पाठक को आनन्द भी प्राप्त होता है। यही वीभत्स रस की उपयोगिता है।

जहाँ ग्लानि और घृणा की परिपुष्टि होती है, उसे वीभत्स रस कहते हैं।

वीभत्स रस का स्थायीभाव ग्लानि वा घृणा, देवता महाकाल और वर्ण नील है।

सड़ी-गली और दुर्गन्धित वस्तुएँ, मास, रुधिर, पीव, चर्बी, विष्टा, मूत्रादि वीभत्स रस के आलम्बन हैं।

सड़े-गले और कीड़े पड़े हुए पदार्थों पर मक्खियों भिनभिनाते देखना, धिनौनी वस्तुओं की चर्चा सुनना, या कहना आदि इसके उद्दीपन विभाव हैं।

थूकना, मुँह फेर लेना, नाक सिकोड़ना या बन्द करना, आँख मूँदना, कम्प, रोमाञ्च आदि वीभत्स रस के अनुभाव हैं।

अपस्मार, मोह, आवेग, व्याधि, मरण आदि इस रस के संचारी भाव हैं। शंकर कविराज ने नीचे लिखे पद्य में फूहड़ का कैसा वीभत्सता पूर्ण वर्णन किया है—

भौड़े मुख लार बहे आँखिन में ढीड़ राधि—

कान में सिनक रेट भीतिन पै डार देति ।

खर-खर खुरचि खुजावै मटुका सो पेट,

टूड़ी लौ लटकते कुचन कौ उधार देति ॥

लौटि-लौटि चीन घोंघरे की बार-बार फिरि,

बीनि-बीनि डींगर नखन धरि मार देति ।

लूंगरा गघात चढ़ी चीकट सी गात मुख—

धौवे ना अन्हात प्यारी फूहड़ बहार देति ॥

वाह ! फूहड़ क्या बहार दे रही है !! उपर्युक्त पद्य में, भौड़े मुख से लार का बहना, आँखों से ढीड़ और कान से राध का चुचाना आदि घृणा के आलम्बन हैं। रेट सिनक कर भीतों पर डालना, 'डींगर' बीन-बीन कर मारना आदि उसके उद्दीपन। उक्त धिनौनी बातों को देख नाक सिकोड़ना, थूकना आदि स्वाभाविक हैं, वे ही घृणा के अनुभाव हुए। इन सबके मिलने से ही यहाँ वीभत्स रस उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जानना चाहिए।

कविवर रत्नाकर के निम्नलिखित श्मशान वर्णन में कैसी वीभत्सता भरी हुई है—

कहुँ लागति कोउ चिता कहुँ कोऊ जाति बुझाई ।

एक लगाई जाति एक की राख बहाई ।

विविध रंग की उठति ज्वाल दुरगंधनि महकति ।

कहुँ चरबी सों चट चटाति कहुँ दह दह दहकति ।

कहुँ फूकन हित धरथौ मृतक दुरतहि तहँ आयो ।
 पर्यौ अंग अष जर्यौ कहुँ कोऊ कर खायो ।
 कहुँ श्वान इक अस्थि खंड लै चाटि चिचोरत ।
 कहुँ कारो महि काक ठोर सों ठोकि टटोरत ।
 कहुँ शृगाल कोउ मृतक अंग पर ताक लगावत ।
 कहुँ कोउ शव पर बैठि गिद्ध चट चोंच चलावत ।
 जहँ तहँ मज्जा मास रुधिर लखि परत बगारे ।
 जित तित छिटके हाड़ स्वेत कहुँ कहुँ रतनारे ।
 भए इकट्ठा आनि तहाँ डाकिनि पिशाचगन ।
 कूदत करत कलोलु किलकि दौरत तोरत तन ।
 आकृति अति विकराल धरे क्वैला से कारे ।
 वक्र बदन लघुलाल नयन जुत जीभ निकारे ।
 कोउ कड़ाकड़ हाड़ चावि नाचत दै ताली ।
 कोऊ पीवत रुधिर खोपरी की करि प्याली ।
 कोउ अँतड़ी की पहिरि माल इतराय दिखावत ।
 कोउ चरबी लै चोप सहित निज अंगनि लावत ।
 कोउ मुडनि लै मान मोद कंदुक लौ डारत ।
 कोउ रंडनि पै बैठि करेजौ फारि निकारत ।

और भी देखिए—

कोटि कुंड सुंडनि के रंड में लगाय तुंड,
 भुंड भुंड पान कै कै लोहू भूत चेटी है ।
 घोड़न चबाय चरबीन सों अघाय लेटी,
 भूख सब मरे मुरदान मे समेटी है ॥
 लाल अंग कीन्हे सीस हाथन मे लीन्हें,
 अस्थि भूषन नगीने आँत जिन पै लपेटी है ।
 हरष बढाय अँगुरिन को नचाय पियें
 सोनित पियासी सी पिसाचिनि की बेटी है ॥

ऊपर के पद्य में हाथियों का लहू पीना, घोड़ों को चबाना, अँतड़ी लपेटी हथियाँ हाथों में धारणा करना आदि कार्य घृणा के उत्पादक हैं ।

महाकवि भूपण ने वीभत्स रस में तलवार का वर्णन कितनी सुन्दरता से किया है—

रहत अलक पै मिटै न धक पीवन की,
निपट जो नाँगी डर काहू के डरै नहीं ।
भोजन बनावै नित चोखे खान खानन के,
सोनित पचावै तऊ उदर भरै नहीं ॥
उगिलत आसौ तऊ सुकल समर बीच,
राजै राव बुद्ध-कर विमुख परै नही ।
तेग या तिहारी मतवारी है अलक तौलौ,
जौ लौं गजराजन की गजक करै नहीं ॥

तलवार का नगी रह कर रुधिर पीना, चोखे 'खान खानाओं' को खाना, और गजराजों की गजक बनाना आदि सभी कार्य धृणा व्यञ्जक होने से वीभत्स रस के उत्पादक हैं ।

और देखिए नीचे लिखे छप्पय से कैसा वीभत्स रस प्रवाहित हो रहा है—

सिर पै बैठो काग आँखि दोउ खात निकारत ।
खेचत जीवहि स्यार अतिहि आनँद उर धारत ।
गिद्ध जौँष कहँ खोदि खोदि कै माँस उपारत ।
श्वान आँगुरिन काटि-काटि कै खान विचारत ।

बहु चील नोचि लै जात तुच मोद मढ्यौ सब कौ हियो ॥

मनु ब्रह्म भोज जिजमान कोउ आजु भिखारिन कहँ दियो ॥

आज किसी यजमान ने भुम्बड़ों को कैसा अच्छा भोज दिया है ।

कविवर रामचरित उपाध्याय ने भी नीचे लिखी पक्तियों में वीभत्स रस का कितना उत्कृष्ट वर्णन किया है—

अतिथि हैं श्वान गीदड़ गिद्ध तेरे ।
सदा सब हैं मनोरथ सिद्ध तेरे ।
× × ×
कहीं जल में बहे शव जा रहे हैं ।
उन्हीं पर काक कड़खे गा रहे हैं ।

कहीं शव सड़ रहे हैं पास तेरे ।
लगे पर क्यों हृदय में त्रास तेरे ।
कहीं पर हो रहा है घोर हा-हा ।
कहीं पर गूँजता है शान्त स्वाहा ।

शवों पर बैठकर काक काँव-काँव के कड़खे गाते हैं । इधर-उधर पड़े शव सड़ रहे हैं जिन पर मक्खियाँ भिनक रही हैं । उक्त सभी सामग्री वीभत्स रस की उत्पादक है । •

अब कविवर मैथिलीशरण जी का वीभत्स-वर्णन भी पढ़ लीजिए—

इस ओर देखो रक्त की यह क्रीच कौसी मच रही,
है पट रही खंडित हुए बहु रुड मुंडों से मही ।
कर पद असंख्य कटे पड़े शस्त्रास्त्र फैले हैं तथा,
रग स्थली ही मृत्यु की एकत्र प्रकटी हो यथा ।
भुक्तते किसी को ये न जो नृप मुकट रत्नों से-जड़े,
वे अब शृगालों के पदों की ठोकरें खाते पड़े ।
पेशी समझ माणिक्य को वह बिहग देखो ले चला,
पढ़ भोग की ही भ्रान्ति में संसार जाता है छला ।

युद्ध भूमि का कैसा घिनोना चित्र ऊपर की पंक्तियों में अंकित किया गया है ।

शंकर जी के नीचे लिखे दोहे भी वीभत्स के अच्छे उदाहरण हैं—

रहि धूँधट की ओट मे कबहुँ न त्यागी लाज ।
सो द्वै नैना काटि कै कागनु खाये आज ॥

× × ×

अगणित जन जिनके चरण चूमते हे शिर नाय ।

तिनकी सूखी खोपड़ी खड़के ठोकर खाय ॥

उक्त दोहों को पढ़कर मनुष्य के हृदय में इस असार संसार के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न होकर वीभत्स रस का संचार होने लगता है ।

कविवर सनेही जी की आगे लिखी पंक्तियोंमें भी वीभत्स का बड़ा अच्छा वर्णन है—

कहीं धक-धक चिताएँ जल रही थीं ।
धुआँ मुँह से उगल बेकल रही थीं ।
कहीं शव अघ जला कोई पड़ा था ।
निटुरता काल की दिखला रहा था ।

× × ×

नीचे लिखे सबैया में क्रोध की मूर्ति नायिका का कैसा चित्र खींचा गया है—

होत ही प्रात जो घात करै नित पार परौसिन सों कल गाढ़ी ।
हाथ नचावति मुँह खुजावति, पौरि खड़ी रिस कोटिक बाढी ।
ऐसी बनी नखते सिखलौ 'ब्रजचद' ज्यों क्रोध समुद्र ते काढी ।
ईंट लिए बतराति भतार सों भामिनि भौन में भूत सी ठाढी ।

उक्त पद्य में वर्णित 'भूत सी भामिन' के क्रिया-कलाप से घृणा होती है, अतः यहाँ वीभत्स रस हुआ । और देखिए—

सासु के विलोके सिंहनी सी जमुहाई लेति,
ससुर के देखे बाघिनी सी मुँह बावती ।
ननद के देखे नागिनी सी फुफकारै बैठी,
देवर के देखे डाकिनी सी डरपावती ॥
भनत 'प्रधान' मौल्ये जारती परौसिन की,
खसम के देखे खाँव खोंव करि धावती ।
कर्कसा कसाइनि कुलच्छिनी कुबुद्धिनी ये,
करम के फूटे घर ऐसी नारि आवती ॥

प्रधान कवि के उक्त कवित्त में भी किसी कर्कशा का वर्णन घृणा व्यञ्जक होने से वीभत्स का उत्पादक है ।

वीभत्स के उदाहरण में नीचे लिखी पंक्तियाँ भी पढ़ने लायक हैं—

कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर साचहीं ।
वैताल वीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नाच हीं ।
अन्त्रावली गहि उड़त गीघ पिशाच कर गहि धावहीं ।
संग्राम पुर बासिन र्मनहु बहु बाल गुड्डि उड़ावहीं ॥

+

+

+

कादर-भयंकर रुधिर-सरिता चली परम अपावनी ।
दोड कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त वहति भयावनी ।
जल जन्तु गज पदचरतुरग रथ विविध बाहन को गनै ।
शर शक्ति तोमर परशु चाप तरग चर्म कमठ घनै ॥

यहाँ युद्ध भूमि में होने वाले भूतप्रेतादि तथा काक, गीध, श्वान, शृगाल आदि के क्रिया-कलाप घृणा उत्पन्न करते हैं, अतः यह वीभत्स रस हुआ ।

नीचे लिखे पद्य में कविवर हरिश्चन्द्र ने बालिकाओं और विधवाओं पर अत्याचार करने वाले नर-पिशाचों का कैसा घृणोत्पादक चित्र खींचा है—

साँप ते डरावने भयावने हैं भूतन ते,
काक जैसे कुटिल अपार अरुचिर हैं ।
अपजस-भाजन कलक के निकेतन हैं,
कामुकता-मन्दिर के निन्दित अजिर हैं ॥
'हरिश्चन्द्र' मानव सरूप माँहि दानव हैं,
आँखि-कान अछुत ते आँधर बधिर हैं ।
हाड़ जे चिचेरत विचारी विधवान के हैं,
भोरी बालिकान के जे चूसत रुधिर हैं ॥

वस्तुतः ऐसे लोग मानव के रूप में दानव ही हैं ।

रामचरित मानस में भी वीभत्स रस का अच्छा वर्णन किया गया है, नीचे उसी में से कुछ चौपाइयों उद्धृत की जाती हैं ।

मज्जहि भूत पिशाच बिताला, प्रथम महा भ्रोटिंग कराला ।
खींचहि गीध आत तट भए, जनु बसी खेलहि चित दए ।
काक कंक लै भुजा उड़ाहीं, इकते छीनि एकलै खाहीं ।
बहु भट बहे चढे खग जाहीं, जनु नावरि खेलहि सरि माहीं ।
स्रवहि शैल जनु निर्भर वारी, शोणित सर कादर भयकारी ।
उक्त चौपाइयों में युद्ध क्षेत्र की वीभत्सता का वर्णन किया गया है ।
अब भूषण जी का वीभत्स वर्णन भी सुन लीजिए—

भूप शिवराज कोप करि रन मण्डल में,
खग गहि कूदयौ चकता के दरबारे में ।

काटे भट विकट रु गजन के सुड काटे,
पाटे उर भूमि काटे दुवन सितारे मे ॥
'भूषण' भनत चैन उपजै सिवा के चित्त,
चौसठ नचाई सत्रै रेवा के किनारे में ।
आतन की ताँत बाजी खाल की मृदंग बाजी,
खोपरी की ताल पसुपाल के अखारे मे ।

उपर्युक्त पद्य में नाचना, गाना, बजाना आदि का वर्णन भी वीभत्स के साथ हुआ है ।

सत्यनारायण जी के नीचे लिखे पद्य में भूत-पिशाच कैसा पर्व मना रहे हैं । देखिए—

अति ताप ते अस्थि पसीजन सों कहै मेद की बूँदन जो टपकावे ।
तिन धूम धुमारिन लोथिन कों ये पिशाच चितान सों खेचि के खावें ।
दिलियाय खस्यौ कच मांस सत्रै जिहि सोंजुग सन्धि हू भिन्न लखावें ।
अस जंघ नली गत मज्जा मिली सद पी चरबी परबी-सी बनावे ॥

पिशाच गण चिता में से अध जली लाशों को खींचकर खाकर और जाँघ की हड्डी में से पिगलकर बहती हुई चरबी को पीकर अति प्रसन्न होते हैं ।

और देखिए, राम-रावण के युद्ध में रुधिर से स्नान करके भूत पति कैसे नाच रहे हैं—

इतहि प्रचंड रघुनन्दन उदंड भुज,
उतै दशकठ बढि आयौ डर डारि कै ।
'सोमनाथ' कहै रन मड्यौ फर मंडल मे,
नाच्यौ रुद्र सोनित सौं अंगनि पखारि कै ।
मेद गूद चरबी की कीच मची मेदिनी में,
बीच-बीच डोले भूत भैरौं मद धारि कै ।
चायनि सों चडिका चबाति चंड मुंडनि कों,
दतनि सों अतनि निचौरै किलकारि कै ॥

सोमनाथजी के उपर्युक्त पद्य में पृथिवी पर मज्जा-मेद के बिखरने से कीच हो जाने और चडिका के मुंड चबाने का वर्णन वीभत्स रसोत्पादक हैं ।

इस प्रसंग में कवि लल्लिराम का निम्नलिखित कवित्त भी पढ़ने योग्य है ।

समर समीप रामचन्द्र और रावण के,
 बानन की बरसा घटा-सी धिरि जाति हैं ।
 कोटिन सुभट परैं परिहरि प्राण भूमि,
 तिन्हैं हेरि गीघन की सेना मँडराति हैं ॥
 कवि 'लल्लिराम' कालिका की किलकारें सुनि,
 जंग जोरि जोगिनी-जमाति हरषाति हैं ।
 खोपरी के प्यालन में करति रुधिर पान,
 आतन की माला गर चरबी चवाति हैं ॥

राम रावण के युद्ध में प्राण त्यागकर पड़े हुए करोड़ों योद्धाओं के शवों पर गिद्धों की सेना मँडरा रही है । जोगिनियों की जमात प्रसन्न होती हुई खोपड़ियों के प्यालों में भर-भर कर रुधिर पान कर रही है । पिशाचों की मडली आँतों की माला गले में डाले चरबी चाटती हुई घूम रही है । वीभत्स रस का कितना उत्कृष्ट वर्णन है ।

अद्भुत रस

अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है । अलौकिक घटना या वस्तु के देखने, सुनने, अथवा उसका अनुमान आदि करने से इस रस का बोध होता है । जिस विचित्र और लोकोत्तर दृश्य को देखकर मनुष्य की बुद्धि चकराती और उसका कारण जानने में अक्षम-सी हो जाती है, वही अद्भुत रस है । घटना की लोकोत्तरता या विचित्रता से एक प्रकार का अद्भुत आनन्द प्राप्त होता है । मनुष्य का मस्तिष्क उस विचित्रता का कारण जानने के लिए आतुर होता है, और यदि यह कारण भी विचित्र हुआ तब तो आश्चर्य और भी बढ़ जाता है । परमात्मा को सृष्टि विचित्रताओं और आश्चर्यों से पूर्ण है । जिधर आँख उठा कर देखिये उधर ही उस जगन्नियन्ता की विस्मय-कारिणी कारीगरी दिखायी देती है । बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सिर पटकने पर भी उस महामहिम का गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आया । भौतिक विकास की विभूतियाँ भी आश्चर्यजनक हैं, परन्तु वे वैज्ञानिक आधार पर आविष्कृत होने के कारण, उतनी आश्चर्यमयी नहीं, जितनी सृष्टि की स्वाभाविक

विचित्रताएँ । हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, टेलिग्राफ आदि सर्व साधारण के लिए भले ही आश्चर्यजनक हों परन्तु उनका कारण समझने वालों के लिए वह वैसी नहीं रहती । आश्चर्य तो वहाँ है, जहाँ कारण और कार्य दोनों लोकोत्तर हो—दोनों का अनुमान करके बुद्धि चक्र में पड़ जाती हो । अद्भुत रस में हास्य रस की अपेक्षा अधिक विपरीतता होती है । जिसमें हास्य की मात्रा नहीं होती उसे अद्भुत रस अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता । अद्भुत रस का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य पर यह पड़ता है, कि उसे संसार की विस्मयकारिणी विचित्रताओं को देखकर, उनके कारणों के जानने की इच्छा होती है । अन्वेषण शक्ति बढ़ती और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने की जिज्ञासा जगती है । विचित्रता पूर्ण विश्व को देखकर परमात्मा की सत्ता महत्ता में अटल विश्वास ही जाना तो स्वाभाविक है ।

विस्मय की परिपुष्टि को अद्भुत रस कहते हैं ।

अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय अथवा आश्चर्य, देवता ब्रह्मा या गन्धर्व और वरुण पीत है ।

विचित्र वस्तु, अलौकिक चरित्र, व्यापार, वार्ता तथा दृश्य इसके आलम्बन विभाव हैं ।

आश्चर्य में डाल देने वाले कार्यों या वस्तुओं का देखना, अलौकिक गुणों या बातों का सुनना, इच्छित वस्तु की अचानक प्राप्ति, अत्यन्त प्रतिष्ठा पाना, माया, इन्द्रजाल आदि अद्भुत रस के उर्दीपक हैं ।

नेत्र विकास, एक टुक देखते रहना, रोमाञ्च, अश्रु, स्वेद, स्तम्भ, गद्गद् स्वर, सम्भ्रम आदि इसके अनुभाव हैं ।

वितर्क, आवेग, भ्रान्ति हर्ष, कम्पन, उत्सुकता, चञ्चलता, प्रलाप, स्तम्भ, अश्रु, स्वेद गद्गद् कण्ठ, रोमाञ्च आदि अद्भुत रस के सञ्चारी भाव हैं ।

देखिए शङ्कर जी ने अपने नीचे लिखे कवित्त में कामदेव द्वारा समस्त संसार को जीत लेने का वर्णन कैसे अद्भुत ढंग से किया है—

ऐसो सूरमान को शिरीमणि प्रतापी पुत्र,
पायो मन चञ्चल नर्पुंसक कहाये ने ।

सेवा करे रस राज श्रुतुराज साथी सदा,
व्याही रति रमणी छुबीली छुबि छाये ने ।
काम केलि बन्धन मे बाँध नर-नारिन को,
बोरे प्रेम-सिन्धु में मनोज नाम पाये ने ।
'शङ्कर' के कोप ने अनङ्ग करि डारयौ तऊ,
सारो जग जीति लियो हीजड़ा के जाये ने ॥

यहाँ चञ्चल और नपुसक मन के पुत्र होना, आलम्बन विभाव है । उस मनोभव काम के अनङ्ग होने पर भी उसके द्वारा समस्त संसार का जीता जाना उद्दीपन विभाव है । इस प्रकार की आश्चर्यजनक और अनहोनी बातों को सुन या देखकर सम्भ्रम पूर्वक मनुष्य के नेत्रों का विकसित हो जाना अनुभाव और वितर्क उत्सुकता आदि सञ्चारी भाव हैं । अतः यहाँ अद्भुत रस हुआ ।

नीचे के सवैया में कैसे विचित्र ढंग से 'पावक-पुज में पंकज' फुलाया गया है—

भूमति आई नवेली भट्टू जनु जोवन हाथी अनग ने हूल्यौ ।
ठाढी भई मन भावन के दिग 'शङ्कर' नेह उमंग सों ऊल्यौ ।
लाल दुकूल के धूँघट मे धन को मुग्व देखि धनी सुधि भूल्यौ ।
बोरे की भाँति पुकारि उठ्यौ अरे पावक-पुञ्ज में पंकज फूल्यौ ॥

अग्नि में कभी कमल नहीं खिला करता, वह तो जल ही में विकसित होने की चीज़ है, परन्तु कवि ने अपनी नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा द्वारा इस असम्भव को सम्भव-सा कर दिखाया है ।

लाल साड़ी के धूँघट में छिपे हुए नायिका के मुख मण्डल को देखकर नायक की सुधि बुधि बिसर गई और वह बावले की भाँति पुकार उठा—
'अरे ! अग्नि की लपटों में कमल कैसे खिल उठा । यहाँ लाल साड़ी के धूँघट को पावक-पुञ्ज और मुख को पङ्कज से उपमा दी गई है ।

शङ्कर जी का अद्भुत रस सम्बन्धी एक सवैया और भी देख लीजिए—

'शङ्कर' तेल मलै रज को मृग नीर में न्हाइ सुबेस बनावै ।
भूषण धार खपुष्पन के सब ओर दिगम्बर देह दुरावै ॥

नाम असिद्ध असम्भव की धन देख अभौतिक रूप दिखावै ।

पुत्र अभावहि गोद लिए बिन वारन माँग सँवारति आवै ॥

यहाँ असिद्ध नामक असम्भव की 'धन' (पत्नी) का कैसा विचित्र वर्णन किया गया है । मृग-मरीचिका के जल में स्नान कर बालू का तेल लगाना, दिगम्बरो द्वारा शरीर ढक कर आकाश-पुष्पो के भूषण सजाना, अभाव नामक पुत्र को गोद में खिलाना और बिना बालों के माँग सँवारना एक से एक अद्भुत कार्य हैं ।

महाकवि हरिऔध ने अद्भुत रस के उदाहरण में नीचे लिखा पद्य दिया है—

देहिन को सुचित सनेहिन समान करि,

पख अति मंजुल पेवन के हिलत हैं ।

चन्द के मनोरम करनि ते अवनि काज,

चौदनी के सुन्दर बिछावने सिलत हैं ॥

'हरि औध' कौन कहै काके अनुकूल भए,

सीपन मे मोती मन भावने मिलत हैं ।

कीच माँहि अमल कमल बिकसित होत,

धूलि माँहि सुमन सुहावने खिलत हैं ॥

कीचड़ जैसी गन्दी चीज़ में कमल समान सुन्दर वस्तु का उत्पन्न होना, तथा धूल में गुलाब जैसे फूल खिलना कम आश्चर्य की बातें नहीं हैं ।

कविवर पद्माकर के नीचे लिखे पद्य में अद्भुत रस का कैसा सुन्दर चित्र खींचा गया है—

सात दिन सात राति करि उतपात महा,

मारत भुकोरें तरु तोरें दीह दुख में ।

कहै 'पदमाकर' करौ त्यों धूम धारन हूँ,

एते पै न कान्ह काहू आयो रोष रुख में ।

छोर छिगुनी के छत्र ऐसो गिरि छाइ राख्यौ,

ताके तरे गाय गोप-गोपी खरे सुख में ।

देखि-देखि मेघन की सेन अकुलानी रख्यो--

सिन्धु में न पानी अरु पानी इन्द्र मुख में ॥

इन्द्र ने कुपित होकर ब्रज पर प्रलय काल की-सी वर्षा की, अर्धो चलाई, बड़े-बड़े वृक्ष जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए । सात दिन सात रात अनवरत मूसलधार वर्षा होते रहने के कारण सिन्धु का पानी समाप्त होगया, और मेघों को आशा एव प्रोत्साहन देते-देते इन्द्र का मुख सूख गया । इतना सब कुछ करके भी वह ब्रज का कुछ भी न बिगाड सका, क्योंकि वहाँ तो कृष्ण ने गोवर्धन को उठा ब्रज के ऊपर छतरी की भाँति तान रक्खा था । उसके कारण ब्रज पर एक बूँद भी नहीं गिर सकी, कहिए, है न आश्चर्य की बात ।

कवि लछिराम का नीचे लिखा कवित्त अद्भुत रस का सुन्दर उदाहरण है—

लंकनाथ हेरि जाके लरजि रह्यौ है हिय,
मन्दर उठायो जो दिगम्बर सुबेस को ।
राजा राजकुँवर सुभट पुर तीन हू के,
बल करि थाक्यौ जो थकावन सुरेस को ।
कवि 'लछिराम' जोर-सोर अचरज छायौ,
कम्प सरसायौ पल ही में देस-देस को ।
कर मे तिनूका सम करिकै कुमार राम,
मन्द मुसिकाय तोर्यौ धनुष महेस को ॥

जिस रावण ने मन्दराचल को उठा लिया था, वह भी शिव जी के धनुष को न उठा सका । परन्तु रामचन्द्रजी ने उसे पल-भर में तिनके की तरह उठा कर तोड़ डाला । कैसे आश्चर्य की बात है ।

कवि केशव का भी अद्भुत रस सम्बन्धी एक सवैया पठ लीजिए—

आप सितासित रूप चितै चित श्याम शरीर रँगै रँग राते ।
'केशव' कानन हीन सुनै सुकहे रसकी रसना बिन बाते ।
नैन किधौ कोऊ अन्तर्यामी री जानत नाहिं न ब्रूभति ताते ।
दूर लौ दौरत है बिन पायन दूर दुरी दरसै मति जाते ॥

वह बिना कानों के सुनता और बिना वाणी के बोलता है । नेत्र न होते हुए भी घट-घट की बाते देखता और बिना पैरों दूर तक दौड़ लगाता है ।

ये सब बातें आश्चर्य-सागर में डाल देने वाली होने से अद्भुत रस की उत्पादिका हैं ।

और भी देखिए—

गगन बगीचे बीच बेत के चरत फूल,
मृग जल पीके लेत प्यास को बुभाई है ।
कल्पना पुरी को ग्वाल गूँगों और पगु एक,
डोलै संग बोलै बोल करन हटाई है ॥
हवा के षड़ा में दूध दुहि कै अखड जाको,
भित्ति बारे चित्रन को देत सब प्याई है ।
भावी पुर मॉँक देखो प्रात सों लगाय सॉँक,
भाँति-भाँति बछुडे बियाँति बाँक गाई है ॥

राय देवीप्रसाद पूर्ण जी के उपयुक्त कवित्त में गगन के बगीचे में बेत के फूल खाने वाली; मृग तृष्णा का पानी पीने वाली बाँक गाय का व्याना और गूँगे तथा लुंजे ग्वाल का उसके साथ डोलना एवं हवा के षड़े में दूध दुहकर भीत पर बनी तसवीरों को पिलाना आदि सभी असम्भव बातों का वर्णन है, जिन्हें पढ़ सुनकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता ।

उदाहरणार्थ महा कवि केशव जी का एक कवित्त नीचे दिया जाता है—

माखन के चोर मधु चौर दधि दूध चोर,
देखत हों देखत ही हियौ हरि लेत हैं ।
पुरुष पुराण और पूरण पुरण इन्हैं,
पुरुष पुराण सो कहत किहि हेत हैं ॥
'केसोदास' देखि-देखि सुरन की सुन्दरी वै,
करतौ विचार सष सुमति समेत हैं ।
देखि गति गोपिका की भूलि जात निजगति,
अगतिन कैसे धौ परम गति देत हैं ॥

न जाने कृष्ण को वेद-पुराण और ऋषि मुनि पुराण पुरुष क्यों कहते हैं ? अरे ये तो माखन चुराते, दही दूध चुराते, यहाँ तक कि देखते ही देखते हम लोगों के हृदय भी चुरा लेते हैं । जो गोपिकाओं की चाल पर मुग्ध होकर

अपनी मति भूल जाते हैं, वह भला अगतिकों को कैसे परम गति प्रदान करते होंगे । आश्चर्य है !

और भी मुलाहिजा कीजिए—

भरिबो है समुद्र को शम्बुक में क्षिति को खिगुनी पर धारिबो है ।
 बँधिबो है मृणाल सों मत्त करी जुही फूल सों शैल बिदारिबो है ।
 गनिबो है सितारन को कवि 'शङ्कर' रैनु सो तेल निकारिबो है ।
 कविता समुझाइबो मूढन को सविता गहि भूमि पै डारिबो है ॥
 मूर्खों को कविता समझा सकना उतना ही कठिन है, जितना समुद्र को सीपी में भर लेना, पृथिवी को कनिष्ठिका उँगली पर रख लेना, बाळू से तेल निकालना आश्चर्यजनक काम कर सकना । आश्चर्यजनक बातों का वर्णन होने से यहाँ भी अद्भुत रस है ।

नीचे लिखे कवित्त मे कैसी अद्भुत नायका का वर्णन किया गया है—

भै भै करती है भँके भोड़ि मुख भाषण पै,

चाटि-चाटि चौड़े को कलोल करे कूकरी ।

लोमड़ी खिलावे खेल बानरी बिलोकती है,

गावें गुण गीदड़ी सराहती हैं, शूकरी ॥

भूतनी पलोटें पाय, चाकरी चुड़ैल करें,

डामा डोल डोलें डरैं डाहनि डरूकरी ।

'शकर' के सारे गण पूजैँ यौँ पुकारते हैं,

इंश ने हमारी ठकुरानी ठीक तू करी ॥

ऊपर के पद्य में सभी अनहोनी सी बातों का वर्णन होने से यहाँ अद्भुत रस है ।

नीचे लिखा पद्य भी इस प्रसंग में पढ़ने लायक है—

अँखों का बिगाड़ा रोग अन्धा किया चाहता है,

घाटा घुसा जीवन सुधार की कमाई में ।

हाय सुख शङ्कर न पाता एक पल को भी,

भासे दयाभाव न दरद दुख दायी मे ॥

गोलाकार कालिमा को श्वेतिमा दबोच बैठी,

घौरा पन डेले ने धकेला अरुणार्द्र में ।

तुच्छ काले तिल में महातम समाया मानो,
 सोता गज मच्छर के पैर की बिवाई में ॥

छोटे से काले तिल में इतना विस्तृत और व्यापक अन्धकार घुस बैठा है, मानो मच्छर के पैर की बिवाई में हाथी सो रहा हो। आँख के काले तिल में विकार आ जाने पर फिर सर्वत्र अंधकार के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि संसार व्यापी अन्धकार-समूह उस छोटे से तिल में केन्द्रीभूत होगया हो। इसी के लिए कवि ने 'सोता गज मच्छर के पैर की बिवाई में' से उपमा दी है। यहाँ यह असम्भव वर्णन ही अद्भुत रस का व्यञ्जक है।

शङ्कर कविराज का नीचे लिखा कवित्त अद्भुत रस का क्या ही सुन्दर उदाहरण है—

जाके आदि अन्त को न योगी जन जानत हैं,
 नेति नेति वेद ने अनेक वार गाई है ।
 भूमि जल पावक समीर नभ काल दिशा,
 आदि मे अमाई पर पूरी न समाई है ॥

× × ×

ऐसी बड़ी ब्रह्म की बड़ाई गुरु देव जू ने,
 ज्ञान द्वारा 'शङ्कर' के ध्यान में धसाई है ॥

जिसके आदि अन्त को त्रिकालदर्शी योगी लोग भी नहीं जान पाते, जिसकी सत्ता-महत्ता पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा आदि सब में ठसाठस भरी है, परन्तु पूरी इनमें भी नहीं समा सकी। उस ब्रह्म की ऐसी बड़ी बड़ाई को गुरुदेव ने दयाकर के ज्ञान के द्वारा शङ्कर के ध्यान में घुसा दिया कैसी आश्चर्य-जनक बात है !

महाकवि तुलसीदास की विनय पत्रिका से अद्भुत रस का एक पद नीचे उद्धृत किया जाता है।

केशव, कहि न जाय कर्न कहिये ।
 देखत तुव रचना विचित्र अति समुक्ति मनहिमन रहिये ॥

शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहिं तनु विन लिखा चितेरे ।
 घोये मिटै न मरे भीति दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥
 रवि-कर नीर बसै अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं ।
 वदन-हीन सो ब्रसै चराचर पान करन जे जाहीं ॥

यहाँ निराकार भीत पर बिना रंगों के चित्र बनाना, सूर्य की किरणों में जल का होना और उसमें भी भयानक मकर का रहना आदि सभी विस्मयोत्पादक बातें हैं ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी का नीचे लिखा सवैया अद्भुत रस का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

ज्यो इन कोमल गोल कपोलन देखि गुलाब को फूल लजायो ।
 त्यों 'हरिचन्द जू' पंकज कै दल सों सुकुमार सबै अँग भायो ।
 अमृत से युग ओठ लसैं नव पल्लव सो कर क्यों है सुहायो ।
 पाहन सो मन होत सबै अँग कोमल क्यों करतार बनायो ॥

जब नायिका का हृदय पत्थर जैसा कठोर है, तो विधाता ने उसके अन्य अङ्ग गुलाब, कमल या नव पल्लव के समान सुकुमार व्यर्थ ही बनाए हैं ।

नीचे लिखा सवैया भी अद्भुत रस का अद्भुत उदाहरण है—

सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर ध्यावैं ।
 जाहि अनादि अखण्ड अनन्त अछेद अभेद सुवेद बतावैं ।
 नारद से सुक व्यास रटें पचि हारे तऊ पुनि पार न पावैं ।
 ताहि-अहीर की छोहरियाँ छुछिया भरि छाछि पै नाच नचावैं ।

जिस परमब्रह्म को वेदों ने अखण्ड, अनन्त, अछेद्य और अभेद्य बताया है; शेष, गणेश, महेश, दिनेश और सुरेश भी जिसका निरन्तर ध्यान करते हैं, नारदादि ऋषि मुनि तपस्या करते करते थक गए, पर उसका पार न पा सके, उसी को अहीरों की लड़कियाँ जरा सी छाछ के लिए नाच नचाती हैं । खूब !

रसखान जी के नीचे लिखे सवैया में भी अद्भुत रस का बड़ा सुन्दर वर्णन है—

ब्रह्म में देख्यो पुरानन गानन वेद ऋचा सुमि चौगुने चायन ।
 देख्यो सुन्यौ कबहुँ न कि तूँ वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ।

टेरत हेरत हरि पर्यौ 'रसखानि' बतायौ न लोग लुगायन ।

देख्यौ दुर्यौ वह कुञ्ज कुटीर मे वैठ्यौ पलोत्त राधिका पायन ।

जो ब्रह्म, वेद-पुराणों में खोजने पर भी न मिला, जिमे खोजते-खोजते मैं परेशान हो गया, वही आज अचानक मिल गया ! और मिला भी कहाँ ! वन-कुञ्ज मे राधिका जी के पैर पलोटते हुए ।

अब केशव जी का भी अद्भुत रस वरण देखिए—

कर्ण से दुष्ट से पुष्ट हते भट पाप से पुष्ट न शासन टारे ।

सोदर से न दुशासन से सब साथ समर्थ भुजा उस तारे ।

साथी हजारन के बल 'केशव' खेचि थके पट कोऊ न डारे ।

द्रौपदी को दुर्योधन पे तिल अक तऊ उधर्यौ न उधारे ॥

कर्ण जैसे बलवान् जिसके योद्धा, दुष्ट दुःशासन सरीखे जिसके भाई और स्वयं जिसमे हज़ारों हाथियों का बल था, ऐसा दुर्योधन भी द्रौपदी का चीर खींचते-खींचते थक गया, पर उसका तिल भर भी अग नगा न कर सका । है न अचरज की बात !

अद्भुत रस के उदाहरण में मैथिली बाबू का नीचे लिखा छन्द देखिए—

उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस-जिस ने किया ?

मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया ।

जिस भाँति विद्युद्दाम से हाती सुशोभित घन घटा ।

सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर मे शस्त्रच्छटा ।

तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा ।

आचार्य ! देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा ।

यहाँ अकेले बालक अभिमन्यु का अनेक महारथी शत्रुओं से एक साथ युद्ध करके उन्हें मार डालना या समर से पराङ्मुख कर भगा देना, कितने आश्चर्य की बात है !

पद्माकर जी ने नीचे लिखे पद्य में अद्भुत रस का कैसा अच्छा वर्णन किया है—

मुरली बजाई तान गाई मुसक्याय मन्द,

लटक लटक भई नृत्य में निरत है ।

कहै 'पदमाकर' गोविन्द को उछाह अहि—

विष को प्रवाह प्रति मुख ह्वै फिरत है ॥

ऐसो फैल परत फुसकरत ही में मनो,

तारन को वृन्द फूत्कारन गिरत है ।

कोप करि जौलों एक फन फुफुकावै काली,

तौलों बन माली सौऊ फन पै फिरत है ॥

काली नाग जिस समय फुसकार मारता है, उस समय उसके फनों में से गिरते हुए विष-विन्दु ऐसे जान पड़ते हैं, मानों आकाश से तारे भर पड़े हों । परन्तु कृष्ण मुरली बजाते हुए उसके फनों पर नाचते फिरते हैं । उन पर काली के विष का जरा भी असर नहीं होता ।

पदमाकर जी का नीचे लिखा दोहा भी पढने लायक है—

घन बरसत कर पर धर्यौ, गिरि गिरिघर निःशंक ।

अजब गोप सुत चरित लखि सुरपति भयो संशक ॥

×

×

×

रामचरित मानस से अद्भुत रस की कुछ चौपाइयाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं—

सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय आता ।

फिर चितवा पाछे सोई देखा, सहित बन्धु सिय सुदर बेखा ।

जहँ चितवहि तहँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीना ।

देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका ।

वंदत चरन करत पग सेवा, विविध वेष देखे सब देवा ।

सती विघात्री इन्दिरा देखी अमित अनूप ।

जिहि जिहि वेश अजादि सुर तिहि तिहि तनु अनुरूप ॥

×

×

×

बिन पग चलै सुनै बिन काना, कर बिन कर्म करै विधि नाना ।

आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाञ्छी वच्चा बड़ योगी ।

×

×

×

दिखराये माताहि जो अद्भुत रूप अखंड ।

रोम रोम प्रति राजही कोटि-कोटि ब्रह्मड ॥

उपर्युक्त पक्तियों में भी सब विस्मयोत्पादक बातों का ही वर्णन है ।

शान्त रस

शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद है । यह रस मानव हृदय को अपार शान्ति प्रदान करने वाला है । सासारिक विषय वासनाओं और भोग-विलासों से विरक्त होकर, जब मनुष्य परम प्रभु परमात्मा की अद्भुत सत्ता-महत्ता में अटल विश्वास रखे, उसी के गुण, कर्म स्वभाव का अनुगामी बन, उसी में लीन होने लगता है, तब इस रस का प्रादुर्भाव होता है । शान्त रस से सम्बन्धित होने पर न किसी को माह माया सताती है, और न किसी प्रकार की तृष्णाएँ शेष रहती हैं । जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवद्भक्ति बन जाता है । शान्त रस के प्रादुर्भाव का कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता, जिस समय और जिस अवस्था में निर्वेद की प्रधानता होकर उत्कट वैराग्य की दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगता है वही शान्त रस का समय है । बुढ़ापे में शान्त रस की प्रधानता इसलिए मानी जाती है कि उस समय सारी शक्तियाँ क्षीण और मद पड़ जाती हैं, मन भर जाता है, उत्साह की कमी हो जाती है, ऐसी दशा में विवश होकर, ईश्वर चिन्तन की ओर प्रवृत्ति होती है; परन्तु यह बात सब वृद्धों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । बहुत से लोगो के शरीर तो बूढ़े हो जाते हैं, परन्तु उनकी तृष्णा तथा विषयेच्छा उत्तरोत्तर बलवती बनती जाती है । कितनों ही को अल्पायु में ही निर्वेद के कारण शान्त रस की सम्प्राप्ति होने लगती है । कभी-कभी विषय-विरक्ति के विशेष कारण भी पैदा हो जाते हैं । अर्थात् जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है, जो तुरन्त ही मन को सासारिक विषयों से मोड़ कर केवल परमात्मा की ओर कर देती है ।

वास्तव में शान्त रस मनुष्य को मानवता के उच्च आदर्श पर लेजा कर उसे परम पद प्राप्त कराने वाला है । इस रस में न लोभ है, न मोह, न शोक है न भय और न राग, न द्वेष आदि मनोविकार ही शेष रह जाते हैं । सर्वत्र एकत्व बुद्धि काम करती है । प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक स्थान पर

सर्व शक्ति सम्पन्न परमात्मा का ही पवित्र प्रादुर्भाव दिखायी देता है। जिसे शान्त रस का आनन्द प्राप्त है, उसे संसार के क्षणिक सुख-भोगों में कुछ भी तत्व दिखायी नहीं देता। उसकी दृष्टि में परमात्मा ही सार वस्तु है, शरीर की भी सुधि उसे नहीं रहती। वह आज नष्ट हो या अभी अथवा पचास वर्ष बाद या उससे भी आगे। इस प्रकार की बातें उसके लिए गौण बन जाती हैं। हम लोग जिन भगवद्भक्त, वीतराग साधु-सन्तों के चारु चरित्र पढ़ते हैं, वे सब शान्त रस के ही अनन्य उपासक थे। शान्त रस की उपलब्धि सहज ही में नहीं हो जाती, जिसके शुभ संस्कारों का उदय होता है, और परमात्मा जिस पर असीम अनुग्रह करता है, वही बड़भागी शान्त रस का अधिकारी होता है।

हमारे देश में परमात्मा की भक्ति का बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। 'सब तज, हर भज' की लोकोक्ति आज भी सुनाई पड़ती है। इसमें तनक भी सन्देह नहीं कि आधि-व्याधियों से तपाये मन तथा आत्मा को अगर कहीं शान्ति मिलती है, तो वह निर्वेद जनित शान्त रस में ही। जो लोग शान्ति प्राप्त करने के लिए विषय-भोगों की ओर दौड़ते हैं, अत्यन्त निराश होते हैं। और उन्हें वहाँ पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। हिन्दू धर्मशास्त्र आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से भरा पड़ा है। उसके उत्कृष्ट सिद्धान्त आज भी अशान्त आत्माओं को सच्ची शान्ति प्रदान करने में सर्वोपरि सिद्ध हो रहे हैं। तत्व ज्ञान में आडम्बर या कृत्रिमता के लिए तो कोई स्थान ही नहीं। जहाँ बनावट होती है वहाँ से वास्तविकता कौनों दूर भाग जाती है। यही कारण है कि 'तत्व ज्ञान' और 'विराग' के नाम पर अग्रणी लोग इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, परन्तु न उन्हें स्वयम् शान्ति है और न वे दूसरों के जीवन को शान्त बना सकते हैं। कुछ लोगों ने विराग या तत्व ज्ञान का नाम 'कर्महीनता' अथवा निकम्पापन समझ रखा है। परन्तु ऐसा नहीं है, तत्वज्ञानी के लिए निज का कुछ नहीं रहता, उसका स्वार्थ कुछ नहीं है उसके भाई-बन्धु कोई नहीं हैं। सारा विश्व उसका परिवार और प्राणमात्र उसके भाई बन्धु हैं। ऐसी दशा में वह जो कुछ करता है, सर्वथा निष्काम होकर निर्भय बुद्धि से सबके हितार्थ करता है। वह विश्व की विराटता में अपनी शुद्ध सत्ता को मिला कर कम से कम आत्मिक दृष्टि से, अपने को बिलकुल भुला देता है।

ऐसे महामति वीतराग ज्ञानी को जो अनिर्वचनीय आनन्द उपलब्ध होता है, वही देव दुर्लभ शान्त रस है। उसी की गुण-गरिमा से सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। वही मानव जीवन का सच्चा उन्नायक और वही यथार्थ शान्ति प्रदान करने वाला, अद्भुत भाण्डार है। निर्वेद शान्त रस में स्थायी और अन्य रसों में संचारी बन कर रहता है। इसका कारण यह है कि जब तत्त्व ज्ञान द्वारा निर्वेद जाग्रत होता है, तब तो उसकी स्थायी सज्ञा होती है और जब वह साधारण इष्ट हानि अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से उदर्य होता है तो व्यभिचारी कहाता है।

शान्त रस में किसी प्रकार के मनोविकार नहीं रहते, चित्त शान्त और स्थिर हो जाता है। सासारिक सुख-दुःख, राग-द्वेष, चिन्तादि का लेश भी शेष नहीं रहता। केवल अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है। वैराग्य में संसार का अनित्यता, विषय वितृष्णा, पश्चात्ताप, विशुद्ध भावना आदि की प्रधानता होती है। इसमें विषय भोग जन्य सुख तो नहीं रहता, परन्तु लोकोत्तरानन्द की अनुभूति होती रहती है। कुछ लोगों ने शान्त रस का स्थायी भाव 'शम' माना है, जो काम क्रोध तथा संकल्प विकल्प रहित अन्तःकरण की स्वस्थावस्था से उत्पन्न होता है।

काम क्रोधादि शमन पूर्वक निर्वेद की परिपुष्टता का नाम शान्त रस है।

शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद अथवा शम, देवता विष्णु या नारायण और वर्ण कुन्द पुष्प अथवा चन्द्रमा के समान शुद्ध है।

संसार की असारता और अनित्यता का ज्ञान अथवा परमात्मा का स्वरूप बोध इसके आलम्बन हैं।

सद्गुरु प्राप्ति, सत्संग, पवित्र आश्रम, पवित्र तीर्थ, रमणीय एकान्त वन, मृतक, श्मशान आदि शान्त रस के उद्दीपन हैं।

रोमाञ्च, आनन्दाश्रु, गद्गद कण्ठ इत्यादि शान्त रस के अनुभाव हैं। धृति, मति, हर्ष, स्मरण, प्राणियों पर दया आदि इसके संचारी भाव हैं। महाकवि मैथिली शरण जी के साकेत से शान्त रस का उदाहरण दिया जाता है—

बोले फिर मुनि यों चिन्ता की ओर हाथ कर,

देखो सब लोग, अहा ! क्या ही आधिपत्य है !

त्याग दिया आप अज-नन्दन ने एक साथ,
 पुत्र हेतु प्राण, सत्य कारण अपत्य है ।
 पा लिया है, सत्य, शिव, सुन्दर सा पूर्ण लक्ष्य,
 इष्ट हम सब को इसी का आनुगत्य है ।
 सत्य है स्वय ही शिव, राम सत्य-सुन्दर है,
 सत्य काम सत्य और राम नाम सत्य है ।

राम के वियोग में अज-नन्दन (दशरथ) ने 'प्राण त्याग दिये । यह निर्वेद का आलम्बन हुआ । फिर शव को श्मशान में लेजा कर चिता चुनी गई । ये श्मशान दर्शन और चिता चयन आदि उद्दीपन हुए । इस समस्त घटना को देख, जो रोना धोना हुआ, आँसू बहाए गए यही सब अनुभाव, और फिर 'राम नाम सत्य है' ऐसी मति का उत्पन्न होना सचारी भाव है । इन सबसे निर्वेद पुष्ट होकर शान्त रस के रूप में परिणत हुआ । आगे भी ऐसा ही जानना ।

शंकर जी के नीचे लिखे सवैया में निर्वेद का कैसा सुन्दर वर्णन किया गया है, देखिए—

रोवत मात पिता बनिता दुहिता सुत मित्र कुलाहल छायो ।
 लोगन बाँधि मसान मे लाय चिता चुनि फोरि कपार जरायो ॥
 फूँ कि पजारि गए सब गेह कुटम्ब को एकहु काम न आयो ।
 'शङ्कर' लायो न लैके चलयौ कछु आयो अकेलो अकेलो सिधायो ॥

जगत में प्राणी न कुछ लाया था, न यहाँ से कुछ लेकर जायगा, वह तो अकेला आता है और अकेला ही जाता है ।

कविराज शङ्कर जी का नीचे लिखा कवित्त शान्त रस का सुन्दर उदाहरण है—

'शङ्कर' अखण्ड एक अक्षर की एकता में,
 स्वाभाविक साधन अनेकता का साधा है ।
 तारतम्यता के साथ विश्व की बनावट में,
 पोल और ठोस का प्रयोग आधा-आधा है ॥
 नाम रूप ज्ञान से क्रिया की कर्म कल्पना से,
 नित्य निरुपाधि चिदानन्द में न बाधा है ।

सामाधिक धारणा में ऐसा ध्रुव ध्यान है तो,

पुरुष मुकुन्द है प्रकृति प्यारी राधा है ॥

उपर्युक्त पद्य में नित्य, निरुपाधि, चिदानन्द पूर्ण पुरुष को मुकुन्द और प्रकृति को राधा बताया गया है ।

महाकवि तुलसीदास के नीचे लिखे पद्य से तो शान्त रस छलका पड़ता है—

मेरे जाति पाँति ना काहू की जाति पाति चहाँ,

मेरे कोऊ काम को न हौ काहू के काम को ।

लोक-परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब,

भारी है भरोसो 'तुलसी' को एक नाम को ॥

अति ही अयाने उपखानों नहीं बूझै लोग,

साहब को गोत गोत होत है गुलाम को ।

साधु कै असाधु कै भलौ कै पोच सोच कहा,

का काहू के द्वार परी जो हौँ सो हौ राम को ॥

उन्हें संसार से कितनी उपरामता हो गई है । वे अब न जाति से सम्बन्ध रखते हैं न परिवार से नाता । उनका तो अब केवल राम से नाता है ।

और भी देखिए—

तुम करतार जग रच्छा के करन हार,

पूरन मनोरथ हौ सब चित चाहे के ।

यह जिय जानि 'सेनापति' हू सरन आयो,

हूजिये सहाय ताप मेटी दुख दाहे के ॥

जो यो कहौ तेरे हैं रे करम अनैसे हम,

गाहक हैं सुकृति भगति रस लाहे के ।

आपने करम करि उतरेंगे पार तो पै.

हम करतार करतार तुम काहे के ॥

जब अपने कर्मों द्वारा ही फ़ार उतरेंगे, तब हम स्वयं ही 'करतार' हैं, तुम फिर 'दाल-भात में मूसलचन्द' कौन होते हो । हमने तो सुना था, तुम

सबके मनोरथ पूरे करते हो, इसीलिए हम आपकी शरण आए थे। पर यहाँ तो बिलकुल पोल निकली। जब सुकृत्य करने पर ही भव से तर सकते हैं, तब फिर हम अपने आप तर जायँगे। तुम बीच में कौन ? सेनापति जी ने भगवान् को कैसा करारा उलाहना दिया है।

महा कवि तुलसीदास जी के नीचे लिखे सबैये भी शान्त रस के उत्कृष्ट उदाहरण हैं—

पदकंजनि मंजु बनी पनहीं घनुही-सर पंकज-पानि लिये।

लरिका सँग खेलत डोलत है, सरयूतट चौहट हाट हिये।

तुलसी अस बालक सो नहि नेह कहा जप जोग समाधि किये।

नर वे खर सूकर स्वान समान कहौ जग में फल कौन जिये ॥

जिसने ऐसे बालरूप भगवान् से स्नेह नहीं किया, उसके अन्य जप, योग, समाधि आदि सब व्यर्थ हैं।

जड़ पंच मिलै जेहि देह करी करनी लघुता धरनीधर की।

जनकी कहु क्यों करिहै न सम्हार जो सार करै सचराचर की।

‘तुलसी’ कहु राम समान को आन है सेवकी जासुरमा घर की।

जग में गति तेहि जगत्पति की परवाहि है ताहि कहा नर की ॥

जो कीरी से लेकर कुञ्जर तक प्राणियों ही की नहीं अन्य स्थावर जंगम सभी की सुध रखता है, ऐसे जगत्पति की शरण में जाने वालों को फिर साधारण मनुष्यों की क्या परवा ?

देखिए नीचे लिखे पद्य में शक्ति रूपिणी वृषभानु कुमारी का कैसा गुण-गान किया गया है—

जाको नेति नेति कहि वेद न बखाने भेद,

नारद न जाने नहीं काहू ठीक पारो है।

संभु सुर सुरपति सुक मुनि आदि दै कै,

करि जोग जश्न जप, तप, तन गारो है।

हठ की अधार वृषभान की कुमारि ऐसी,

तीन लोक जाकी कृपा कोर को पसारो है।

चार मुख वारो विधि कहै का विचारि दस-

सत मुख वारो राधा गुन कहि हारो है ॥

वेदों ने भी जिसका वर्णन करते-करते अन्त में नेति-नेति ही कहा, इन्द्रादि देवों और नारदादि ऋषि मुनियों ने जिसकी खोज में अनेक जप-तप, योग-भ्रम, करते करते अपने शरीर गुला दिए, उस प्रकृति स्वरूपा राधा का गुन-गान भला चार मुख वाला वेचारा ब्रह्मा क्या कर सकता है ,

कविवर देव जी का उदाहरण भी लीजिए—

कोऊ कहौ कुलटा कुलीन अकुलीन कहौ,
कोऊ कहौ रंकिनी कलकिनी कुनारी हौं ।
कैसे परलोक नरलोक वर लोकन में,
लीन्हो मै असोक लोक लोकन ते न्यारी हौं ।
तन जाहि मन जाहि देव गुरुजन जाहि,
जीव कथों न जाहि टेक टरत न टारी हौं ।
बुन्दावन वारी बनवारी के मुकुट पर,
पीत पटवारी वाही सूरत पै वारी हौं ॥

भले ही कोई कुलटा बतावे चाहे कलकिनी. पर मैने तो उस पीतपट वाले पर अपना तन-मन वार दिया है । मुझे अब लोक-परलोक से कोई वास्ता नहीं ।

और भी देखिए—

गग के चरित्र लखि भाखै जमराज हमि,
एरे चित्र गुप्त मेरे हुकुम मे कान दै ।
कहै 'पदमाकर' ये नरकन मूँदि कर,
मूँदि दग्वाजन को तजि यह ध्यान दै ।
देखि यह देव नदी कीन्है सब देव याते,
दूतन बुलाय कै विदा के वेगि पान दै ।
फारि डारु फरद न राखु रोजनामचा हू.
खातो खत जान दै बही को बहि जान दै ।

गंगा जी ने सब पापियों को पवित्र कर दिया । अब तो सुकर्मों या कुकर्मों का कोई भेद ही नहीं रहा । ऐसी दशा में अब लेखा-जोखा रखने की क्या ज़रूरत ? हटाओ इस बही खाते के खटराग को और विदा करो

बमदूतों को । बन्द करो नरकों के दरवाज़े । अब तो सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है ।

महा कवि देव का नीचे लिखा सवैया भी पढने लायक है—

चाहै सुमेरु को छार करै अरु छार को चाहे सुमेरु बनावै ।

चाहै तो रक ते राव करै चाहै राव को द्वारहि द्वार फिरावै ॥

रीति यही करुनानिधि की 'कवि देव' कहै विनती मोहि भावै ।

चींटी के पाँय मे बाँधि गयन्दहिं चाहै समुद्र के पार लगावै ॥

प्रभु को सब सामर्थ्य है, वह क्षण मे सुमेरु को गई और राई को सुमेरु बना सकता है । वह चाहे तो गजराज को चींटी के पैर में बाँध कर समुद्र पार करा सकता है ।

महाकवि सूरदास तो शान्त रस के आचार्य ही ठहरे । आपका भी एक पद पढ़ लीजिए—

मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पै आवै ।

कमल नयन को छोड़ि महातम और देव को धावै ।

परम गग को छाड़ि पिया सो दुर्मति कूप खनावै ।

जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यौ क्यों करील फल खावै ।

'सूरदास' प्रभु काम धेनु तजि छेरी कौन दुहावै ॥

इस पर तो टीका-टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं । यह तो मूर्तिमान शान्त रस ही ठहरा ।

सूरदास जी का एक पद और भी देखिए—

तजो रे मन हरि विमुखन को संग ।

जिनके सग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग ॥

कहा होत पय पान कराये विष नहिं तजत भुजंग ।

कागहि कहा कपूर चुगाए स्वान न्हावाए गंग ॥

खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण अग ।

गज को कहा न्हावाए सरिता धरे खेह पुनि छग ॥

पाहन पतित बान नहिं बेधत रीती करत निषंग ।

'सूरदास' कारी कामरि पै चढ़त न दूजौ रंग ॥

सूरदास की कमली तो काले कृष्ण के रंग में रँग कर काली हो गई । आ इस पर दूसरा रंग नहीं चढ सकता ।

कविवर रसखान ने शान्त रस का वर्णन इस प्रकार किया है—

मानुष हों तो वही रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।

जो पसु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नन्द की धेनु मभारन ।

पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर धारन ।

जो खग हों तो बसेरौ करों वहि कालिन्दी कूल कदंब की डारन ।

मुझे पशु, पत्नी, पहाड़, मनुष्य चाहे जिस योनि में जन्म मिले, पर प्रत्येक दशा में मैं ब्रज में ही बसना चाहूँगा । मुझे न स्वर्ग चाहिए न अपवर्ग । मेरे लिए तो कालिन्दी-कूल और कदम्ब की डालें ही सब कुछ हैं ।

अब तुलसीदास जी का शान्त रस सम्बन्धी सवैया भी पढ़ लीजिए—

पग नूपुर औ पहुँची कर कंजन मंजु बनी मनि माल हिये ।

नव नील रुलेवर पीत भँगा भलकैँ पुलकैँ नृप गोद लिये ।

अरविंद सो आनन रूप मरद अनदित लोचन भृग पिये ।

मन मों न बस्यौ अस बालक जो 'तुलसी' जग में फल कौन जिये ॥

भगवान का ऊपर वर्णित बाल स्वरूप यदि हृदय में नहीं बसा, तो जगत में जन्म लेने का फल ही क्या प्राप्त किया ।

कृष्ण का विराट रूप देखकर अर्जुन को जो शान्ति प्राप्त हुई, उसका वर्णन मैथिली बाबू ने नीचे की पंक्तियों में किया है—

गद्गद् हृदय ने पार्थ तब धीले वचन श्रद्धा भरे,

लीला तुम्हारी है विलक्षण हे अखिल लोचन हरे ?

इस आपदा से त्राण मेरा कौन करता तुम बिना ?

प्रत्यक्ष दिखलाकर सभी दुःख कौन हरता तुम बिना ?

×

×

×

जो कुछ दिखाया आज तुमने वह न भूलेगा कभी,

क्या दृष्टि में फिर और ऐसा दृश्य भूलेगा कभी ?

कहते हुए यों पार्थ फिर हरि के पदों में गिर गए,

प्रभु किये तब प्रकट उन पर प्रेम भाव नए नए ।

+

+

+

महाकवि हरिऔध जी ने शान्त रस का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया है—

मिलि जैहैं धूर में घराघर घरातल हू,
काल कर सागर सलिल को उलीचि है ।

बड़े-बड़े लोकपाल विपुल विभव वारे,
पल में बिलैहैं ज्यों बिलाति वारि बीचि है ।

‘हरिऔध’ बात कहा तुच्छ तन धारिन की,
कबौ मेदिनी हू मीच भै ते आँख मीचि है ।

सरम बसन्त है बिरसै सरसैहैं नाहिं,
बरसि सुधा रस सुधाकर न सीचि है ॥

आखिर एक दिन यह ससार धूल में मिल जायगा । बड़े-बड़े तुंग धारियों का वैभव क्षण भर में, जल तरंगों के समान नष्ट हो जायगा । साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या, किसी न किसी दिन, मौत के भय से इस महिमा मयी मेदिनी को भी आँखे मीचनी पड़ेगीं । फिर न बसन्त इसमें अपनी छबीली छटा दिखावेगा और न सुधाकर ही इस पर सुधा बरसावेगा ।

केशव जी का नीचे लिखा सबैया शान्त रस का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाँव को नाँव बिलै है ।

तात न मात न मित्र न पुत्र न वित्त न अंग के संग रहै है ।

‘केसव’ काम को राम बिसारत और निकाम ते काम न ऐ है ।

चेत रे चेत अजौँ चित अन्तर अन्तक लोक अकेलोही जैहै ॥

जो राम को बिसार कर और संसारी भूक्तों में फँसते हैं, वे बड़ी भारी भूल में हैं । वे इस बात को नहीं सोचते कि अन्त में अकेले ही जाना है ।

गवाल कवि का भी एक उदाहरण देख लीजिए—

जान पर्यौ मो को जग असत अखिल यह,

ध्रुव आदि काहू को न सर्वदा रहन है ।

याते परिवार व्यवहार जीत-हारादिक,

त्याग करि सब ही बिकसि रह्यौ मन है ।

‘गवाल कवि’ कहै मोह काहू में रह्यौ न मेरो,

क्योंकि काहू के न संग गयो तन धन है ।

कीन्हों मैं विचार एक ईश्वर ही सत्य नित्य,

अलख अपार चारु चिदानन्द धन है ॥

आप कहते हैं—मैंने तो खूब विचार कर देख लिया, इस असार ससार में एक प्रभु का भजन ही सार है, वही साथ जायगा। और सब बख्सेड़ा तो यहीं पड़ा रह जायगा।

शकर जी सासारिक भङ्गटों से प्रस्त होकर, प्रभु शकर से कैसी करुण प्रार्थना करते हैं—

कर कोप जरा मन मार चुकी बल हीन सरोग कलेवर है।

परिवार घना धन पास नहीं भुज भग्न दरिद्र भरा घर है।

सब ठौर न आदर मान मिलै मिलता अपमान अनादर है।

मुझ दीन अकिंचन कीसुधि ले सुख दें प्रभु तू यदि शंकर' है।

आर्त की उक्ति है कि बुढापे ने सारे अरमान कुचल डाले, शरीर रोगों का घर बन गया, पूरा परिवार है साथ ही दारुण दरिद्रता की अपार अनुकम्पाभी। हे प्रभु, तू सब का कल्याण करने वाला है, इसलिए मुझ अकिंचन की भी तू ही सुध ले।

कवि कुल गुरु तुलसीदास जी का नीचे लिखा सवेया शान्त रस का कैसा सुन्दर उदाहरण है—

भूमत द्वार मतंग अनेक जंजीर जरे मद अम्बु चुचाते।

तीखे तुरग मनोगति चचल पौन के गौनहु तें बढि जाते।

भीतर चन्द्र मुखी अवलोकाति बाहर भूप खड़े न समाते।

ऐसे भए तो कहा 'तुलसी' जो पै जानकीनाथजू के रंग राते ॥

मत्त मतंग, तेज तुरग, ऐश्वर्य, प्रताप सब तो हुए और प्रभु-चरणों में अनुराग न हुआ, तो अन्य सब चीजों का होना न होना बराबर है।

अब ज़रा पद्माकर जी का भी एक पद्य पढ़ लीजिए—

भोग में रोग वियोग संयोग में योग ये काय कलेश कमायौ।

त्यौ 'पद्माकर' वेद पुराण पढ्यौ पढ़ि कै बहुवाद बढायौ।

दौर्यौ दुरासा को दास तयौ पै कहूँ बिसराम को घाम न पायौ।

खायौ गँवायौ सु ऐसे ही जीवन हाथ मैं राम को नाम न गायौ।

कोई अन्त समय में कैसा पश्चाताप कर रहा है। हा ! मैंने तो दुनिया में आकर केवल पेट भरने में ही जीवन गँवाया। एक क्षण के लिए भी प्रभु का स्मरण नहीं किया।

वात्सल्य रस

अधिकतर आचार्यों ने वात्सल्य रस को स्वतन्त्र रस नहीं माना, उसकी गणना शृंगार रस के अन्तर्गत की है। उनका कहना है कि जब रति, भाव रूप रह कर देवता, गुरु आदि से सम्बन्ध रखती है तो उसकी 'भाव' संज्ञा होती है। इसी भाव के अन्तर्गत वात्सल्य भी आ जाता है। क्योंकि शिष्य और पुत्र, गुरु तथा देवता आदि से भिन्न नहीं हो सकते। अतएव वे भी इसी भाव में आ जाते हैं। सोमेश्वराचार्य का कहना है कि स्नेह, भक्ति और वात्सल्य तीनों रति के ही भेद हैं। समान स्थिति के व्यक्तियों का पारस्परिक प्रेम 'रति' उत्तम में अनुत्तम की रति भक्ति, और अनुत्तम में उत्तम की रति वात्सल्य कहलाती है। उदाहरणार्थ पति-पत्नी दोनों बराबरी के दर्जे के होते हैं, उनके प्रेम को रति कहेंगे। पिता-पुत्र या गुरु-शिष्य में पिता और गुरु उत्तम हैं और पुत्र तथा शिष्य अनुत्तम। अतएव अनुत्तम में उत्तम की प्रीति का नाम वात्सल्य है, और अनुत्तम है अर्थात् पुत्र और शिष्य के स्नेह को भक्ति कहेंगे। इसी पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों का यह भी कथन है कि 'सन्तान' शृङ्गार का ही परिणाम है, अतएव उसे शृङ्गार रस में ही परिगणित करना चाहिये। स्वतन्त्र रस मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

वात्सल्य को दसवाँ रस मानने वालों में साहित्य दर्पणकार और शृङ्गार प्रकाशकार मुख्य हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भी इसी मत के समर्थक हैं। महाकवि हरिश्चन्द्र ने भी अपने 'रस कलस' में वात्सल्य को दसवाँ रस मानने की ज़बर्दस्त वकालत की है। वास्तव में बाल-लीला को देखकर माता-पिता को जो तन्मयता होती है, वह बड़ी ही आनन्ददायिनी है। ऐसा कौन सहृदय है जो बालकों को हँसते, खेलते, मुस्कराते और तोतली बोली में बातें करते देख-सुन कर आनन्द-विभोर नहीं हो जाता। जिनको परमात्मा ने सन्तान-सुख प्रदान किया है, वे इस रस का आस्वादन भले प्रकार करते रहते हैं। कभी-कभी तो माता-पितादि वात्सल्य के कारण बालकों के साथ

अन्तर्गत समझते हैं वे उसके साथ न्याय नहीं करते, रति और वात्सल्य में बड़ा भेद है। रति से हृदय में जो भावना जाग्रत होती है, वह वात्सल्य से नहीं, और वात्सल्य के कारण जिन भावों का उदय होता है, वह रति से नहीं हो सकता। अतएव दसवाँ वात्सल्य रस मानना ही चाहिए। अस्तु;

वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह है। सन्तान पर प्रेम, पितृ स्नेह, लालन-पालन प्रवृत्ति आदि वात्सल्य वृत्ति के कार्य हैं। पशु-पक्षियों के पालने में भी यही शक्ति काम करती है, यह वृत्ति पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होती है। क्योंकि सन्तान का पालन पोषण आदि कार्य प्रकृति ने मुख्यतः उन्हीं को सौंपा है। इस वृत्ति के दुरुपयोग, मिथ्या योग अथवा अतियोग से हानि होती है। बालकों के जीवन बिगड़ जाते हैं और उनका ठीक-ठीक सुधार या विकास नहीं हो पाता। मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों में भी वात्सल्य वृत्ति की प्रधानता है। क्रूर से क्रूर स्वभाव वाले पशु भी अपनी सन्तान के लालन-पालन में अत्यन्त विनम्र और प्रेम युक्त बन जाते हैं, उसका कुरूपण यही वात्सल्य है। कुमारी कन्याएँ या विवाहिता युवातयों छोटे छोटे बालकों पर बड़ा स्नेह करती हैं। उन्हें बच्चों से बड़ी ममता होती है। यदि वात्सल्य वृत्ति न होती तो असहाय शिशुओं का पालन-पोषण कोई न करता। मनुष्यों के सम्बन्ध में तो यह कहा जा सकता है कि वे इस आशा से सन्तान का पोषण करते हैं कि उससे आगे चलकर उन्हें सुख मिलेगा, वह उनकी सेवा सहायता करेंगे। परन्तु पशु पक्षियों के सम्बन्ध में तो यह बात भी ठीक नहीं उतरती। वे तो बदले की भावना के बिना ही अपनी सन्तान का लालन-पालन करते हैं। वास्तव में मनुष्य भी अपनी सन्तान का पालन-पोषण वात्सल्य वृत्ति से प्रेरित होकर ही करता है। सन्तान के द्वारा लाभ उठाने की बात तो अत्यन्त गौण होती है। संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी सन्तान को शायद सबसे अधिक दिनों तक प्यार करता है। अन्य पशु-पक्षी तो सन्तान के समझ होने पर उसका मोह त्याग देते हैं, परन्तु मनुष्य का मोह आजन्म बना रहता है। दूसरी बात यह भी है कि मनुष्यों की सन्तान अन्य प्राणियों की अपेक्षा देर में समर्थ और स्वावलम्बी बनती है। अतएव उसे (सन्तान को) चिर काल तक वात्सल्य सुख भोगने का अवसर मिलता है। प्रजा की उत्पत्ति और अभिवृद्धि प्रकृति की सर्वोपरि पुकार है। इन दोनों कामों के बिना हि० न० २०—३६

सृष्टि के सब व्यापार ही नष्ट हो जाते, और ससार, ससार न रहता। न भोग रहते और न भोक्ता।

परमात्मा का भी कैसा विचित्र विधान है, जहाँ वह काम वृत्ति को परिपूर्ण कर पुत्रोत्पत्ति की प्रेरणा करता है वहाँ सन्तान के पालन-पोषण के लिये वात्सल्य की वृत्ति का भी उदय करता है। जिसके द्वारा बच्चे परिवरिश पाकर सासारिक कार्यों को चलाते हैं। वात्सल्य अपने सन्तान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ अशों में दूसरों के बालकों तक भी उसका असर जाता है। शिशु पालन (Nursing) का जितना अच्छा कार्य स्त्रियाँ कर सकती हैं, उतना अन्य प्रकार से सम्भव नहीं। सन्तान पालन के लिए अत्यन्त बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम की आवश्यकता है। इन सब कार्यों में स्नेह द्वारा ही प्रवृत्ति होती है। यह स्नेह ही वात्सल्य का रूप धारण करके पालन-पोषण का कार्य कराता रहता है। मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु आदि में से अनेक ऐसे होते हैं, जो सन्तान के सरक्षण में अपने प्राणों की भी बाज़ी लगा देते हैं। संसार में माता के स्नेह से बढ़कर किसी का स्नेह नहीं है। अपने बालक को दुखी देखकर माता के हृदय में जो वेदना होती है, उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य में वात्सल्य भाव अत्यधिक मात्रा में होता है, तब उसका अंश दूसरों के बालकों को भी मिलता है। कुत्ते-बिल्ली हिरन आदि को पालने में यही शक्ति प्रेरणा करती है। गृहस्थ स्त्रियों में वात्सल्य की मात्रा अधिक पायी जाती है। जिन स्त्रियों के सन्तान नहीं होती, वे कुत्ता-बिल्लियों को पालकर ही अपने प्रेम या वात्सल्य को विकसित करती रहती हैं। पौदे लगाना तथा उन्हें सींच कर बड़ा करना भी एक प्रकार की वात्सल्य वृत्ति ही है।

खेद है कि पश्चिमीय देशों में कुछ स्त्रियाँ अपनी सन्तान को दूसरों से पलवा कर स्वयम् भोग विलास में रत रहती हैं। ऐसे पर-पोषित बालकों को वास्तविक वात्सल्य-सुख प्राप्त नहीं होता। हम तो समझते हैं ऐसे माता-पिता को सन्तान पैदा करने का अधिकार ही नहीं। वात्सल्य तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—एक वे लोग जिनमें अत्यधिक वात्सल्य होता है, और जो अपनी सन्तान के अतिरिक्त अन्यो के बालकों को भी स्नेह दृष्टि से देखते हैं, दूसरे वे लोग जो अपने बालकों तक ही अपना स्नेह सीमित रखते हैं और

तीसरे वे लोग जिन्हें अपनी सन्तान से भी बहुत कम प्रेम होता है। ऐसे लोग प्रायः बालकों के प्रति रूखा और कठोर बर्ताव करते रहते हैं।

वात्सल्य वृत्ति के विकास के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बालकों के साथ स्नेह पूर्वक खेला जाय, उन्हें रत्नों से भी अधिक समझा जाय। उनकी निर्दोष वृत्ति पर ध्यान रक्खा जाय और उनके साथ बर्तने में बड़ी मृदुता, नम्रता और धीरता से काम लिया जाय। यह बात भी ध्यान में रखने की है कि वात्सल्य को सीमा से आगे न बढ़ने देना चाहिए। बालकों के लिए हर वक्त चिन्तित रहना, और उन्हें प्रेम वश कुछ न करने देना अथवा उन्हें बिगड़ने से न रोकना आदि अनुचित काम हैं। वात्सल्य तीन प्रकार का माना गया है। १—अपत्य स्नेह—जिसमें पशु-पक्षियों तक के बच्चों पर प्रेम किया जाता है। २—वात्सल्य भाव—जिसमें अड़ोसी-पड़ोसी आदि के बच्चों पर भी प्रेम किया जाता है और तीसरा स्व-संतति प्रेम।

वात्सल्य

जहाँ स्नेह स्थायी भाव की पुष्टि होती है वहाँ वात्सल्य रस माना गया है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह, देवता ब्राह्मी आदि माताएँ और बर्ब कमल गर्भ के समान है।

पुत्र, शिष्य, शिशु आदि वात्सल्य रस के आलम्बन हैं।

शिशु की चेष्टाएँ, शिष्य या पुत्र की विद्या, शूरता, दया आदि इसके उद्दीपन हैं।

आलिङ्गन अंग स्पर्श, सिर चूमना, सस्नेह निहारना, रोमाञ्च, आनन्दाश्रु आदि वात्सल्य रस के अनुभाव हैं।

अनिष्ट की आशंका, हर्ष, गर्व आदि इसके संचारी भाव हैं।

महाकवि सूरदास का नीचे लिखा पद वात्सल्य रस का कितना सुन्दर उदाहरण है—

जसोदा हरि पालने भुलावै ।

हलरावै दुलराइ मल्हावै जोइ सोइ कछु गावै ।

मेरे लाल की आउ निदरिया कहि न आनि सुबावै ।

तू काहे न बेगि सौं आवै तोकों कान्ह बुलावै ।

कबहुँ पलक हरि मूँदि लेत हैं कबहुँ अधर फरकावै ।
सोवत जानि मौन है रहि रहि कारि करि सैन बतावे ।
इहि अन्तर अकुलाय उठे हरि जसुमति मधुपै गावै ।
जो सुख 'सूर' अमर मुनि दुर्लभ सो नद भामिनि पावै ।

यहाँ बाल कृष्ण वात्सल्य के आलम्बन, उनका कभी आंखें मूँद लेना, कभी ओठ फड़काना आदि कार्य उद्दीपन, यशोदा जी का लोरियों गा-गा कर सुलाना अनुभाव और हर्ष सचारी भाव है। इन सब के सहयोग से स्नेह पुष्ट होकर वात्सल्य रस के रूप में परिणत हुआ। इसी प्रकार आगे भी समझ लीजिए।

सूरदास जी के नीचे लिखे पदों में भी वात्सल्य रस कूट कूट कर भरा है—

मैया कबहिं बढैगी चोटी ।
कित्ती बार मोहिं दूध पियत भई यह अजहुँ है छोटी ।
तू जो कहति बल कीं दैनी ज्यौं है है लांबी मोटी ।
काढत गुहत न्दवावत पोछत नागिन सी भुँइ लोटी ।
काचो दूध पियावति पचि पचि देति न माखन रोटी ।
'सूर स्याम' चिरजिव दोळ मैया हरि हलधर की जोटी ।

और देखिए—

मैया मोहि दाऊ बहुत खिभायो ।

मोसों कहत मोल को लीन्हों तू जसुमति कब जायो ।
कहा कहों यहि रिस के मारे खेलन हौं नहिं जात,
पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हरो तात ।
गोरे नन्द जसोदा गोरी तुम कत स्याम सरीर,
चुटकी दै-दै हँसत ग्वाल सब सिलै देत बलवीर ।
तू मोही को मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीसे,
मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि-सुनि रीसे ।
सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत,
'सूर स्याम' मोहि गोधन की सौं हौं माता तू पूत ।

नीचे लिखे पद्य में वात्सल्य का कितना सुन्दर चित्र खींचा गया है—

मैया मैं नाहीं दधि खायो ।

ख्याल परै ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायो ॥

देखि तुही छींके पै भाजन ऊँचे घर लटकायो,

तुही निरखि नान्हे कर अपने मै कैसे करि पायो ।

मुख दधि पोंछि कहत नँद नंदन दौना पीठि दुरायो,

डारि साँट मुसुकाय तबहिँ गहि सुत के कंठ लगायो ।

बाल विनोद मोद मन मोह्यो भगति प्रताप दिखायो,

‘सूरदास’ प्रभु जसुमति के मुख सिव विरंचि बौरायो ॥

यशोदा जी हाथ में छड़ी लेकर जिस समय कृष्ण को डाटती हैं—‘ढोठ, तू बड़ा पाजी हो गया है। बता दही कैसे खाया? उस समय कृष्ण जी मुँह पोंछ और दौना पीछे छिपा कर भोलेपन से कहते हैं—‘मैया मैं नाहीं दधि खायो।’ साथ ही अपनी निर्दोषिता की पुष्टि में ब्रमाण भी देते जाते हैं। कृष्ण की बाल सुलभ मोठो और चतुराई-भरी बातें सुन यशोदा का क्रोध काफूर हो गया और उनके हृदय में वात्सल्य रस का सरोवर उमड़ने लगा ।

कविवर रसखान का भी वात्सल्य सम्बन्धी एक पद्य पढ़ लीजिए—

धूरि भरे अति शोभित श्याम जू कैसी बनी सिर सुन्दर चोटी ।

खेलन खात फिरें अँगना पग पैँजनी बाजति पीरी कछौटी ॥

वा छुवि कों ‘रसखानि’ विलोकनि वारत काम कला निज कोटी ।

काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सों लै गयो माखन रोटी ॥

रसखान जी ने बाल कृष्ण का कैसा चित्र अंकित किया है, जिसे पढ़ते ही उनके प्रति पाठक का प्रेम-भाव उमड़ पड़ता है ।

महाकवि तुलसीदास ने भी अपने इष्ट भगवान रामचन्द्र जी की बाल-लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है—

कबहुँ ससि माँगत आरि करे कबहुँ प्रतिबिम्ब निहारि डरें ।

कबहुँ करताल बजाइ कै नाचत मातु सबै मन मोद भरें ॥

कबहुँ रिसियाय कहैं हठि कै पुनि लैत मुई जेहि लागि अरें ।

अवधेश के बालक चारि सदा ‘तुलसी’ मन-मन्दिर में विहरें ॥

ऊपर के पद्य में रामलला की बालोचित चेष्टाओं का कैसा अनोखा वर्णन है ।

और भी देखिए—

तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे ।

अति सुन्दर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनंग की दूरि करे ॥

दम के दतियाँ दुति दामिनि ज्यो किलके कल बाल विनोद करें ।

अवधेश के बालक चारि सदा 'तुलसी' मन मन्दिर मे विहरे ॥

राम जी का धूलि धूसरित श्याम-शरीर कितना सुन्दर मालूम देता है । जिस समय वह किलक कर अपने दो दूध के दाँत चमका देते हैं, उस समय ऐसा जान पड़ता है कि बिजली कौंध गई ।

तुलसी जी का नीचे लिखा सबैया भी वास्तव्य का सुन्दर उदाहरण है—

वर दन्त की पंगति कुन्द कली अघराघर पल्लव खोलन की ।

चपला चमकै घन बीच जगै छुबि मोतिन माल अमोलन की ॥

धुँधरारी लटे लटकै मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की ।

निवछावरि प्रान करै 'तुलसी' बलि जाऊँ लला इन बोलन की ॥

तुलसीदास ने रामलला के धुँधरासे बालों, ललित-लोल कुंडलों और मधुर तथा तोतले बोलों पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिये ।

नख-शिख

पवित्रता, उत्तमता, स्वच्छता, रमणीयता, विनय, कोमल, कल्पनाशक्ति, माधुर्य, कवित्व, पुष्प, गन्ध, वस्त्र, इत्र आदि सौन्दर्य के अन्तर्गत हैं । सौन्दर्य-शक्ति का उपयोग सृष्टि में फैले हुए सौन्दर्य का अनुभव करने तथा अपनी कल्पना द्वारा दूसरों को उसका अनुभव कराने के लिए होता है । सृष्टि में जो कुछ है, सब सुन्दर है । किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई । सृष्टि रचना की उत्तमता, उसके पदार्थों का उपयोग, वसन्त के सुवासित पुष्पों का परिमल, ग्रीष्म-गरिमा, सूर्य और चन्द्रमा का अस्तोदय, समुद्र का उतार-चढ़ाव, अनन्त आकाश में असंख्य नक्षत्र, उनकी रचना, क्रिया और गति, कलकल निनादिनी नदियाँ, रंग-बिरंगे पक्षी, उनका भाँति-भाँति का कलरव, मृदु, कोमल, एवं तीव्र ध्वनि, बाग-बगीचा और वनस्पति,

उनके रूप रंग और शोभा-सुगन्धि, नर-नारी, जीव-जन्तु इत्यादि सभी में किसी न किसी प्रकार का सौन्दर्य विद्यमान है। इन सब सौन्दर्यों में मनुष्य के मन अथवा आत्मा की सुन्दरता बिलकुल निराली है। उसके स्वभाव, बल, सामर्थ्य तथा आन्तरिक शक्तियों के सौन्दर्य की समता कोई नहीं कर सकता। मस्तिष्क-शास्त्रियों का कहना है, कि मनुष्य के मस्तिष्क में सौन्दर्य वृत्ति का विशेष स्थान निश्चित है।

यदि मनुष्य में सौन्दर्य-वृत्ति न होती, तो संसार की सरसता का अनुभव कौन कर सकता था। इस वृत्ति ही द्वारा मनुष्य संसार का आनन्द उपभोग करने में समर्थ होता है। उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक जीवन में पूर्णता विकसित करने वाली यही शक्ति है, इसी से वह पवित्र और उच्च बनता है। पशुपन की अधमता इससे ही दूर होती है। जिन स्त्री या पुरुषों में सौन्दर्य-शक्ति अधिक विकसित होती है उनकी सुसुचि, उच्चभावना, कला-प्रियता और कोमल कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। उनकी कविता और वक्तृता में सुन्दरता और सरसता का प्रवेश हो जाता है। स्वभाव शान्त बन जाता है। वे जिस वस्तु को देखते हैं, उसके सौन्दर्य का वर्णन बड़ी ही सुन्दरता से करते हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य के तो वे बड़े ही भक्त और प्रशंसक बन जाते हैं।

जिन लोगों में सौन्दर्य-वृत्ति साधारण रूप से होती है, उनकी बात-चीत और रीति-भाँति में स्वाभाविक सुन्दरता का अभाव होता है, और जिनमें यह शक्ति होती ही नहीं, उनका जीवन शुष्क, कर्कश, त्रुटि पूर्ण और सुसुचि हीन बन जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों को सुन्दर वेश-भूषा का शौक होता है। सुन्दर रूप रंग और मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के देखने पर उनका वर्णन करने से सौन्दर्य-वृत्ति का विकास होता है। जितना ही कोई व्यक्ति सौन्दर्य प्रेम में निमग्न होगा, उतनी ही उसकी सौन्दर्य-वृत्ति बढ़ेगी। जो लोग श्रुतुओं की मनोमोहक सुन्दरता पर मुग्ध रहते हैं, वे ही उसकी महिमा जान सकते हैं। सौन्दर्य-वृत्ति-विकास के लिए सुसंस्कृत और पवित्र पुरुषों की सगीत और मृदु भाषिणी सुन्दरियों का सम्पर्क बहुत आवश्यक है। सौन्दर्य वृत्ति का दुरुपयोग बड़े अनर्थ का कारण बन जाता है। इससे दुर्गुणों और दुर्वासनाओं का जन्म होता है। असमय में प्रेम-प्रवृत्ति आरोग्य और आयुष्य का नाश करने वाली होती है। इस वृत्ति का दुरुपयोग बुद्धि

और विचार शक्ति की कमी के कारण ही होता है । विषय वासना और सौन्दर्य प्रेम में आकाश-पाताल का अन्तर है । पहला मनुष्य को अधःपतन की ओर ले जाता और पिछला उने मानवता के आदर्श की ओर अग्रसर करता है । बालकों में सौन्दर्य-वृत्ति के विकास के लिए पहले ही से सतर्क रहना चाहिए । उनके आचार-विचार, रहन सहन, व्यवहार आदि में सौन्दर्य के प्रवेश होने की बड़ी आवश्यकता है । उनमें ललित कलाओं और प्राकृतिक सौन्दर्य-निरीक्षण की ओर सुवचि पैदा करनी जरूरी है ।

काव्य-शास्त्र में इसी सौन्दर्य-वृत्ति की भावना को लेकर कवियों ने सब ही प्रकार का सौन्दर्य-वर्णन किया है । पशु पत्नी, नदी-नाले, वन-उपवन, वृक्ष-वनस्पति, सूर्य-चन्द्रादि नक्षत्र स्त्री पुरुष, ऋतु, काल देश इत्यादि किसी का भी सौन्दर्य इनके वर्णन से नहीं बच पाया । बच्चे भी क्यों ? जहाँ सौन्दर्य है, वहाँ उसकी अनुभूति भी है । स्त्रियों के सौन्दर्य का वर्णन कवियों ने समाष्ट और व्यष्टि-दोनों रूप से किया है—यानी उनके सारे शरीर का वर्णन भी और अङ्ग-प्रत्यङ्ग का पृथक्-पृथक् भी । व्यष्टि रूप से अङ्ग सौन्दर्य के क्रमबद्ध वर्णन का नाम नख-शिख रक्खा गया है । नख-शिख का अर्थ है नख से लेकर शिख (शिखा) पर्यन्त । इसे ही उर्दू वाले 'सरापा' कहते हैं जिसका मतलब हुआ सर से पैर तक । 'नख-शिख' या 'सरापा' में कवि श्लोक नायिकाओं के विविध अंगों का पृथक्-पृथक् वर्णन किया करते हैं । हिन्दी में नख-शिख लिखने का बहुत रिवाज रहा है । प्राचीन कवियों के नख-शिख वर्णन से पोथे के पोथे भरे पड़े हैं । इन नख-शिखों में अंगों का वर्णन करते हुए कितने ही कवियों ने अपनी कल्पना शक्ति का कमाल कर दिखाया है ।

'नख शिख' को उद्दीपन विभावों में रक्खा गया है । कुछ लोगों का कहना है कि जब नायिका का सम्पूर्ण शरीर आलम्बन है, तब 'नख-शिख' के रूप में उसके पृथक्-पृथक् अङ्गों का वर्णन उद्दीपन विभावों में क्यों माना गया ? इसका समाधान यही हो सकता है कि नायिका को देखकर हृदय में जो रतिभाव जाग्रत होता है, नायिका के सौन्दर्य पूर्ण अङ्ग विशेषों का चिन्तन और स्मरण उनको अधिक-अधिक उद्दीप्त करने में सहायक होता है । जिस नायिका के अङ्ग-प्रत्यङ्ग जितने अधिक सुन्दर होंगे, उसके प्रति रति-भाव भी उतना ही अधिक उद्दीप्त होगा । जहाँ अंग सौष्ठव की कमी या उसका

बिलकुल अभाव होगा, वहाँ नायिका के होते हुए भी रति भाव उद्दीप्त न होगा । यही कारण है जो नख शिखों की उद्दीपनों में गणना की गई है ।

कुछ आचार्यों ने नख-शिख की उद्दीपन विभावान्तर्गत सखी के कर्मों में गणना की है । सखी अपने मण्डन कर्म द्वारा नायिका के अङ्ग-प्रत्यङ्गों की जो सजावट करती है, उसी का वर्णन नख-शिख वर्णन है । जो हो, किसी भी विचार से रखिए, नख-शिख को उद्दीपन विभावों में रखना होगा ।

पग-तल वर्णन

[पग-तल का सौन्दर्य वर्णन करने में उनकी उपमा कामदेव की ध्वजा, चन्दन के पत्तों, कमल के वर्ण आदि में दी जाती है ।]

देखिए, पग-तल के वर्णन में किसी कवि ने क्या ही सुन्दर पद्य लिखा है—

कोक नद इन्दीवर पुरङ्गीक कहे पाई—

छवि बहु वरन वरन ही के भाय की ।

सहज सुगन्ध रये दिनकर बन्धु भये,

कर कमलन लये राजा और राय की ॥

सुन्दर सुभाये सीस शकर चढाए ऐसी—

पदवी को पाये रसराज चित चाय की ।

कीन्हें तप बहुत विचारे कमलन पर,

समता न पाई तेरे तरवन पाय की ॥

अर्थात् कमलों ने विविध विध तप कर कोकनद, इन्दीवर आदि अनेक सुन्दर नाम भी पाए सुगन्ध युक्त मनोहर शरीर भी प्राप्त किया, सूर्य से मैत्री भाव भी लाभ किया, वे राजा महाराजाओं के हाथों में—यहाँ तक कि देवताओं के शिरों पर भी सुशोभित हुए परन्तु बेचारे नायिका के पैर के तलवों की समता फिर भी न प्राप्त कर सके ।

और भी देखिए, राधिका जी के पग-तलों के सम्बन्ध में कविवर रघुनाथ जी क्या कहते हैं ।

शोभा के निवास के प्रकास के निकैत मंजु—

कैधों यह उदधि अमोघ बस भारी के ।

कैधौ रस हास के तड़ाग या सुधा के सिन्धु,
सौति-मदहारी किधौ यह सुकुमारी के ॥
भनै 'रघुनाथ' बसे हिये हमरे मे सदा,
सब सुख दाता वृषभानु की दुलारी के ।
अरुण अमन्द चारु विमल सोहाग भरे,
कमल गुलाब रग पग तल प्यारी के ॥

सचमुच वृषभानु की दुलारी के पग-तल क्या हैं, सौन्दर्य के सदन या प्रकाश के निकेतन हैं, अथवा हास के सरोवर या सुधा के सिन्धु हैं ।

पग-वर्णन

[पगों का सौन्दर्य-वर्णन करने में उनकी उपमा कमलों से दी जाती है ।]
पगों का वर्णन करते हुए कवियों ने कैसी कलित कल्पनाओं और उत्प्रेक्षाओं से काम लिया है, देखिए—

कोऊ केतु नीर विवि पल्लव पटीर कैधौ,
विद्रुम की पीठि पर बारिज बरन हैं ।
जानु युग नाल फूले सुन्दर सरोज दोऊ,
अति ही सुदेस महा मन के हरन हैं ॥
उन्नत अँगूठा नख-आभा आँगुरीन पर,
चन्द्रकला आई किधौ राहु के डरन हैं ।
हौं हूँ हेरि हारी, रीके रसक बिहारी हँस—
गति अनुसारी की धौ प्यारी के चरन हैं ॥

अजी, ये नायिका के चरण नहीं हैं, दो सुन्दर सरोज फूले हैं । नायिका के युग जानु ही इन दोनों सरोजों के नाल हैं । और उन्नत अँगूठों में जो नखों की चमक दिखाई देती है, वह वास्तव में चन्द्रमा की कला है, जो राहु के भय से नायिका के पैरों में आ छिपी है । कैसी ऊँची उड़ान है ।

विधि उपजाये पुनि कमला बसाये आनि,
सूर सों मिलाये कर घाम सीत खायौ है ।
हरि गङ्गौ हाथ ताते अति ही सनाथ भयो,
मान सर वासी सीस शंकर चढ़ायौ है ॥

काम को सहाय भयौ, रस-गंध-रूप भयौ,
तीनों लोक मोंभ यश तेरौ सुनि पायौ है ।
तदपि ये नागरी के चरण कमल चारु,
ताकी समता को नूर रंचक न आयौ है ॥

कमल ने ब्रह्मा की नाभि से जन्म पाया, फिर वह लक्ष्मी जी का निवास-स्थान बना, घाम और शीत में एक टाँग से खड़े रह कर तपस्या करता रहा, विष्णु भगवान् के हाथों में बसा, शंकर जी के सिर पर चढ़ा, कामदेव का सहायक बना और सूर्य का भक्त रहा । यह सब करने से उसकी तीनों लोकों में तो प्रसिद्धि हो गयी, परन्तु नागरी के चरणों के समान वह फिर भी न हो सका । क्या खूब !

अरुणता एड़िन की रवि-छवि छाजत है,
चारु छवि चन्द आभा नखन करे रहै ।
मंगल महावर गुराई बुध राजत है,
कनक बरन गुरु बानक धरे रहै ॥
शुक्र सम ज्योति शनि-राहु-केतु गोदना है,
'मुरली' सकल सोभा सौरभ भरे रहै ।
नवौं ग्रह भाइन ते सेवक सुभाइन तैं,
राधा ठकुराइनि के पायन परे रहै ॥

उपर्युक्त पद्य में तो कवि ने नवों ग्रहों को राधिका जी के चरणों पर बांध दिया है । कवि की कल्पना ही तो ठहरी ।

कैधौ मान सर ही के विमल कमल दोऊ,
सोहैं जपा जावक सुरंग अनुहारी के ।
कैधौ सुर तरु के सुपल्लव विमल राजैं,
कैधौ ये विराजैं भानु भ्रमतम हारी के ॥
'द्विज' कहै कैधौ रति-पति के मुकुट वारी,
लाल मणि माणिक अमित गुण भारी के ।
लोमित रहत मन-मोहन को जामें ऐसे,
शोभित चरण वृषभानु की दुलारी के ॥

इस पद्य में भी द्विजदेव जी ने चरणों के सम्बन्ध में कौसी-कौसी उत्प्रेक्षाएँ की हैं। कभी वह उन्हें मानसर के मरोज समझते हैं और कभी कल्पवृक्ष के पत्ते। एवं कभी उन्हें उनमें कामदेव के मुकुटों की भ्रान्ति हो जाती है।

पद-लालिमा

[पैरों की लालिमा के वर्णन में कविजन कमल, गुलाब, बंधूक आदि के पुष्पों, इन्द्र बधू, मूंगा, लाल, महावर, नूतन सूर्य किरणों, पके कुँदरू, मजीठ, ईगुरु आदि से उपमा देते हैं ।]

देखिए, कवि श्रीधर जी पद-लालिमा का वर्णन किस ढंग से करते हैं—

कौहर केतीक इन्द्र बधू के वरण जीते,
 मँहदी के वन्दन की झलकी सहल की ।
 सहज ही रंगदार, जावक सुरंग भार,
 हात न सँभार डगे भरती कहल की ॥
 'श्रीधर' अरुण छवि छटा छहराय रही,
 छिति में बिछाई मानों पाँखुरी कमल की ।
 ज्यों ज्यों प्यारी मंद मद पायन धरति आवै,
 पौध सी धरति आवै त्यों त्यों मखमल की ॥

अर्थात् नायिका के पदों की लालिमा ने महावर, इन्द्र बधू, मँहदी आदि सब की अरुणिमा को जीत लिया है और उनकी कोमलता ने कमल की पखड़ियों को भी मात दे दिया है। वह जहाँ-जहाँ पैर रखती है वहाँ-वहाँ भूमि मखमल सी हो जाती है।

अब उदैनाथ जी का पद-लालिमा वर्णन भी सुन लीजिए—

अरुण कमल अरुणोदय परम मित्र,
 तिनहूँ कौ लाली ते लजावति है अंग तू ।
 'उदैनाथ' ईगुर गुलाल गुड़हर लाल,
 निदरत लाल ऐसे करत प्रसंग तू ॥
 बाजत न नूपुर कहत चरनन छूवै-छूवै,
 जा में सुख पावै हरी सोई करि ढंग तू ।
 पायन में मेहदी रँगाई राधे कौन काज,
 सहज ललाई को बिगारे जानि रंग तू ॥

नायिका के पैरों की लालिमा इतनी बढी-चढी है कि उसके आगे अरुण कमल, ईगुर, गुलाल, गुड़हर आदि सब फीके पड़ गये हैं ।

कविवर शम्भु जी का नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने लायक है—
बिम्बा, प्रवाल, बँधूक, जपा, गुललाला गुलाब की आभा लजावति ।
'शम्भु जू' कञ्ज खिले टटके किसलै बटके भटके गिरा गावति ॥
पाँव धरे अलि ओर जहाँ तिहि ओर ते रग की धार सी धावति ।
मानो मजीठ की माठ दुरी एक ओर तें चाँदनी बोरति आवति ॥

शम्भु कवि ने तो लालिमा के वर्णन में कमाल ही कर दिया । नायिका अपने पगों की अरुणिमा से बिम्बाफल, प्रवाल, वधूक पुष्प, जपा आदि को लज्जित करती है; इतना ही नहीं, बल्कि वह जहाँ जहाँ पैर रखती है, वहाँ वहाँ ऐसा जान पड़ता है, जैसे लाल रग की धारा बह चली हो । जिस समय वह बिछी हुई चाँदनी पर चलती है, उस समय तो यह मालूम देता है, मानो चाँदनी मजीठ के मटके में बोर दी गयी है ।

एड़ी वर्णन

[एड़ी की सुन्दरता-वर्णन में उसके लिए ईगुर या मूँगा के रंग, कमल, गुलाब, दुपहरिया के फूल, अनार या कौहर के फल से उपमा दी जाती है ।]

देखिए, कवि काशीराम एड़ियों का वर्णन किस खूबी के साथ करते हैं—

मन्दर है चित्त इन्द्रबधू के बरन होत,
प्यारी के चरन नवनीत हू ते नर में ।
सहज ललाई जाति बरनी न 'काशीराम',
चुई सी परति छवि बाँकी गति भर में ॥
एड़ी ठकुराइन की नाइन गहति जब,
ईगुर सों दौरि आवै रंग दरवर में ।
दीन्हों है कि दीवे है निहारि सोचे बार बार,
बावरी सी हूँ रही महावरी लै कर में ॥

ठाकुराइन के चरण कोमलता में तो नवनीता से भी अधिक नरम हैं, लालिमा में इन्द्र वधुओं को भी मात करते हैं । सच तो यह है कि उनकी स्वाभाविक ललाई उनमें से चुई-सी पड़ती है । नाइन जब कभी उनमें

महावर लगाने बैठती है, तो उनकी सहज अरुणिमा देख हकी-बकी सी रह जाती है। वह उन्हें बार-बार देखती और सोचती है कि मैं इनमें महावर लगा चुकी हूँ, या अभी लगानी है।

नीचे लिखे दोहे में भी एड़ियों का वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया गया है। देखिए—

जो हरि जग मोहित करै, सो हरि परे बेहाल।

कोहरि सी एड़ीन ते को हरि लियो न बाल् ॥

बाला ने कोहर सहश अरुण वर्ण एड़ियों से किसे अपने वश में नहीं कर लिया। अजी, औरों की तो बात ही क्या चलाई, जो हरि संसार को मोहित करने वाले हैं, वे भी तो उन्हें देख कर विह्वल हो गये हैं। भावों के साथ-साथ दोहे की शब्द-योजना भी देखते ही बनती है। खूब !

पटांगुलि-वर्णन

[पैरों की उँगलियों का वर्णन कविजन चम्पा कली, प्रियतम की जीवन मूरि आदि से उपमा देकर किया करते हैं।]

देखिए उनके वर्णन में कविवर चिन्तामणि का नीचे लिखा कविच कितना सुन्दर है—

इन्दिरा के मन्दिर में दशहूँ दिशा की किधौँ,

इन्दिरा है जैतवार अरुण नगन की।

कौल ढिंग कंचन की बिछिया मराल बाल,

तिनके धौँ लाल मुख पाँति है नखन की ॥

‘चिन्तामणि’ कीधौँ मृदु चरण धरत दुति,

पल्लव बिछौना की निशानी है मगन की।

काम मन्त्र मोहिनी के जपिबे को विदुम की,

गुरियाँ की बाम की अँगुरियाँ पगन की ॥

नायिका की उँगलियाँ क्या हैं, नायक के वश करने के निमित्त काम मन्त्र जपने की गुरियाँ हैं। खूब !

और देखिए—

अरुण कमल पद्म पाँखुरी की पाँति लसै,

सरस सधन शोभा मन के हरण की।

दीर्घ न लघुताई, पातरी सुहावनी हैं,
देखे दुति होति जाति विद्रुम वरण की ॥
नख की निकाई नीकी आरसी सी सोहति है,
जामे देखी जाति शोभा सौति के तरण की ।
'भरमी सुकवि' कहि आवति न मेरी मति—

पॉगुरी भई है, लखि आंगुरी चरण की ॥

कविवर भरमी जी की बुद्धि तो नायिका के चरणों की 'आंगुरी' देख कर बिलकुल पॉगुरी (पगु-कुण्डित या ठगी-सी) हो गई है । उससे तो उनके विषय में कुछ कहते ही नहीं बनता ।

पद-नख-वर्णन

[पद-नखों के सौन्दर्य की उपमा चन्द्रमा, पुष्प, तारे, सूर्य, मणि आदि से दी जाती है]

देखिए, निम्नलिखित कवित्त में पद-नखों का वर्णन कैसी सुन्दरता से किया गया है—

चरण सरोवर के तट पाँति हंसन की,
पदुमालया की देहरी में हीरे जरे हैं ।
पग पारवती के गणेश पूजे कुंद ही सों,
मेलते सजीव के उठाय ठाढ़े करे हैं ॥
नख तारे गगन के चन्द के बसीठी आये,
नेक निशि भूल्यो रवि बैर जिय धरे हैं ।
नूर की निकाई न बताई जाइ प्राणपति,
ऐसे प्यारी-पाय सब सुखमा सों भरे हैं ॥

ये नायिका के पद-नख नहीं हैं, वरन् चरण रूपी मानसरोवर के तट पर हंसों की पाँति आ विराजी है । अथवा आकाश के तारे चन्द्र के बसीठ बन कर उसके आस-पास आ बैठे हैं । क्या अद्भुत उड़ान है !

अब कविवर मतिराम जी का पद-नख वर्णन भी सुन लीजिए । आप कहते हैं—

राधे के चरण युग अरुण-अरुण रूप,
लालिमा न बलि ऐसी लालन में होती हैं ।

कमल सुमन इते शोभा भये शोभित हैं,
 दाहन मरत जपा भये मानो गोती हैं ॥
 तामें सुधाधर से विविध भाति राजत हैं,
 कहैं 'मतिराम' नख मिले वनि जोती हैं ।
 यातें एक उपमा अधिक भासी मेरे जीय,
 पकज दलन अग्रधरे मानो मोती हैं ॥

अरे साहब, राधिका जी के पद-नखों के सम्बन्ध में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ । परन्तु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये चरण नहीं, अरुण कमल हैं, और आप जिन्हें नख बताते हैं, वे बड़े बड़े मोती हैं, जो कमल की पंखुड़ियों के अग्रभाग में सजा कर रख दिये गये हैं । ठिकाना है, इस सूरु का !

गुल्फ-वर्णन

[गुल्फों का वर्णन करने में उनकी उपमा रेशम की गाँठ के समान छवि, कामदेव की कपूर की कोठी, रति के डिम्बे, कंचन के ताले या रूप के मूल में दी जाती हैं ।]

नीचे लिखे पद्य में गोरी की गारी-गोरी गुल्फों का कैसा सुन्दरतापूर्ण वर्णन किया गया है, देखिए—

करेगी कहा तू दृग-अञ्जन दै रावे पग,
 भञ्जन कै हरी बुद्धि नन्द के दुलारे की ।
 लाल नख लाल आँगुरीन लखि लीन भया,
 लाली लखि लाल वाके चरण किनारे की ॥
 तरवा सुरंग एड़ी ईगुर की रँगो रंग,
 छवि है तरग अग कारे चटकारे की ।
 गोरी तेरी गोरी गोरी गोल गुल्फन पर,
 नजर निगोड़ी गड़ी जुल्फन बारे की ॥

और भी देखिए, नीचे के पद्य में कवि ने गुल्फों के सम्बन्ध में कैसी-कैसी उत्प्रेक्षाएँ की हैं—

चरण कमल करि दृष्टक की शोभा देत,
 पूरी मनि मानो लट नागिनी उलफ की ।

रम्भा तरु उलटि कपूर पूर राखिबे की,
कोठी है जुगल कम काम के कुलफ की ।
साजत सुदेश गॉठ गिरी है दिनेश कैधों,
रेशम-रसे की रूप-भूप के सुलफ की ।
एङ्गिन सों आड़ राजै पायन दुहूँ विराजै,
अति छवि छजै लाल गोरी के गुलफ की ॥

पिंडुरी-वर्णन

[पिंडुलियों का वर्णन करते समय उनकी करभ और दीप शिखा से उपमा दी जाती है ।]

कविवर चिन्तामणि जी ने पिंडुलियों का वर्णन कैसे सुन्दर ढंग से किया है, देखिए—

सार घनसार को लै केसरि कनक चूर,
सानि सुधा सलिल सँवारी है किसौरी की ।
चीकनी करभ ही सो करी है विरचि पुनि,
ताते तैसी भई है युगति नहिं थोरी की ॥
रम्भा-छवि छीनि लीन्हीं, रम्भा-छवि छीन कीन्हीं,
'चिन्तामणि' तिलोत्तमा रति मति भोरी की ।
जे हरि के उर बसी जे हरि सों अति लसी,
ऐसी गोरी गोरी गोल पींडुरी हैं गोरी की ॥

विधाता ने कपूर का सत्व और केसर तथा सोने का चूरा सुधा में सान कर उस मसाले से राधिका जी की पिंडलियाँ बनाई हैं । तभी तो वे ऐसी जान पड़ती हैं, मानों उन्होंने कदली स्तम्भ की शोभा चुरा ली है । यही कारण है कि उनके आगे रम्भा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं की ही नहीं बल्कि रति की भी छवि क्षीण जान पड़ती है, और इसीलिए वे हरि के हृदय में बस गई हैं ।

और भी सुनिये—

गोरी गोलारी सुढारी सी साँचे की देखत० देहन कोमल काकी ।
रम्भ कुसुम्भ किधौं हैं किधौं छवि छीनत कंचन के कलिका की ।

काम गढ्यौ बढ़ः है किधौँ रति के रति कीवे को या पलिका की ।
‘तोष’ विलोकि विलोचन मै न बसी बलि पीडुरिया मलिका की ॥

कविवर तोप जी ने पिंडलियों के सम्बन्ध में कैसी अनौखी कल्पना की है । आप कहते हैं—ये नायिका की पिंडलिया नहीं हैं बल्कि रति के रमण करने के वास्ते सुन्दरी के शरीर रूपी पल्लव के पाए हैं, जो कामदेव ने बढ़ई बनकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं ।

जंघा (जानु) वर्णन

[जघाओं के वर्णन में हाथी की सूँड़, केले के वृक्ष, कामदेव के तरकस, सोने के खम्भ आदि से उपमा दी जाती है ।]

कविवर चिन्तामणि जानुओं का वर्णन किस विलक्षण ढंग से करते हैं, देखिए—

वृषभानु-नन्दिनी की जानु जैतवार याते,
मेरे जान रम्भा-रुम्भ आत ही सकात है ।
‘चिन्तामणि’ कहै वाके कौपत रहत पत्र,
थाही डर वाको प्रति सीरो भयो गात है ।
कोमल धेरण कर कसहूँ सो हारत हूँ,
कहा कहौं या विचार चित्त अकुलात है ।
ये ही यन्त्र करिवे को मेरे जान बार-बार,
करी कर करिन के निकट ही जात है ॥

वृषभानु नन्दिनी की जघाओं को देखकर कदली स्तम्भ लज्जित और भीत हो गए, इसीलिए उनके पत्ते थरथर काँपते हैं, और शरीर ठंडा पड़ गया है । उधर हाथी की सूँड़ भी राधिका जी की जाघों के आगे अपने आपको कुरूप और कर्कश पाकर, विकल हो इधर-उधर छुट-पटाती रहती है । ओ हो ! हाथी जो बार-बार दौड़-दौड़ कर कदली वन में जाते हैं, उसका भी रहस्य अब समझ में आ गया । क्योंकि करी-कर (हाथी की सूँड़) और कदली-स्तम्भ दोनों ही राधा जी की जंघाओं से पराजित हो चुके हैं, इसलिए परस्पर मन्त्रणा करने के लिए वे बार-बार इकट्ठे होते हैं ।

और भी सुनिए—

कोमल कमल-मुखी तेरे ये जुगल जानु,
मेरे बलवीर जू के मनहिं हरत हैं ।
सौरभ सुभाय सुभ रम्भा सो सदन अरु,
'केसव' करभ हू की सोभा निदरत हैं ॥
कोटि रतिराज सिरताज ब्रजराज की सों,
देखि-देखि गजराज लाजन मरत हैं ।
मोच मोच मद रुचि सकल सकोच सोच,
सुधि आए सुंडन की कुडली करत हैं ॥

नायिका की जंघाओं को देख कर गजराज का सारा मद चूर-चूर होगया, और मारे संकोच के बेचारे ने सिर नीचे झुका लिया । उसे जब अपने इस पराभव की याद आती है, तब वह सूँड़ की कुण्डली बनाने लगता है ।

निम्नलिखित पद्य में जघाओं का वर्णन कितनी सुन्दरता से किया गया है—

कदली डुलाह कर पल्लव करत मने,
हौ तौ वनवासी मोहि किजिये न सर है ।
कारो करकस जानि करी हू सकेलि कर,
धुनै सीम देत प्यारी जान पटतर है ॥
तब याकी सूरति करभ एक रच्यौ विधि,
सोऊ रसराज उपमा के न सुघर है ।
एरी तेरी जानु रति समे पिय ही के कर,
करभ निलज पर्यौ सब ही के कर है ॥

यदि नायिका के जानुओं की उपमा कदली स्तम्भ से दे, तो वह पहले ही पल्लव-पाणि हिलाकर कहता है—“भला मैं वनवासी उनकी समता कैसे कर सकता हूँ ।” हाथी की सूँड़ से समता करना चाहें, तो वह भी उसे काली और कर्कश जानकर सूँड़ समेट लेता तथा अपने शीश पर धूलि रख कर अपनी अकिञ्चनता प्रकट करता है । यदि करभ से तुलना करे तो यह भी अति अनुचित है । कहाँ जने-जने के हाथ में डोलने वाला निर्लज्ज करभ, और

कहाँ प्रतिक्षण वस्त्राच्छादित रहने वाले नायिका के सलज्ज जानु । “कहहु तो
कहाँ चरण कहीं माथा ।”

नितम्ब वर्णन

[नितम्बों के वर्णन में उनकी चक्रवाक, द्वीप, नदी के कूल आदि से
उपमा दिया करते हैं ।]

कविवर केशव जी नितम्बों का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

चहुँ ओर चित्तचोर चाक चक्य चक्रमणि,
सुन्दर सुदर्शन दर्शन ही ने हैं ।

दितिसुत सुखनि घटाइवे को सुख रूप,
सुरनि बढाइवे के 'केशव' प्रवीने हैं ॥

सब ही के मननि हरन करि हरि हू के,
मन मथिवे को मनमथ हाथ लीने हैं ।

रुचि शुचि सकुचि सकेलि कै तरुणि तेरे,
काहू नये चतुर नितम्ब चक्र कीने हैं ॥

अब ज़रा नितम्बों के सम्बन्ध में नूर कवि की कल्पना भी देख लीजिए—

पिय रति श्रमता के थाँभिबे की ठौर कीन्हीं,
रूप के नगारे मैन उलटि कै राखे हैं ।

कीधौँ काम माल ताकी नाल सी सिखत सिखी,
कीधौँ पीठि देवी ताके शुद्धि घर भाखे हैं ॥

कीधौँ चक्र चतुराई ताही के हैं आगे धरे,
कोविद के मारिबे को 'नूर' अभिलाखे हैं ।

शोभा सब जग की सँवारि कै धरी है मानो,
तरुनी के नीके ये नितम्ब रचि राखे हैं ॥

और देखिये, कविवर तोष जी नितम्बों के बारे में क्या कहते हैं—

कीधौँ द्वार मार जू के दोऊ चार चैतरा हैं,
कीधौँ चक्रवाक चित्तचोर सुर नीके हैं ।

चामीकर चक्र चहँहैं जात याहि चिन्तना ते,
चित्त ये चपल नैनी जौन करनी के हैं ॥

रति के सहायक हैं 'तोष' सुखदायक हैं,
राखिवे के लायक अगर वरुनी के हैं ।
सवरारि रागी जू के तँबूरा विराजत कै,
मैन ही के तब कै नितम्ब तरुनी के हैं ॥

उपर्युक्त कवित्तों के अर्थ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें प्रवीण पाठक स्वयं ही भले प्रकार विचार सकते हैं ।

कटि-वर्णन

[कवियों ने कटि की सुन्दरता उसके अधिक से अधिक क्षीण होने में मानी है, और उसकी उपमा केहरि-कटि सिवार, मृणाल के तार, बाल, मुंदरी आदि से दी है ।]

कटि के वर्णन में कवियों की कल्पना-कुरंगी ने कैसी-कैसी कुलाचें भरी हैं, इसके कुछ नमूने नीचे देख लीजिए—

सिंहनी के करिहाँ ते छीन कञ्जनाल कर्यौ,
कञ्जनाल हूँ ते नागबेलि हू न घटि है ।
नाग बेलि हू ते छीन जान्ये गुनवन्त गुन,
गुन हू ते छीन बर-बार कर्यौ वटि है ॥
बार हू ते छीन तार 'चदन' विचार कर,
तार मकरी को रच्यौ सक्षय निपटि है ।
मकरी के तार हू ते चारु सुकुमार अति,
करी करतार यह तेरी छीन कटि है ॥

उक्त पद्य में नायिका की कटि मकड़ी के जाले से भी बारीक बताई गई है । अब कविवर चिन्तामणि की उड़ान देखिए—

सुन्दरि को मध्य विधि बड़े ही यतन रच्यौ,
ताते अनुपम एक औरै रूप ठयो है ।
चारि को तो अंक पल में हजार करे रच्यौ,
तैसो कहै कोऊ सो तो मूढ गुण लयो है ॥
'चिन्तामणि' राधिका की कटि चितै सिँह-कटि,
हारि गो निपट सोच ताके मन भयो है ।

अब कहूँ सुनिये न लाज ही ते मेरे जान,
तब ही ते मृगराज मदी छोड़ि गये है ॥

राधिका जी की कटि को चार के अक्र से उपमा देना तो महा मूर्खता होगी, अजी उनकी कमर ने तो भिंह की कमर को भी मात दे दिया है। इसी लिए तो सिंह मारे लज्जा के जगल में जा छिपा है और अपना-मुँह दिखाना भी पसन्द नहीं करता।

अब ज़रा केशवदाम जी की भी सूझ देविए। इन्होंने तो नायिका की कटि को कोरी कल्पना बता दिया है, वास्तव में वह है नहीं। सुनिए—

भूत की मिठाई जैसी, साधु की भुटाई जैसी,
स्वार की टिठाई जैसी छीन छहों ऋतु हैं।

धीरा कैसा हास 'केशवदाम' दामी कैमो मुख,
सूर कैसी संक अक्र रक कैसो वितु है ॥

सम कैसो दान, महामूढ कैसो जान गौरी—
गौरा कैमो मान मेरे जान समुदितु है।

कौने है सँवारी वृषभानु की कुमारी यद,
तेरी कटि निपट कण्ठ कैमो दितु है ॥

अर्थात् ऊपर वर्णित चीज़ें जैसे कल्पना मात्र या नाम मात्र को होती हैं, वैसे ही राधिका जी की कटि भी है। वस्तुतः वहाँ है कुछ भी नहीं।

कविवर शंकर जी ने कटि का कैसा सुन्दर वर्णन किया है, उसे भी पढ़ लीजिए—

पास के गये पै एक बूँद हू न हाथ लगे,
दूर सो दिखात मृग तृष्णिका में पानी है।

'शंकर' प्रमाण सिद्ध रंग को न सग पर,
जान पड़े अम्बर में नीलिमा समानी है ॥

भाव में अभाव है, अभाव में धौ भाव भर्यौ,
कौन कहै ठीक बात काहू ने न जानी है।

जैसे इन दोउम में दुविधा न दूर होत,
तैसे तेरी कमर की अकथ कहानी है।

कमर की 'अकथ कहानी' के साथ, गम्भीर दार्शनिक भाव को, इस खूबी के साथ नत्थी कर देना शङ्कर जी का ही काम है ।

कविवर तोषनिधि जी का भी कटि-वर्णन पढ़िए, आपकी सूझ भी निराली है—

कोऊ कहै वारसी सिवार सी कहत कोऊ,
कोऊ कञ्ज तार सी बतावत निशङ्क हैं ।
मेरे जान सिरफ लुनाई की लपेट लागी,
ताही की लहक औ लचक होत बङ्क है ॥
'तोप निधि' जो पै वे अधार को वहम वाटै,
तो पै परतुच्छ को प्रमान कौन टङ्क है ।
जैसे भूमि-अम्बर के मध्य मे न खम्भ कोऊ,
तैसे लोल लोचनी के अङ्क मे न लङ्क है ॥

अरे साहब, लोग भी क्या वहम में पड़े हैं । कोई नायिका की कमर को सिवार-सी बताते हैं, और कोई बाल सी बयान करते हैं । परन्तु मेरा ख्याल तो यह है कि वहाँ कुछ है ही नहीं । यदि आप यह शङ्का करे कि जब नायिका के कमर-नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर उसका ऊपरी घड़ किसके आधार पर ठहरा है, इसके समाधान के लिए भूमि और आकाश का प्रत्यक्ष सबूत मौजूद है । जैसे भूमि पर आकाश बिना खम्भे के डटा है, वैसे ही नायिका का ऊपरी भाग भी पैरो पर टिका हुआ है । अस्तु, अब इससे भी बढ़ कर एक और कल्पना देखिए—

कीन्हो कमलासन कला निधि वदन तेरो,
सकुन्धौ कमल सार बासर निसरि गो ।
भयो है उताल रचिबे को तेहि काल बाल,
बाहस विडरि वाको साहस सिसरि गो ॥
टेढी कीन्हौ भौहें, कच कीन्हें कुटि लौ है फेरि,
कलिका भए ते वाको आसन खसरि गो ।
गोप जनि जान्यो ख्याल जगत-जनायो यह,
याते वाको कटि को बनाइवो विसरिगो ॥

कविवर तोषनिधि का तो ख्याल ही था कि नायिका के अङ्क मे लङ्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। परन्तु उक्त कविन मे तो दावे के साथ कहा गया है कि नायिका के शरीर मे कमर हरगिज़ नहीं है। विधाता उसका बनाना ही भूल गया हे। इसका सबूत लाजिए—जिस समय ब्रह्मा जी बाला के शरीर की रचना करने लगे और उन्होंने उसका मुख-चन्द्र बनाया, तो उसे देखते ही ब्रह्मा जी का आसन (कमल) चलायमान हो गया—सिकुड़ने लगा। इससे ब्रह्माजी के होश-हवास उड़ने लगे। और हाथ-पाँव फूट गये। फिर भी बेचारे जल्दी-जल्दी दूसरे अंगों की रचना करने लगे, तो उन्होंने घबराहट में भौंहेँ टेढ़ी बना दी, बाल भी कुञ्चिन कर दिये और वे उसकी कमर बनाना तो भूल ही गये। खूब ! क्या ही अनोखी कल्पना और कैसी ऊँची उड़ान है। सचमुच कवि-प्रतिभा इसे ही कहते हैं।

नाभि-वर्णन

[नाभि को कवियों ने रस का कुण्ड, रूप की बाँधी, छवि सरिता का भँवर, शृङ्गार की गुफा, विधाता का दवात, कामदेव की मथानी आदि से उपमाएँ दी हैं।]

देखिए, किसा ने नाभि का क्या ही अच्छा वर्णन किया है—

शिशुता के भाजिबे के गहरी गुफा है कंधौ,

रस की तरगिनी मे भौर मङ्गधार के।

लच्छन बतीस हू के शोभा को भँडार यह,

सौतिन के गरब गये हे एक बार के ॥

कीधौ सुधा कुंड देख गहरे गई हे मति,

उपमा न आवति न पावति विचार के।

रूप के नगर काम भूप ने बसायो तामे,

नाभि रस कूप मन मोहे रिभवार के ॥

लीजिए, नाभि का वर्णन करते करते उसे सुधा का कुंड समझ कवि जी की बुद्धि भी उसमें गहरा गोता लगा गई, फिर भी उसे उसके अनुरूप कोई उपमा न मिली।

अब ज़रा चिन्तामणि जी का भी नाभि-वर्णन सुन लीजिए। आप कहते हैं—

अंधकार मध्य मुनि मैन की गुफा है कीधौं,
रूप ठग काज हेत बीच तम कूप है ।
श्याम ही तमाल तरु को है आल-बाल कैधौ,
व्याल को विवर अति सुभग सरूप है ॥
'चिंतामणि' कैधौ नीलमणि की सुपान बाँधि, '
भूमि गृह रच्यौ एक मनसिज भूप है ।
अति-ही गँभीर रोम राजी के निकट कैधौ,
तरुणी को नाभि कूप लसत अनूप है ॥

चिंतामणि जी ने तो नाभि को तहझाना ही बना दिया और उसमें
बुसने के लिए रोम-राजि रूप नील मणि की सीढ़ियाँ भी लगा दीं । खूब !

+ + +

किसी उर्दू कवि ने नाभि के तिल का कैसा सुन्दर वर्णन किया है,
देखिए—

झाले सियाह नाफे मुदब्बर के पास है ।

जो हिन्दसा कि पाँच था वह अब पचास है ।

कवि ने नायिका की गोल नाभि के पास तिल देखकर उसे पचास बना
दिया । उर्दू में पचास ०. इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात् तिल के कारण
नाभि की शोभा दस गुणी बढ़ गई । यह भाव !

उदर-वर्णन

[उदर की उपमा मानसरोवर, पीपल का पत्ता, कमल-दल आदि से दी
जाती है ।]

देखिए, नूर कवि ने उदर के वर्णन में मानसरोवर का कैसा सुंदर रूपक
बाँधा है—

'नूर' रस छलकै, सुनाभि भौर भलकै नि-

हारि लाल ललकै लग्यौ धौ लोभ सर है ।

त्रिवली तरंग है रूमावली सिङ्गार संग,

मकर अनग कहैं नागरि सुनर है ॥

मुख सुधा सर मध्व मीन दृग देखि-देवि,
भर कै परस केा सरस बाभू धर है ।
हस कुच कौल हार मोतिन के माल गरे,
उदर तनोदरी केा मानो मानसर है ॥

उदर रूपी मानसर मे शोभा रूपी जल भरा है । नाभि रूपी भँवर पड़ रहे हैं । त्रिवली की तरगे और रोम राजि का सिवार है । स्तन युग ही कँवल या हंस हैं । नायिका के गले में जो मुक्ताहार पडा है, उसने मानसर में मोतियों की कमी पूरी कर दी है ।

और भी सुनिए—

केमल अमल दल कमल नवन कैधौ,
कीन्हों है विरचि सब छवि को सहेट है ।
उदित प्रभाकर की दुति आन छाई कैधौ
चमकत चार खोत लोचन लपेट है ॥
सुदर थली है भली मदन विराजिवे की,
जाकी सम कीन्हे होत उपमा तरेट है ।
चीकनो परम मखमल ते नरम ऐमो,
प्यारी जू कौ पेट तेत मन को लपेट है ॥

विधाता ने नायिका का उदर नहीं बनाया, वरन् छवि रूपी नायिका के अभिसार के लिए संकेत स्थान बनाया है । क्योंकि कामदेव के बैठने की स्थली यही है ।

उदर के वर्णन में कविवर लीलाधर जी का भी एक पद्य पढने लायक है । देखिए—

ललित वलित लौटे परी जाके बीच कैधौ,
लहरें बढावति सरूप पारावार है ।
नाभी सर तट न्हान जान को विमल हेम-
सीढी बँधवाई मैन भूपति उदार है ॥
'लीलाधर' दरस-दरस सुख कारी जामें,
बरस-बरस छवि छलक प्रचार है ।

मुद रति बारो रच्यौ उदर तिहारो ऐसो,
कुदरति वारी कहियतु करतार है ॥

सचमुच करतार बड़ा ही 'कुदरत' वाला है, जो ऐसी-ऐसी अनोखे वस्तुएँ बनाता रहता है। यहाँ नाभि-सर में प्रवेश करने के लिए, पेट व सलवटो के सम्बन्ध में सीढियों की कल्पना की गई है

त्रिवली-वर्णन

[त्रिवली का सौन्दर्य वर्णन करते समय, सँकरी गली, सीढियाँ, नदी रथ-चक्र की लीक आदि से उसकी उपमाएँ दी जाती हैं ।]

लीजिए, त्रिवली के वर्णन में कवि रघुनाथ जी का एक पद्य पढ़िए—

मन-हस बसिवे को रूप की नदी में कैधौ,
निकसी पुलन पाँति काँति हेम लोने की ।
सँसव सों लरिबे को यौवन महीप कै धौ,
कीन्हीं मेड मोरचे की साध जीत होने की ॥

नैन बस करिवे को कहै कवि 'रघुनाथ',
त्रिवली निया की कैधौ तीनि रेख टोने की ।
कुच-भार धरिबे को देखि अति छीन कटि,
कैधौ काम बाँधी है बनाइ दाम सोने की ॥

कवि रघुनाथ जी कहते हैं कि नायिका के शरीररूपी रूप की नदी में नायक के मनरूपी हस के बैठने के लिए त्रिवली रूपी पुलिन है । अथवा यौवन-महीप ने शैशव से लड़ने के लिए, युद्ध क्षेत्र में त्रिवली का मोच बनाया है । या ऐसा जान पड़ता है कि नायिका के शरीर को कुदृष्टि से बचाने के लिए टोना की ये तीन रेखाएँ खींच दी हैं । अथवा नायिका की क्षीण कटि पीन स्तनों के भार से झुक न जाय, इसलिए कामदेव ने तीन सोने व पेटियाँ बाँध दी हैं ।

और भी देखिए—

कैधौ मैं भूपति के रथ के सुचक्र चले,
तिन ही की लीकें उर-भूपै जान तौन है ।

कैधौ मेन ठग की गली ये भली ठगिबे की,
कैधौ रूप-नदी हूँ त्रिधार कियो गौन है ॥
ऐसी छवि देखी एरी मोहे मनमोहन जू,
याते मैं हू जानी ये ही मोहिबे को भौन है ।
एक बली खवही को बस करि राखत है,
त्रिवली जो करै बस अजरज कौन है ॥

- अरे सौहव, बली (बलवान्) तो एक ही बहुतों को बश में कर लेता है, जहाँ त्रिवली (तीन बली) एकत्र दो, वहाँ जगत का वशीभूत हो जाना भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है । फिर यहाँ नायिका की त्रिवली ने यदि मोहन का मन मोह लिया, तो इसमें अचम्भे की कौन बात है ।

रोम-राजी-वर्णन

[रोम-राजी की उपमा प्रायः अन्धकार, धुआँ और चींटियों की पाँति से दी जाती है ।]

नीचे लिखे पद्य में रोम-राजी का कैसा सरम वर्णन किया गया है—

कैधौ यह पान पै बमीकर को मन्त्र लिख्यो,
देखि छवि मोहे कौन ? त्रिधा पचसर की ।
हृदय सरोवर सिंगार रस जल कैधौ,
उमड़ि चल्यौ है नाभि कुण्टिका गहर की ।
छोटे-छोटे आखरन अबला लिखाय याते,
आपनी सबलताई सुरता समर की ।
जिन्हें देखे नैनन की गति मति भाजी यह,
तेरी रोमराजी कैधौ बाजी-बाजीगर की ॥

यहाँ रोमराजी की उपमा पान पर लिखे वशीकरण मन्त्र, हृदय-सरोवर में भरे हुए शृङ्गार-रस रूपी जल आदि से दी गई है, ।

और भी देखिए, कवि केशव इस प्रसंग में क्या कहते हैं ।

कैधौ काम बागवान धोई है सिंगार बेलि,
सीचि के बढाई नाभी-कूप मन मोहिये ।

कीधौ हरि नैन खजरीटन के खेलिवे की,
भूमि 'कैसौदास' नख पंक रेख रोहिये ॥
कीधौ चलदल पान पिय को कपट ज्वर—
टूटिवे को मन्त्र लिखि लोचननि जोहिये ।
सुन्दर उदर सुभ सुन्दरी की रोमराजी,
कैधौ चित्त चातुरी को चोटी चारु सोहिये ॥

नायिका के उदर पर रोमावली नहीं है, यह तो कामदेव-माली ने शृङ्गार रस की बेलि बोई हुई है, जिसे वह नाभि-कूप के जल से सींचा करता है। अथवा कृष्ण जी के नयन-खंजरीटों के खेलने से ये उनके पञ्जों के निशान बन गए हैं। केशव जी भी क्या अनोखी उपमा ढूँढ कर लाए हैं।

कुच वर्णन

[कवि जन कुच सौन्दर्य वर्णन करते समय उनकी उपमा शिव, गिरि, घट, कमल, चक्रवाक, गुम्बज, फूलों के गुच्छा, हाथी के कुम्भ, श्रीफल आदि से देते हैं ।]

कुचों के वर्णन में कविवर तोष जी का पद्य पढ़िए—

कैसे कहों कोक वे तो शोक ही में रहें निसि,
ये तो ससि मुखी सदा आनंद सों हेरे हैं ।
कैसे कहों करि-कुम्भ वे तो कारे करकस,
ये तो चीकने हैं चारु हार ही सो घेरे हैं ॥
कैसे कहों कौल वे तो पकरे विथुरि जात,
ये तो गोरे गाढ़े आछे ठाढ़े आप नेरे हैं ।
याही है प्रमान 'तोष' उपमान आन प्यारी,
तरुनाई तरु ताके फल कुच तेरे हैं ॥

भाव स्पष्ट है, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं।

अब कवि आलम के कुच-वर्णन का नमूना देखिए—

मौनी बिबि गगा तीर करत तप्रस्या कैधों,
काम के तुका से लागे उठन उठौना के ।

यौवन नरस के चौगान के निसान कैधौ,
श्रीफल ते सरस खिलाने फूल दौना के ।
'आलम' सुकवि कलधौत के कलस कैधौ,
आनंद के कन्द की मनोज रस हौना के ।
स्वेत कंचुकी में कुच टापे नंदनन्दन प्यारी,
फटिक के सम्पुट में द्वै सरोज सौना के ॥

और भी लीजिए—

कैधौ रति जंग के सुभट युवराज सो हूँ,
कंचुकी सुरंग केस उन्नत अमाने हूँ ।
दृग कमनेत के कटाक्ष सर छुँड़िवे कौं,
मानो ये विरंचि रचे रंचिर निसाने हूँ ॥
कैधौ द्वै कलिन्दी कूल कोक सुभ्र सौँहै कै धौं
उरज उतंग लखि कान्ह मन माने हूँ ।
यौवन महीप अंग आगम सुगम जानि,
मदन फरास कैधौ तम्बू युग ताने हूँ ॥

कविधर शङ्कर ने नायिका के कुचों को यौवन-मानसरोवर के हंस माना है,
देखिए—

यौवन मानसरोवर में कुच हंस मनोहर खेलन आए ।
मोतिन के गलहार निहार अहार विहार मिले मन भाए ।
कंचुकी कुंज पतान की ओट दुरे लट नागिन के डर पाए ।
देखि छिपे छिपके पकड़े घर 'शंकर' वाल मराल के जाए ।
स्तनों के वर्णन में निम्नलिखित कवित्त भी बड़ा अच्छा है—
यौवन कुँदेरे कै धौं काम छोहरा के काज,
कंचन के लटुवा धरे धौं भाय नीके हूँ ।
रूप के केदार में सकेलि राखी रूप रासि,
कै धौं ये मनोरथ के फले फल धीके हूँ ।
कैधौ रसराज चारु छवि गात मूरिःलिये,
मार उपचार कौं कुमार अस नीके हूँ ।

को कहँ कहा विचारे, श्रीफल से वारे कीधौं,
छवि सॉच दारे प्यारे कुच कामिनी के हँ ॥

इस प्रसंग में कविवर दास जी का नीचे लिखा सबैया भी पढ़ने लायक है—

कंज के सम्पुट हँ, पै खरे हिय में गड़ि जात ज्यो कुन्तकी कोर हँ ।
मेरु हँ पै हर हाथ न आवत चक्रवती पै बड़ेई कठोर हँ ।
भावती तेरे उरोजन में गुण 'दास' लखे सब औरई और हँ ।
सम्भु हँ, पै उपजावे मनोज, सुवृत्त हँ पै पर चित्त के चोर हँ ॥

लोग स्तनों को जो कमल के सम्पुट से उपमा देते हैं, वह बिलकुल भूढ़ है, क्योंकि ये तो बाण की नोक के समान हृदय में चुभ जाते हैं ।..... कोई कुछ भा बतावै, पर दास कवि ने तो इनमें और ही और गुण देखे हैं । ये तो शंभु होते हुए भी काम को उद्दीप्त करते हैं, तथा सुवृत्त (गोलाकार) सदाचारी होते हुए भी दूसरों का चित्त चुरा लेते हैं ।

देखिए किसी कवि ने महादेव और स्तनों की तुलना कैसे सुन्दर ढंग से की है—

वै धरे अङ्ग भुजग के भूषण, एऊ भुजंग रहँ हिय धारे ।
वै धरें चद सँवारि कै भाल पै एऊ नखच्छद-चद सँवारे ।
संभु की औ' कुच की समता कवि कोविद भेद इतोई बिचारे ।
संभु सकोप है जार्यो मनोज उरोज मनोज जगावन हारे ॥

उधर शंकर जी भुजग-भूषण धारण करते हैं, तो इधर नायिका के स्तन भी हृदय में विष धारे हैं ।* महादेव जी अपने मस्तक पर चन्द्रमा सजाते हैं, तो ये भी नखच्छद रूपी चन्द्रमा से सुशोभित हैं । इन दोनों में अन्तर

* स्तनों में अमृत और विष दोनों ही रहते हैं । ये बालकों के लिए सुधा प्रदान करते हैं, और वृद्धों के वास्ते विष । जैसा कि शंकर जी ने कहा है—

बाल युवा अरु वृद्ध को, सुधा, सुरा, विष दैन ।
काढ़े कञ्चन कलश युग, रूप सिन्धु मथि मैन ॥

है, तो केवल इतना कि महादेव जी ने क्रुद्ध होकर मनोज को भस्म कर डाला था, और ये मनोज को उद्दीप्त करते हैं।

कंचुकीयुत कुच-वर्णन

कंचुकी से ढंके कुचों के वर्णन में नीचे लिखा सबैया कवि-कल्पना का कैसा उत्कृष्ट नमूना है—

प्रात समै वृषभानु सुता चलि आवति ही जमुना जल न्हाये ।
वारि सों चीर लग्यौ सब देह में दूनी दिपै छवि ओप बढाये ॥
दरियाई की कंचुकी में कुच की छवि यो छलके कवि देत बताये ।
वाज के श्रास मनो चकवा जलजात के पात मे गात छिपाये ।

इस प्रसंग में नीचे लिखे दोहे भी पढने लायक हैं—

नील कंचुकी में लसत यों तिय कुच की छाँह ।

मानो केसर रँग भर्यौ, मरकत सीसी मँह ॥

× × ×

विधु वदनी, तव कुचन की पाय कनक सी जोति ।

रँगी सुरंगी कंचुकी नारगी सी होति ॥

पीले और लाल रंग का मिल कर नारगी रंग बन जाना लोक प्रसिद्ध ही है। दोहे में कैसा स्वाभाविक वर्णन है। नारगी शब्द का यहाँ रंग और आकृति दोनों ही दृष्टियों में कितना उपयुक्त प्रयोग हुआ है।

करतल-वर्णन

[स्त्री के करतल (हथेली) की सुन्दरता का वर्णन नए पत्तों और कमल की पंखुरियों से उपमा देकर किया जाता है ।]

देखिए, कविवर काशीराम ने नायिका के करतल का वर्णन करने में कैसी अनूठी कल्पना का है ।

ऊदी होति नीलमणि वरणि सकै धौ कौन,

चुन्नी छपि जाति नीठि-नीठि दीठि न परै ।

याही जानि जौहरी जवाहिर धरत ढाँपि,

पीरी होत पैगू ते भगोडें छवि का धरै ॥

देत लेत वनत न घटत हमारो माल,
 आपुनो अनौखे नाह सोरह गुनौ करै ।
 बाला-हाथ मुकुता लै प्रकसे प्रवाल होत,
 'काशीराम' रजत रुपैया होवु मोहरै ॥

नायिका किसी जौहरी की दुकान पर मणि-माणिक्य की खरीदारी करने आई है। वह जब नीलमणि अपने हाथों में लेती है, तो उसका रंग ऊदा हो जाता है, यानी हथेलियों की लाल कान्ति के पड़ने से नीलमणि ऊदी-ऊदी दिखाई देने लगती है। चुन्नी तो नायिका के हाथों में जाकर बिलकुल ही छिप जाती है, निहार निहार कर देखने पर भी दिखाई नहीं देती। चुन्नी और हथेली दोनों का एक रंग होने से हाथ में उसका न दिखाई देना स्वाभाविक है। जौहरी ने जब ऐसी दशम देखी तो अपने रत्न ढक ढक कर रख लिये और कहने लगा—जाइए, हमारा आपका सौदा न पटेगा। भला ठिकाना है, आपके हाथ में जात ही हमारे माल का तां मोल घट जाता है, और आपका माल सोलह गुने दाम का हो जाता है। अर्थात् आप जब हमारे मोतो अपने हाथ में लेती हैं, तब वे तो हथेली की लाल आभा पड़ने से मूंगा से जान पड़ते हैं। और अपना चाँदी का रुपया जब देने लगती हो, तो वह हाथ की लाल कान्ति पड़ने से सोने की मुहर-सा मालूम पड़ने लगता है। खूब, कवि ने कैसे सुन्दर और विचित्र ढग से हथेलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। उसकी सूझ कहाँ से कहाँ पहुँची है। जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे कवि। ऐसी ही जगह के लिए कहा गया है।

और भी देखिए—

कंचन के पल्लव में छोटी बड़ी लीक मानो,
 लिख्यो है उचाट मन्त्र विधि मोह सों भयो ।
 सुधा की स्रवन मणि माणिक्य लसत सोहै,
 आँगुरी किरन ज्यो प्रभाकर उदै भयो ॥
 मेहदी रचित नख कैधौं मैन पचबाण,
 खरसान धरै सोने पानी तिनकों दयो ।
 आँचर की ओट तें अचानक ही द्योठि पर्यो,
 तेरो हाथ देखे मन मँरो हाथ ते गयो ॥

घूँघट का अंचल थामे हुए नायिका के हाथ को देख कर कवि कहता है, कि हथेली में मेंहदी से जो चित्रकारी की है, वह ऐसी जान पड़ती है, मानो स्वर्ण पत्र पर वशीकरण मंत्र लिखा है। मणि-भूषणों से युक्त उँगलियों से ऐसी प्रभा प्रस्फुटित हो रही है कि उसे देख प्रभाकर का सा भ्रम होने लगता है। मेंहदी रचे हुए नखों से युक्त पाँचों उँगलियाँ कामदेव के पंचवाण-सी प्रतीत होती हैं, जिनके अग्रभागों—फलों पर मानो जंग लगने के भय से सोने का पानी छिड़ा दिया है। सच तो यह है, कि नायिका के हाथ को देख कर मेरा मन हाथ से जाता रहा है।

कविवर सेनापति ने करतल का वर्णन क्या ही अनोखे ढंग से किया है, जरा उसे भी पढ़ लीजिए—

कोमल कमल कर-कमल विलासिने के,
रचि पचि कीन्ही विधि सुदर सुधारी है ।
राजत जराऊ आँगुरीन में अँगूठी पुनि
द्वै-द्वै छुला दुति राखि पोरि यों सँवारी है ॥
मेंहदी के बूँद माँ विराजत हैं बीच लाल,
'सेनापति' देखि पाये उभमा विचारी है ।
प्रात ही अनन्द ते अरुण अरविन्द मध्य,
बैठी इन्द्र गोपिन की मानों पाँति वारी है ॥

नायिका के कोमल कमल जैसे कर-पल्लवों में जड़ाऊ आभूषणों की शोभा जो थी, वह तो थी ही, परन्तु उनमें रचाई हुई मेंहदी की बूँदों ने तो बड़ी ही अलौकिक सुंदरता उत्पन्न कर दी है। अब तो वे ऐसे जान पड़ते हैं, जैसे प्रातः काल नव विकसित अरुण कमल पर आनन्द-मुग्ध इन्द्र वधुओं की 'पाँति' बैठी हो।

हथेलियों के वर्णन में नीचे लिखा सबैधा भी कितना उत्कृष्ट है—

दैन लगी मेंहदी दुलही कर बैठी तिया यक नागरि नेरी ।
होइ लहू गई बाल विलोकि ललाई अलौकिक वा कर केरी ॥
देइ न दूरि करै न छुरै न टरै टकतें न हलै चित चेरी ।
यो चुभि दीठि चलै न उतै इतै बाहि रही लिए हाथ हथेरी ॥

जब नागरी दुलहिन के हाथों मे मेहदी लगाने लगी, तो उसकी हथेली की अद्भुत लालिमा को देख वह उस पर लट्टू हो गई। अब वह न तो हाथों में मेहदी लगाती है, और न हाथों को छोड़ती है। मँह बाये भौचक्की-सी उन्हें देख रही है।

इस प्रसंग मे नीचे लिखा दोहा भी पढ़ने लायक है—

बड़े कहावत आपु हो, गरुवे गोपीनाथ ।
तौ बदि हों जौ राखि हो, हाथनु लखि मन हाथ ॥

गोपीनाथ, अपने मुँह चाहे जितने मियाँ मिट्टू बन लो, परन्तु मै तो तभी समझूँगी, जब उस ललना के लाल-लाल हाथों को देखकर भी मन अपने हाथ से न जाने दोगे।

अँगुरी-वर्णन

[उँगलियों की सदरता के वर्णन मे चम्पाकली, कैल्पतरु की मजरी, कामदेव के बाण आदि से उगमा दी जाती है।]

कविवर बलभद्र जी ने अपने नीचे लिखे कवित्त में उँगलियों का कैसा सुंदर चित्र खींचा है—

फूले मधु माधवी के पुहुप पुनरभव,
मानो 'बलभद्र' पंच साखा देवतर की ।
केसरि कली-सी कलधौत की फला-सी कैधौ,
फूली भली भाँति कंजलता कामसर की ॥
कामल कमल अग्र दस चक्र चिन्ह राजे,
जती दसों दिसनि की सोभा सुर-नर की ।
तेरे कर बसत कनक तन धारी तंत्र,
कैधौ कर पल्लव किसोरी तेरे कर की ॥

उँगलियों के वर्णन मे नीचे लिखा दोहा भी लाजवाब है। कोई नायिका चम्पा की कली अपने हाथ मे लेकर सखी को दे रही है। उसकी उँगलियों और चम्पा कली मे इतनी समानता है, कि सखी चम्पा कली के धोखे में उँगलियों को पकड़ लेती है। देखिए—

चम्पकली कर गहि कुमरि हुती सखी कौ देति ।
वह बौरी धोखे परी अँगुरी गहि गहि लेति ॥

कर-नख वर्णन

[नख-सौंदर्य के लिए तारा, रत्न, कुसुम आदि से उपमा दी जाती है।]
कविवर कालिदास ने नायिका के नखों का वर्णन इस प्रकार किया है—

‘देखे अनदेखे हरि तजत न अंक तेरो,
विमल मयंक मुखी मोहे कांठि निख लों ।
‘कालिदास’ रीझि-रीझि करत सराह प्यारो,
क्यों न यह छुवि लागै वैरिन कौ विप लों ॥
लाल कुरविन्द अरविन्द इन्द्रधू वारों,
विद्रुम ललाई नीचे करि राखी इख लों ।
तेरे कर-नख की बनक को विलोकि उटै,
सौतन के अनख की आगि नख-शिख लों ॥

नायिका के जिन सुंदर नखों पर कालिदास जी ने लाल, विद्रुम, कुर-विन्द, इन्द्रधू, अरविन्द आदि सब वार दिए, भला वे सपत्नियों को विप से क्यों न लगेंगे ।

कर-नखों के वर्णन में नीचे लिखे दोहे भी बहुत उत्तम हैं—

यों मेंहदी रंग में लसत नखन भलक ‘रसलीन’ ।
मानों लाल चुनीन तर दीने डाँक नवीन ॥

रसलीन जी कहते हैं कि मेंहदी के रंग से रंजित नखों में से ऐसी आभा फूट रही है, जैसे लाल नग के नीचे नवीन ‘डंक’ रख देने से, वह चौगुना चमक उठता है । और देखिए—

सोहति कर-अँगुरीन पै भलक नखन की कांति ।
बैठी विद्रुम बेलि पै जनु उडुगन की पांति ॥

कराङ्गुलियों के अग्रभाग में शुभ्र नखों की ऐसी शोभा जान पड़ती है, मानो मूँगा की शाखाओं पर नन्नों की अगली आ विराजी हो । कैसी अनूठी कल्पना है !

पीठ-वर्णन

[पीठ की उपमा कदली पत्र, कामदेव की या सोने की पाटी आदि से दी जाती है ।]

नीचे लिखे पद्य में पीठ का कितना सुंदर वर्णन किया गया है, देखिए—

कैधौ यह केस भेष रस को नरेस वाके,
देस की सुदेस भूमि सोभा रस भीनी ह ।
कैधौ यह मदन की पाटी मत्र पढिबे की,
सूरति सुकवि बनी हाटक नवीनी है ॥
जीवन के मदिर क्ली भीलि है सुदार कैधौ,
राज रतिराज रचि सन रचि कीन्ही है ।
एरी वीर तेरी यह पीठि नेक दीठि परी,
देखत ही ईठ सबही को पीठिदीनी है ॥

कामिनी की कमर केश-पाश रूपी रस-राज की क्रीडा भूमि है, या काम-देव के पढने की स्वर्ण निर्मित पट्टी ? अथवा जीवन-मदिर की सुंदर दीवार है, जिसे कामदेव रूपी राज ने अपने हाथों से रच-पच कर बनाया है । हे सखी, तेरी इस पीठ में ऐसा क्या जादू है, कि उसे तनक देख कर ही नायक ने सबको पीठ दे दी, अर्थात् अन्य सब नायिकाओं की ओर से उसने मुँह फेर लिया ।

अब पीठ की प्रशंसा में भरमी कवि का भी एक कवित्त पद लीजिए—

आरसी विमल पर नारी को सँवारी कैधौ,
रूप के प्रवाह काम भूप चल्यो जात है ।
कैधौ कलधौत की सी भूमि सुर मारग में,
मान को सुभाव कैधौ कदली के पात है ॥
कैधौ यह भोड़र के तबक तिलौछि धरे,
‘भरमी सुकवि’ कोऊ उपमा न आत है ।
सरस सुघाट सुख-आनंद की बाट कैधौ,
प्यारी तेरी पीठि देखि दीठि न समात है ॥

नायिका की पीठ को देख कर भरमी जी भी 'भरम' (भ्रम) में पड़ गए हैं । वे उसे कभी सुंदर दर्पण समझने लगते हैं और कभी सुर-मार्ग को स्वर्ण निर्मित सड़क । कभी उन्हें उसमें भुड़-भुड़ के पत्रों का भ्रम हो जाता है, और कभी कदली दल का आभास होने लगता है । पीठ पर लटकती हुई वेणी को देख कर भरमी जी को ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह सौंदर्य का सुंदर प्रवाह है, जिसमें वेणी रूप काम-भूषण बर रहा है ।

ग्रीवा-वर्णन

[कंठ सौन्दर्य की उपमा शंख, कण्ठ-कण्ठ आदि से दी जाती हैं ।]

कविवर केशवजी ने अपने नीचे लिखे कवित्त में कण्ठ का वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया है ।

सुर नर प्राकृत कवित्त रीति आरभटी,

सात्विकी सुभारती की भारतीयां भोरी की ।

कैधों 'कैसोदास' कल गानता सुजानतानि—

संकता सौ वचन विचित्रता किशोरी की ।

वीणा वेणु पिक सुर सोभा हू विरेख शचि,

मन, वच. क्रमन कि प्रिय मन चोरी की ।

अम्बु साई की सौ मोहे अम्बिका हू देखि देखि,

अम्बुज नयन कम्बु ग्रीव गोल गोरी की ॥

शंख समान गोरी-गोरी ग्रीवा गोरी की देखकर, गोरी भी उस पर मुग्ध हो गई हैं । किशोरी के कल कण्ठ ने वीणा और कोयल के कलित स्वर चुराने के साथ ही प्रियतम का मन भी चुरा लिया है । यही क्यों, उसने भोरी भारती (सरस्वती) की गान कला और वचन विचित्रता का भी अपहरण कर लिया है । कविता की सात्विकी आरभटी आदि रीतियाँ भी उसके कंठ में आ विराजी हैं । फिर भला अम्बिका उस पर मुग्ध क्यों न हो जाती ।

और भी देखिए—

सुख को सदन देखि तदन मुदित होत,

बारिज बरन सुभ नाल सौ बिसेखिये ।

चारों रीति नवों रस हाव-भाव की प्रतीति,
 छबि सों लपेटि हेम पिण्डी कै उरेखिये ।
 कैधौ मणि कंठ तीन लोक की तरनि जीति,
 दुति ते ही भाँति-भाँति तीनों रेख लेखिये ।
 कनक के कम्बु कमनीयता के अम्बु भेटे,
 आनंद की सीव कै अमोल ग्रीव देखिये ॥

लगे हाथों कविवर कमलापति जी का भी कण्ठ वर्णन पढ़ लीजिए—
 लखि कै वहि प्रान पियारी के कण्ठहिं कम्बु लई सुधि तालन की ।
 तिहुँ लोक की सुन्दरता लै त्रिरेख दई विधि, जोति के जालन की ।
 'कमलापति' कौन बखानि सकै छबि छीनत मानिक मालन की ।
 इमि गोरे गरै लसै पीक मनो दुति लाल गुखुबन्द लालन की ॥

कामिनी के कमनीय कण्ठ को देखते ही, शख ने लज्जित हो सीधा समुद्र का रास्ता लिया और वह वहाँ मुँह छिपाकर जा बैठा। ऐसा क्यों न होता, विधाता ने भी तो तीनों लोकों का शोभा समेटकर, उससे किशोरी के कण्ठ में तीन रेखाएँ बना दी हैं, फिर भला उसके आगे बेचारा शख कैसे ठहरता । गोरी की जो गौरवर्ण ग्रीवा मणि-मालाओं की भी छबि छीन लेती है, उसके सौन्दर्य का बखान भला कौन कर सकता है ।

चिबुक-वर्णन

ठोड़ी के वर्णन में कविवर बलभद्र जी ने कितना सुन्दर कवित्त लिखा है, देखिए—

कनक वरन कोकनद के वरन और,
 भलकति भाँई तामे बसन रदन की ।
 कीन्हीं चतुरानन चतुर ऐसी रचि-पचि,
 अलप-सी चौकी चार आसन मदन की ।
 अगुल से बान उपमान की अवधि सब,
 सुमिल सुपान मानो श्रीय के सदन की ।
 सुन्दर सुठार है चिबुक नव नायिका की,
 कैधौ 'बलभद्र' पातसाही है बदन की ॥

कनक की सी कान्ति और अरविन्द के से सुन्दर रंग वाली नायिका की इस ठोड़ी को चतुर चतुरानन ने अपने हाथों से रच पच के तैयार किया है। करना ही चाहिए था, आखिर तो वह मदन-महीपति के विराजने की मुलायम सी चौकी है। कोई-कोई इसे नायिका के मुख रूपी 'श्रीय' (श्रीलक्ष्मी) के सदन (लक्ष्मी का घर कमल है और यहाँ नायिका का मुख कमल जैसा है) की सुन्दर सीढ़ी बताते हैं। यह भी न सही, वह नायिका के-शरीर रूपी साम्राज्य का सिंहासन तो है ही, इसमें तो कुछ सन्देह ही नहीं।

चन्दन कवि ठोड़ी के विषय में क्या कहते हैं, उनकी भी सुन लीजिए—

कैधौ है रसाल फललाल कै सुघर सीप,

भरी रसजाल विधि स्वकर सहेली की।

कंचन की सारि कै सँवारि काहू कारीगर,

खेलिबे कों सारिपासा कामरति केली की।

निरमल गोल सीसी सोहत है चन्दन सो,

'चन्दन' बिलोके मति फिरत न चेली की।

मोड़ी-मोड़ा, तरुणी-तरुण, वृद्ध मोहे सब,

कमल की बोड़ी कैधौ ठोड़ी है नवेली की।

नवेली नायिका की ठोड़ी के लिए चन्दन कवि ने कितनी उपमाएँ खोज-खोज कर इकट्ठी की हैं। कभी उसे पका हुआ रसाल-फल बताया है और कभी सुन्दर सीप। कभी उसको रति और कामदेव के पास खेलने की 'सारि' से उपमा दी है और कभी निर्मल गोल शीशी से उसकी तुलना की है। वे कहते हैं कामिनी की इस कमल-कोरक जैसी ठोड़ी ने बाल-वृद्ध और युवती-युवा सबको मुग्ध कर लिया है।

चिबुक का तिल या गोदना

[चिबुक के तिल की उपमा, काजल, रस, छींट, राहु का दाँत, शनि, काम शर की फाँक आदि से दी जाती है।]

देखिए, तिल के लिए लोग कैसी-कैसी अद्भुत उत्प्रेक्षाएँ कर रहे हैं—

काहु कही कि गुलाब कली पर, भौर को चेंदुआ आनि अर्यौ है।

सोन डवा में जवाहिरी मैन मनो नग नीलम चारु जर्यौ है।

प्यारी की ठोड़ी बिराज रह्यौ तिल, देखि विचार यहै मैं कर्यौ है ।
भोहै बनावत मानो विरंचि की लेखनी ते मसि-बिन्दु भर्यौ है ॥

कोई उसे गुलाब कली पर बैठा भौरे का बच्चा समझता है, कोई कहता है—कामदेव जौहरी ने ठोड़ी रूपी सोने के डिब्बे में नील मणि रख छोड़ा है । किन्हीं का विचार है कि यह भौरा-वौरा कुछ नहीं है, यह तो नायिका की भौहें बनाते समय विधाता की कलम से स्याही की बूंद गिर पड़ी है—

इस विषय में अब कविवर केशवदास की कल्पनाएँ भी सुन लीजिए—

सोमन सिगार रस की-सी छींट सोहै फोक—

काम शर की-सी कहो जु गतिन जोरि-जोरि ।

राहु के सो रदन रह्यो है चुभि चद माँझि,

तभी को सोहाग किधौ डारो तून तोरि-तोरि ।

चतुर बिहारी जी को चित्त-सो चिहुटि रह्यो,

चित येते 'केसोदास' लेत चित चोरि चोरि ।

तनक चिबुक तिल तेरे पर मेरी सखी,

वारि डारो तरुनी तिलोतमा-सी कोरि कोरि ॥

नायिका की ठोड़ी पर तिल ऐसा प्रतीत होता है, मानो सुन्दर शृङ्गार रस का छीटा पड़ गया हो, या कामदेव के बाण की नोक चुभी रह गई हो । अथवा चन्द्रमा में राहु का दाँत गड़ गया हो या मनमोहन का मन ठोड़ी से आ चिपका हो । यही कारण है, जो यह देखने मात्र से दर्शकों के मन मोह लेता है ।

इस प्रसंग में कवि दिनेश जी का नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने योग्य है—

प्यारी की ठोड़ी को बिन्दु 'दिनेस' किधौ बिसराम गुविन्दके जी को ।

चारु चुभ्यो कणिका मणि नील को कैधौ जमाव जम्यौ रजनी को ।

कैधौ अनंग सिगार को रग लिख्यौ वर मन्त्र बसीकर पी को ।

फूले सरोज में भौरी बसी किधौ, फूल ससी में लसै अरसी को ॥

राधिका जी की ठोड़ी पर तिल क्या है, माँहीं गोविन्द का मन विश्राम कर रहा है । अथवा नील मणि की कणिका उसमें चुभी हुई है, वा रात्रि का

जमाव जमा हुआ है। यह भी नहीं, तो कामदेव ने प्रिय के वश करने लिए शृंगार रस के रंग से वशीकरण मन्त्र लिख दिया है। या फिर फूले हुए सरोज में भौरी आ बैठी है, अथवा चन्द्रमा पर किसी ने अलसी का फूल चढ़ा दिया है। ;

त्रिबुक-तिल के सम्बन्ध में कविवर बिहारी की भी उक्ति पढ़िए—

ललित स्याम लीला ललन चढी त्रिबुक छवि दून ।

मधु छाक्यो मधुकर पर्यौ मनौ गुलाब प्रसून ॥

इसी आशय का विक्रम का दोहा भी देखिए—

अति दुति ठोड़ी बिन्दु की, ऐसी लखी कहूँ न ।

मधुकर सूनु छक्यो पर्यौ मनौ, गुलाब प्रसून ॥

अधर वर्णन

[अधर की उपमा बिम्बाफल, प्रवाल और नव पल्लव से दी जाती है ।]

निम्नलिखित पद्य में अधर का कैसा सुन्दर वर्णन किया गया है—

कैधौ विधु ऊपर बँधूक के कुसुम घरे,

कैधौ बिम्ब पाके परे यौवन जनाये हैं ।

विद्रुम वरण विवि खारक 'दिनेस' कैधौ,

पल्लव प्रसून के कि सोभा सरसाये हैं ॥

अध अनुराग भाग ऊपर सोहाग रूप,

राजत रुचिर कैधौँ अमृत कनाये हैं ।

यौवन के रग के प्रसग लाल विधि दोऊ,

अधर मधुर सुधासार सों बनाये हैं ॥

नायिका के सुन्दर अरुण वर्ण ओष्ठ ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे चन्द्रमा के ऊपर किसी ने बँधूक पुष्प या पके बिम्बाफल रख दिए हों ।

और देखिए—

जाकी मधुराई लै सुघाई सुरलोक छिपी,

ऊख को छिप्यौ है री पियूष अपरनि में ।

देखत ही विद्रुम भर्ये हैं जड़ रूप अधर,

बिम्ब महि हीन भये जिनके डरनि में ।

पान अंग पातरो भयो है तबही तें पेखि,
एरी ब्रज नारी अब रहै को सरनि में ।
सुरति सुकवि तिन्हें सकै को बरनि प्यारी,
तेरे अधरन की न उपमा धरनि 'मे ॥

अरे साहेब, जिनकी माधुरी चुराकर सुधा सुरलोक में जा छिपी, विद्रुम जिन्हें देखते ही जड होगए, बिम्बाफल जिनसे लज्जित हो वृद्धों पर जा झटके, ऐसे नायिका के अधरों की उपमा भला पृथिवी के किस पदार्थ से दी जा सकती है ?

कविवर हरिश्चौध जी का नीचे लिखा सवैया भी कितना सुन्दर है ।
बर विद्रुम में कहौं लाली इती, वहाँ कोमलता जपा ऐसी गहै ।
कहौं लाल में लाल पकाम इती, समता कहौं बापुरो बिम्ब लहै ॥
कहौं ऊख मयूख में एती मिठास पियूष हू ना 'हरिश्चौध' कहै ।
जेती चाकता कोमलता पुकुमारता माधुरता अधर में अहै ॥

भला विद्रुम में इतनी लालिमा कहौं जा नायिका के ओठों की समता कर सके । जपा कुसुम में रंग तो है, परन्तु इतनी कोमलता नहीं । लाल में भी अधरों के समान चमक नहीं, फिर बिम्बाफल तो बेचारा किस गिनती में है । और हाँ, इनका जैसा मिठास तो न ऊख में है, न पियूष में । सच बात तो यह है, कि ससार में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं, जिसमें अधरों की भाँति सुन्दरता, मृदुता, सुकुमारता और मधुरता सब एक जगह मौजूद हो ।

अधर-माधुर्य के वर्णन में बिहारी जी कहते हैं—

छिनक छबीले लाल वह जो लागि नहि बतराय ।

ऊख महुख पिगूख की तौ लागि भूख न जाय ॥

विक्रम की उक्ति भी सुन लीजिये—

कहि मिश्री कह ऊख रस, नहीं पियूष समान ।

कलाकन्द कतरा अधिक तू अधरा रस पान ॥

शङ्कर जी के वर्णन को भी पढ़ लीजिए, देखिए, उनकी कविता ओठों का सुरगी रस पान कर कैसी रसीली बन गयी है—

अम्बर में एक यहाँ दौज के सुधाकर दो,

छोड़े वसुधा पै सुधा मन्द मुसकान की ।

फूले कोकनद मे कुमुदनी के फूल खिले
देखिए विचित्र दया भानु भगवान की ।
कोमल प्रवाल के से पल्लवों पै लाखा लाल,
लाखे पर लालमा विलास करे पान की ।
आज इन ओठों का सुरगी रस पान कर,
कविता रसीली भई शङ्कर सुजान को ॥

नायिका को बातें जो इतनी प्रिय लगती हैं, उनका कारण भी ये सुधा-
रस भरे अधर ही हैं । देखिए—

पियत रहत अधरान को रस अति मधुर अमोल ।
ताते मीठे कडत हैं बाल-बदन ते बोल ॥
क्यों है न पते की बात !

दशन-वर्णन

[दाँतों के सौन्दर्य वर्णन में मोती, मणि, हीरा, कुन्दकली, अनार के दाने आदि से उपमा दी जाती है ।]

नीचे दाँतों के सम्बन्ध में विभिन्न कवियों के कुछ पद्य उद्धृत किये जाते हैं—

कैधौ द्विजराजी द्विजराज जू को सेवति है,
कैधौ यह शारदा स्वरूप दरसत है ।
कैधौ इन्दिरा के चारु हार की अरुण मणि,
चिन्तामणि इन्दिरा के घर में लसत है ।
कैधौ विधु मण्डल में दामिनी विराजति है,
ऐसी कछू सुषमा समूह निकसत है ।
विमल बदन बीच दन्तन की दुति कैधौ,
कमल के कोस बीच दार्यौ बिलसत है ॥

नायिका के दाँतों को देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानों द्विजों की पत्नी चन्द्रमा में विराज रही है । अथवा लक्ष्मी जी के हार की मणियाँ उनके घर-कमल (यहाँ नायिका का मुख कमल समान माना है) में बिखरी पड़ी

हों। या यों सगभिए कि चन्द्र-मण्डल में विजली आ विराजी है, अथवा कमल-कोश में दाड़िम के दाने फैले पड़े हैं।

और देखिए—

कैधौ कली बेला की चमेली सी चमकि परै,
कैधौ कोर कमल में दाड़िम दुरिये है।
कैधौ मुक्ताहल महावर में राखे रँगि,
कैधौ मणि मुकुर में सीकर सुहाये है ॥ १
कैधौ सातों मण्डल के मण्डन मयंक मध्य,
बीजुरी के बीज सुधा सींचि कै उगाये है।
'कैसौदास' प्यारी के बदन में रदन छवि,
सोर हों कला कों काटि बसिसु बनाये है ॥

अरे साहब, कौन कहता है कि ये नायिका के दाँत हैं। ये तो बेला या चमेली की कलियाँ हैं, या किसी तोते ने कमल-पुष्प में अनारदाने छिपा के रख छोड़े हैं। यह भी नहीं, तो ये महावर में रंगे हुए मौती या मणि-मुकुर पर पड़े हुए आस विन्दु हैं। हमारा तो अनुमान यह भी है, कि ये चन्द्र मण्डल में सुधा से सींचकर उगाए हुए विजली के बीज हैं। या फिर विधाता ने चन्द्रमा की सोलहों कलाओं के दो-दो टुकड़े करके नायिका के मुख में लगा दिए हैं। इस पर एक दूसरे कवि कहते हैं —

कैधौ मिश्र मित्र में बसाई है किरनि तारें
फूलोई रहत अनुमान यह पायो है।
कैधौ ससि-मण्डल में भाई उडु मण्डल की,
कैधौ हास रस निज नगर बसायो है ॥
दसन की पाँति कुन्द कलिन की भाँति आछी,
सोहति है कान्ति गुन कोबिदन गायो है।
मानहु बिरंचि तेरी बानी कों चतुररानी,
दोलर कै मोतिन को हार पहरायो है ॥

नहीं जनाव, यह तो सूर्य ने अपने दोस्त कमल में अपनी किरणें बसा दी हैं, और यही कारण है, जो यह हर वक्त झुकल रहता है। यह चन्द्रमा में तारों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, अथवा हास्य रस ने अपना अलग नगर बसा

लिया है। यह भी हो सकता है कि विधाता ने नायिका की वाणी से प्रसन्न होकर यह मोतियों की दुहरी माला उसे पहना दी हो।

कवि की उपर्युक्त उत्प्रेक्षाएँ सुन कविवर आलम जी से न रहा गया, वे भी चट से बोल ही उठे—

सुधा ओ समुद्र तामें दुरे हँ नक्षत्र कैधौं,
कुन्द की कली की पाँति बीन बीन धरी है।
'आलम' कहत ऐन दामिनि के बीज बये,
वारिज कै मध्य मानों मोतिन की लरी है ॥
स्वाति ही के बुन्द बिम्ब विद्रुम मे बास लीनो,
ताकी छबि देखि मति मोहन की हरी है।
तेरे हँसे दसन की ऐसी छबि रजति है,
हीरन की खानि मानो ससि माँहि करीं है ॥

नहीं साहब, आप भी क्या बहकी-बहकी बातें करते हैं। अजी, ये तो सुधा के समुद्र में आकर छिपे हुए नक्षत्र हैं। अथवा किसी ने कुन्द की कलियाँ चुन-चुनकर यहाँ रख दी हैं। यह भी हो सकता है कि किसी ने कमल-पुष्प में मोतियों की माला रख दी हो, या फिर स्वाति की बूँदें सीपी के बदले विद्रुम में आ पड़ी हैं। जिस समय नायिका हँसती है, उस वक्त तो बिलकुल ऐसा जान पड़ता है, जैसे चन्द्र मण्डल में कोई हीरों की खानि निकल आई हो।

फूल फुलवारी रही, उपमा न जाति कही,
कैसे कै सराहों तामे जाति अधिकानी है।
'आलम' कहत हैरी मोतिन की पाँति धरी,
हीरन की काति छबि देखि कै लजानी है ॥
दाढ़िम दरकि गए इनके सम न भए,
रवि की किरनि कैसी चमक बखानी है।
तनक हँसनि में दसन ऐसे देखियत,
दीपत नखत मानों दामिनि दुरानी है ॥

सच तो यह है कि नवेल्ली नायिका के दाँतों की उचित उपमा कहीं मिलती ही नहीं। हीरा और मोतियों की पाँति तो इन्हें देखकर स्वय ही

मारे लज्जा के हतप्रभ हो जाती है। बेचारे दाड़िमो ने बहुत कुछ त्याग और तप किया, पर वे भी इनकी उपमा के योग्य न हो सके। नागरी के तनक हँसने में दाँत ऐसे जान पड़ते हैं, मानो चमकते हुए नक्षत्रों में बिजली घुस पड़ी हो।

इस पर एक दूसरे कवि कहने लगे—

कैधौ मुकता हल हैं पहल के आवदार,
जावक रँगाइ अरविन्द मुख भरे हैं।¹
कैधौ लाल विद्रुम अमोल मनि मानिक के,
दाम न जवाहिरी डबा में खोलि धरे हैं ॥
दाड़िम के बीज कैधौ सुधा में सिराये, हस,
सदन सुधाकर के मंदिर -में भरे हैं।
प्यारी को बदन कैधौ, काम के सदन माँहि,
मदन जरैया ने जवाहिर से जरे हैं ॥

इस पद्य में कवि ने पान खाए हुई नायिका के दाँतों का वर्णन किया है। वह कहता है—या तो ये पहलदार मोती हैं, जो जावक के रंग से रँग कर कमल-कोश में भर दिए हैं, या ये विद्रुम और दूसरे वेशक्रीमत मणि-माणिक्य हैं, जिन्हें जौहरी ने जवाहिरी डिब्बे में रख छोड़ा है। या किसी ने दाड़िम के दाने सुधा-सरोवर में डाल दिये हैं, अथवा सुधाकर के मंदिर में राज हंसों की पाँति घुस बैठी है। कभी कभी यह भी अनुमान होता है, कि नायिका के शरीर रूपी कामदेव के मन्दिर में किसी जड़िया ने ये जवाहिरात जड़ दिए हैं।

अब एक पद्य मिस्सी लगे हुए दाँतों के वर्णन में पढ़ लीजिए—

वारिज में विलसै अलि पाँति किधौँ अली अञ्छर मत्र बसी के।
मैन महीप सिंगार पुरी, निज बॉह बसाई है मध्य ससी के ॥
आनंद सो दरसी दसनावलि स्याम मिसी मिलि ऐसी लसी के।
फूलन की फुलवारिन में मानो खेलत हैं लरिका हबसी के ॥

मिस्सी से रंगे हुए सुंदरी के दाँत ऐसे आलूम देते हैं, जैसे कमल-पुष्प में मकरंद मत्त मधुप-माला बैठी हो। अथवा यह मदन महीपति ने अपने

रहने के लिए चंद्र-मंडल के बीच शृङ्गार पुरी बसाई है। यह भी हो सकता है कि सुदर पुष्प वाटिका में कुछ हबशियों के लड़के मिल कर खेल रहे हों।

वाणी-वर्णन

[कविजन वाणी की उपमा वीणा या वशी के स्वर, केकी, कीर, या कोकिल के कठ, किन्नरों के गान, भ्रमरों के गुजन आदि से देते हैं ।]

देखिए कविवर हनुमान जी ने कैसा सुदर वाणी का वर्णन किया है—

कोकिला की कीर की पपीहा त्रिक सारिका की,
मोरन के कारिका की सिद्धि पाठशाला है।
शारदा की नारद की वीणा वेणु बोंसुरी की,
सुरन की रागन की रागिनी की माला है ॥
करखन महेहन बसी करन याही विषे,
'हनूमान' मोहि गयो नद जू को लाला है।
दाखन की रानी मजु माखन सुधा की सानी,
जन बर दानी बानी तेरी ब्रज बाला है ॥

राधिका जी की वाणी क्या है, कोयल, मोग, पपीहा, तोता, मैना आदि की पाठशाला है। अथवा नारद, शारदा आदि की वीणाओं और बोंसुरी आदि स्वरों तथा राग-रागिनियों की माला है। इतना ही नहीं, वह मिठास में भी दाखों की रानी है और मखन तथा सुधा में सनी हुई है। यही कारण है कि उसे सुनते ही मोहन मुग्ध हो गए हैं।

और भी देखिए—

सुधा के समुद्र की लहर सी कडत रहै,
याही को सुनाय लाल कीने तू अधीन है।
बन उपवन बैठि आपको दुरावै याते,
मेरे जाने यहै कल कंठी कठ हीन है ॥
'बलदेव' ऐसी ना रची है, ना रचैगो विधि,
मोतिन की उपमा करन लागी छीन है।
कमल के कोश बैठि गुजरत भौर कैधौं,
बानी मभि बानी तू बजाई आनि बीन है ॥

कविवर बलदेव जी कहते हैं कि नायिका की कठ स्वर-लहरी ऐसी जान पड़ती है, मानों सुधा के समुद्र की लहरें आ रही हों। यहाँ आह्लाद जनक होने के कारण सुधा सागर की लहरों से वाणी की तुलना की है। वैसे भी जिस प्रकार समुद्र में लहरे उठती हैं, उसी प्रकार वाणी ध्वनि भी लहरों के रूप में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। कोयल का कठ स्वर तो नायिका के स्वर के आगे बहुत ही भौंदा जान पड़ता है, इसी लिए तो कोयल मारे लज्जा के वन-पर्वतों में छिपती फिरती है। अहा ! जिरु समय वह कल कठी बोलने लगती है, उस समय ऐसा जान पड़ता है, मानों कमल-कोश में बैठे भ्रमर गुंजार रहे हैं, या उसकी वाणी में स्वयं वाणी (सरस्वती) बैठी हुई वीणा बजा रही हो ।

मुख-राग-वर्णन

[मुख-राग का वर्णन कमल की अरुणिमा, अङ्गराग, अनुराग, रूप-भूप, रतिराज आदि से उपमा देकर किया जाता है ।]

देखिए, नीचे लिखे पद्य में मुख-राग का कैसा सुन्दर वर्णन है—

कैधौ कमला के गेह कमल की लाल माल,
 दिवाकर ताकी ताको भूलकत रग है ।
 कैधौ अनुराग फैलि रख्यौ बानी रानी जू को,
 जब काहू-काहू मति करत प्रसंग है ॥
 कैधौ आली तेरे लाल ओठन की लाली छाई,
 मन भाई मेरे बनमाली जू के संग है ।
 मोहत अनंग कैधौ सोभा को सुभग अंग,
 कैधौ मुख प्यारी तेरे पानन को रग है ॥

नायिका के मुख-राग के सम्बन्ध में कवि कैसी-कैसी कलित कल्पनाएँ करता है। कभी वह उसे कमला (लक्ष्मी) के घर (कमल) में रक्खी हुई लाल कमल की माला समझता है, और कभी महारानी वाणी जी का बिखरा हुआ अनुराग अनुमान करता है ।

मुसकान-वर्णन

[नायिका के मुसकाने या हँसने की उपमा बिजली चमकने, चंद्र-
 हि० न० २०—४२

ज्योत्सना, अमृत-प्रकाश, मोह-महिमा, मृग-तृष्णा, प्रेम और मोहनी आदि से दी जाती है ।]

पद्माकर जी ने मुसकान का वर्णन इस प्रकार किया है—

गुल गुलकंद के सुमंद करी दाखन को,
 देखोरी दुचद कला कंद की कमाई सी ।
 कहे 'पद्माकर' त्यों साहिबी सुधा की सबै,
 ब्रज वसुधा मे ते कहों धौ परी पाई सी ॥
 खारक खरी को मधु हू को माधुरी को सुभ,
 सरदा सिरि कों मिसरी कों लूट लाई सी ।
 साँवरी सलौनी के सलोने अघरान मे सु-
 मद मुसकान भरी अंजुल मिठाई सी ॥

गोपिका की मुसकान के माधुर्य ने फूल, गुलकंद, दाख, कलाकंद आदि सबकी मधुरता मंद कर दी है । अर्थात् उसमे इन सबसे बड़ कर मधुरिमा है । पता नहीं, ग्वालिन की मुस्कराहट ने ब्रज वसुधा मे सुधा की सरसता कहाँ से पा ली है । जान पड़ता है—शहद, सरदा, मिसरी आदि सब का मिठास लूट कर उसने अपने मे भर लिया है ।

और देखिये :—

सहज सहेलिन सों जुतिय विहँसि-विहँसि बतराति ।
 सरद चन्द की चोदनी मन्द परति सी जाति ॥

जिस समय नायिका सहेलियों के साथ मन्द मन्द मुस्कराती हुई बाते करती है, उस समय शारदी चन्द्रिका मन्द सी पड़ने लगती है ।

कपोल-वर्णन

[कपोलों के वर्णन मे कामदेव के दर्पण, शरद चन्द्र, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, मक्खन के गोले, और महुए के ताजे फूल आदि से उपमा दी जाती है ।]

कवि कालिदास ने कपोलों का वर्णन इस प्रकार किया है—

चपला के ऐसे चारू चमके है छुवि पुंज,
 छेदि निसरत भीने धूँधट निचोल हैं ।

‘कालिदास’ आस-पास तरल तरौनन की,
 जाति किरनावली ललित अति लोल हैं ॥
 कान्द अवलोकत बदन प्रतिबिम्ब निज,
 कनक सरूप मानो मुकुर अमोल हैं ।
 लेत मन मोल कहैं दगन की तोल ऐसे,
 गोरे-गोरे गोल बने प्यारी के कपोल हैं ॥

नायिका के गोल कपोलों की चारु चमक धूँधट के भीने पट में होकर बाहर फूटी पड़ती है। ब्रज-चन्द्र उन्हें मुकुर समझ कर उनमें अपना प्रतिबिम्ब निहारते हैं। वस्तुतः उनमें ऐसी ही चमक है। जो भी उन्हें देख लेता है, वही उनका क्रीत दाम बन जाता है।

इस प्रसंग में बलभद्र जी का भी एक पद्य पढ़ लीजिए—

सुखमा भरत भरे प्रेम के साँचे ढरे,
 सुधा लौं सुधारि धरे मुकुर सुदेस हैं ।
 आभा की निकाई है केदार कौधौ कांतिन के,
 तीनो पुर रूप परिजन के नरेस हैं ॥
 रपट लोचन चिलक देखि ‘बलिभद्र’
 झलकत चौधो, किलकनि को नरेस हैं ।
 गोरे गड मडल अखड जोतिवत तेरे,
 छुवि के छपाकर कै दुति के दिनेस हैं ॥

इस पद्य में भी कपोलों की उपमा कान्ति के केदार (खेत), छुवि के छपाकर (चन्द्रमा), द्युति के दिवाकर (सूर्य) आदि से दी गई है। उनकी चिकनाहट पर आँखें रपट जातीं और चमक से वे चौंधिया जाती हैं।

देखिए कविवर चिंतामणि कपोलो के विषय में क्या कहते हैं—

सोहत हैं ‘चिंतामणि’ नगन जटित दिव्य,
 कंचन की बेली केसे सुन्दर नबेली के ।
 सकल जगत माँहि एक सुकृती हो तुम,
 नायक नवल ऐसी नायिका नबेली के ॥
 एक ठौर देखो छुवि आपनी औ, उनकी जू,
 प्रतिबिंब आप रूप आनंद की केली के ।

सुबरन आरसी से सीसे मे अगोल कैसे,
गोरे-गोरे गोल हैं कपोल अलबेली के ॥

यहाँ भी कपोलो की तुलना सोने की आरसी, शीशा आदि से की गई है ।

इस सम्बन्ध मे कमलापति जी का नीचे लिखा सवैया भी पढने लायक है—

नहि जानिये कौने बिरचि रचे समता कहाँ माखन गोलन की ।
किमि काम के दर्पन कीन्हे कहाँ सुखमा इनके संग तोलन की ॥
'कमलापति' देखि छुके से रहे, सुधि नेक रही नहि बोलन की ।
तब कैसे के भाखि सकै उपमा अनमोल ये गोल कपोलन की ॥

कमलापति जी मखन के गोले जैसे गोल कपोलों को देख कर ऐसे मुग्ध हो गए, कि उन्हें कुछ उपमा देने की सुध-बुध ही न रही ।

कपोलों की गाढ़ का वर्णन

[गालों के गड़हों की उपमा कामदेव का तालाब, पानी के भँवर, हास्य-रस के कुड या कुँए आदि से दी जाती है ।]

देखिए, कविवर देव जी ने कपालों की गाढ का कितना सुंदर वर्णन किया है—

बोधरो घनेरो लाम्बी लटै लटै लॉक पर,
काकरेजो सारी खुली अथ खुली टाड़ वह ।
गोरी गजगौनी दिन दूनी दुति होनी 'देव',
लागति सलौनी गुरु लोगन के लाड वह ॥
चचल चितौनि चित चुभी चित चोर वारी,
मोर वारी बेसरि सुकेसरि की आड़ वह ।
हँसि-हँसि बोलन की गोरे-गोरे गोलन की,
कोमल कपोलन की जी मे गड़ी गाड़ वह ॥

नायिका का घूमदार बंधरा, लंक पर लटकती हुई लम्बी लटे, अथखुली 'टाड़', गज की-सी गति, चंचल चित्रवन, मोर के लटकन से युक्त बेसर और केसर की आड़ (विन्दी) आदि तो नायक के हृदय में गड़ ही जाती हैं,

पर बात करते समय, मुस्कराते हुए उसके गोरे, गोल और कोमल कपोलों में पड़ जाने वाली गाढ़ भी चित्त में चुभ जाती है, यह कैसी अचम्बे की बात है।

गाढ़ के वर्णन में नीचे लिखा सबैया कितना उत्कृष्ट है।

नैन गड़ैं तो गड़ैं उनमें लुवि मैन के वानन कौ सरसाति है।

जो कुच कोर कठोर गड़ौ तो गड़ौ वह तो कठिनै दिन राति है ॥

वै अलबेले तुहूँ अलबेली जिन्है मुख मोरि इतै मुसकाति है।

कौन अचम्भो कहो यह ताके कपोल की गाढ़ हिये गड़ि जात है ॥

यदि नायिका के नयन नायक के हृदय में गड़ जाते हैं, तो ठीक ही है, क्योंकि उनमें कामदेव के वाणों की लुवि ललकती रहती है। यदि कुचों की कोर नायक के हृदय का भेदन कर, उसमें घुस जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे तो जन्म से ही कठोर हैं, और कठोर भी इतने कि स्वयं अपनी जन्म-भूमि को फोड़ कर उत्पन्न हुए हैं। परन्तु आश्चर्य तो इस बात का है, कि मुस्कराते समय उसके कपोलों में पड़ने वाली गाढ़ भी नायक के हृदय में गड़ जाती है। खूब, गाढ़ का भी हृदय में गड़ जाना कैसी सुन्दर सजीव और अनोखी कल्पना है!

कपोल-तिल-वर्णन

[कपोल के तिल की उपमा भ्रमर, नीलमणि, नीलकमल, चन्द्र में शनि का निवास, राहु के दाँत, विधाता की स्याही के बिन्दु आदि से दी जाती है।]

कपोल-तिल के वर्णन में पद्माकर जी का नीचे लिखा कवित्त बड़ा सुन्दर है—

कैधौ रूप राशि में सिंगार रस अंकुरित,

कैधौ तम कन सोहै तड़ित जुन्हाई में।

कहै 'पद्माकर' सु कैधौ काम-कारीगर,

नुकता दियो है हेम फरद सुहाई में ॥

कैधौ अरविन्द में मलिन्द सुत सोयो आय,

ऐसो तिल सोहत कपोल की लुनाई में।

कैधौ फँस्यौ इन्दु मे कलिन्दी जल-विन्दु अरु,
गरक गुविन्द कैधौ गोरी की गुराई में ॥

नायिका के कपोल पर तिल क्या है, मानो मौन्दर्य के ढेर पर शृङ्गार रस का अँकुआ उगा है । या विद्युत के प्रकाश मे कोई अधकार का कण शेष रह गया है । अथवा प्रफुल्ल अरविन्द पर भौरा सो रहा है, या चन्द्र-बिम्ब में कालिन्दी के जल की बूँद पड़ गई है । यदि यह कुछ भी नहीं, तो निश्चय ही गोरी की गुराई मे गोविन्द गरक हो रहे हैं ।

इसी भाव का कविवर श्रीपति का भी एक पद्य पठ लीजिए—

फूले पारिजात मे लखात हैं मधुप कैधौ,
सुषमा सरोवर मे रसराज पैठो है ।
रति के मुकुर पैश्वरी है नीलमणि कैधौ,
कामिनी के बदन परम छवि जैठो है ।
'श्रीपति' रसिक राज सुन्दर गुलाब बीच,
मृग मद बिन्दु रूप परम परैठो है ।
कोमल कपोल पर तिल है अमोल मानो,
पूरण मयक मे असक सनि बैठो है ॥

यह फूले हुए पद्म-प्रसन मे मधुकर बैठा है, या सौंदर्य के सरोवर मे शृङ्गार रस स्नान कर रहा है । रति के दर्पण पर नीलमणि रक्खी हुई है या सुन्दर गुलाब के फूल पर कस्तूरी की बूँद पड़ गई है अथवा पूर्ण चन्द्र-मण्डल पर शनि ग्रह आ बैठा है । क्या बात है ? कुछ समझ में नहीं आता ।

इस प्रसंग मे नीचे लिखा सवैया भी बड़ा अच्छा है, देखिए—

रूप की रासि मे कै रसराज को अकुर आनि कढ्यौ सुभ हौना ।
कै ससि ने तम-आस कियो, तिहि को रख्यो शेष दिखात सेा कौना ।
प्यारी के गोल कपोलन पै 'द्विजराज' रख्यौ तिल स्याम सलौना ।
कै मधुपान पर्यौ अलमस्त, किधौ अरविन्द मिलिन्द को छौना ॥

अरे साहब, यह तिल नहीं है, बल्कि चन्द्रमा ने जो अन्धकार खाया है, उसी का यह एक कोना शेष रह गया है । अथवा मधुपान करके मस्त हुआ भौरा का बच्चा विकसित अरविन्द पर निश्चिन्त होकर सो रहा है ।

श्रवण-वर्णन

[श्रवणों का वर्णन करने में उनकी उपमा राग के रवन पात्र, शोभा के पवित्र भवन, मन-महीप के मन्त्री या मित्र और लाज के नेत्र आदि से दी जाती है ।]

देखिए, श्रवण वर्णन में केशव जी क्या कहते हैं—

रागिन के आगर विराग के विभाग कर,
मन्त्र के भेंडार गूढ रुढ़ के रवन हैं ।
ज्ञान के विवर कैधौ तन के तनक तन,
कनक कचोरी हरि-रस श्रचवन हैं ।
सुतिन के कूप किधौ मन के सुमित्र रूप,
किधौ 'केशुदास' रूप भूप के भवन हैं ।
लाज के नयन किधौ, नयन सचिव किधौ,
नयन कटाक्ष सर लक्ष्य कै सवन हैं ॥

केशवदास जी के उपर्युक्त छन्द में श्रवणों के प्रायः सभी उपमानों का उल्लेख आ गया है । और देखिए—

कैधौ हैं अतिथि प्रिय वचन के रसराज,
कैधौ मित्र लोचन के विभल विसेखिये ।
सोने कैधौ दोने रति काम अंग कीबे काज,
सुधाधर आस-पास धरे सोई देखिये ॥
पूरण मुदित सिव पूजन करत चन्द,
कनक अरघ ताके दुहूँ ओर पेखिये ।
तीक्ष्ण कटाक्ष सर गति श्रवरोध कैधौ,
सुन्दरी के सुन्दर सवन युग पेखिये ॥

पूर्ण चन्द्रमा शिव जी का पूजन कर रहा है. इसलिए उसने दो सोने के अर्घ पात्र अपनी दोनों ओर रख छोड़े हैं । कानों के सम्बन्ध में यह कैसी अचूठी कल्पना है ।

इस प्रसंग में नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने लायक है—

कैधौ सुधाकर जू दुहूँ ओर सुधारि धरे सु सुधा के द्वि दौन हैं ।
कैधौ निसान ये लोचन बान के भोहिं कमान के काम के त्रौन हैं ।

कौन है जो नहीं मोहइ देखि किधौ * सर्वज्ञ है तो नहीं मौन हैं ।
मौन हैं ज्ञान के कान के दोन हैं खान हैं तीय के जीय के रौन हैं ॥

कान क्या हैं, मुख मण्डल रूपी सुधाकर के दोनो और सुधा रस भरे दो दोने रखे हैं । या भौह-कमानों से निकले हुए कटाक्ष-बाणों के निशान हैं, अथवा काम के बाणों के लिए तूणीर हैं ।

नासिका-वर्णन

[नासिका की उपमा तिल फूल, तोते की चोंच, तरकस आदि से दी जाती है ।]

नासिका के वर्णन में कविवर केशव जी का एक छन्द नीचे दिया जाता है—

‘केशव’ सुगन्ध स्वास सिद्धन की गुफा कैधौ,
परम प्रसिद्ध सुभ सोभन सुवासिका ।
कैधौ मनमथ मन मौन की कुबैनी कैधौ,
कुन्दन की सीव लोल लोचन विलासिका ।
मुकता मणिन की है मुकुत पुरी सी कैधौ,
कैधौ सुर सेवत है कासी की प्रकासिका ।
त्रिभुवन रूप ताको तुंग तोय निधिता के,
तोय की तरंग कै तरुनि तेरी नासिका ॥

यहाँ केशव जी ने नासिका को सुगन्धित श्वास रूपी सिद्धों की गुफा, मनमथ के मन रूपी मीन के लिए कुबैनी, आँखों के मध्य स्वर्ण निर्मित सीमा और रूप सागर की तुंग तरंग बताया है । कवियों की उड़ान ही जो ठहरी ।

आगे नासा-वर्णन सम्बन्धी एक पद्य और उद्धृत किया जाता है—

सोभा कौं सकेलि जँची बेलि बलिभद्र,
राखो समलोचन कुरंगन को रोसु है ।
दीपति को दीपक कै मुख दीप को सुमेरु,
मृदु मुख सारस को सिफकन्द जोसु है ।

कल्प तरोवर की कलिका सुगंध फूली,
उपमा अनूपनि को विविध निसोसु है ।
तिल को सुमन है कि नासिका तरुनि तेरी,
सुरनि की सरण कि सौरभ को कोसु है ॥

कविवर बलभद्र कहते हैं, तरुणी यह तेरी नाक है या शोभा का पहाड़—
अथवा मुख रूपी द्वीप का सुमेरु है या कल्पतरु की कलिका ।
ऐसा जान पड़ता है कि यह तिलका फूल है ।

अब कविवर शंकर जी का नासिका वर्णन पढ़ लीजिए—

आँख से न आँख लड़ जाय इसी कारण से,
भिन्नता की भीति करता ने लगाई है ।
नाक में निवास करने को कुट्टी 'शंकर' की—
छवि ने क्षपाकर की छाती पै छुवाई है ।
कौन मान लेगा कीर तुण्ड की कठोरता में,
कोमलता किशुक प्रसून की समाई है ।
सैकड़ों नकीले कवि खोज-खोज हारे पर,
तेरी नासिका की कहूँ उषमा न पाई है ॥

नाक क्या है, इस पर शंकर जी ने कैसी कैसी अनूठी कल्पनाएँ की हैं । युवावस्था में अक्सर लोगों की आँखें लड़ाकू हो जाती हैं । वह जहाँ अक्सर पाती हैं, लड़ जाती हैं । इसलिए विधाता ने यह विचार कर कि तरुणी की लड़ाकू आँखें कहीं आपस में ही न लड़ जायें, इसलिए बीच में नासिका रूपी भिन्नता की भीत लगा दी है । अथवा सुन्दरता ने स्वर्ग में निवास करने के लिए चन्द्र-मण्डल के ऊपर अपनी कुटिया छुवा ली है । कुछ कवि लोग नायिका की नाक को तोते की चोंच से उपमा देते हैं । भला इस बात को कौन समझदार मान लेगा । आप ही बताइए, तोते के कठोर तुण्ड में तिल-सुमन सरीखी नासिका की कोमलता आ सकती है ? कभी नहीं । भई, सच तो यह है, कि सैकड़ों नकीले कवि खोज खोज कर हार गये, पर इस नासिका की यथार्थ उपमा किसी को भी नहीं मिली । खूब ! भावों के साथ-साथ कवि की शब्द योजना भी देखने लायक है ।

कविवर गोकुल जी ने भी नासिका के सम्बन्ध में खूब ही लिखा है।
देखिए—

तिलौन समान तुले तिल के प्रसून-पुञ्ज,
सोभा सरसत विधि बॉधी हैं सुलाई की ।
किसुक अगस्त कलिहू में न सुगंध रती,
श्वास में सुवास खुलै कोठरी मृगाँ की ।
'गोकुल' विलोकि लागे कीर-भीर हू हकीर,
छहरत छवि ऐसी मुकुत बुलाक की ।
नाक नर नाग लोक नाकहू निहारे अरु,
निखरी निकार्ई नीकी नागरी की नाक की ॥

अजी, तिल-प्रसून तो उस नागरी की नाक की तुलना तिल भर भी न कर सके। फिर किंशुक और अगस्त के फूलों की तो बात ही क्या चलाई, क्योंकि उनमें सुगन्ध का लेश भी नहीं, और यहाँ नासिका के श्वास में इतनी गन्ध है, कि यह जान पड़ता है, मानो मृग मदकी कोठरी खोल दी हो। रहे कीर, सो वे तो नायिका की नाक के आगे बिलकुल हकीर जान पड़ते हैं। उनकी चेच में तो न सुगन्ध है और न कोमलता। सच तो यह है, कि तीनों लोक में खोजने पर भी इस नाक की सी सुन्दरता नहीं मिल सकती।

नासिका-वेध-वर्णन

सुनि चित चाहे जाके ककन की भनकार,
करत है सोई बात होत जो विदेह की ।
शेष भनि आञ्जु है सु कालिह नाही कान्ह जैसी,
निकसी है राघे की निकार्ई कछू नेह की ।
फूल की सी आभा सब सोभा लै सकेलि धरी,
फूलि ऐहौ लाल सुधि भूलि जैहौ गेह की ।
कोटि पचै कवि तऊ बरनी बनै न फवि,
बेसरि उतारे छवि बेसरि के बेह की ॥

दुनिया भर के कवि चाहे कितना ही सर क्यों न खपाएँ, परन्तु संसार में उन्हें नासिका के छिद्र की उपमा नहीं मिल सकती।

नासा वध की प्रशंसा में नीचे लिखा दोहा भी कैसा सुन्दर है—
बेधत अनियारे नयन बेधत कर न निषेध ।
बरबस बेधत मोहियो, तो नासा को बेध ॥

नायिका-भूषण-वर्णन

नीचे लिखे कवित्त मे नय का कितना सुन्दर वर्णन किया गया है
कैधौं पिय नेह मई कीरति हँसनि लैके,
भूले हेम भूले भूले ध्यान समरथ के ।
कैधौं मति मन खग फन्दा तामें मित्रवस,
बैठि कवि, कुज सोम थाने मनमथ के ॥
ऐसी भाँति देखिये री मोहे मन मोहन जू,
कहाँ लो बखान करो सूरति अकथ के ।
भूले ज्ञान गथ के सुलोक लाज पथ के सुका—
के नैन न थके निहारे तेरी नथ के ॥

नायिका ने नाक मे जो बेसर पहनी हुई है, वह मानों नायक के मन रूपी पत्नी को फँसाने के लिए कामदेव का फन्दा है। और नय मे जो दो सफेद और एक लाल, तीन मोती पड़े हैं, वे शुक्र, मंगल और सोम* ये तीन ग्रह हैं, जो मदन के मित्र होने के नाते-मित्र के कार्य के लिए, यहाँ पहरेदार बन के बैठे हैं, जैसे ही कोई आकर इस फंदे मे फँसता है, वैसे ही ये पहरेदार उसे और दृढता पूर्वक जकड़ देते हैं। यही कारण है कि जो कोई नायिका की नय को एक बार देख लेता है, वह उस पर मुग्ध हो जाता है। अजी और की तो क्या चले, मनमोहन तक इस फन्दे में फँस गए। खूब, कैसी अद्भुत कल्पना है। कवि की इस अनोखी सूझ पर किस सहृदय का हृदय लोट-पोट नहीं हो जायगा, और किस के मुँह से वाह नहीं निकल पड़ेगी।

निम्नलिखित दोहा भी कैसा भाव पूर्ण है—

बेसरि मोती धन्य तुहि, को बूभे कुल जाति ।

पियत रहत तिय अधर को रस निघरक दिन राति ॥

* शुक्र तथा सोम का रग स्वेत और मंगल का लाल माना गया है ।

हे नय के मोती, इस ससार में तेरा जीवन सफल है, जो तू रात-दिन निश्चिन्त भाव से नायिका के अधरामृत का पान करता रहता है। सत्य है, तप के प्रभाव से सब दोष मिट जाते हैं। फिर कोई जाति-पाति नहीं पूछता। यद्यपि तेरा जन्म अधम कोंच-कुल में हुआ है, तो भी क्योंकि चूँकि तू अग्नि में तपा और पर कारज के लिए तैने अपना शरीर विधवाया, उसी तपस्या का फल अब भोग रहा है। अब कोई तेरी जाति का विचार भी नहीं करता।

लोचन-वर्णन

[आँखों की सुन्दरता वर्णन करने के लिए कविजन कमल, खजन, भौर, चकोर, मीन या मृग नेत्रों से उपमा देते हैं ।]

देखिए नीचे लिखे कवित्त में नेत्रों का कैसा सुंदर वर्णन किया गया है—

कंज दुति भजन हैं, खजन के गंजन हैं,
 रञ्जन करत जन मंजन सँवारे हैं ।
 सोभा के सदन कोटि मोहत मदन मीन,
 मद के कदन मृग दूरि करि डारे हैं ॥
 लाज-गुन-गेह नेह-मेह बरसैं अछेह,
 देह न सँवारे जात जबते निहारे हैं ।
 कारे कजरारे अनियारे भूपकारे सित,
 बारे रतनारे प्यारी लोचन तिहारे हैं ॥

नायिका की आँखों ने खजन मीन और मृगों का तो मान-मर्दन कर दिया है। लाज के तो मानों ये घर हैं। इनसे निरन्तर नेह का मेह बरसा करता है। जब से ये कारे-कजरारे, सितवारे और रतनारे नयन निहारे हैं, तब से देह की भी सुध विसर गई है।

और भी देखिए—

हिय हरि लेत हैं निकई के निकेत हैंसि—
 देत हैं सहेत निरखत करि सैन हैं ।
 सेना हरिनी के हूते दग अति नीके राजैं,
 हरत दरद यों करत चित चैन हैं ॥

चाहत न अंजन सरिक मन रजन हैं,
खजन सरस रस राग रीति ऐन हैं ।
दीरघ ढरारे अनियारे नेकु रतनारे,
कंज से निहारे कजरारे थारे नैन - हैं ॥

सखी, तुम्हारी आँखों में कुछ ऐसा जादू है, कि जिसकी भी ओर तुम जरा देख लेती हो, उसी का हृदय तुम्हारे अधीन हो जाता है। लोग हरिणी के नेत्रों की तारीफ के पुल बाँधा करते हैं; पर तुम्हारे दीरघ, ठरारे, अनियारे और रतनारे नयनों के आगे मुझे तो वे बिलकुल तुच्छ जँचते हैं।

अब ज़रा मुबारक जी की भी सुन लीजिए, नेत्रों के सम्बन्ध में वे क्या कहते हैं—

पानिप के पनिप सुच्छताई के सदन,
सोभा के समुद्र सावधान मन मौज के ।
लाजन के वोहित पुरोहित प्रमोदन के,
नेह के नकीब, चक्रवर्ती चित चोज के ॥
दया के दिवान पतिव्रत के प्रधान युग—
नैन ये 'मुबारक' विधान नव रोज के ।
मृग के महाराज, मीनन के सिरताज, =
साहिब सरोज के मुसाहिब मनोज के ॥

मुबारक जी ने तो अपने इस पद्य में नेत्रों को सदन, समुद्र, वोहित, पुरोहित, दीवान, नकीब, महाराज, मुसाहिब और न जाने क्या-क्या बना दिया है।

इस प्रसंग में एक पद्य और भी पढ़ लीजिए। देखिए कवि ने नेत्रों का कैसा सजीव चित्र खींचा है—

बधु विधु कोर में चकोर कैसो जोरा वैठ्यौ,
कैधौ एक साथ मृग बाल द्वै बढ़ाए हैं ।
कैधौ मीनकेत के युगल मीन जग जुरे,
कैधौ खजरिट राखि पींजरा पढाए हैं ॥
मिलत जिआइवे कौं विछुरत मारिबे कौं,
कैधौ ये पियूष विष बोरि कै कढाये हैं ।

कैभौं विधि पूरन मयंक मुख पूजा करि,
अलिन सहित मानो नलिन चढाये हैं ॥

नायिका के नयन ऐसे जान पड़ते हैं, जैसे चद्रमा मे चकोर का जोड़ा बैठा हो, अथवा मीनकेतन की ध्वजा के दो मीन एकत्र हो गए हों। विधाता ने मिलते समय जीवन-दान देने और बिलुड्डते समय प्राण हर लेने के लिए इनमें अमृत और विष दोनों भर दिए हैं। कभी ऐसा शात होता है, मानो ब्रह्मा जी ने चद्रमा की पूजा करके उस पर भौंरो सहित दो कमल-पुष्प चढाए हैं।

इस प्रसंग में नीचे लिखे दोहे भी पढ़ने योग्य हैं—

आइ लगत बेचत मनहि रस निधि कर बिन दाम ।
नयनन मे नयनाहि ये याले नयना नाम ॥

× × ×

सगति दोष लगै सबै कहै जु सांचे बैन ।
कुटिल बक भ्रू सग ते भए कुटिल गनि नैन ॥

महाकवि बिहारी ने आँखों के सम्बन्ध मे कैसा सुन्दर दोहा लिखा है—

लाज लगाम न मानही नैना मो बस नाहि ।
ये मुँह जोर तुरंग लौ ऐचत हू चलि जाहि ॥

आँखों के सम्बन्ध में नीचे लिखा दोहा तो प्रसिद्ध ही है, इसकी समता शायद ही किसी साहित्य का कोई पद्य कर सके—

अमी हलाहल मदभरे, श्वेत, स्याम रतनार ।
जियत-मरत भुकि-भुकि परत, जिहि चितवत इक बार ॥

आँखों मे तीन रंग हैं, सफेद, काला और लाल। सफेद अमृत है, काला विष और लाल शराब। अर्थात् आँखों में ये तीनों चीज़ें भरी हुई हैं। इन आँखों की किसी पर ज़रा भी चितवन पड़ जाती है तो वहीं जीने, मरने और भुक्-भुक् पड़ने का दृश्य दिखाई देने लगता है। अमृत का काम जिलाना, विष का काम मारना, और शराब का काम मस्त कर देना है। दोहों की दो लकीरों में कैसा सुन्दर और विस्तृत भाव भरा गया है। धन्य है।

कविवर शंकर ने भी आँखों के वर्णन में कैसा सुन्दर कवित्त लिखा है—

ताकत ही तेज न रहैगो तेजधारिन में,
मंगल मयंक मंद पीले पड़ जायँगे ।
मीन बिन मारे मर जायँगे तड़ागन में,
डूब डूब 'शंकर' सरोज सड़ जायँगे ॥
खायगौ कराल काल केहरी कुरगन को,
सारे खजरौटन के पंख भड़ जायँगे ।
तेरी अखियान सों लड़ेंगे अब और कौन,
केवल अड़ीले दग मेरे अड़ जायँगे ।

इन अलबेली आँखों के मुकाबले में ससार की कोई उपमा नहीं ठहर सकती । इनके तेज के आगे बड़े से बड़े तेजस्वी निस्तेज हो जायँगे । नायिका के जरा तिरछी चितवन से ताकते ही बड़े-बड़े की धोती ढीली हो जाती है । मंगल, मयंक (चन्द्र), और मन्द (शनि) ये तीनों ग्रह भी इन आँखों के आगे निष्प्रभ हो जायँगे । (यहाँ आँखों की लालिमा, सफेदी और स्याही से उक्त तीनों ग्रहों की तुलना की गई है, क्योंकि इनके रंग क्रम से लाल सफेद और काले होते हैं) । कमल इनके आगे लज्जित होकर तालाबों में जा डूबते हैं और मृग खंजन आदि इनसे परास्त होकर जंगलों में जा छिपते हैं ।

नेत्र वर्णन में कविवर सेनापति भी किसी से पीछे नहीं रहे । वे भी लिखते हैं—

अजन सुरंग जीते- खजन कुरग मीन,
नेक न कमल उपमा को नियरात है ।
नीके अनियारे अति चंचल ढरारे प्यारे,
ज्यौं-ज्यौं मै निहारे त्यों-त्यों खरे ललचात है ॥
'सेनापति' सुधा सी कटाञ्छनि बरसि ज्यावे,
जिनकों निरखि हियो हरखि सिरात है ।
कान लौ बिसाल काम भूप के रसाल बाल,
तेरे दग देखे मेरो मून न अघात है ॥

तेरे लोचनों ने खंजन, कुरग और मीन सबको जीत लिया है । जिस

समय ये कटाक्षों द्वारा अमृत वर्षा-सी करीते हैं, उस समय हृदय आनन्द और उल्लास से भर जाता है। इन्हें देखते-देखते तबियत भरती ही नहीं।

अब ज़रा रात्रि जागने के कारण लाल लोचनों का वर्णन भी पढ़ लीजिए—

रात्रि के उनीदे अलसाते मदमाते राते,
राजें कजरारे हृग तेरे ये सुहात हैं।

तीखी-तीखी कोरन अकोरि लेत कोटि जिय,
केते भये घायल औ' केते तलफात हैं॥

ज्यों ज्यों लै सलिल चख 'सेख' धोवे बार-बार,
त्यौं-त्यौं बल बुन्दन के बारे भुकि जात हैं।

कैबर के भाले कैधौ नाहर-नहर वाले,
लोहू के पियासे कहाँ पानी ते अघात हैं।

शेख कवि कहते हैं—अरी, तेरे ये उनीदे, अलसाए, मदमाते, लाल लोचन अपनी तीखी कोरों से करोड़ों के हृदय वेध देते हैं। तू जो बार-बार इन्हें धोने के मिस पानी पिलाती है, तेरा यह प्रयास व्यर्थ है। भला खून के प्यासे भी कभी पानी से अघाते हैं ?

उनीदी आँखों का वर्णन कविवर आलम ने भी बड़े सुन्दर ढंग से किया है।

प्रेम रगमगे जगमगे जागे यामिनी के,
जोवन की जोति जगि जोर उमगत हैं।

मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं,
भूमत हैं भुकि-भुकि भेंपि उघरत हैं॥

कहै कवि 'आलम' निकाई इन नैनन की,
पाँखुरी पदुम पै भँवर थिरकत हैं।

चाहत हैं उड़िबे को देखत मयक मुख,
जानत हैं रैनि ताते याही मे रहत हैं॥

रात की उनीदी, अलसायी और मदमाती-‘राती’ आँखों की सुन्दरता ऐसी जान पड़ती है, जैसे पद्म की पंखड़ियों पर भौरा थिरकता फिरता हो। यह भौरा उड़ क्यों नहीं जाता, इन्हीं में क्यों घूमता रहता है, इसके लिए

आलम कहते हैं—भौरा उड़ना तो चाहता है, परन्तु ज्यों ही उसे मुख-चन्द्र दृष्टि पड़ता है, त्यों ही वह रात्रि के भ्रम से वहाँ का वहीं, बैठ जाता है। रात में उड़कर कहाँ जाय ?

और भी देखिए—

दीरघ ढरारे आछे, डोरे रतनारे लागे,
कारे तहाँ तारे अति भारे ये सुरंग हैं ।
कहै कवि 'गंग' जनु दूध ही सों घोये पुनि,
को ये विकसित सित असित दुरग हैं ॥
पारद सरिस चीर थिर में थिरकि जात,
तिरछे चलत मानो कूदत कुरग हैं ।
खेचे न रहत अणुशग हू के बाग वर,
प्यारी जू के नैन किधौ मैन के तुरंग हैं ॥

गंग कवि ने तो नायिका के नेत्र चंचल घोड़े ही बना दिए. जो अनुराग की बाग में बँधे रहने पर भी इधर-उधर दौड़ ही जाते हैं ।

नेत्रों के सम्बन्ध में नवी जी का नीचे लिखा कवित्त भी पढ लीजिए—

मृग केसे मीन केसे खजन प्रवीन केसे,
अजन सहित सित असित जलद से ।
चर से चकोर से कि चोखें खोंड़ कोर से कि,
मदन मरोर से कि माते राते मद से ॥
'नवी' कवि ऐना से कि और नैन बैना से कि,
सियरे सलौना से कि आछे मृग मद से ।
पय से पयोधि से कि और सौधे सौध से कि,
भारे कारे भौर से कि प्यारे कोकनद से ॥

उक्त पद्य में तो नेत्रों को, मृग, मीन, खंजन, जलद, खोंड़ को कोर, चकोर, भौर और न जाने क्या क्या बना दिया है ।

शृङ्गार वर्णन करते समय कवियों ने जितना नेत्रों पर लिखा है उतना शायद और किसी विषय पर नहीं लिखा । निम्नलिखित पद्य भी कितना सुन्दर है—

भूमत भुकत भरे मद के अरुन नैन,
 मानो मैं तून हैं कड़त जाते सर हैं ।
 हाव किल किञ्चित सरूप धरे नाथ कैधौ,
 मोहन वसीकर उचाट के अमर हैं ॥
 कैधौ मीन पैरत सहाव के सरोवर मे,
 मनिक जटित भूमि खजन सुदर हैं ।
 कैधौ अनुराग को लपेटि कै सिंगार बैख्यौ,
 कैधौ कौल पॉखुरी मे डोलत भंवर हैं ॥

नायिका के नेत्र मानों मदन के तरकस हैं, जिनसे कटाक्ष बाण निकलते हैं—या रूप-सरोवर मे दो मछलियों तैरती फिरती हैं अथवा मणि जटित भूमि पर खजन खेलते फिरते हैं । यह भी हो सकता है कि अनुराग को श्रोठ कर शृंगार रस बैठा हो या कमल मे भौरा घूमता हो ।

और देखिए, कवि ऊधौराम ने आँखों मे नाव का कैना सुन्दर रूपक बाँधा है—

यौवन प्रवाहता में छवि की तरग उठै,
 भौह की मरोरन सों भौर मतवारे हैं ।
 बालम की मूरत मलाह माँझ बैठि रही,
 छूटे लाल डारे तेई गुन रतनारे हैं ॥
 पूतरि हलनि सोई पतवारि 'ऊधौराम',
 लाज बादवान पाल बरुनी सँवारे हैं ।
 रूप के सरोवर मे पैरि-पैरि डोलत हैं,
 अँखियों न होइये तो काम के निवारे हैं ॥

उपर्युक्त रूपक में जल तरंगे, भँवर, मल्लाह, गुन, पाल, पतवार आदि सभी आँखों में दिखा दिए हैं । नाव से सम्बन्धित कोई चीज़ छूटने नहीं पाई ।

इसी प्रकार नीचे लिखे ग्वाल कवि के कवित्त मे घोडे का रूपक बाँधा गया है—

सोहत सजीले सित्, असित सुरंग अङ्ग,
 जीन सुचि अजन अनूप रचि हेरे हैं ।

सील भरे लसत असील शुन साज दै कै,
लाज की लगाम काम कारीगर फेरे हैं ॥
धूँध फरस तामें फिरत फबीले फूले,
लोक कवि 'ग्वाल' अबल्लोकि भये चेरे हैं ।
मोर वारे मन के त्यौ पन के मरोर वारे,
तोर वारे तरुनी तुरंग दृग तेरे हैं ॥

घोड़ों के लिए आवश्यक कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जो ग्वाल कवि के इस रूपक में न हो । जीन, लगाम, साज़ चाबुक, सवार, घोड़े का यान, आदि सभी मौजूद हैं ।

नीचे लिखे पद्य में भी घोड़े की ही कल्पना है, पर इसका अपना ढंग निराला है । देखिए—

पलकैं अमोल तामे बरुनी छुवा लसत,
लाज वारी कोरें पग परम सुदंग हैं ।
'श्रीपति' सुकवि लौने पैकरे बने हैं कोने,
रचि पचि विधना सँवारे सब अंग हैं ॥
जापै चढि रूप के सुभट प्रेमराज काज,
बिरह गनीमन सों जीति लेत जग हैं ।
दिन रैनि पिय मन वीथिका में नाचत हैं,
प्यारी तेरे नैन कैधौं मैन के तुरंग हैं ॥

ऊपर के पद्य में तो केवल घोड़ा ही दिखाया गया है, परन्तु श्रीपति जी ने अपने घोड़े पर विरह रूपी शत्रु से प्रेमनगर की रक्षा करने के लिए रूप महाराज के सुभट भी सवार करा दिए हैं ।

निम्नलिखित सबैया भी अपने ढंग का निराला ही है—

प्राण पियारी सिंगार सँवारि लिये कर आरसी रूप निहारै ।
चन्द्र से आनन की दुति देखत पूरि रह्यो उर आनंद भारै ॥
अंजन लौ नख सों रमनी दृग अँजनि यों उपमान विचारै ।
चीरि कै चोच चकोरन की मानो चोपते बंद चुरावत चारै ॥

कवि ने अंजन अँजती हुई नायिका को देख कैसी अद्भुत कल्पना की

है। रमणी आँखों में काजल नहीं लगी रही बल्कि चन्द्रमा चकोर के चंद्रमा की चोंच चीर कर उसे चारा चुगा रहा है। खूब ! खूब की बलिहारी।

भृकुटी-वर्णन

[टेढ़ीखता, कामदेव के धनुष, भौरों के पंख और काम-खड्ग के म्यान से भौंहों की तुलना की जाती है।]

देखिए कविवर केशव जी ने भृकुटियों का कैसा सुन्दर वर्णन किया है—

कैधों लगी पंकज के अंक पंक लीक कैधों,

‘कैसव’ मधक अंक अंकित शुभाय को।

मन्त्र है सुहाय को कि मन्त्र अनुराग को कि,

मन्त्रन को बीज अघ्न ऊरध अभाय को।

असन सिंगार को कि काम को सरासन है,

असन लिख्यौ है प्रेम पूरन प्रभाय को।

रोख रख देष विष पियुष विसिख मैन,

भामिनी की भौंहें कैधों भौन हाय भाय को।

बहाकवि केशव जी नायिका की भौंहों को देख कर कहते हैं—या तो वह पंकज के शरीर में पंक का निशान लग गया है या चन्द्रमा के अङ्क में अङ्क अंकित है, अथवा शृङ्गार रस का आसन है या कामदेव का असन है।

इस सम्बन्ध में नीचे लिखा सबैसा भी पढ़ने लायक है—

भोरी किशोरी की गोरी-सी देह सुदामिनि की दुति देति विदारें।

नारि नवै सब नारिन की जब नारि के रूप अनूप निहारें ॥

मौंह दुहुन को भाव सखी, सुरकी डर ते न टरें पल टारें।

भीजे मनो मुख अम्बुज के रस भौर सुखवत पंख पसरें ॥

नायिका की भौंहें ऐसे जान पड़ती हैं, मानों मुख-सरोज के रस में भीष्म हुआ मीरा अपने पंख फैलाए, उन्हें सुखा रहा है।

शृङ्गार जी ने भृकुटियों का कितना सुन्दर वर्णन किया है, सुलभहिङ्गारमाह—

उन्नत उरोज यदि युगल उभैश हैं तो,
काम ने भी देखा दो कसाने ताक जाती है ।
शङ्कर कि भारती के भावने भवन पर,
मोह महाराज की पताका फहरानी है ।
किम्बा लट नाभिनी की साँवली सँपेलियों ने,
आधे विधु बिम्ब पै विलास विधि टानी है ।
काटती है कामियों को काटती रहेगी कइये,
भृकुटी कटारियों का कैसा बड़ा पानी है ।

वास्तव में भृकुटी कटारियों का बड़ा कड़ा पानी है, इसने न जाने कितनों
के कसेजे नहीं काट डाले ।

भाल-वर्षान

[मस्तक की सुन्दरता के लिए सोने की पट्टी, शोभा की सभा, चौपाई
चन्द्रम आदि से उपमा दी गई है ।]

भाल वर्षान सम्बन्धी कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

रूप की नदी में पार पाइवे को पारो है कि,
काम को आखारो है कि रति को भंडार है ।
लाज को महल प्यारे मंडल की आँखिन के,
बैठिवे को पैड़ी है कि प्रेमरस सार है ।
राहु जानि वारन के भारन डरानो याते,
चन्द्रमा को मानो अध खंड अवतार है ।
यौवन को द्वार कै निकाई को निकाार भोरी—
गोरी को लिलार कैधौ सोभा को सिंगार है ॥

उक्त कवित्त में भाल की उपमा रूप-नदी में तैरने की होगी, कामदेव के
आखाड़ा, रति के भंडार, लाज के मंडल, केश पाश रूपी राहु के भय से भीत
अर्थ उदित चन्द्र आदि से दी गई है ।

देखिए केशव जी भाल के सम्बन्ध में क्या कहते हैं—

‘केशव’ असोक कैधौ सुन्दर सिंगार लोक,
कनक-केदार कैधौ आनंद के कन्द को ।

सोभा को सुभाव कैधौ प्रभ' को प्रभाव देखि,
मोहे हरि राव सखी नन्दन सुनन्द को ।
चमकत चारु रुचि गगा के पुलिन कैधौ,
चकचौधे चित्त मति मन्द हू अमन्द को ।
सेज है सुहाग की कै भाग की सभा सुभाग,
भामिनी को भाल कैधौ भाग चारु चन्द को ॥

केशव जी ने भी आनन्द-कन्द के सुनहरी खेत, गंगा के किनारा, सुहाग की सेज, भाग्य की सभा, चन्द्रमा के टुकड़े आदि से मस्तक की उपमाएँ दी हैं ।

अब भाल की बेदी के सम्बन्ध में देखिए कवि क्या कहते हैं—

सोहत अग सुभाय के भूषन भौर क्रे भार लसै लट छूटी ।
लोचन लोल अमोल विलोकत, तीय तिहूँ पुरकी छबि लूटी ॥
माथ लट्ट भये लालन जूलखि, भामिनि भाल की बन्दन बूटी ।
चोप सो चारु सुधा-रस लोभ, विधी विधु में जनु इन्द्र बधूटी ॥

जिस बेदी को देख लाल उस पर लट्टू हो गए हैं, वह ऐसी सुन्दर जान पड़ती है, मानो सुधा-रस के लोभ से चन्द्रमा में इन्द्रबधू आ चिपटी हो । वहाँ मस्तक को चन्द्र और बेदी को इन्द्रबधू से कितनी उपयुक्त उपमा दी गई है ।

नीचे लिखे सबैया में भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया है—

नैननि सैननि हावन भावन डोलनि बोलनि भाँति सुहाती ।
राखे हैं जो बसकै मन लाल मनोहर रूप प्रवीन सदाती ।
भाल में सेदुर बिन्दु लखे उपमा न हिये ललकै अविधाती ।
मानो रही लपटाय बनाय कै इन्द्र बधू लागि इन्द्र की छाती ॥
यहाँ भी कवि ने इन्द्र बधू को इन्द्र की छाती से चिपटाया है ।

मुख-मण्डल-वर्णन

मुख मण्डल की पूर्ण चन्द्रमा, कमल, दर्पण आदि से उपमा दी जाती है ।]

यहाँ मुख-मण्डल के वर्णन में दास कवि का एक पद्य उद्धृत किया जाता है—

दधि के समुद्र न्हायो, फूँई न सफाई तऊ.

तायो आँच रुद्र जी के सेखर कृसानु की ।

सुधाधर भयो सुधा अधरन देत द्विज,

राज हू अकस द्विजराजी के प्रभान की ।

घटि घटि पूरि-पूरि फिरत दिगन्त अजौ,

उपमान विनु भयो खानि अपमान की ।

‘दास’ कलानिधि केती कला कै दिखावै पै न-

नैकु छवि पावै राधे बदन विधान की ॥

चन्द्रमा ने राधिका जी के मुख की समता प्राप्त करने के लिए कितने प्रयत्न किए—बेचारा दधि के समुद्र में वर्षों गोते लगाता रहा, महादेव जी के मस्तक पर बैठ, उनके तीसरे नेत्र की अग्नि में वर्षों तपा, और भी दिग्दिगन्त में न जाने क्या-क्या साधना करता फिरा। अनेक धार तपस्या करते-करते बेचारे ने अपने शरीर को घुला दिया, फिर भी राधा के मुख की समता न कर सका। लोग जो इसे सुधाधर कहते हैं, वह भी इसलिए कि इसे राधिका जी के अधरों ने सुधा प्रदान की है, और इसमें जो चमक है, वह भी राधिका जी की द्विजराजी (दन्तपर्क) की दी हुई है। तभी तो इसका नाम द्विजराज पड़ गया है। सिवा कलङ्क के, इसके पास अपना तो कुछ भी नहीं है।

इस प्रसंग में कवि चिन्तामणि की कल्पना भी सुन लीजिए—

सुन्दर बदन राधे शोभा को सदन तेरो,

बदन बनायो चारि बदन बनाय कै ।

ताकी रुचि लेन को उदित भयौ रैनपति,

राख्यौ मति गूढ निज कर बगराय कै ॥

कहै कवि ‘चिन्तामणि’ ताहि निश चोर जानि,

दीन्ही है सजाय पाक शासन रिसाय कै ।

याते निशि फिरै अमरावती के आस-पास,

मुख में कलक मिसु कारिख लगाय कै

जब चन्द्रमा अन्य अनेक उपाय करके राधिका जी के मुख की सी कान्ति न पा सका, तो उसने वृषभानु श्ली के मुख में से ही उसे चुराने की कोशिश

की। लेकिन हज़रत को इन्द्र ने ऐन मौके पर जा पकड़ा। उसी अपराध में इनके माथे पर काला टीका लगाकर आपको यह सजा की गई कि दिन-रात अमरपुरी के चारों ओर गश्त लगाया करे। तभी से बेचारा सदा आकाश में घूमा करता है।

अब राम कवि का नीचे लिखा पद्य भी पढ़ लीजिए, देखिए आप क्या कहते हैं—

कर जो प्रकाशमान लागत विभावरी मे,
या तो आठौ यामहू विमल जोति धारिये ।
वाके अक राजत कलंक रक राव सदा,
याके हिय मोंभ बसै मोहन मुरारि ये ॥
वाको बपु क्षीण दिन प्रति अवलोकियह,
याके अग पूरण प्रभा सों प्रेम पारिये ।
कहै कवि राम' छवि धाम प्राण प्यारे ए जू-
राधे-मुलचद पै शरद चद बारिये ।

अजी भला राधिका जी के मुख की समता चन्द्रमा कैसे कर सकता है। चन्द्रमा केवल रात में ही चमकता है, दिन में तो उसका मुख बुरी तरह मलीन हो जाता है, पर राधा का बदन आठों पहर अपनी प्रभा छिटकाता रहता है। इसी तरह उममें कलक लगा हुआ है और इसमें मोहन मुरारी की भाँई दिखाई देती है। वह रोज रोज घटता बढ़ता है, पर यह सदा एक रस पूर्ण रहता है। अजी आप समता की बात कहते हैं? मैं कहता हूँ राधा के बदन पर ऐसे करोड़ों शरद चन्द्रवार कर फेंक देने चाहिए।

और भी देखिए—

मोरहै कला कालत जानत जगत वै तो,
सुख रूप इनमे बचीस कला छुई है ।
पूनी ही मे पूरण प्रकाश को निवास होत
ये तो सदा पूरण प्रकाश अधिकाई है ।
सुधा के सबत कन उह्यो ते इहाँ वचन—
सुधा की सी धार सदा अति सुखदाई है ।

आनंद को कन्द सुनु ए री नंद नन्द प्यारी,

चन्द्र ते अधिक मुख चन्द्र छवि पाई है ॥

चन्द्रमा में केवल सोलह कला हैं, परन्तु राधिका जी के मुख में बत्तीस कला (दांत) मौजूद हैं। वह केवल पूनों के दिन पूरी तरह प्रकाशित होता है, पर यह सदा ही अपनी आभा से ब्रज को आलोकित करता रहता है। चन्द्र में से सुधा की केवल कुछ बूँदें टपकती हैं, पर इसमें से सदा ही वचन-सुधा-धारा प्रवाहित होती रहती है। भला इसकी बराबरी कैसी ! कहाँ, राजा भोज और कहाँ गँगुआ तेली।

और देखिए—

मुख देखन कों पुर बधू जु रि आई नंद-नन्द ।

सब की अखियों छु गई वृषट देखत बन्द ॥

मुख की चक्राचौध में सब की अखें चुंधिया गईं । कितना अत्युक्ति पूर्ण वर्णन है ।

उदूँ कवि नासिख की भाँ उक्ति सुन लीजिए—

घर में बाहर मेरे रश्के माह को आने न दो ।

चौदनी पै शुभा होगा सायर दीवार का ॥

उस चन्द्र वदनी को घर से मत निकलने दे, उसके प्रकाश के आगे चौदनी दीवार की साया सी मालूम देगी ।

नीचे लिखी शेर भी बहुत खूब—

शमारू कहना उसे सौदा है तारीकीए अञ्जल ।

शमा का अक्म उसके आरज पर कलफ है माहका ॥

महाकवि बिहागी क्या कहते हैं, सुनिए—

पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास ।

नित प्रति पून्यो ई रहै, आनन ओप उजास ॥

वहाँ तो नायिका के मुखचन्द्र की चौदनी के कारण सदैव पूर्णमासी ही रहती है, ठीक-ठीक तिथि जानने के लिए पत्रा के पन्ने पलटने पड़ते हैं । पत्रा न हो तो तिथि ही न मालूम हो सके ।

मुख के वर्णन में बेनी कवि का आगे लिखा सबैया भी पढ़ने लायक है—

मानव बनाए, देव-दानव बनाए, यक्ष किन्नर बनाए पशु-पक्षी नाग कारे हैं ।
द्विरद बनाए, लघु-दीर्घ बनाए, केते सागर उजागर बनाए नदी नारे हैं ॥
रचना सकल लोक-लोकन बनाय ऐसी जुगति मे 'त्रैनी' परबीनन के प्यारे हैं ।
राधे को बनाय मुख धोए हाथ जाम्यौ रग,ताको भयो चन्द्र कर भारे भए तारे हैं ॥

अरे साहब, जिस चन्द्र की सराहना करते करते आप नहीं अघाते, वह तो नायिका के मुख का धोवन है ।

नाथ कवि का नीचे लिखा कवित्त भी पढने लायक है ।

तेरो मुख रचि कै निकाई को नित्रेत राधे,
चारु मुख चन्द न रन्धौ है और तेरो सो ।
छविन को घेरो सो मुहाग को उजेरो सब,
सौतिन की आखिन मे पारत अँधेरो सो ॥
कान्ह की,सों कवि नाथ' केतो पचि रह्यौ जाकी,
उपमा नवीनी मन हेरि हारौ मेरो मे ।
ताकी सम ताहिरी बताऊँ कहि का को जाहि,
चारु सो चन्द अरविन्द लागै चेरौ सो ॥

जो चन्द्रमा राधा जी के मुख के आगे चाकर-मा प्रतीत होता है, और जो कमल उसके सामने चेरा सा जान पडता है, उन्ही मे भला मुख मण्डल की उपमा कैसे दूँ ।

अब लगे हाथों जुरा केशव जी की करामात भी देख लीजिए—

ग्रहनि मे कीन्हो गेह सुरनि दे देख्यौ देह,
शिव सों कियो है नेह जाग्यो युग चार्यो है ।
तपिन में तप्यो तप जपिन मे जप्यो जप,
'केशोदास' बपु मास-मास प्रति गार्यो है ॥
उडुगण ईश, द्विज ईश ओषधीश भयो,
यदपि जनत ईश सुधा सों सुधार्यो है ।
सुनि नँद नन्द-प्यारी-तेरे मुखचन्द सम,
चन्द पै न भयो छन्द कोटि करि हार्यो है ॥

बेचारे चन्द्रमा ने भरसक क्रोशिश की परन्तु वह वृषभानु नन्दिनी के मुख मडल के समान न हो सका और न हो सका ।

केश वर्णन

[नायिका के केशों का सौन्दर्य-वर्णन साँप के कुमार, मोर के पख, भौर भीर, यमुना का पानी, अमावस की रात का अन्धकार, सिवार, नील-नलिनी के तार और काले बादल आदि से उपमा देकर किया जाता है ।]

देखिए, निम्नलिखित कवित्त में केश-पाश के सम्बन्ध में कैसी-कैसी कल्पनाएँ की गई हैं—

घेरो मुखचन्द्र के विधुन्तुद मयूख जाल,
 कैधौ सखी सुन्दर सिखडि क निरुर हैं ।
 कैधौ सुर तर वलि घेरे घन धुरवा के,
 छवि छटा बीच अन्धकार के अँकुर हैं ॥
 कैधौ निधि कोमल कुहू क तंत अवतार,
 कैधौ मन्वतूल तार बकुर विथुर है ।
 कैधौ वर इन्दावर केसर बलित कैधौ,
 ललित लली के अँत मेचक चिकुर हैं ॥

नायिका के शिर पर बाल है, या मुख रूपी चन्द्रमा को राहु की किरणों ने घेर रक्खा है । यह सुन्दरी का केश कलाप है, या सुर वल्लरी के ऊपर काली घटाएँ छा रहा है । नहीं नहीं, यह तो नील कमल है, जिसकी वेणी रूप नाल पीछे लटकी हुई है, तथा ऊपर चूड़ा मणि (शिरोभूषण) रूप केसर स्पष्ट दिखाई दे रही है ।

और लीजिए, देखिए कवि चिन्तामणि ने कैसी ऊँची उडान भरी है—

एरी वृषभानु की कुमारी सुकुमारी दखि,
 मोहन छचीले स्याम तेरी छवि रत है ।
 कहै कवि 'चिन्तामणि' सुन्दर रसिक लाल,
 तेरे तन कान्ति वर्णन में निरत हैं
 एरी तेरे बारन हरी है शोभा भौरन की,
 जानति सु काहे को ये कौलन धरत हैं ।

मिलि सब फरियाद करिबे को टेरत सी,
माना कमलासन को हेरत फिरत हैं ॥

अरी सुन्दरी, क्या तुम जानती हो, ये भौंरे कमलों पर क्यों मँडराते हैं। सुनो, हम बताएँ, देखो तुम्हारे बालों ने जो इन बेचारों की शोभा छीन ली है, सो ये उसकी फरियाद ब्रह्मा जी से करना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें बताया गया है कि ब्रह्मा जी कमल में रहते हैं, इसलिये प्रत्येक कमल पर घूम-घूम कर कमलासन को खोजते फिरते हैं। कदिए है न कमल की कल्पना।

कवि सुवारक जी क्या कहते हैं, उनकी भी सुन लीजिए—

लांबे लहकार सुकुमारे सटकारे कारे,
मृग मद धारे मखतूल कैसे तार हैं ।
तम को निवास कैधौ तामस प्रकास कैधौ,
सर में सिंगार के ये सुथरे सेवार हैं ॥
मार सिर मौर कै 'सुवारक' ये भौंर कैधौ,
चातुरी के चौर मन मेचक के सार हैं ।
ससि के समीप कैधौ राहु की रसन सी है,
नागिन के बार कै सुहागिनि के बार हैं ॥

समझ में नहीं आता कि कस्तूरी में रंगे रेशम के लच्छे हैं, या अंधकार एकत्र हो गया है। शृङ्गार रस के सरोवर में सिंगार फैला है अथवा कामदेव का सुकुट या भौंरा की भीड़ है। हो न हो, ये चन्द्रमा को और लपलपाती राहु की जीभें हैं। इन्हें सुन्दरी के बाल कहें या नागिन के बार।

और भी देखिए—

लांब मुललित लहकारे सटकारे कारे,
कंचन के खम्भ फैले पन्नग कुमार हैं ।
मधुकर भार मखतूल कैसे तार कैधौ,
मरकत मनि छविदार तम धार हैं ।
राजै मणि कंठ रसराज के कुमार कैधौ,
सुषमा सरोवर के सुथरे सिवार हैं ।

अंजन के तार पिय मन के हरउ हार,

झैधौं ये छुबीली के छुबीले छूटे वार हैं ॥

यहाँ भी छुबीली के छिटके हुए बालों को, सोने के खम्भे पर लटकते हुए सँपोलों, अन्धकार की घाराओं, रूप सरोवर के सिवार, काजल आदि से उपमा दी गई है :

केस-वर्णन में यह दोहा भी बड़ा सुन्दर है—

सहज धु चिक्कन स्याम रचि सुचि सुगन्ध सुकुमार ।

घनत न मन-पथ अपथ लखि विशुरे सुथरे गार ॥

इन बालों को देखकर मन मतंग ऐसा मतवाला हो जाता है, कि फिर बड़ राह-कुराह कुछ भी नहीं विचारता ।

अलक (लट) वर्णन

देखिए अलक के सम्बन्ध में कवि हनुमान क्या लिखते हैं—

आशु लक्ष्मी ललना लवंग लतिका सी लौनी,

अंगन ते जाके आभा उमगै अपार है ।

खरी ही सरोवर पै लैकर सखीन संग,

कोन्हों 'हनुमान' तहाँ तरक विचार है ॥

मोतिन की माल चारु कुच पै लखात तापै,

परी मुख ऊपर ते लट सुकुमार है ।

धानों संभु सीस पै निहारि गंग जू को मिलै,

चली चन्द्र बिम्ब ते कलिन्दजा की धार है ॥

जाधिका के हृदय पर पड़ी मोतियों की माला और मुख पर से लटकती हुई लट, दोनों को देखने से ऐसा जान पड़ता है, मानों शंकर जी के सिर पर से बहती हुई गंग धार से मिलने के लिए चन्द्रमंडल में से यमुना की धारा ब्रह्म कर आई है ।

आगे लिखा पद्य भी कितना उत्कृष्ट है—

सोने से शरीर तापै आसमानी रंग चीर,

औरै ओप कीनी रवि रतन तरौना द्वै

मोमनाथ कहँ इन्दिरा सी जगमगै ज्वाल,
गाढ़े कुच ठाढ़े मानो ईश युग मौना द्वै ।
कारी घुँघुवारी मन्द पवन भक्कोर लागे,
फरहरे अलक ये कपोलन के कौना द्वै ।
सो छबि अमन्द मानो पान सुधा बुन्द करि,
इन्द्र पर खेलत फनिन्दन के छौना द्वै ॥

ईस पद्य में भी मुँह पर लहराती हुई काली लटों को, चन्द्रमा पर खेलत हुए सर्प के बच्चों से उपमा दी है ।

नीचे लिखा कवित्त भी पढ़ने लायक है—

सरस सुगन्ध घालि सीस ते अन्हाय बाल,
रोरी बिन्दु भाल की विशाल छबि जोई है ।
धारी सेत सारी सो किनारी जर तारी कोर,
रसिक बिहारी प्यारी मुख पै समोई है ॥
भीजी लटँ लोबी आय चिपटी उरोजन पै,
हेरि यह उपमा अनूप उर गोई है ।
सीत-भीत आतप मे मानो गिरि ऊपर यों,
ठौर-ठौर पन्नगी पसार पूँछ सोई है ॥

स्नान करने के बाद स्तनों पर लटकी हुई लटे ऐसी जान पड़ती है, जैसे जाड़े के मारे सापिनँ, हिमालय पर धूप मे आ सोई हों ।

अब जरा नीलकंठ जी का लट वर्णन भी पढ लीजिए—

तैसी चल चाहन चलन उतसाहन सों—
तैसो विधि वाहन विराजत बिजैठो है ।
तैसो भृकुटी को ठाट तैसोई ललाट दिपै,
तैसोई बिलोकिबे को पी को प्रान बैठो है ।
कहै कवि 'नीलकंठ' तैसी तरुनाई तामे,
जोवन नृपति सो फिरत एँठों एँठों है ।
छूटी लट भाल पर सोई गोरे गाल पर,
मानो रूप माल पर ब्याल एँठि बैठो है ॥

गात्र पर लटकी लट ऐसी शोभित हो रही है, मानों रूप की धरोहर पर सर्प कुडला मारे बैठा हो ।

पजनेश जी ने लटों का वर्णन इस प्रकार किया है, सुनिए-

कवि 'पजनेश' मनमथ के श्रवण पर,

सबुल भुलत भाल वृषभान नन्दिनी ।

सुन्न दै सुघार्थो विधि बुध त्रिधु अक बंक,

दस गुनी दीपति प्रकासो जग बन्दिनी ।

स्वेद कन मध्य दीठि रत्नक दिठौना जापै,

छूटी लट डुलत कला जनु कलिन्दिनी ।

मुख अरविन्द ते समेटि मकरन्द बुन्द,

मानो निज नन्दनै चुनावति मलिन्दिनी ॥

उपर्युक्त पद्य में नायिका के कपोलस्थ तिल के आस-पास लटकती हुई लट की उपमा, मुख रूपी अरविन्द में से मकरन्द इकट्ठा कर अपने बच्चे को खिलाती हुई भौरी से दी है ।

लटों के वर्णन में गग कवि का नीचे लिखा सवैया कैसा सुन्दर है—

श्री नन्दलाल गुपाल के कारण कीन्हों सिंगर जु राघे बनाई ।

ककुम आड़ सुकंचन देह दिपै मुकुताहल की भलकाई ॥

सीस ते एक छुटी लट सुन्दर आनि कै यों कुच में लपटाई ।

गग कहै मानो चन्द के बीच है सभु को पूजन नागिनी आई ॥

चन्द्रमा के बीच होकर नागिन महादेव जी की पूजा करने आई है । क्या खूब !

अलकें तो मुख की शोभा बढ़ाने के लिए बड़ी ज़रूरी है । उनके कारण ही मुख की आभा इतनी सुन्दर दिखाई देती है । देखिए—

मुखहि अलक को छूटिबो अवसि करे दुतिमान ।

बिन बिभावरी के नहीं जगमगात सित भान ॥

चन्द्रमा रात्रि के कारण ही अधिक चमकता है । बिना रात के उसकी सुरत पर भी बारह बजने लगते हैं ।

पाटी-वर्णन

निम्नलिखित कवित्त मे पाटियों का वर्णन कैसी सुन्दर रीति से किया गया है—

कीधौ राहु डरते धरी है चन्द्र ढाल बिबि,
कीधौ राहु गढ़ि रह्यौ चन्द्रमा को आय कै ।
कीधौ तम भूमि आछी, कीधौ प्रेम की कसौटी,
कीधौ विधि पढिबे की पाटी करी चाय कै ॥
कीधौ रस आदि की बनाई दोऊ क्यारी भली,
कीधौ घन घटा रही चन्द्रमा पै छाय कै ।
सुन्दर सुहावनी है चित्त ललचावनी है,
बाट पारी पाटी पारि वैढी है बनाय कै ॥

या तो राहु के भय से चन्द्र ने अपने ऊपर. ढाल रख ली है, वा राहु ने चन्द्रमा को ग्रस लिया है । या फिर यह प्रेम की कसौटी है या कामदेव के पढ़ने की पट्टी । अथवा शृंगार रस की दो क्यारियाँ हैं, या चन्द्रमा के ऊपर छाई हुई घन घटा ।

देखिए, कविवर दिनेश जी पाटियों के सम्बन्ध में क्या कहते हैं —

कैधौ बैनी पन्नगी के फन दुहूँ और कैधौ,
हग मूग रोकिबे की रूप-भूप घाटी है ।
मुख-विधु ताने हैं वितान युग मेरे जान,
कमलन ऊपर सिवारन की टाटी है ॥
कैधौ करतल रसराज राखे माथे दोऊ,
दिपति 'दिनेश' ताते ललित लिलाटी है ।
एरी आगे मोहन मयूर से निरखि नाचे,
सघन कै घन पटली की परिपाटी है ॥

नायिका के माथे पर यह पाटियों नहीं हैं, बल्कि वेणी रूपी सर्पिणी के फन हैं या नेत्र रूपी हरियों का घेरने के लिए रूप-भूप ने दो घाटियाँ बनवा रखी हैं । मेरे जाने तो मुख रूपी चन्द्रमा के ऊपर श्याम रंग के दो शामियाने ताने हैं या फिर कमल के ऊपर सिवार की टट्टी आ पड़ी है; अथवा रसराज

ने अपने दोनों हाथ नायिका के माथे पर रख दिये हैं। ये श्याम घन-
घटाएँ भी हो सकती हैं, क्योंकि इन्हें देख कर मोहन का मन-मयूर नाच
उठता है।

पाटियों की प्रशंसा में नीचे लिखा दोहा भी पढ़ने लायक है—

पाटी दुति युत भाल पै, राजि रही यह साज।

असित छत्र तमराज मनु धर्यौ शीश द्विजराज ॥

बाला के भाल पर चमकदार पाटियाँ ऐसी सुहावनी जान पड़ती हैं,
मानो तमराज ने चन्द्रमा के ऊपर काली छतरी लगा रक्खी हो।

माँग वर्णन

माँग के वर्णन में नूर कवि का नीचे लिखा कवित्त कितना सुन्दर है—

तामसी तमो गुण्य को जानि कै सतो गुण्य घौ,

रूपे की सलाका तासु ऊपर चलाई है।

कैधौ जग जीति काम साँग सन्दली पै धरी,

कैधौ सुधा धार राहु सदन मे आई है ॥

कैधौ कोऊ श्रुषि ताकी मनसा है मेरे जान,

होम भूमि मध्य मनो आनि उरभाई है।

‘नूर’ कहै निपट अधीन होत लाल मेरो,

प्यारी सिर तीखी माँग मोहनी बनाई है ॥

नायिका की काली पाटियों के बीच में माँग ऐसी जान पड़ती है, मानो
सतोगुण्य ने तमोगुण्य पर चाँदी की साँग से प्रहार किया है, या कामदेव ने
जगत् को जीत कर अपनी तलवार शान पर रक्खी है। अथवा राहु के घर में
अमृत की धारा बह रही है।

नीचे लिखे कवित्त में भी माँग का कैसा सुन्दर वर्णन है, देखिए—

दुतिया के चन्द्र कैधौ तम के पर्यौ है पाले—

कैधौ बैनी नाग जीभ सुधा कों निकारी है।

कैधौ रति काम दोऊ भ्रगरि कै श्रुपुस मे,

सुख-भूमि बाँटि हेम-सीमा बीच डारी है ॥

कैधौं प्रेम तोलिवे कौ ड़ाँडी सी बनाई बिधि,
 कैधौं चन्द्र कोपि राहु सीस चोट भारी है ।
 कैधौं सुधा धार चली नागिनी के आनन ते,
 कैधौं माँग नागरी की सखिन सुधारी है ॥

मोंग को देखकर कवि कभी तो उसे अधकार के बीच फँसा हुआ द्वितीय ।
 चन्द्रमा समझता है, और कभी वैष्णवी रूपी नागिन की जीभ जिसे उसने
 अमृत पान करने के लिए मुख-मण्डल रूपी चन्द्रमा की ओर फ़ैलाया है ।
 कभी वह यह भी खयाल करता है कि रति और कामदेव ने अपनी सुख-
 भूमि आपस में बाँट कर बीच में, सोने की सीमा डाल दी है । कभी वह उसे
 प्रेम-तराजू की ड़डी समझता है, और कभी नागिन के मुख से बहती हुई सुधा
 की धारा का अनुमान करता है ।

इस प्रसंग में पूखी कवि का नीचे लिखा सवैया भी पढ़ने लायक है—

मखन कै तिय बैठी प्रवास मे पास खवासिनी हैं सब ठाढ़ी ।
 सारी सुगन्ध सचिक्कन कै सुभ बैनी बनाय गुही अति गाढी ॥
 पाटिन बीच सिंदूर की रेख 'पुखी लखि यों उपमा अति बाढ़ी ।
 चन्द के लीलन को भुकि राहु मनो रसना मुख बाहर काढ़ी ॥

नायिका की पाटियों के बीच मोंग ऐसी प्रतीति होती है, मानो चन्द्रमा को
 लीलने के लिए राहु ने झुककर अपनी लाल-लाल जीभ बाहर निकाली हो ।

महाकवि शङ्कर ने तो माँग के वर्णन में कमाल ही कर दिया है, देखिए
 नीचे लिखा छन्द कितना अपूर्व है—

कञ्जल के कूट पर दीप-शिखा सेती है कि
 श्याम धन मण्डल में 'दामिनी' की धारा है ।
 यामिनी के अक में कलाधर की कोर है कि
 राहु के कबन्ध पै कराल केतु तारा है ।
 शङ्कर कसौटी पर कञ्चन की लीक है कि,
 तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है ।
 काली पाटियो के बीच मोहिनी की माँग है कि
 दाल पर खाँड़ा कामदेव का दुधारा है ॥

वैष्णी-वर्णन

[यमुना की धार, सोंप या भौरों की पाँति, रात्रि की नलवार आदि से वैष्णी की उपमा दी जाती है ।]

महाकवि केशवदास ने वैष्णी का वर्णन इस प्रकार किया है—

चन्दन चढ़ाय चारु ककुम लगाय पाछे,

कैधौ निसनाथ निसि नेह सीं डुराई है ।

कैधौ बैनी बन्दन छिरकि छीर साँपिनि सी,

अलि अरवली समीप सुधा सोध आई है ।

'केसौदास' हास रस मिलि अनुराग रस,

सरस सिंगार रस धार घरा घाई है ।

मेलि मालती की माल लाल डोरी गोरी गुहि,

बैनी पिक बैनी की त्रिवैनी-सी बनाई है ॥

यह जो लाल डोरे से गूँथ और मालती की माला में मजाकर सखी ने नायिका की बेनी त्रिवैष्णी-सी बना दी है, वह ऐसी प्रतीत होती है, मानों निशानाथ ने निशा को कुकुम और पुष्पों से पूज कर प्रेम पूर्वक अपने पीछे छिपा लिया है। अथवा काली नागिन बैनी-बन्दन, रूपी दूध छिड़ककर अमृत की खोज में भ्रमरावलि के समीप आई है ।

और भी देखिए—

मीठि तन ताकत ही दीठि डसि लेति फेरि

फैलि कै विरह-विष रोम-रोम छावतो ।

छिनक में ऐसे हाल केतेन के होते तब,

एते कोऊ गरुड़ कहाँ ते दूँदि लावतो ।

ईश्वर दुहाई जो पै होती वाके ऐसी व्याली,

काली को नथैया कान्ह काहे को कहावतो ।

मुरि मुसिकान मन्त्र जानती न राघे तो या,

बैनी के डसन ब्रज बसन न पावतो ॥

सच है, यदि विधाता ने नायिका को मुसिकान रूपी विष-मन्त्र न दिया होता, तो उसकी वैष्णी रूपी नागिन का डसा एक भी व्यक्ति ब्रज में न बचने

पाता । वह तो प्रभु ने बड़ी दया की, जो व्याधि के साथ ही उसका उपचार भी बना दिया ।

नीचे लिखे कवित्त मे बेणी की कैसी उपमाएँ दी गई हैं, देखिए—

लॉबी लरकारी अति कारी सुकुमारी, सखि —

यान ने सुधारी मत्त मधुप की सैनी है ।

डारत कलकहि कलानिधि निचोरि कैधौ,

कैधौ मन धीरज विदारिबे की छैनी है ॥

नागरि सनाल मुख कज्ज ते लगी हैं कैधौ,

कैधौ कारी नागिनी निपट सुख दैनी है ।

कीनो तम पान कै तमी पतित के पाछे परी,

कैधौ अघकार धार कैधौ यह वैनी है ॥

नायिका की बेणी ऐसी है, जैसे मत्त मधुकरों की पंक्ति या काली नागिन हों । कभी उसे देख ऐसा जान पड़ता है, मानों चन्द्रमा ने अपने अन्दर से कलक निचोड़ दिया है, या अन्धकार की धारा चन्द्रमा के पीछे पड़ी है ।

बेणी-वर्णन प्रसंग मे नीचे लिखा सवैया भी क्या ही उत्कृष्ट है—

कै मधुपावलि मंजु लसै, अरविन्द लगी मकरन्द न सोहै ।

कै रजनी मणि कण्ठ रिसाय कै पाछे को गौन कियो अरसोहै ।

वैनी किधौ, ये कलंक चुबै, किधौ रूप मसाल को धूमक सोहै ।

कंचन खभ के कध चढ़ी यकि चन्द गहे मुख साँपनि सोहै ॥

उक्त सवैया में भी बेणी को, सरोज के पीछे लगी मधुपावली, रूप-मसाल के धुआँ, मुख से चन्द्रमा को लिए कंचन के खम्भे पर चढ़ी साँपनि आदि से उपमा दी गई है ।

नीचे के सवैया में ब्रह्म कवि ने कैसे सुन्दर ढंग से नायिका को कमान और बेणी को उसकी डोरी बना दिया है—

सेज ते ठाढी भई उठि बाल लई उलटी अँगराई जम्हाई ।

रोम की राजी विराजी विसाल मिटी त्रिबली अरु पीठ खलाई ।

वैनी परी पग ऊपर पाछे, ते 'ब्रह्म' यहै उपमा उर आई ।

लोक त्रिलोक के जीतिबे कारण सोनेकी काम कमान चढ़ाई ॥

प्रातःकाल शैया से उठकर अँगड़ाई लेती हुई नायिका पीछे को झुक कर बिलकुल कमान बन गई और उसकी बेणी लटक कर पैरों से मिल उस कमान की ढोरी सी दिखाई देने लगी ।

अंगवास-वर्णन

देखिए सेवक कवि ने अंगवास का वर्णन कितना अच्छा तरह किया है

मौलसिरी रास ते न मालती हुलासतें,
गुलाब वरदास ते न मान खस खास ते ।
बेला के विलास ॥ जुही के परगास ते,
निवारिहू की आस तें न सेवती उजास तें ।
चम्पक विकासते न केवरे निकासते न,
'सेवक' प्रकास तें मलै केऊ जु बास तें ।
लाड़िली के हास तेऽर अंग की सुवासतें सु—
है रझौ सुवासित अवास आस पास ॥

घर और उसके आस-पास का स्थान लाड़िली के मधुर हास और उसके अंगवास से जितना सौरभित हो रहा है, उतना मौलसिरी, गुलाब, खस, बेला, जुही, सेवती, निवाड़ी, चम्पा, केवड़ा आदि किसी से भी नहीं हो सकता था ।

नीचे लिखे कवित्त में भी अंगवास का अच्छा वर्णन किया गया है—

यमुना के आगमन मारग मे मास्तन,
भौरन के भीरन पटे से लखि पाये हैं ।
सन्तन सुकवि सुख खानि पदुमिनि तेरी,
रूप की तरगिनि अनंग दरसाये हैं ॥
बाहर कठन कहैं तोसों ते अयान कौन,
लहै बदनामी घेर घर-घह छाये हैं ।
पटकी लपट लपटति ता दिना ते आजु,
मानो उन गलिन गुलाब छिरकाये हैं ॥

नायिका जिस मार्ग से होकर निकल जाती है, उसमें ऐसा जान पड़ता है, मानो गुलाब जल से छिड़काव किया है । उस दिन वह यमुना-स्नान को गई

श्री, तो मौरों की भीड़ से वह मार्ग भर गया था। ओह ! कितनी मस्त सुगन्ध उसके शरीर से निकलती है।

अंग-दीप्ति-वर्णन

देखिए, देह दीप्ति का वर्णन कवियों ने कितने अनूठे ढंग से किया है—

फटिक शिलान सों सुधारो सुधा मन्दिर उ—

दधि दधि की-सी अधिकाई उमंगै अमन्द ।

बाहर ते भीतर लौ भीति ना दिखाई देति,

दूध कैसा फैन फैल्यो आंगन फरस बद ।

तारा सी सुता में ठाढी आनि भिनि मिलि होति,

मोतिन की जोति मिली मालिका को मकरन्द ।

आरसी से अम्बर में आभा सी उज्याही लागै,

धारी राधिका कौ प्रतिबिम्ब सौ लगत चन्द ॥

जिस मन्दिर में राधिका जी निवास करती हैं, वह उनकी देह-दीप्ति के प्रभाव से स्फटिक शिलाओं से निर्मित-सा प्रतीत होता है। उसमें बाहर-भीतर से कहीं भी भीति दिखाई नहीं देती; सर्वत्र दूध या दधि का समुद्र सा उमड़ा दिखाई देता है। रात्रि-समय आकाश का ओर देखे तो यह जान पड़ता है, मानों आकाश बड़ा सा दर्पण है, जिसमें चन्द्रमा राधा जी का प्रति-निम्ब है।

कविवर द्विजदेव जी का भी वर्णन पढ़ लीजिए—

कातिक के द्यौस कहुँ आई न्हाइवे को वह,

गोपिन के सग जऊ नेसुक लुकी रही ।

‘द्विजदेव’ हरिद्वार ही तें घाट घाट लागि,

खासी चन्द्रिका सी तऊ फैलि बिधु की रही ।

घेरी बार पार लों तमा से हित ताही समै,

भारी भीर लोगन की ऐसि ये भुकी रही ।

आली उत आजु वृषभनुजा विलोकिये को,

भानु तन या हू घरी द्रैक लों रुकी रही ॥

के महीने में एक दिन राधिका जी यमुना नहाने सखियों के

बीच में लुक-छिप कर गईं, तो भी उनकी देह-दीप्ति के कारण मार्ग और यमुना-तट पर सर्वत्र चोंदनी सी फैल गई। उस समय राधिका के चारों ओर दर्शकों की भीड़ लग गई। कहते हैं दो घड़ी तक तो यमुना की धारा भी उन्हें देखने को रुकी रही।

और भी देखिए—

जैसी यह ललित लडैती मिथिलेश जू की,
तैसा अवधेश को दुलारो रस भीना है ॥
याहि देखि लाज रति होत है बिकल मति,
बाहि तो विलोकि पञ्च वान हू अघीना है ।
जन सो मुरारि यो विदेह-पुर नारि कहुँ,
यह तो संयोग विधि कर लिखि दीना है ।
सम्भु धनु टूटे या न टूटै कहुँ साँची सिया
सोने की अँगूठी राम साँवरो नैगीना है ॥

इस पद्य में जानकी जी को उनकी देह दीप्ति के कारण सोने की मँदरी से उपमा दी गई है।

देह-दीप्ति के वर्णन में नीचे लिखे सूत्रों भी पढ़ने लायक हैं—

राघे की अंग गोरई सी और गोरई विरचि बनावन लीनी ।
कै सत बुद्धि विवेक सो एक अनेक विचारन में डग दीनी ।
बानक तैसी बनी न बनावत 'केसव' प्रत्युत ह्यै गई हीनी ।
लौ तब केसरि केतकि कंचन चम्पक के दल दामिनि कीनी ॥

विधाता ने राधिका जी के गौर वर्ण के समान वर्ण बनाने के विचार से मसाले एकत्र किए पर वैसा रंग बन ही न सका, उससे फीका ही रह गया। तब ब्रह्मा जी ने उस मसाले से सोना, केसर, चम्पा, केतकी आदि चीजें बना दीं।

गति मन्द यो जाकी मजा की लखे हँसी होत गयंद के चाल की है ।
मुख हेरि कै चन्द लजोई रहै, रुचि को कहै कज कमाल की है ॥
'हनुमान' नखावलि पै तिय के अवली परे फीकी प्रवात की है ।
दबि दामिनी जाति प्रभा निरखें, कितनी छुबि मंजु मसाल की है ॥

कवि हनुमान कहते हैं, कि नायिका को देह-दोषों को देख बिजली भी हत प्रभ हो जाती है ।

इस सम्बन्ध में यह दोहा भी कितना सुन्दर है, देखिए—

देह-दोषों छवि गेह की किहि विधि बरनी जाय ।

जा लखि चपला गगन ते, छिति पटकत सिर आय ॥

नायिका ही उस देह-दोषों का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है, जिसे देखकर लज्जित हुई चपला अपना सिर ज़मीन पर आ पटकती है ।

गति-वर्णन

[कवि जन सुन्दरी की चाल की उपमा राजहंस, कलहंस, गजगति आदि से देते हैं ।]

नीचे लिखे कवित्त नायिका की चाल का कितना सुन्दर वर्णन किया गया है, देखिए—

तेरी चाल देखि-देखि दिग्गज अचल भये,

भव के मतग ते तो खेह सिर नाये हैं ।

ऐरावत इन्द्रपति सबै चाल समता को,

तऊ नाहि एकौ कला पाई अजौ धाये हैं ।

हस विधि-पद ध्यायौ, ताने एक पद पायौ,

क्षीर-नीर विवरण जम जग गाये हैं ।

सुनु री छुबीली प्यारी तेरी चाल लोल ताको,

केती-केती कलाकरी समता न पाये हैं ॥

हे सुन्दरी, तेरी चाल को देख, शर्म के मारे दिग्गजों ने तो चलना ही बन्द कर दिया । ऐरावत बेचारे ने बहुतेरी कोशिश की, पर तेरी सी चाल वह भी न पा सका । जो मर्त्य लोक के साधारण हाथी थे, उन्होंने तो लज्जित होकर पहले ही अपने शिर पर धूल डाल ली । हॉ, हंस ने भी तेरी सी गति पाने के लिए बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी की सेवा की, पर वह भी इस दिशा में असफल ही रहा । उसे नीर-क्षीर त्रिवेक की शक्ति तो प्राप्त होगई, पर तेरी सी गति न मिली ।

नीचे गति-वर्णन विषयक दो पद्य और भी दिए जाते हैं—

सुरंग चुनरि चटकीली की चटक तैसी,
 भौह की मटक आव छवि के ठवन में ।
 खंजन गरब गार कंजन घुंघट ओट,
 विहसौं हे नैना मन रंजन रवन में ॥
 'चिन्तामनि' बार-बार बेसरि सँवारि पग,
 धरै सुकुमारि थहराति-सी गवन में ।
 मदन के मदमाती, मोहन के नेह राती,
 प्यारी मुसुकाती आञ्जु डोलति भवन में ॥

+ + +
 सारी खेत सोहे नख नूपुर की आभा स्वैत,
 चन्द्रमुखी धरै एक चाँदनी-सी चद की ।
 कहे कवि 'आलम' किसोरी वैस गोरी बाल,
 जग की उज्यारी प्यारी प्यारी नँद-नन्द की ।
 उरज उतंग मानो उमंगि अनंग आयो,
 बैठी कसि आंगी पाछे गाढ़ी गँठि बन्द की ।
 सुघर नितम्ब जंघ रम्भा के से खम्भ चल,
 मद मंद आवै चाल मदके गयन्द की ॥

उपर्युक्त दोनों कवित्तों में नायिका का सौन्दर्य-वर्णन के साथ-साथ रूप से उसकी चाल की चर्चा भी कर दी गई है ।

शङ्कर कवि ने नायिका की चाल का कैसा सुन्दर वर्णन किया है नायिका 'हौले-हौले' किस प्रकार हसों की हँसी सी करती जाती देखिए तो सही—

मगल करन हारे कोमल चरण चारु,
 मगल से मान मही गोद मे धरत जात ।
 पकज की पोंखुरी से आँगुरी अँगूठन की,
 जाया पञ्च वाण जी की भाँवरी भरत जात ।
 'शंकर' निरख नख नग से नगत श्रेणी,
 अम्बर सों छूट-छूट पायन परत जात ।

चाँदनी में चाँदनी के फूलन की चाँदनी पै,
हौले-हौले हसन की हाँसी-सी करत जात ॥

सर्वाङ्ग-वर्णन

[नायिका के सर्वाङ्ग सौन्दर्य की उपमा चन्द्रकला, तारागण, सोने की छड़ी, विद्युल्लता, दीप शिखा, माला, ओषधि वल्लरी आदि से दी जाती है ।]

शङ्कर कवि ने नायिका के सर्वाङ्ग का वर्णन सागर के रूपक में कैसा सुन्दर किया है, देखिए—

सीस-पग तोर, नीर, गौरता तरंग-तृण—
त्रिवली चिबुक, नाभि भँवर परत हैं ।
खाड़ी भुज-पाद-मध्य, मेरु कुच, शृंग हिम,
* कञ्चुकी की श्रोत ठीक दीखि न परत हैं ।
केश न्याल, कञ्छप, कपोल, श्रुत सीप, जोक,
भृकुटी कुटिल, भ्रूष लोचन चरत हैं ।
'शंकर' रसिक भुख भोगी बड़ भागी लोग,
ऐसे रूप सागर मे मञ्जन करत हैं ॥

नायिका का शरीर क्या है, सुन्दर रूप-सागर है, जिसके सिर और पैर दोनों तट हैं, गौरता रूपी जल है जिसमें त्रिवली और चिबुक की ऊँची-ऊँची तरंगें उठ रही हैं, नाभिके भँवर पड़ रहे हैं । भुजाओं और पैरों के मध्य-भाग ही इस सागर की खाड़ी हैं । केश इस सागर में सर्प, कपोल कञ्छप, कान सीपें और भौंहे जोक हैं । इसी तरह लोल-लोचन मल्लिकार्जुन हैं । वे जन बड़े बड़ भागी हैं, जो ऐसे रूप सागर में स्नान करते हैं ।

कवि केशव ने सर्वाङ्ग वर्णन में नीचे लिखा कवित्त लिखा है—

चन्द्र कैसो भाग भाल, भृकुटी कमान कैसी,
मैन कैमे पैने सर नैननि बिलासु है ।
नासिका सरोज गन्धवाह से सुगन्ध वाह,
दार्यौ से दसन 'कैसौ' बीजुरी सोहासु है ।

माई ऐसी ग्रीवा भुज पान सौ उदर अरु,
 पकज से पायँ गति हस की सी जास है ।
 देखी है गुपाल एक गोपिका मैं देवता सी,
 सोने सो सरीर सब सौँधे की सी बासु है ॥

उपर्युक्त पद्य मे नायिका के समस्त अंगों का वर्णन उपमानों सहित किया गया है । इसी प्रकार नीचे लिखे कवित्त मे भी अंगों के उपमान गिनाए गए है—

व्याली बैनी, धन पाटी, तेज माँग चन्द भाल,
 सीप सौन. धनु भौँहैं, बान नैन हेरे हैं ।
 कीर नासा, दर्पन कपोल, बिबि ओट-मोती—
 दसन रसाल ठोडी, कंबु कण्ठ तेरे हैं ।
 बासु भुज, पल्लौ हाथ, बेल कुच, पान पेट.
 रम्भा दल पीठि ईँठि भृंगी कटि भेरे हैं ।
 तुम्बुरु नितम्ब, केल खम्भ जघ कंज पग,
 एते सब पेर तेरे अगनि के चरे हैं ॥

सर्वाङ्ग वर्णन विषयक बेनी कवि का नीचे दिया गया कवित्त भी पढ़ने लायक है—

करि की चुराई चालि, हरि की चुराई लक,
 'ससि को चुरायो मुख, नामा चोरी कीर की ।
 पिक को चुरायो बैन, मृग के चुराये नैन,
 दसन अनार हँसी बीजुरी अधीर की ॥
 कहै कवि 'बैनी' बैनी ब्याल सों चुराय लीन्हों,
 रती-रती सोभा सब रति के सरीर की ।
 अब तो कन्हैया जू कौ चित्त हू चुराय लीन्हों,
 छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की ॥

अरे साहब, यह अहीर की छोकरी तो पक्की चोर है । इसके पास नितनी चीज़ें हैं, सब चुराई हुई चाल इसने हाथी की चुरा ली और कमर सिंह की । इसी प्रकार मुख चन्द्रमा का, नाक तोते की, वाणी कोयल की, आँखें मृग की, दाँत अनार से, हँसी बिजली से और बेणी सर्प से चुराई है । यह सब

तो किया सो किया, पर अब तो इसने कृष्ण जी का मन भी चुरा लिया ।
ओहो, चोरी करने में इसे कमाल हासिल है ।

इस प्रसंग में रागे हाथों एक सवैया और भी पढ लीजिए—

बार बड़े तम ताड़न से, शशि सो मुख लोचन खंजन से ।
भृकुटी धनु सी, रद कुंद कली, सुकनाक लसै, कर कज्जन से ।
कुन्न श्रीफल से, कटि केहरि सी, पद पद्म महा अघ गजन-से ।
सिखते नख लौ वृषभानु सुता, अँग रंग भरे मन रजन से ॥
इसमें भी सीधे ढंग से राधिका जी के अंगों की उपमा दी गई है ।

सुकुमारता-वर्णन

नायिका कितनी नाजुक है, इसका वर्णन कवि बलभद्र जी ने इस भाँति
किया है—

पलिका ते पायँ जो धरति-धाम धरणी में,
छाले परे मग माँझ पैँड़क गवन ते ।
लीजै जो तमोल तौ तो ताप आवे 'बलिभद्र',
होल है अरुचि पान पीक अचवन ते ।
बारन के भार और तन हू के चीर-भार,
याते नहिँ होत बाल बाहर भवन ते ।
लागै जो समीर तौ तौ पूरो परै सौतिन के,
फूल ज्यों उड़ति प्यारी पखा के पवन ते ॥

पलिका से उतर कर यदि वह घर में ही दो एक कदम चलती है, दो
तुरन्त पैरों में छाले पड़ जाते हैं । अगर अपने हाथ से पान-बीरी भी उठा ले,
तो फौरन बुझा आ जाते हैं । पान की पीक लील लेने से उसे अजीर्ण हो
जाता है । वह अपने बालों और पहने हुए कपड़ों का बोझ भी बर्दाश्त नहीं
कर सकती । पंखा की हवा लगने से ही फूल की तरह इधर-उधर उड़ने लग
जाती है, उसे यदि कहीं तेज हवा लग जाय, तब तो सौतों की मन चीती
ही हो जाय ।

और लीजिए, जगत्सिंह जी बलभद्र जी से भी चार कदम आगे बढ़
गए—

कैसे कै बखान करै कविता जगतसिंह,
 साँस लेत पिय के न पास ठहरात है ।
 मूठि की सी मारी गिरे दीठि के परे ते नैकु,
 सुषमा के भार ते न चलो जात गङ्गा है ।
 उपमा धरत न धरत धीर धरणी पै,
 लचकि लचकि लक लचि लचकात है ।
 द्विय के मिलन वाले कोमल अमल आले,
 बानी के निकाले पग छाले परिजात है ॥

आपकी नायिका तो मुँह की सोंस के साथ ही उड़ जाती है, हज़ीलिए आप उसके समीप बात नहीं करते । यदि उसके ऊपर निगाह भी पड़ जाय तो ऐसे गिर जाती है, जैसे किसी ने जोर से धक्का मार दिया हो । बलभद्र जी की नायिका तो वज्रों का भार उठाने में असमर्थ है, परन्तु यह अपने रूप का बोझा भी नहीं सह सकती ।

अब ज़रा मतिराम जी की नायिका को भी देख लीजिए—

चरण धरै न भूमि भरै सो जहाँ ही तहाँ,
 फूले-फूले फूलन बिछाई परियक है ।
 भार के हरन सुकुमार चारु अगन में,
 अंग ना लगावे राज केसरि को पक है ।
 कवि 'मतिराम' लखि बातायन बीच मुख,
 आतम मलीन होत बदन मयक है ।
 कैसे सुकुमारि वह बाहर विजन आवे,
 विजन बयार लागे लचकत लक है ॥

मतिरामजी की नायिका भी सुकुमारी तो है, पर जगतसिंह जी की नायिका को नहीं पा सकी ।

जब सब ही अपनी अपनी नायिकाओं की सुकुमारता का वर्णन कर रहे हैं, तो पद्माकर जी ही क्यों चुप रहें ।

सुन्दर सुरंग नैन सोभित अनंग रग,
 अंग-अंग फैलत तरंग परिमल के ।

वारन के भार सुकुमारि को लचत लंक,
 राजे परियक पर भीतर महल के ॥
 कहै 'पदमाकर' विलोकि जन रीझै जाहि,
 अम्बर अमल के सकल जल थल के ।
 कोमल कमल के गुलाबन के दल के सु,
 जात गड़ि पायन बिछौना मखमल के ॥

भला पद्माकर किरि से पीछे रहने वाले थोड़े ही थे । आप जगतसिंह से बाजी मार ली ले गए । आपकी नायिका के पैरों में तो कोमल-कमल और गुलाब की पखडियाँ तथा मखमल के बिछौना तक गड़ जाते हैं । कहिए, हो गईं न सुकुमारता की पराकाष्ठा ।

और देखिए—

लागत समीर-लक लहकै समूल अंग,
 फूल से दुकूलनि सुगंध विधुर्यौ परै ।
 चन्द सो बदन मंद हाँसी सुधा विन्दु अर—
 विन्दन मुदित मकरदन मुर्यौ परै ।
 ललित लिलार अम भलक अलक भार,
 मग में धरत पग जावक घुर्यौ परै ।
 देवमणि नूपुर पदुप पद्म हू पर द्वै,
 भूपर सुअगनि के रूप निचुर्यौ परै ॥

ऊपर के पद्य में सुकुमारता के साथ ही सौन्दर्य का वर्णन भी किरने सुन्दर ढंग से किया गया है । नायिका के मार्ग में पैर रखने से पसीना आक उसके साथ जो रोली जावक आदि का रंग मिलकर टपक रहा है, वह गाने सुन्दरी का रूप निचुड़ा पड़ता है ।

अब लगे हाथों कवि श्रीपति जी की नायिका का सौन्दर्य भी देख लीजिए—

रोहिणी रमण की मरीची सी सुखद सीरी,
 मोहिनी सरिस महा मोहिनी के थल सी ।
 'श्रीपति' सुकवि बाला रवि के किरन ऐसी,
 बदन मुकुंर सी अमल गंग जल सी ।

ग्वालि गरबीली जाके गात की गुराई आभा,
 चपला निकाई ऐसी लागति चहल सी ।
 माखन महल सी पराग के चहल सी,
 गुलाब के पहल सी नरम मखमल सी ॥

इसकी गुराई के आगे तो चपला की चमक भी फीकी जान पड़ती है,
 और सुकुमारता के आगे गुलाब-पुष्प और मखमल की तो बात ही क्या
 चलाई । माखन का गोला भी कठोर जान पड़ता है ।

महाकवि बिहारी ने नायिका की नज़ाकत का कैसा सुन्दर वर्णन किया
 है, देखिए—

भूषन भार सँभारि है क्यों यह तन सुकुमार ।
 सुधे पाँव न धर परत सोभा ही के भार ॥

जो नायिका शोभा काही भार नहीं सँभाल सकती, वह ज़ेवरों का बोझ
 कैसे बरदाश्त करेगी ।

इसी आशय के नीचे लिखे दो शेर भी खूब हैं—

नाज़ कहता है कि ज़ेवर से हो तज़ईने जमाल ।
 नाजूकी कहती हैं, सुर्मा भी कहीं द्वार न हो ।

—अकबर

× × ×

धो नज़ाकत से गरीं सुरमा है चश्मे यार का—
 जिस तरह हो रात भारी महुँमे बीमार को ।

सोलह शृंगार वर्णन

सोलह शृङ्गार कौन कौन से हैं, यही बात केशव जी के निम्नलिखित
 कवित्त में बताई गई है—

प्रथम सकैल सुचि मज्जन अमल वास,
 जावक सुदेस केस पास को सुधारिबो ।
 अंग राग भूषन विविध, मुखवास राग,
 कज्जल कलित लोल लोचन निहारिबो ।

बोलनि हँसनि चेत चातुरी चलनि चारु,
पल-पल प्रति पतिव्रत प्रति पारिवो ।
'केसोदास' सबिलास कहत प्रवीनराय,
यहि विधि सोरह सिगारन सिगारिबो ॥

कविवर बलभद्र जी ने इसी बात को कुछ दूसरे ढंग से कहा है,
देखिए—

करि दन्त धावन उबटि अग उबटन,
मञ्जन कै देह अँगुछान अँगु छाई है ।
करि कै-तिलक मोंग पाटी पारी 'बलभद्र'
भली भाल बन्दन की बैदुरी बनाई है ।
अजन दै नैन देखि दर्पण चिबुक चिन्ह,
अधर तबोर की अधिक त्रुबि छाई है ।
महँदी करन एड़ी माँजि कै महावर दै,
° सोरह सिगारन की मूल चतुराई है ॥